

॥ श्रीः ॥

ताजिकनीलकण्ठी ।

ज्योतिर्विद्वरिष्ठश्रीनीलकण्ठविरचित

पण्डितमहीधरकृतभाषाटीकासमलङ्कृत ।

जिसको

लोकोपकारार्थ

खेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिने

मुंबई

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-मुद्रणालयमें

मुद्रितकर प्रकाशित की ।

संवत् १९६४, शके १८२९.

इस ग्रंथका रजिस्टरी हक "श्रीवेङ्कटेश्वर" यंत्रालयाधीन

स्वाधीन रक्खा है.

भूमिका ।

अहो ! ईश्वरने ज्योतिषशास्त्र संसारमें कैसा अद्वितीय रत्न दियाहै जिसके प्रभावसे मनुष्य पुराकृत और अर्वाकृत जो अपने कृतकर्म और उनका परिणाम है संपूर्ण जान सकते हैं. इस अपार संसारमें समस्त वस्तुमात्र उद्यमी मनुष्यके हस्तगत हैं. ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि, जिससे बुद्धिबलवाला मनुष्य न जान सके वा न करसके. केवल जन्म और मरण मनुष्यके अगोचर हैं इसीसे ईश्वरकी ईश्वरता विदित होतीहै. परंतु ज्योतिषशास्त्र ऐसा अनमोलमणि है कि, जिसकी सलाई नेत्रोंमें देनेसे परोक्षीय जन्ममरणभी प्रत्यक्ष दिखाई देतेहैं. ब्रह्माजीने जब वेदके चार भाग करदिये तब उसके अंग "शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष" ये छः शास्त्र बनाये इनमेंसे प्रत्यक्ष तात्पर्य और चमत्कृत होनेसे ज्योतिष शिरोमणि गिना जाता है. अब ऐसा समय आया कि, वह ऐसा अद्वितीय रत्न शिरोमणि कैसा गिरता पड़ता दूर भागता जाता है. कोई इसे पूछताभी नहीं कि, आप कहांके और कौन हैं. कदाचित् किसीने पहचान लिया तो भर्त्सना करताहै कि हां ! तूवही है जिसने हमारे पितृपितामहादिकोंको अपने चमत्काररूपी प्रपंचमें लुभाकर समस्त धन तन दान धर्मादि व्यर्थ काव्योंमें व्ययकरायके उन्हें अधोगामी और हमारे तिरस्कार योग्य करदिया, तेरे प्रपंचमें वे नहीं फँसते तो उनका उपार्जित द्रव्य सब हमहींको अनायास मिलनाथा. हमें अनेक प्रकारके परिश्रम आजीवनार्थ क्यों करने पड़ते. अब हम तो तेरा आदर क्या करेंगे. बाप दादे अज्ञान हुये तो हुये अब हम तो कभी न भूलेंगे. जाइये अपनी इज्जत बचाइये "कुछ आगेबढ़कर" एक और महाशय मिले. देखकर बोल उठे कि, अजी साहब ! अलग ही अलग चले जाइये अपना परछावां हमारे ऊपर न पड़ने दीजिये तुम अमंगली हो. हमने सुनाहै कि, हमारे माताके विवाहपूर्व तुम्हारे अंजन नेत्रवाले किसीने कहाथा कि, इस कन्याके वैधव्ययोग है अकस्मात् विवाहोत्तर अल्पकालमें वैसाही होगया. उपरांत उसी वैधव्य योगवालीके गर्भसे हम ऐसे दृष्ट पुत्र और शास्त्रज्ञ पैदाहैं कि, आपको कभी विध-

वा नहीं मानते संसारमें सभी पुरुष ईश्वरके अंश हैं स्त्रियोंको पुरुषोंकी कमी नहीं है. इन अबला विचारियोंका जीवित वैधव्यरूपमें क्यों व्यर्थ करावें. हमारी माताको केवल तेरे दुर्वचनसे कुछ दिनों वैधव्य मानना पडा फिर तो ईश्वर रूपासे ऐसा सौभाग्य हुवा कि, जिसके प्रतापसे हम ऐसे पंडित भंड संसारमें अवतारित हैं. अब कहिये ! हमारी माताके वैधव्ययोग है वा सौभाग्य ? तुम झूठे तुम्हारे पाठक झूठे हायरे कलियुग ! तुझे अपना अधिकार प्रथम क्या इसी अद्भुत रत्नपर करना था, क्या इसीके साथ तेरी मुख्य शत्रुता थी. हां ! तेरा यह प्रयोजन अग्रेसर है कि, प्रथम शिरोमणि शास्त्रको आक्रमण करूं तो और सभी अंतर्गत होजायेंगे परंतु यह अनादि शास्त्र सहसा तेरे आक्रमणमें आक्रमित इस दशामेंभी नहीं होनेका; कुछ दिन समय प्रभाव सार्थक करनेके लिये ज्योतिष रत्नराज पक्षसंकोच किये प्रतीक्षु हैं परिणाममें रत्नरत्नही है. इस समयमें ज्योतिषकी प्रभुता न्यूनहोनेके कारण यह है कि, ज्योतिषियोंके कहे फल पूरे ठीक नहीं लगते. क्योंकि कलिराजने प्रथमावेश ज्योतिषियोंसेही आरंभ उठाया. पूर्वं ऋषिलोग यमनियमादि तप और मिताहारी और अप्रतिग्राही, योगाभ्यासी, सर्वशास्त्रज्ञ वेदाभ्यासी और नित्य अग्निहोत्री थे. इससे भूत, भविष्य, वर्तमान, समाधि, अर्थात् एकाग्र विचारसे कहतेथे. अब ज्योतिषी लोग यमनियमादिके स्थानमें दंभलोभादि और मिताहारके स्थानमें अग्निसम और अप्रतिग्राही के स्थानमें सर्वग्राही, योगाभ्यासके स्थानमें द्रव्यार्जन, प्रपंच शास्त्र, वेदाभ्यासके स्थानमें वेदविक्रय, तप और जितेंद्रियताके स्थानमें स्त्रीलोलुपता, अग्निहोत्रके स्थानमें तम्बाकू. एवं प्रकारके सांप्रतीय ऋषि होगये तो सर्व शास्त्रज्ञताके योग्य बुद्धि कहांसे हो ? विना बहुज्ञता और विना दमादिकोंके चमत्कार फल क्योंकर कहसकें. ब्राह्मण सर्वस्व गायत्रीके उपदेश मात्रसे दक्षिणा निमित्त जप विक्रय और यथेच्छा प्रतिग्रह ग्रहण करने लगे तो बुद्धि निर्मल और कही बात सच्ची क्यों होवे. कदाचित् किसीने कुछ परिश्रम पठनपाठनमें किया और कुछ शास्त्रता पाईभी तो दंभ और मत्सरमें परिपूर्ण होजाते हैं. ज्योतिषमें अधिकांश गुरुलक्ष्यस्थान हैं उन युक्तियोंके दूसरेकी प्रभुताका मत्सर,

मानकर किसीको नहीं बतलाते. पुनः आगे विद्याका प्रचार कैसे बढे ? ऐसे २ आचरणोंसे यह अद्वितीयशास्त्र लोप होता २इस दशाको प्राप्त होगया. सर्वसाधारणको इस अद्भुत रत्नके उन्नतिका यत्न सर्व प्रकारसे करना योग्य है. फिर ऐसा अमूल्यमणि मिलना असंभव है. विशेषतः ज्योतिषी लोगोंको इसकी उन्नतिका उद्यम करना चाहिये कि, उनका यह आजीवन पूर्वसे और पश्चात्के लियेभी उपयोगी है. इसमें अतिशयश्रम पठन पाठनसे करना योग्यहै जिससे लोक प्रत्ययकारक ठीक फल कहसकें. दोस्त्रिये ! पहिलेके महात्मा आचार्योंने सर्व साधारणके भूति और प्रत्ययके लिये कितना श्रम उठायेके यह शास्त्रप्रचार किया कि, जिसे अब बहुधा लोग कहते हैं कि, ज्योतिषशास्त्र कुछ वस्तु नहीं न ग्रहोंकोही शुभाशुभ देनेकी सामर्थ्य है जैसा जिसका कर्म वैसा अवश्य होगा. इस अवसरमें कोई नास्तिक कहते हैं कि, यह तो ब्राह्मणोंने केवल अपनी अज्ञान और अल्पश्रमी संतानके उपकारार्थ यह प्रपंच किया है. अब इसमें वक्तव्य यह है कि पूर्व लिखित दशा जब इस प्रत्यक्ष शास्त्रकी होगई तो जनश्रुतिभी ऐसी होनी आश्चर्य तो नहीं तथापि इस शास्त्रका मूल तात्पर्य उन्हें विदित नहीं है नहीं तो सहसा कभी ऐसा न कह सकते. भोक्तव्य तो कर्मफल है यह बोध नहीं कि, वह क्या है और उसका परिणाम कब और क्या होगा इसका विचारद्वारा पूर्वाचार्योंने जन्मसमय इष्ट मानकर ऐसे हि-साब बनाये कि, जिसेसे वह अलक्ष्यकर्म फल हित प्रत्यक्ष होजाता है. उन हिसाबोंके नाम सूर्यादि नवग्रह और मेषादि १२ राशि तिथ्यादि पंचांग स्थापन करदिये ग्रह आप न तो कुछ देते न कुछ अशुभ कर सकते जैसा जिसका कर्म उपार्जित होवे वैसा ही फल होगा, परन्तु ग्रहरूपी हिसाबके द्वारा वह अलक्ष्य लक्ष्य होजाताहै. अब इसमें ऐसा आभास हुवा कि ग्रह असमर्थ हैं फल कर्मानुसार भोक्तव्यहीहै तो ग्रहार्चन दानादिभी निष्प्रयोजन है परंतु यह स्थूल विचार "श्रृंगग्राहिन्याय" है. प्रयोजन उसका कैसा उत्तम है कि, हमने पूर्व ऐसा कर्म किया था, कि जिसका परिणाम हमको अरिष्ट धन ना-शादि मिलना है यह कर्म और फल तो अदृश्य था परंतु सूर्य वा कोई ग्रहके दशा कष्टी होनेसे हमको अरिष्ट ज्ञात हुवा. यह कर्मफलबोधक एक हिसाब

सूर्य्य हुआ अब वह कर्म हमें पहलेही ज्ञात होता तो उसका प्रतीकार करते। केवल ज्ञापक यहां सूर्य्य है तो हमको सूर्य्यहीके द्वारा कर्मनिर्हारीपाय सूर्य्यकी वेदबोधित शांत्यादि करनी चाहिये यह शांति सूर्य्यकी क्या उस उपाजित दुष्कर्मकी है? जैसे सूर्य्यद्वारा कर्मफल ज्ञात हुआ ऐसे सूर्य्यहीके द्वारा प्रतीकार करना योग्य है इसमें दोप्रकार शुभत्व होगा कि एक तो अति प्रयत्नोंसे जो द्रव्य उपार्जन कियाहै उसके अकस्मात् व्यय होजानेमें कष्ट अपनेही हाथसे होगया सूर्य्यदशाबोधित कर्मफल मिलगया और अपने हाथके व्यय करनेसे पश्चात्ताप न होगा दूसरा लाभ यहहै कि वेदबोधित और शास्त्रसंमत विधिसे जो कुछ शांत्यादि करी जाती हैं उनके कर्मनिर्हार और चित्तानंदता और पारिकशुभत्व और सद्द्वय गणनामें होगा विधिसे न करैंगे तो असद्द्वय (जिसमें फेर कभी काम नहीं आता) और इस समयमें चित्त संताप करनेवाला होगा जैसे वैद्यको देनेमें वा दंडमें वा चोरी वा अग्नि जलादि प्रातमें व्यय होजानेसे कर्मफल तो मिलेगाही। कर्मसे कर्मनिर्हार होताहै इसमें चित्तशुद्धि मुख्य है कर्मवासना पुनर्जन्म भी फलभोगके लिये देती है सांप्रतमें साधारण की बुद्धि ऐसी ससंभ्रम होरहीहै कि, जन्म देहादि न पहिले था न फिर होगा केवल पंचतत्त्व अपने २ स्थानोंमें मिलजायेंगे, जन्म फिर कौन लेता है मरेमें कोई हटकर किसी प्रकार न आया पहिले जन्म भयाथा पीछे जन्म होगा यह भांति मिथ्या है प्राण नाम वायुका है वहभी वायुमें मिलजाता है जन्म लेनेको स्थूल दृष्टिसे तो कुछभी अवशेष नहीं रहता परन्तु मूलज्ञान यह है कि जिस कर्मके अभ्यासमें शरीर रहता है उसकी वासना बीज मात्र स्थित रहती हे उसीके अनुसार कर्मफल भोगनेको दूसरा प्रपंच पंचतत्त्वकी वासना बलसे उत्पन्न होजाता है इसके बहुतसे प्रमाण हैं और बहुत कुछ वक्तव्यहैं विशेष विस्तार इस विषयका पुनः किसी औरग्रंथके अनुवाद व्याजसे लिखने की इच्छा है

“ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते । छंदःपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पः प्रचक्षते ॥ यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्वद्वेदांश णां ज्योतिषं मूर्द्धनिस्थितम् ॥” प्रथम श्रुतिनेत्र ज्योतिष शास्त्रका एक स्कन्ध जन्मफल

बोधक जातकोत्तम बृहज्जातककी भाषाटीका सर्वसाधारणमें थोडा कुछ ज्योतिषका मार्ग जिन्होंने देखा है और बड़े ग्रंथ संहितादिकोंमें गति नहीं है ऐसे बालकोंके सुगम बोध निमित्त और गुरुजनोंके पाठनमें अल्प श्रमके निमित्त मैंने करी. उपरान्त इच्छा हुई कि, जातकके फल स्थूलकालीन और बहुश्रमीहें अर्थात् प्रथम सर्वग्रहोंके षड्वल दृष्टि बलेष्ट कष्टबल निसर्गादि बल गणितसे दशांतदर्शा मिलतीहै इसमें सिद्धांत मतसे सूक्ष्म विचार किया तो बहुश्रमसे स्थूलकाल फल मिलताहै जैसे माहेश्वरी दशामें शुक्रके २० वर्ष निसर्ग दशामें शनिके ५० वर्ष और उच्चादिवल पूर्ण होनेमें चन्द्रमाके १५ वर्ष दशाहै ऐसेही अंतर्दशाभी ५।६ वर्षसे कम न होंगी तो जातकोत्तफल तो एकही है क्या समस्त अंतर्दशा ५।६ वर्ष पर्यंत एकसाही फल होगा इसनिमित्त ब्रह्मादि अष्टादश आचार्योंके उपदेश श्रीसूर्यने ताजिकशास्त्र बनाया जिससे वर्षप्रवेश मासप्रवेश दिनप्रवेश पर्यंत गिननेसे दिन २ पर्यंत फल ज्योतिषी कहसकते हैं अतएव बृहज्जातकके अनुवाद करने उपरान्त ऐसाही कुछ ताजिक ग्रंथकाभी अनुवाद करना चाहिये ताजिक ग्रंथोंमें मुख्य जीर्णताजिक है उसीकी सारणी नीलकंठ दैवज्ञ विरचित नीलकंठी है. यहग्रंथ पाठमें थोडा अर्थ बहुत और संमत होनेसे इसकी भाषाटीका सर्व साधारणके बोधन योग्य डी बोलीमें परमकारुणिक श्रीबदरीशमूर्ति गढवाल राज्याधीश श्री ५ महाराजा कीर्तिशाहसाहबकी आज्ञानुसार करताहूं. इस ताजिक शास्त्रमें कोई धर्मशास्त्रके वचन "नावदे यावनी भाषां नगच्छेज्जैनमंदिरम् । हस्तिना पीडयमानोपि प्राणैः कंठगतैरपि" ॥ इत्यादिसे दोषारोपण करते हैं कि, इसमें इकवाल इस्सराफ, इत्थशालादि बहुतसे फारसीके शब्दहैं इससे ब्रा णोंको पाठयोग्य नहीं है" किंतु उनका स्थूल विचार है कि, ऐसे अन्य जातिके भाषा अवाच्य हैं तो प्रथम अमरकोश पांडित्यमूलही दूषित होताहै और ज्योतिषके अष्टादशसंहिता कारक "पिता-मह, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश पुलस्त्य, गुरु, शौनक इत्यादि हैं" इन्हींसे ज्योतिषशास्त्र प्रवृत्त भयाहै. यवनाचार्य कृत यवनजातक भी सर्वसंमत प्रमाणग्रंथहै और यवनाचार्यने कुछ अपनीही कल्पना नहीं करी किंतु गुरुपदिष्ट वैसाहीथा. उक्तच रोमकेण-

(८) ताजिकनीलकण्ठी—भा० टी० ।

“ब्रह्मणागदितं भानोर्भानुना यवनाय तत्।यवनेनच यत्प्रोक्तं ताजिकं तत्प्रचक्षते” इति और टोडरानंद, खत खत रोमक हिल्लज धिषणा दुर्मुखाचार्य, इतने ताजि काचार्य हैं येभी तो ब्राह्मणहीथे इत्यादि प्रमाणसे ताजिकमें पारशीयशब्दोंका दूषण नहीं है कदाचित् कोई कहै कि “नवदेयावनीं भापां” इस धर्मशास्त्रोक्त वाक्यका खंडन होगया है तौ मैंने खंडन नहीं किया. यह श्लोक तो सत्यही है परंच उसकी घटना काव्यालंकारादि विषयोंमें है पारशीयशब्दपक्षमें यहां तो “फले प्राप्ते मूले किं प्रयोजनम्” यह न्याय है. आम खानेसे काम है न कि वृक्षगणनासे, जैसे पंकोद्भव कमल देवपूजाही और विषधर सर्प मस्तकोद्भूतमणि मुकुटयोग्य होताहै ऐसाही यहां भी शास्त्रके प्रयोजनसे प्रयोजनहै. जाति द्वेष फलित शास्त्रमें क्या ताजिकशास्त्र इस समयमें तात्पर्य फल बतलानेवाला है और गर्ग वचन है कि, “म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यग् शा मिदांस्थितम्। ऋषिवत्तेपि पूज्यंते किंपुनर्वेद विद्विजाः”। और ग्रंथांतरीय कथानक है कि, किसीकालमें ज्योतिष शास्त्रके अनुसार ज्योतिष लोग भूत, भविष्य, वर्तमानकी बातें कहकर ईश्वरकी ईश्वरताको स्पर्द्धा करने लगे. यह दशा देख ब्रह्माजीने उन शास्त्रोंके चमत्काररूपी किरणोंको शापानलसे छादित करदिया. इस दशामें श्रीवसिष्ठादि मुनियोंने अपने प्रकाशित शास्त्रोंके द्योतन निमित्त ताजिकशास्त्रापेक्षा औरभी चमत्कृत बनाया. जिसको अष्टादशसंहिताकारक आचार्योंने अनेक प्रकारके ग्रंथ उन्हीं पारशीय शब्दोंको संस्कृत शब्द मणियोंमें ग्रथनकर प्रगट करदिया और मूल इसकाभी जन्मसमय प्रथमस्वासा लेनेकाही क्षण है. इसका विस्तार बृहज्जातकानुवाद “महीधरी भाषा”के सूतिकाध्याय प्रारंभमें मैंने लिखाहै अब इस ग्रंथके सब प्रकारके हक हम अपनी प्रसन्नतासे लोकहितार्थ प्रकाशित करनेको सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी “श्रीवेंकटेश्वर” यन्त्रालयाध्यक्षकोसमर्पण कियेहैं॥

आपका रूपाभिलाषी—

टिहरीनिवासी ज्योतिर्विद् पं० महीधर शर्मा.

॥श्रीः॥

अ

ताजिकनीलकंठी

भाषाटीकासमेता ।

शिवं शिवकरं शिवायुतमजं धाष्ट्रावितं समातृगुरु
रूपिणं निखिलभैरवैः सेवितम् ॥ प्रणम्य शिरसा मुदा सर-
भसा परं दैवतं सहस्रदलकर्णिकांतरगतं गभीरं महः॥१॥मही-
धरधरासुरो विबुधधर्मदत्तात्मजो विधाय खलु जातके ह-
ति भाषया व्याकृतिम् ॥ तनोति किल ताजिके त्रिगणनील
कंठ्याह्वये शुभां विवृतिमत्र वै नरगिरा हि माहीधरीम् ॥ २ ॥

भाषाकार निर्विघ्नतापूर्वक ग्रंथसमाप्त्यर्थ परब्रह्म गुरुरूपी शिवको
प्रणाम साहित स्वकर्म प्रकाश कर्ता है । मंगल मूर्ति, सर्वथा श्रेय करनेवाला,
सशक्तिक अर्थात् उमासहित शंकर, स्वतःसिद्ध, सहस्रदल कमल कर्णिकां
तर्गत अतिरहस्य अलख अगोचर स्थानमें परमामृतसे प्लावित प्रसन्नवदन
बैठा हुवा, चतुःषष्टि मातृका और समस्त भैरवोंसे समंतात्परिवेष्टित, यद्वा
मातृका स्वर, भैरव व्यंजन इनसे सेवित प्रणवरूप परमदेवता गुरुरूपी
ईश्वर को (ससंभ्रम) आनन्दपूर्वक सशिरस्क प्रणाम करके विबुध धर्म-
दत्तात्मज माहीधरनामा ब्राह्मण, बृहज्जातकर्त्री भाषाटीका करने उपरांत
सांप्रतमें इसी ज्योतिष प्रकरण "ताजिकनीलकंठी" तीनों तंत्रकी सुगम
सरल भाषामें माहीधरी टीका विस्तारित कर्ता है ॥ १ ॥ २ ॥

ग्रंथकर्ता आचार्य्य मुनिश्रेष्ठ गर्गवंशावतंस समस्तविद्वैवज्ञमुकुटमणि
त्रिस्कंध ज्योतिषशास्त्रनिबंध कर्ता चिंतामणि ज्योतिर्विद् पौत्र अनंत ज्यो-
तिर्विद्वत्पुत्र श्रीनीलकंठ ज्योतिर्विद् जीर्ण ताजिक शास्त्रके संज्ञातंत्र, वर्षतंत्र,
प्रश्नतंत्र, तीन प्रकरणोंके निर्माणोत्सुक होकर प्रथम संज्ञाविवेक नामक

(२)

ताजिकनीलकण्ठी ।

प्रथम तंत्रारंभमें निर्विघ्नता सहित ग्रंथसमाप्त्यर्थं गणेश सूर्य्य पितृचरणकमल,
को नमस्कार तथा विषय प्रयोजन संबंध उपजाति छन्दसे कहताहै ॥

उपजातिच्छंदः—प्रणम्य हेरम्बमथो दिवाकरं गुरोरनंतस्य
तथा पदाम्बुजम् ॥ श्रीनीलकंठो विविनक्ति सूक्तिभिस्तत्ता-
जिकं सूरिमनःप्रसादकृत ॥ १ ॥

श्रीनीलकंठनामा दैवज्ञ गणेश और सूर्यनारायण तथा अपने पिता अ-
नंतनामा दैवज्ञ गुरुके चरणकमलको प्रणाम करके जीर्ण ताजिकग्रंथको
विचारके इंद्रवज्रा रथोद्धतादि सुन्दर छन्दोंमें बड़ेबड़े ताजिक ग्रंथोंके
प्रयोजन स्वल्पतरग्रंथसे बोधननिमित्त विद्वान् ज्योतिषियोंके मन प्रसन्न
करनेवाली नीलकंठी नामक ताजिक प्रकट करताहै ॥ १ ॥

उपजा०—युमांश्चरोः दृढश्चतुष्पाद्रक्तोष्णपित्तोतिरवोद्विरुग्रः ।

पीतो दिनं प्राग्विषमोदयोल्पसंगप्रजो रूक्षनृपः समोजः ॥ २ ॥

प्रकरणमें प्रथम राशिस्वरूप वर्णन करते हैं; यथा—मेघ; मेंढाका
आकार, पुरुष राशि, चरसंज्ञा, अश्रितत्त्व, बलवान्, चौपाया, रक्तवर्ण, सोष्ण
अर्थात् तप्तदेह, पित्त प्रकृति, बडाशब्द करनेवाला, पर्वतचारी, वनचारी
व्रा, क्रूरस्वभाव, पीतवर्ण [यहां रक्त पीत दो वर्ण कहनेसे दोनों रंग
मिलकर पाटल वर्ण शरीर] दिवा बली, पूर्वदिशा, अल्प स्त्रीसंगकरनेवाला,
और अल्पप्रजा, रूक्षक्रांति, क्षत्रियजाति और राशिसंख्यागणनामें विषम है
किंतु कार्य्य यह राशि सम काम देती है इसकारण यहां संज्ञा ही है
इतने गुण मेघके हैं ॥ २ ॥

उपजा०—वृषः स्थिरः ी क्षितिशीतरूक्षो याम्येद् सुभूर्वा

निशाचतुष्पात् ॥ श्वेतोतिशब्दो विषमोदयश्च मध्यप्रजा

संगशुभो हि वैश्यः ॥ ३ ॥

वृष; बैलका आकार, स्थिरसंज्ञा, स्त्रीराशि, भूमितत्त्व, रूक्षकान्ति,
शीतस्वभाव, दक्षिण दिशा, सरलभूमिचारी, वातप्रकृति, रात्रिबली, चारचरण,
श्वेतवर्ण, बडा शब्दकरनेवाला, विषमलग्न, न, तो अतिकामी न अल्पकाम, सौम्य
राशि, वैश्यजाति, दृढांग, बलवान् शरीर इतने लक्षण वृषराशिके हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रवज्रा— त्यक्समीरः शुक्रभा द्विपात्रा द्वंद्वं द्विसूर्तिर्विषमोदयोष्णः॥

मध्यप्रजासंगवनस्थशूद्रो दीर्घस्वनः स्निग्धदिनेट् तथोग्रः ॥४॥

एकस्त्री एकपुरुषके द्वंद्वको मिथुन कहते हैं। ऐसाही आकारभी है और यह राशि पश्चिमदिशाकी स्वामी, वायुतत्त्व, (वायुप्रकृति), शुक्रपक्षीकासा हरितरंग, दोचरण, सौम्य, पुरुषरूप, द्विस्वभाव, पूर्वार्द्धस्थिरस्वभाव और उत्तरार्द्धका चरस्वभाव, विषमराशि उष्ण, स्वभाव, स्त्रीसंगमें मध्यम, संतान भी बहुत अल्प, वनचर, शूद्रजाति, दीर्घ शब्दवाला स्निग्ध (चिकना) शरीर, दिनमें बलवान्, क्रूरसंज्ञा, दृढ शरीर इतने लक्षण मिथुन राशिके हैं ॥ ४ ॥

उपेद्रव०—ब जासंगपदः कुलीरश्चरोगनापाटलहीनशब्दः ॥

शुभः कफी स्निग्धजलांबुचारी समोदयी विप्रनिशोत्तरेशः ॥५॥

कर्कराशि; क्रीटाकार अतिस्त्रीसंगी, बद्धचरण, चरराशि, स्त्रीजाति, पाटल अर्थात् श्वेतरंग, शब्दरहित, सौम्य; कफप्रकृति, स्निग्ध (चिकना) शरीर, जलतत्त्व, जलचारी, समसंज्ञक ब्राह्मणजाति रात्रिबली उत्तरदिशाका स्वामी, दृढशरीर, इतने लक्षण कर्के हैं ॥ ५ ॥

उपजा०— मान्स्थिरोग्निर्दिनापित्तरूक्षः पीतोष्णपूर्वेशदृढश्चतुष्पात्॥

समोदयो दीर्घस्वोल्पसंगप्रजो हरिः शैलनृपोग्रधूम्रः ॥ ६ ॥

सिंहाकारपुरुष, स्थिरसंज्ञा, अग्नितत्त्व, दिनबली, पित्तप्रकृति रूक्ष शरीर, पीला-रंग, उष्णस्वभाव, पूर्वदिशाकास्वामी, बलवान् अंगप्रत्यंग, चारचरण, समसंज्ञा, दीर्घशब्द, स्वल्पस्त्रीसंगी, अल्पही संतान, पर्वतचारी, नृपति, धूम्रवर्ण यहांभी दोरंग कहेगये हैं, प्रयोजन मेषवत् है कि पूर्वार्द्ध इस्का पीत उत्तरार्द्ध धूम्र धूर्वे कासा रंग है इतने लक्षण सिंह राशिके हैं ॥ ६ ॥

उपजा०—पां द्विपात्स्त्रीद्वित र्यमाश निशामरुच्छीतसमोदयाक्ष्मा॥

कन्यार्द्धशब्दा भूमिमिवैश्या रूक्षाल्पसंगप्रसवा शुभा च ॥ ७ ॥

कुमारीरूप, पांडु (पिंगल) वर्ण, दोचरण, स्त्री राशि, द्विस्वभाव (मि-

(४)

ताजिकनीलकण्ठी ।

थुनवत्) पूर्वार्द्ध स्थिर, उत्तरार्द्ध चर, दक्षिणदिशा स्वामी, रात्रिवली, वा-
युतत्त्व, शीतप्रकृति, समलग्न इसका भूमितत्त्व भी है और आधाशब्दवाली,
सरलभूमिचारी, वैश्यजाति, रूक्ष शरीर, अल्पस्त्रीसंगी, अल्पसंतति, सपराशि,
इतने लक्षण कन्या राशिके हैं ॥ ७ ॥

उपजा०- मांश्वरश्चित्रसमोदयोष्णःप्रत्यङ्मरुत्स्निग्धरवो न वन्यः॥
स्वरूपप्रजासंगमशूद्र उग्रस्तुलोद्युवीर्यो द्विपदः समानः ॥ ८ ॥

तुला; तराजूकासा रूप, पुरुषराशि, चरसंज्ञा, चित्रवर्ण, समलग्न, गरम,
पश्चिमदिशाका स्वामी, वायुतत्त्व, स्निग्ध (चिकना) शरीर, शब्दरहित, वनचारी
क्रूर, अल्पस्त्रीसंगी, अल्पसंतान, शूद्रजाति, दिवा बली, दोचरण, बलवान्
अंग इतने लक्षण तुलाराशिके हैं ॥ ८ ॥

उपजा०-स्थिरः सितःस्त्रीजलमुत्तरेशानिशारवो नो बहुपात्कफी च॥
समोदयो वारिचरोऽतिसंगप्रजः भः स्निग्धतनुर्द्विजोऽलिः॥ ९ ॥

बीछूकासा रूप, स्थिरसंज्ञा, श्वेतरंग, स्त्रीराशि, जलतत्त्व, उत्तर दिशा पति,
रात्रिचर, शब्दरहित, बहुपाद, कफप्रकृति, समलग्न, जलचारी, अतिस्त्रीसंगी,
बहुतसंतति, शुभराशि, स्निग्ध (चिकना) शरीर, ब्राह्मण जाति, स्थूल अंग ये
लक्षण वृश्चिक राशिके हैं ॥ ९ ॥

उपजा०-ना स्वर्णभाः शैलसमोदयोतिशब्दो दिनंप्राग्दृढरूक्षपीतः॥
राजोष्णपित्तो धनुरल्पसूतिसंगोद्विमूर्तिर्द्विपदोऽग्निरुग्रः ॥ १० ॥

धनुषाकार, पुरुष, सुवर्णसमानकान्ति, पर्वतचारी, समलग्न, अति शब्दवान्,
दिनबली, पूर्वदिशाका स्वामी, बलवान् शरीर, रूक्षतनु, पीलारंग, क्षत्रिय जाति,
गरम, पित्तप्रकृति, अल्पसंतान, अल्पस्त्रीसंगी, द्विस्वभावराशि, पूर्वार्द्ध स्थिर,
उत्तरार्द्ध चर, दोचरण, अथितत्त्व, क्रूरसंज्ञा; इसके भी दोरंग और दो रूप हैं
जैसे पूर्वार्द्ध सुवर्णवर्ण और उत्तरार्द्ध पीतवर्ण और कटि ऊपर मनुष्य और नीचे
घोडा ये लक्षण धनराशिके हैं ॥ १० ॥

उपजा०—मृगश्चरः क्ष्माद्धैरवो यमाशास्त्रीपिंगलक्षः शुभ-
भूमिशीतः ॥ स्वल्पप्रजासंगसमीररात्रिरादौ चतुष्पा-
द्विषमोदयो िद् ॥ ११ ॥

आकार तो नाकुका परंतु मुख मृगकासा, चरसंज्ञा, भूमितत्त्व,
अर्द्धस्वरवान्, दक्षिणदिशापति, स्त्रीराशि, पिंगल वर्ण, रूक्षशरीर, सौम्य,
भूमिचारी, शीतप्रकृति, अल्पस्त्रीसंगी, अल्पप्रजावान्, वायुतत्त्व, रात्रि
बली, पूर्वार्द्ध (चतुष्पाद) पशु, और उत्तरार्द्ध जलचर पादरहित, विषम
लग्न और वैश्यजाति ये लक्षण मकरके हैं ॥ ११ ॥

उपजा०—कुंभोऽपदो ना दिन ध्यसंग सूः स्थिरः कुं
वन्यवायुः ॥ स्निग्धोष्णखण्डस्वरतुल्यधातुः शूद्रः प्रतीची
विषमोदये : ॥ १२ ॥

कुंभ, कलशका आकार, पादरहित, पुरुष, दिवाबली, अल्पस्त्रीसंगी,
अल्पसंतान, स्थिरसंज्ञा, विचित्ररंग, वनचारी, वायुतत्त्व, चिकना शरीर, संतप्त
देह, अर्द्धस्वरवान्, तुल्यधातु (वात पित्त कफ तीनों प्रकृति), शूद्रजाति,
पश्चिमदिशापति, विषमलग्न, दृढ अंगप्रत्यंग इतने लक्षण कुंभके हैं ॥ १२ ॥

उपजा०—मीनोपदः ी कफवारिरात्रिनिःशब्दबध्नुद्धित-
नुर्जलस्थः ॥ स्निग्धोऽतिसंगप्रसवोपि विप्रः भोत्तराशेद्
विषमोदयश्च ॥ १३ ॥

मीन राशिका आकार परस्पर एकके मुखपर दूसरीका पुच्छ ऐसी दो
मछली और स्त्रीराशि, कफप्रकृति, जलतत्त्व, रात्रिबली, शब्दरहित, पिंग
ल, भूरारंग, द्विस्वभाव, पूर्वार्द्ध स्थिरवत्, उत्तरार्द्ध चरतुल्य, जलचारी, चि-
कनाशरीर, अति स्त्रीसंगी, बहु संतति, ब्राह्मणजाति, शुभराशि, उत्तरदिशा
पति और समलग्न इतने इसके लक्षण हैं ॥ १३ ॥

उपजा०—धरांबुनोरग्निसमीरयोश्च वर्गे सुहृत्त्वं परतोऽरिभावः ॥
चापांत्यभागस्य चतुष्पदत्वं ज्ञेयं मृगांत्यस्य जले चर-
त्वम् ॥ १४ ॥

(६)

ताजिकनीलकण्ठी ।

पूर्व जो तत्त्व कहे गये हैं उनके प्रयोजन कहे जाते हैं, कि-तत्त्व और वगैरोंकी प्रीति स्त्रीपुरुषमेलमें स्वामिसेवक में और गुरु शिष्यादिमें विचारनी चाहिये; जैसे पृथ्वीतत्त्व और जलतत्त्वकी तथा अग्निवायुकी परस्पर प्रीतिहै, भूमि अग्नि और जल वायुकी परस्पर शत्रुता है, पूर्वोक्त स्त्री पुरुषादिकोंके राशि एकही तत्त्व होनेमें अधिक प्रीति है, धनुराशिका उत्तरार्द्ध चौपायाहै, पूर्वार्द्ध द्विपदहै, मकर उत्तरार्द्ध जलचारी पादरहित और पूर्वार्द्ध द्विपद स्थलचारी है ॥ १४ ॥

इंद्रवज्रा०-पित्तानिलौ धातुसमः कफश्च त्रिभेषतः सूरिभिरु-
हर्नीयाः ॥ राजन्यविद्शूद्रधरासुराश्च सर्वं फलं राश्य-
नुसारतः स्यात् ॥ १५ ॥

धातु और जाति गिननेकी युक्ति सुगम प्रकारसे कहते हैं, कि-पित्त वायु समधातु अर्थात् तीनों धातु और कफ इतने मेषादि राशि तीन आवृत्ति करके जानना. जैसे मेष सिंह और धनका पित्त धातु, वृष कन्या मकरका वायु, मिथुन तुला कुंभका समधातु अर्थात् वात पित्त कफ तीनों मिलकर होताहै; एवं कर्क वृश्चिक मीनका कफ धातुहै. इसी क्रमसे जाति भी जानी जाती हैं, जैसे-मेष सिंह और धन क्षत्रियजाति, वृषकन्या व मकर वैश्य जाति, मिथुन तुला व कुंभ शूद्रजाति कर्क वृश्चिक व मीन ब्राह्मणजाति है. राशियोंके गुण जाति धात्वादि जितने कहेहैं. जन्म वर्ष प्रवेश और प्रश्नादि विचारोंमें जैसे जिनके नामहैं वैसेही फल विचारके कहना. जैसे क्रूर राशिसे क्रूरस्वभाव, सौम्यसे सौम्य और चरराशिसे चरता, स्थिरसे स्थिरता, द्विस्वभावसे दोनों मिलाकर. ऐसेही सम्पूर्ण राशिगुणोंका फल जन्म वर्ष और प्रश्नादिकों में बुद्धिसे कहना । शा बुद्धिका सहायक है. विशेष विस्तारराशिगुणोंका बृहज्जातक की महीधरीभाषाटीकामें स्पष्ट-तर लिखाहै ॥ १५ ॥

अनुष्टुप् ०—गताः समाः पादयुताः कृतिघ्नसमागणात् ॥ खवे-
दाप्तघटीयुक्ता जन्मवारादिसंयुताः ॥ अब्दप्रवेशे वारादि सप्तते त्र
निर्दिशेत् ॥ १६ ॥

ग्रहोंके चालन और ग्रह गणितैक्य स्थापनमें प्रथम वर्षेष्टकाल आवश्यक
है. यह गणित आचार्योंने वर्षतन्त्रमें लिखाहै. यहांभी अपेक्षित होनेसे वही
यह श्लोक है कि-जन्म शककाल, वर्ष शककालमें घटायके शेष गतवर्ष होतेहैं
उनमें उन्हीं का चतुर्थांश जोड़ देना पुनः वही गतवर्ष २१ से गुणाकर चा-
राशिगुणादिचक्रम् ।

संज्ञाः	मेघ.	वृष.	मिथुन	कर्क.	सिंह.	कन्या.	तुला.	वृश्चिक.	घन.	मकर.	कुंभ.	मीन.	१
पुंल्लि	पुरुष.	स्त्री.	पुरुष.	स्त्री.	पुरुष.	स्त्री.	पुरुष.	स्त्री.	पुरुष.	स्त्री.	पुरुष.	स्त्री.	२
चरास्थि रादि	चर.	स्थिर.	द्विस्व भाव	चर.	स्थिर.	द्विस्व- भाव.	चर.	स्थिर.	द्विस्व. भाव.	चर.	स्थिर.	द्विस्व भाव.	३
तत्त्व.	अग्नि.	पृथ्वी.	वायु.	जल.	अग्नि.	पृथ्वी.	वायु.	जल.	अग्नि.	पृथ्वी	वायु.	जल.	४
पुष्टकृश	दृढ.	दृढ.	मृदु.	मृदु.	दृढ.	कृश.	दृढ.	कृश.	दृढ.	दृढ.	दृढ.	दृढ.	५
पाद- संज्ञा.	चतुष्प.	चतुष्प.	द्विपद.	अपद.	चतुष्प.	द्विपद.	द्विपद.	वक्रपद.	द्विपद.	चतुष्प.	अपद.	अपद.	६
वर्ण.	पाटल रक्त.	श्वेत.	हरित	पाटल.	धूम्र.	पांडुर.	विचित्र	श्वेत.	वर्णः २	पीत.	कर्पूर.	धूम्र.	७
गुण.	तेजसेद्.	शीत.	तप्त.	शीत.	उष्ण.	वायु.	उष्ण.	वायु.	उष्ण.	शीत.	उष्ण.	शीत.	८
धातु.	पित्त.	वायु.	वायु.	कफ.	पित्त.	जल.	पित्त.	कफ.	पित्त.	वायु.	वायु.	कफ.	९
शब्द.	अतिरव	अतिरव	दीर्घश.	हीनश.	दीर्घश.	अर्द्ध.	शब्द रहित.	शब्दर.	अति शब्द.	अति शब्द.	खंड रहित.	शब्द हीन.	१०
चार स्थान.	पर्वत	सम भूमि.	वनचर.	जलचर	पर्वत चर.	शुभ भूमि.	वन चारी.	जलचर	पर्वत चर.	वन चर.	भूमि.	जलचर	११
कृगादि.	उग्र.	सौम्य.	उग्र.	सौम्य.	उग्र.	सौम्य.	उग्र.	सौम्य.	उग्र.	सौम्य.	उग्र.	सौम्य.	१२
दिनादि बल.	दिवा. बली.	रात्रि.	दिन.	संध्या.	दिवा.	रात्रि.	दिवा.	रात्रि.	दिन.	रात्रि.	दिन.	रात्रि.	१३
समवि- षम.	विषम.	सम.	विषम.	सम.	विषम.	सम.	विषम.	सम.	विषम.	सम.	विषम.	सम.	१४
दिशा.	पूर्व.	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर.	पूर्व.	दक्षिण.	पश्चिम.	उत्तर.	पूर्व.	दक्षिण.	पश्चिम.	उत्तर.	१५
द्वीसंग मत.	अल्प.	मध्य.	मध्य.	बहु.	अल्प.	अल्प.	अल्प.	अति.	अल्प.	अल्प.	मध्य.	अति.	१६
कांति.	रुक्ष.	रुक्ष.	स्निग्ध.	स्निग्ध.	रुक्ष.	रुक्ष.	स्निग्ध.	स्निग्ध.	रुक्ष.	रुक्ष.	स्निग्ध.	स्निग्ध.	१७
जाति.	क्षत्रि.	वैश्य.	शूद्र.	ब्राह्मण.	क्षत्रि.	वैश्य.	शूद्र.	ब्राह्मण.	क्षत्रि.	वैश्य.	शूद्र.	ब्राह्मण.	१८
समादि	सम.	विषम.	विषम.	सम.	सम.	सम.	सम.	सम.	सम.	विषम	विषम.	विषम.	१९

(८)

ताजिकनीलकण्ठी ।

लीससे भाग देकर लब्धि स्वचतुर्थांश युक्त राशिके दूसरे स्थानमें स्थापन करना. शेष ६० से गुणकर ४० से भाग देना, लब्धि तीसरे स्थानमें स्थापन करना. ये तीन अंक वार, घटी, पल इनमें जन्मके वार इष्ट घटी पला यथाक्रमसे जोड़ने घटी पल ६० से अधिक हों तो ६० से शेषित करके लब्धि ऊपरकी राशिमें जोड़देना. वारकी राशि ऊपरका अंक जो गतवर्ष चतुर्थांश युक्तहै वह ७ से ऊपर हो तो ७ ही से तष्ट करदेना. यही प्रयोजन दूसरे प्रकारसे यह है कि 'सपदा दलिता सदला' अथवा (वर्ष सवाया आधा डचोढ) अर्थात् गतवर्ष 'सपाद' उसकी चौथाई उसीमें जोड़के वार हुवा, फिर 'दलिता' उसका आधा करके घटिका हुई फिर उसका आधा उसीमें जोड़के पला हुई, जन्मवार इष्ट घटीपल क्रमसे जोड़दिया तो वर्षका ध्रुवक वारघटी पल होते हैं. उहाहरण—इस्का प्रथम श्लोकोक्तप्रकार तो यह है कि जैसे जन्म संवत् १९०६ वर्षप्रवेश संवत् १९४३ में घटाया, शेष ३७ वह जन्मशक १७७१ वर्षशक १८०८ घटाया शेष ३७ गतवर्ष हुआ, इसमें इसीका चतुर्थांश ९।१५ जोड़दिया तो वार ४६ घटी १५ हुई, उपरांत गतवर्ष ३७ गुणक २१ से गुणना किया तो ७७७ हुये, इसमें ४० से भाग लिया, लब्धि १९ घटी मिली वार राशि ४६ के नीचे घटिकाकी राशि १५ में जोड़दिया ३४ घटी हुई शेष अंक ६० गुणकर ४० से भाग दिया लब्धि २५ पला और ३० विपला मिली, इन्हमें जन्म वारादि २ ३९ २९ जोड़दिया तो वर्ष वारादि होगया. सरा प्रकार यह है कि गतवर्ष सवाया ४६ दि. १५ घ. गतवर्ष आधा घ. १८ प. ३० तीसरे गतवर्ष डचोढा प. ५५ वि. ३० सबको यथाक्रम स्वस्वजातियोंमें मिलाय दिया. जैसे विपल तो ३० रहे पल ३० और ५५ जोड़के ८५ यह ६० से उद्धृत करदिया तो पल २५ रही लब्धि १ घटी १८।१५ तीनों जोड़के ३४ घटी मिली, वह ४६ ही हैं इन वारादि ४६।३४।२५।३०। में जन्मवार २ घटी ३९ पल २९ जोड़ दिये तो वार ७ घटी १३ पल ५४।३० यह वर्षेष्ट हुवा ॥ अन्यप्रकार १।१५।३१।३।को गतवर्षसे पृथक् २ गुणदिया. यथाक्रम वारादि ध्रुवक होजाताहै इक्षके और प्रकारभी बहुतहैं इस्की उत्पत्ति यह है कि सूर्यके पूरी १२

राशिमें एक सौरवर्ष होताहै, जन्मसमयमें सूर्य स्पष्ट जितना राश्यादिहै उत-
नाही पूरा पूरा जिस समयपर हो वह काल पुनर्वर्ष प्रवेशकाहै सावनमास से
दिन ३६५ घटी १५ प० ३१ विपल ३० में सूर्य उसी स्पष्टपर आजाताहै
इससे यह क्षेपक नियत है इसक्षेपक को पृथक् २ चारों स्थानोंमें गतवर्षसे
गुनाकर स्वस्वजातिके पूर्ण अंकोंसे ऊपर ऊपर चढायके आयुके सावन
वर्षादि होतेहैं; जैसे १ । १५ । ३१ । ३० गतवर्ष ३७ से गुनदिये ३७।
५५५ । ११४७ । १११० इनको घटी पल विपल ६० से उद्धृत कर-
दिये ३७ वर्ष ४६ दिन ३४ घटी २५ पल ३० विपल० सावन माससे
गत हुये. यही रीति सर्वत्र जाननी. यहां वही ४६ आदिकोंमें जन्म वारादि
जोड़नेसे वर्ष प्रवेश वारादि होगा ॥ १६ ॥

(अनु.) शिवघोषः स्ववार्त्तीदुलवाढ्यः खा शेषितः ॥

जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावद्प्रवेशनम् ॥ १७ ॥

पूर्वाक्त विधिसे वर्षप्रवेश वारादि ज्ञातहुये में यह वर्षप्रवेश किसति-
थिको होगा इसनिमित्त तिथ्यानयन प्रकार यह है कि गतवर्ष ११ ग्यारह
से गुनदिया दो स्थानोंमें स्थापन करके एक में १७० का भाग देकर
लब्धि दूसरे स्थानकी राशिमें जोड़दिया, उपरांत ३० तीससे भाग देकर
जो शेष रहै उसमें जन्मतिथि शुक्लप्रतिपदादिक्रमसे जोड़नेसे वर्षप्रवेश
तिथि मिलतीहै. उदाहरण गतवर्ष ३७। ११ से गुनदिये ४०७ दो स्थानोंमें
स्थापन करके एक जगह १७० से भाग लिया लब्धि २ दूसरे में जोड़दिया
४०९ इसमें जन्मतिथि ९ जोड़दी तो ४१८ हुये ३० से तट करके शेष
२८ कृष्ण त्रयोदशी के दिन वर्षप्रवेश हुआ. इसमें भी तिथि एकदिन आगे
पीछे हो जाती है. गणितागत तिथिके पहिले वा पिछले वा उसी दिन वर्ष-
गत वार जिस दिन मिले वही ठीक होतीहै. यहां वारकी मुख्यताहै तिथिकी
आवश्यकता वारको निश्चय करने निमित्तहै कि एकमहीनेमें एकवार ४ । ५
आवृत्ति करताहै तो उनमेंसे तिथि एकको निश्चय कर देतीहै. जैसे इस उदाह-
रण में २८ कृष्णत्रयोदशी मिलीहै और वर्षप्रवेश द्वादशीके दिन शनिवार होने

से वर्षप्रवेश होगया. अथवा जन्मके (सूर्य्याशतुल्य) सूर्य्याशदिन वह वार मिलनेपर वर्षप्रवेश दिन निश्चय होताहै किसी किसी देशोंमें संक्रांतिदिन गिनती मानतेहैं उन्हें गत प्रविष्टा और पैठ कहते हैं उस प्रविष्टाके दिन अथवा एकदिन आगे पीछे उक्त वार मिलनेसेभी दिन निश्चय होताहै ॥ १७ ॥

गतैष्यदिवसाद्येन गतिर्निग्री खषड्दहता ॥

लब्धमंशादिकं शोध्यं योज्यं स्प ो भवेद्ब्रहः ॥ १८ ॥

फल स्पष्ट ग्रहाधीन है. वह गणित सिद्धांत और ग्रहलाघवादि लघुकरणोंसे साधन करने में श्रम बाहुल्यहै, यहां आचार्य्य ने सुगमोपाय ग्रहस्पष्टका इसप्रकार कहाहै कि, पंचांगस्थित अवधिकी गति इष्ट समयसे स्पष्टावधिपर्यंत दिनोंसे गुनकर अवधि स्पष्टमें संस्कार करना तात्कालिक स्पष्ट सिद्ध होजाता है. उदाहरण—संवत् १९४३ वैशाख वदि द्वादशी शनिवार इष्टघटी १३ । ५४ में वर्षप्रवेश है. और वैशाख वदि अष्टमी सोमवारके दिन ग्रहलाघवीय प्रातःकालीन स्पष्टावधि पंचांग में स्थापित है अब स्पष्टावधि प्रातःकालसे ५ दिन १३ घटी ५४ पल इष्टकालपर्यंत अधिक है. एष्यदिन हुये उस अवधिके सूर्य्य, स्पष्ट० । १३ । ३७ । ५२ राश्यादि और गति ५८ । १४ है. एष्यदिनादि ५ । १३ । ५४ से गति गोमूत्रिका क्रमसे वा भिन्न गुणनविधि से गुनदिया ५ । ४ । ३९ अंशादि हुये. अवधि स्पष्ट ० । १३ । ३७ । ५२ अवधिसे उत्तरदिन होनेसे एष्य हुवा. जोड़ देनेसे ० । १८ । ४२ । ३१ यह तत्काल सूर्य्य स्पष्ट होगया. यही रीति भौमादि सभी ग्रहों की जाननी. दूसरा प्रकार विना ही अवधि स्पष्ट केवल पंचांगीय ग्रह चालक से ग्रह स्पष्ट करनेका यह है कि. वर्षप्रवेश दिनसे पहला जो नक्षत्र चरण पर ग्रह चालक है और इष्टदिनसे जो पुनः अंत्यचरण पर चालक है इनका अन्तर करके त्रैराशिक करना कि अन्तरीय अमुक संख्यांक दिनोंमें ३ । २० अंशकला स्पष्ट होताहै तो पूर्वचालक से इष्टसमय पर्यन्त अन्तरांकमें कितना होगा. जो उत्तर मिले उसमें राशिसंबंधि नक्षत्रोंके जितने चरण ग्रहके भुक्त करलिये उतने ३ । २० । जोड़ते जाना

जहांतक इष्टदिन समय का पूर्व चालक मिलता है. जितना समय हो उसमें त्रैराशिकका गत फल जोड़देना ग्रह स्पष्ट होजाता है.

इतना स्मरण इसमें मुख्य चाहिये कि ९ चरण नक्षत्रोंकेसे एक राशि होती है, एक चरण नक्षत्र भोग में ३ अंश २० कला स्पष्ट होता है, एवं ६।४० में दो चरण १०।० में तीन चरण १३।२० में चार चरण १६।४० में पांच चरण २०।० में छः चरण २३।२० में ७ सात चरण २६।४० में आठ ३०।० में नौ चरण पूरे होजातेहैं, यही नवांशक क्रमभी है, एकचरण अर्थात् ३।२० अंशकी २०० कला होतीहैं, ये सभी अंक त्रैराशिक में काम आताहै. उदाहरण—संवत् १९४३ वैशाखवदि द्वादशी शनिवार १३ घटी ५४ पला में वर्षप्रवेश है, इसके पूर्वदिन शुक्रवार ४१ घटी ४६ पलोंमें रेवतीके तीसरे चरणपर चालक है, और चतुर्दशी सोमवार को ५३ घटी ३ पलोंमें रेवतीके चौथे चरणपर चालक है, इनका अंतर ३ दिन ११ घ० १७ पल हुवा. प्रथम चालक से इष्ट समय पर्यंत, ० दिन ३२ घटी ८ पल अंतर हुवा अब त्रैराशिक है कि ३।११।१७ दिनादि अंतर में ३ अंश २० कला स्पष्ट हुवा, तौ अंतर दिनादि ०।३२।८ में कितना होगा ३।२० से ०।३२।८ गुणनाहै ३।११।१७ से भाग देनाहै गुणन भाजनक्रम गोमूत्रिका और भिन्नकी रीतिसे है. सुगमतासे समझनेके लिये वह विधि ऐसी भी है कि ३ अंशको ६० से गुनदिया २० कला जोड़ दी २०० कला पिंड गुणक हुवा, दूसरी राशि ०।३२।८ शून्यके स्थान में कुछ अंक होता तो ६० से गुनकर ३२ जोड़ना था यहां शून्य ही में ३२ गुये अब ३२ को ६० से गुनकर १९२० में आठ जोड़दिये १९२८ गुणक हुवा. गुण्यगुणक को परस्पर गुण देने से ३८५६०० हुवा इसमें ३।११।१७ के पिंड ११४७७ से भागदिया. ३३ कला मिलीं, शेष अंकको ६० से गुणकर भाग हारसे भाग देकर लब्धि उसके ऊपर अंश होते शेष कला रहती यहां ३३ साठसे न्यून है तो यही कला रही अंश ०। इसमें अब विचार है कि रेवती के तीसरे चरण में ०।३३।३६ अंशादि

स्पष्ट बुधका हुवा इसके पूर्व एक चरण पूर्वाभाद्रपदका ४ चरण उत्तराभाद्रपदका दो चरण रेवतीका यह सब सात चरण भुक्तहुयेमें २३ अंश २० कला स्पष्ट भुक्त हुवा अब शेष रेवती तृतीय चरणके अनुपातागत अंशादि ० । ३३ । ३६ जोड़दिये २३।५३।३६ अंशादि स्पष्ट हुवा, बुध मीनका होनेसे राशिके स्थानमें ११ लिखना योग्यहै ११। २३ । ५३ । ३६ राश्यादि धका तत्काल रु होगया यही रीति और की भी जानना यह दोनों प्रकार सुगमता निमित्त स्थूलतर कहे हैं—स्थूल कार्य्य इनसे साधन करते ही हैं सूक्ष्म विचार तो ग्रहलाघव महादेवी मकरंद रामविनोदादि करणसारणियोंके होतेहैं और इनसे भी सूक्ष्म सिद्धांतों से होताहै ऐसी ही विधि चंद्रस्पष्टकी भी है सो आगे है ॥ १८ ॥

(भुजंगप्रयातम्) खषड् भयातं भभोगोद्धृतं तत्खतर्कघ्न-
धिष्ण्ये तं द्विनिघ्नम् ॥ नवा शशी भागपूर्वस्तु ि :
खखाभ्राष्टवेदा भभोगेन भक्ताः ॥ १९ ॥

जिस दिनका चंद्र स्पष्ट करना हो उसदिन नक्षत्र का इष्ट कालमें भुक्तभोग्य सर्वभोग्य करलेना. रीति यह है कि इष्टसमयपर्यंत उक्त नक्षत्र जितनाघटी पलभुक्तहुवा उसे भुक्त कहते हैं, जितना बाकी रहा उसे भोग्य और दोनों को मिलाकर सर्व भोग्य होता है. भुक्तको ६० से गुणकर सर्व भोग्यके भाग लेनेसे जो मिले उसे षष्टि प्रमाण भुक्त कहते हैं वर्त्तमान नक्षत्रसे पूर्व अश्विन्यादि जितने नक्षत्र व्यतीत हुये उतनी संख्याको ६० साठसे गुणाकर वर्त्तमान नक्षत्रकी भभोगके भागसे मिली हुई घट्यादि जोड़ देनी सभी अतीत घटिका हुई उपरांत दोसे गुणाकर नौ ९ से भाग लेना लब्धि अंश होतेहैं, शेष साठसे गुणाकर नौसे भाग देना लाभ कला होतीहैं. पुनः शेष साठसे गुणाकर नौसे भाग देना लाभ विकला मिलतीहैं, अंश ३० तीससे अधिक हो तो तीस हीसे भाग देना लाभ राशि शेष अंश होतेहैं, यह चंद्रमा स्पष्ट सिद्धि होजातीहै, उदाहरण—संवत् १९४३ वैशाख वदि द्वादशी शनिवार इष्ट घटी १३ पल ५४ इस समय पर उत्तराभाद्र नक्षत्रका भुक्तघटी ५४ पला १३ भोग्यघटी १० पला ४१ सर्व भोग्यघटी ६४ पला ५४ षष्टिप्रमाण भुक्त

घटी ५० ५० ८ अश्विनीसे पूर्वाभाद्रपर्यंत २५ नक्षत्र भुक्त हुये, इस अंकको ६० साठसे गुना किया १५०० हुए वर्तमान उत्तराभाद्र षष्टि मान भुक्त ५० । ८ जोड़दिया १५५० । ८ इस्को दुगुना किया ३१०० । १६ नौसे भाग लिया लाभ ३४४ अंश हुये शेष ४ आठसे गुनाकर अवशिष्ट १६ जोड़दिये २५६ नौसे भाग लिया लाभ २८ कलाहुई शेष ४ पुनःसाठसे गुनाकर २४० नौसे भाग लिया; लाभ २६ विकला हुई. अंशादिचंद्र स्पष्ट ३४४ । २८ । २६ हुआ अंशस्थानमें अंक तीससे अधिक होनेसे ३०से भागलिया. लाभ ११ राशि शेष १४ अंश हुये ११।१४।२८। २६ यह चन्द्र स्पष्ट होगया. दूसरे प्रकार उदाहरण यह है कि, अश्विनीसे पूर्वाभाद्रपदाके तीन चरणपर्यंत ग्यारह राशि पूरी भुक्त होगयीं, शेष पूर्वाका चतुर्थ चरण और उत्तराभाद्रके ४५ घटी षष्टिमान भुक्त पर्यन्त तीन चरण भुक्त होजानेसे १३ अंश २० कला भुक्त होगयीं अर्थात् उत्तराभाद्रके ४५ घटी भुक्त पर्यन्त चन्द्रस्पष्ट ११ । १३ । २० । ० होगया, अब उत्तराभाद्रके ५ घटी ८ पल अवशेष भुक्तमें हैं इसका त्रैराशिक यह है कि १५ घटी भुक्तमें ३ । २० अंश स्पष्ट होताहै तो ५ घ. ८ प. में कितना होगा १ ५ । ८ घटीके पिंड ३०८ को ३ । २० के पिंड २००से गुनाकिया ६१६०० इसमें १५ घटीके पलात्मक पिंड ९०० से भागदिया, लाभ ६८ कला हुई शेष ४०० को साठसे गुनाकर २४००० भाग हार ९००से भाग लिया लाभ २६ विकला हुई. यहां कला ६० से ऊपर होनेसे साठहीसे भागदिया लाभ १ अंश शेष ८ कला रहीं, १।८।२६ इस समलघ्न लाभको पूर्वागत ११।१३।२०।० में जोड़दिया ११।१४।२८। २६ यह चन्द्र स्पष्ट होगया, दोनहूँ प्रकार एकही स्पष्ट मिलताहै यहां दूसरा उदाहरण पूर्व लिखाहै. (अब चन्द्रमाकी गति बनानेकी रीति) एक नक्षत्रका स्पष्ट १३ अंश २० कलाहैं इसकी कला ८०० को साठसे गुनाकर ४८००० विकलापिंड होताहै, इसमें नक्षत्रके सर्व भोग्यसे भागलेना जो मिले वह चंद्रमाकी स्पष्टगति होतीहै. उदाहरण—४८००० में

उत्तराभाद्रके सर्वभोग्य ६४ । ५४ का पलात्मक पिंड ३८९४ से भाग देनेके लिये, इस्को ६० से गुणाकर पला पिंड किया तो भाज्य भी ६० से गुणदिया २८८००००० भागहार ३८९४ से भागलेकर ७३९ लब्धि+शेष २३३४ को ६० से गुणाकर भागहारसे भागलिया लब्धि ३५ यह ७३९ । ३५ चंद्रमाकी गति होगई ॥ १९ ॥

(उ०जा०)पूर्व नतं स्यादिनरात्रिखंडं दिवानिशोरिष्टघटीविहीनम् ।
दिवानिशोरिष्टघटीषु शुद्धं द्युरात्रिखंडं त्वपरं नतं स्यात् ॥ २० ॥

ग्रहस्पष्टके उपरांत भाव स्पष्टके फलके निमित्त आवश्यकता है, लग्नदशम स्पष्टसे भाव स्पष्ट होतेहैं, प्रथम दशम स्पष्टसाधनार्थ नतसाधन कहतेहैं कि अर्द्ध रात्रिसे उपरांत दिनार्द्धपर्यंत पूर्वनत और मध्याह्नसे उपरांत सायंकालपर्यन्त दिवापश्चिमनत होताहै. सूर्यास्तसे अर्द्धरात्र पर्यन्तरात्रिका पूर्व नत होताहै— अर्द्ध रात्रिके बाद सूर्योदय पर्यन्त रात्रिका पश्चिमनत होताहै. मध्याह्नके भीतरका इष्टकाल हो तो दिनार्धमें इष्टकाल घटा देना. शेष दिवा पूर्वनत होगा मध्याह्नके बाद सूर्यास्त तक इष्टकाल होतो इष्टकालमें दिनार्द्ध घटा देना, शेष दिवा पश्चिमनत होगा. सूर्यास्तके बाद अर्द्धरात्र तक इष्टकाल हो तो रात्र्यर्द्धमें इष्टकाल को घटा देना शेष रात्रिका पूर्वनत होताहै, और अर्द्धरात्रके बाद सूर्योदय तक इष्टकाल हो तो इष्टकाल में रात्र्यर्द्ध घटा देना, शेष रात्रिका पश्चिमनत होगा. यहाँ १५ में नत घटाने से उन्नत होताहै परंच उन्नत का कोई प्रयोजन नहीं है इस लिये उन्नत का नाम नहीं लिखाहै. इन नतोंका प्रयोजन दशम स्पष्टमें लगेगा.

उदाहरण—यहाँ इष्टकाल घ. १३ प. ५४ है, दिनार्द्ध घ. १६ प. ३१ है, दिनार्द्धमें इष्टकाल घटाया तो शेष रहा घ. २ प. ३७ यह दिनका पूर्वनत हुवा ॥ २० ॥

(अनु०) तत्काले सायनार्कस्य भुक्तभोग्यांशसंगुणात् । स्वोदया त्वामिलब्धं यद्भुक्तं भोग्यं रवेस्त्यजेत् ॥ २१ ॥ इष्टनाडीपले-

भ्यश्च गतगम्यान्निजोदयात् ॥ शेषं स्वय्याहतं भक्तमशुद्धेन
लवादिकम् ॥ २२ ॥ अशुद्धशुद्धभे हीनं युक्ततुर्व्ययना-
शकम् ॥ एवं लंकोदयैर्भुक्तं भोग्यं शोध्यं पलीकृतात् ॥२३॥

तात्कालिक सूर्य स्पष्टमें अयनांश जोड़ना जो अंकराशिका है, उसके आगेकी राशि स्वोदय हुवा शेष अंशादि भुक्त हुये, तीसमें घटायके भोग्यांश होतेहैं इन भोग्यांशादिकोंको वा भुक्तांशादिकोंको स्वोदय अर्थात् जिस राशिका अंशादि था उसी संख्याका स्वदेशीय लग्नखंडसे तीनों स्थानोंमें पृथक् २ गुनाकर तीससे भाग लेना लब्धिपलादि सूर्यके भुक्त वा भोग्य होतेहैं अर्थात् भुक्तांशादिकोंसे स्वोदयको गुनते हैं तो ३० तीसका लाभ भुक्तसंज्ञक हो ताहै और भोग्यसे कियेहैं तो भोग्यसंज्ञक होताहै इन पलादिकोंको इष्टघटीकी पलाओंमें घटाय देना जो शेष रहै उसमें स्वोदयकी राशिसे नीचे अथवा उपरांत जितने लग्नखंड घटें एक एक करके घटाते जाना जो लग्नखंड न घटे उसकी अशुद्ध संज्ञा हुई घटानेसे जो शेष रहा उसे ३० तीससे गुनदेना. अशुद्ध-संज्ञक लग्नखंडसे भाग लेना लाभ अंशादि हुये स्वोदयसे लेकर जितने लग्नखंड पूर्व घटाये उतनी संख्याकी राशि उन लब्ध अंशादिकोंके पूर्वमें स्थापन करनी यह भोग्य रीतिका क्रम है, भुक्त रीतिमें अशुद्धमें घटादेना उपरांत अयनांश घटाय देना यह लग्न स्पष्ट होजाताहै. उदाहरण—संवत् १९४३ वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिवार इष्टघटी १३ पला ५४ सूर्य स्पष्ट ०।१८। ४२।३१ अयनांश २२।४४ जोड़दिया. १।११।२६।३१ यह सायन सूर्य हुवा इसमें १ राशि है यह वृषस्वोदय हुवा शेष अंशादि ११।२६।३१ भुक्तहुये ३० तीस में घटायके १८।३३।२९ ये भोग्यांशादि हुये अब इनको स्वोदय खंडोंसे गुनदेनाहै. लग्नखंडोंकी रीति यह है कि लंकोदय २७८।२९९।३२३ क्रमसे. और यही उत्क्रमसे ३२३।२९९।२७८ हैं इनमें अभीष्ट देशके चर-खंडोंको एक आवृत्ति तीनोंमें जोड़देना दूसरी आवृत्ति तीनोंमें घटाय देना-लग्नखंड होतेहैं, जैसे श्रीनगरके पलमा ७ । ० (त्रिष्टा हताः स्युर्दशभिर्भुजंगै-

दिग्भिश्चराद्धानि गुणोद्धृतांत्या) इस विधिकरके ७० । ५६ । २३ चर-
खंडहैं इनको एक आवृत्तिमें घटाय दिया तो मीन मेषके २०८ वृषकुंभके
२४३ मिथुन मकरके ३०० और दूसरी आवृत्तिमें चरखंड जोड़दिया तो
कर्क धनके ३४६ सिंह वृश्चिकके ३५५ कन्यातुलाके ३४८ ये श्रीनगरके
लग्नखंड हुये, यहां स्वोदय वृष २४३ से भोग्यांश गुनदिये ४३७४।८०१९।
७०४७ नीचेके दो अंक ६० से चढायदिये तो ४५०९ । ३६ । २७हुये
३० से भागलिया लाभ १५०।१९।१२ भोग्य कालहुवा ऐसी ही रीति
भुक्तांशादिसे भी होतीहै. अब इष्ट घटी १३ । ५४ की पलाओंमें ८३४
भोग्यांश १५० । १९ । १२ घटाय दिये ६८३ । ४० । ४८ हुये
अब इसमें स्वोदय वृषसे उपरांत मिथुन ३०० घटाय ३८३ इसमेंभी कर्क
३४६ घटाय तो ३७।४०।४८ इसमें सिंह ३५५ घटाना था नहीं घटता
तो इसकी अशुद्ध संज्ञा हुई शेष ३७ । ४० । ४० को पृथक् तीससे गुन-
दिया ११३० । २४ । ० इसमें अशुद्ध ३५५ से भाग लिया लाभ ३।११।
३ अंशादि हुये कर्क पर्यंत घटगये इससे ४ राशिके स्थानमें स्थापन कर
दिया ४ । ३।११ । ३ इसमें अयनांश २२ । ४४ घटादिया तो ३ ।
१० । २७ । ३ यह लग्न स्पष्ट होगया, जब स्वोदय न घटे तो, इष्टके
३० से गुनाकर सायन सूर्यके लग्नखंडसे भाग लेना तो अंशादि मिले वह
सूर्योदयसे पूर्वका इष्टकाल होय तो सायन सूर्यमें घटायके और परका होय तो
जोड़के अयनांश घटायके लग्न स्पष्ट होजाताहै ॥ २१-२३ ॥

(अनुष्टुप्) पूर्वपश्चान्नतादन्यत्प्राग्वत्तद्दशमं भवेत् । सषड्भे
ल खे जायातुर्य्यौ लग्नो न तुर्य्यतः ॥ २४ ॥ षष्ठांशयुक्तनुः
संधिरग्रे षष्ठांशयोजनात् ॥ त्रयः ससंधयो भावाः षष्ठांशो नैक-
युक्सुखात् ॥ २५ ॥ अग्रे त्रयः षडेवं ते भार्द्युक्ताः परोपि-
षट् ॥ खेटे भावसमे पूर्णं फलं संधिसमे तु खम् ॥ २६ ॥

अब दशम लग्न स्पष्टकी विधि कहते हैं, कि पूर्वोक्त प्रकारसे नतोन्नत

सूर्य तात्कालिक स्पष्ट सायन स्वोदयगुणित भुक्त भोग्यांश ऋणसंज्ञकलग्न क्रमसे करके भोग्य भुक्तका पलात्मक सूर्य स्पष्ट करके लग्नस्पष्टमें इष्टकालकी पलावोंमें घटाया, यहां नत वा उन्नतको इष्ट मानकर उसकी वटिकाकी पलाओं में घटाना और विधि सभी लग्न स्पष्टोक्तवत् करनेसे दशम लग्न स्पष्ट होताहै. जैसे—पूर्व लग्न स्पष्ट करनेमें तात्कालिक सूर्य स्पष्ट लियागया, वही यहांभी लिया जाताहै. उनका भुक्तांशादिकोंमें उसीके राशिसंख्यक लग्नखंड गुणके तीससे भाग लेनेसे लाभ पलादि सूर्यकी होंगी, पश्चात् उन्नत पलाओंको इष्टकाल मानकर इनमें सूर्यके पलादि घटाय देना; उपरांत सूर्यराशि लग्नखंड घटाना, यदि न बटे तो शेष पलादिकोंको तीससे गुणकर पूर्व अशुद्ध लग्नखंडसे भाग देना, लब्धि अंशादि हुये. अशुद्ध लग्न राशियोंमें घटायके अयनांश घटाय देना वह लग्नस्पष्ट राश्यादि होजायगा, इस प्रकार दशम होता है यह ऋणसंज्ञक विधिहै यहां वही तत्काल सूर्य स्पष्टके अंशादि ३० में घटायके स्वोदय में गुणना ३० से भाग लेकर लब्धि पलादि सूर्यका भोग्य हुवा इसे पश्चिम नत जो इष्ट मानाहै उसके पलावों में घटाय देना. जो न बटे तो शेष ३० से गुणाकर अशुद्ध लग्नखंडसे भाग लेना लाभ अंशादि राश्यादि यथाक्रमसे योजित करके अयनांश घटाय देना, राश्यादि दशम लग्न स्पष्ट हो जाताहै यह धनसंज्ञक विधिहै इस प्रकार लग्न दशम स्पष्ट करके लग्न स्पष्टमें छः राशि जोडके सप्तम भाव स्पष्ट होताहै. ये ४ भावोंके स्पष्ट होगये. और भावसंधियोंकी रीति इस प्रकार है कि चतुर्थभावस्पष्टमें लग्नस्पष्ट घटाय देना. शेषमें छः से भाग लेनेसे लाभ षष्ठांश हुवा. यह लग्नमें जोडनेसे तनुधनकी संधि होतीहै इस संधिमें जोडनेसे द्वितीय भाव होताहै. ऐसेही द्वितीयभावमें जोडनेसे २।३ की संधि, इसमें जोडनेसे तृतीय भाव और इसमें भी जोडनेसे ३।४ की संधि होगी इस संधिमें जोडनेसे सुखभाव जो दशममें ६ राशि जो डके बनाहै वही मिल जायगा. उपरांत पूर्वानीत षष्ठांशको एक राशियोंमें घटायके जो शेषकहो वह चतुर्थभावमें जोडनेसे ४।५ की संधि होगी. संधिमें

जोडनेसे पंचमभाव और इस भावमें जोडनेसे ५।६ की संधि संधिमें जोडनेसे षष्ठभाव. इसमें जोडनेसे सप्तमभाव जो लग्नमें ६ राशि जोडकर हुई. वही मिलजायगी. अब सप्तमभावसे उपरांत लग्नादिकोंमें ६ राशि जोडते जाना. सप्तमादि स्पष्ट होजायँगे, जैसे लग्नमें ६ जोडनेसे सप्तमभाव हुआहै, लग्न धन-संधिमें जोडनेसे सप्तमाष्टमभावकी संधि होगी. एवं द्वितीयभावसे अष्टमभाव, संधिमें सन्धि तृतीयसे नवम सन्धिसे संधि चतुर्थसे दशम संधिसे सन्धि. पंचम भावसे लाभभाव सं०से सं० छठमें बारहवां सं०से सं० इस प्रकार बारह भावोंके स्पष्ट सन्धियोंसहित होते हैं. अति सुगम होनेसे उदाहरण न लिखा. इन भाव-स्पष्टोंका प्रयोजन यह है कि, ग्रहस्पष्ट जिस भावस्पष्टपर मिले वह ग्रह उसी भावका फल देताहै. सन्धिगत यह मिश्रित फल दोनों भावोंका देताहै. परंतु यह फल युक्तिसिद्ध है. ग्रंथकर्त्ताकी उक्ति तो यह है कि जो ग्रह स्पष्ट जिस भावस्पष्टके तुल्य है वह उस भावका फल पूर्ण देताहै. सन्धिगत ग्रह फल नहीं देता इनके फल अगले तंत्रमें हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

शालिनी०-भुक्तं भोग्यं स्वेषकालान्नशुद्धे त्रिंशन्निघ्नात्स्वोदर्या-
सं लवाद्यम् ॥ हीनं युक्तं भास्करे तत्तनुः स्याद्रात्रौ लग्नं भार्द्ध-
युक्ताद्रवेस्तु ॥ २७ ॥

जब इष्टकाल सूर्योदयसे पूर्व वा पश्चात् दो घटी हो अर्थात् लग्न और सूर्य एक राशिमें हों तो पूर्वोक्त विधिसे सूर्यके भुक्त वा भोग्य पला बना कर इष्टकाल पलाओंमें घटे तो घटाय देना. न घटे तो अल्पेष्टकाल पलाओंको तीससे गुनाकर स्वोदयसे भाग लेना, फल अंशादि तत्काल सूर्य स्पष्टमें पूर्वोक्त ऋण धन क्रमसे हीन वा युक्त जैसा संभव हो करना, उपरांत अयनांश घटायके लग्नस्पष्ट होताहै. ऐसे ही दशम लग्नके लिये नतेष्ट-काल पलाओंसे करना. रात्रिका इष्टकाल हो तो सूर्य स्पष्टमें ६ राशि जोडके पूर्वोक्तविधि करनी. हेतु इसका यह है कि उदयकालिक सूर्यसे रात्रि इष्टकालपर्यंत बहुत लग्नखंड घटाये जाते हैं इसमें ७ न कुछ

अंतर हो जाताहै छः राशि जोड़नेसे बहुत लक्षखंड नं घटेंगे अंतर भी नहीं पड़ेगा सुगमता भी है ॥ २७ ॥

अनुष्टुप्—खेटे संधिद्वयांतःस्थे फलं तद्भावजं भवेत् ॥

हीनेऽधिके द्विसंधिभ्यां भावे पूर्वापरे फलम् ॥ २८ ॥

दो संधियोंके अन्तर्गत जो ग्रह है वह वही भावका फलं देताहै, और भावकी पूर्वसंधिमें ग्रह घटे तो पूर्वभावका फल देता है और ग्रहस्पष्टमें परसंधिस्पष्ट घटे तो परभावका फल देताहै ॥ २८ ॥

अनु०—ग्रहसंध्यंतरं कार्य्यं विंशत्या गुणितं भजेत् ॥

भावसंध्यन्तरेणाप्तं फलं विंशोपकाः स्मृताः ॥ २९ ॥

ग्रहस्पष्ट जिस भावमें या उसके परसंधिमें हो तो उसी संधि और ग्रहसे अंशादि अंतर करना. उस अंतरको २० से गुणकर भाव और संधिके अंतरसे भाग देकर जो मिले वह विंशोपका बल होताहै बलशून्य होनेमें फलशून्य, बलमध्यममें मध्यम और पूर्णबलमें पूर्णफल ग्रह भावका देताहै, ॥ २९ ॥

उपजा०—भौमोशनःसौम्यशशीनवित्सितारेज्यार्किमंदांगिरसो

गृहेश्वराः ॥ आद्याः ७ जाद्या रवितोपि मध्यमाः सितान्चूतीयाः

क्रियतो ह ण : ॥ ३० ॥

दर्पेश के निमित्त बलबल विचारना चाहिये इसलिये स्वग्रह उच्च हद्दा त्रैराशिक मुशल्लहः पंचवर्गी बलगणनामें प्रथम राशिस्वामी द्रक्काणस्वामी कहते हैं. कि, मेषका स्वामी मंगल, वृषका उशना (शुक्र,) मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिंहका सूर्य, कन्याका बुध, तुलाका शुक्र, वृश्चिक का मंगल धनका बृहस्पति, मकरका शनि, कुंभका शनि और मीनका बृहस्पति ये राशिस्वामी हैं. द्रेष्काण त्रिभाग को कहते हैं. एकराशिके ३० अंश होतेहैं दश दश अंशका एक एक द्रेष्काण होताहै. लग्न ग्रहस्पष्ट प्रथम द्रेष् ण १० अंश के भीतर हो तो मंगलसे गिनना, १० अंश ऊपर २० के भीतर दूसरा द्रेष्काण हो तो मंगल से छठा सूर्यसे और २० अंश ऊपर ३० के भीतर तीसरा द्रेष्काण हो तो सूर्यसे छठा शुक्रसे गिनना प्रगट चक्रमें लिखा है ॥ ३० ॥

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	राशि
मं	बु	बृ	शु	श	सु	चं	मं	बु	बृ	शु	श	अंश
सु	चं	मं	बु	बृ	शु	श	र	चं	मं	बु	बृ	अंश
शु	श	सु	चं	मं	बु	बृ	शु	श	सु	चं	मं	अंश

इंद्रवज्रा—सूर्यादितुंगेक्षमजोक्षनक्रकन्याकुलीरांत्यतुला लघैः स्युः ॥
दिग्भिर्गुणैरष्टयमैः शरैकैर्भूतैर्भसंख्यैर्नखसंमितैश्च ॥ ३१ ॥

सूर्यका उच्च मेषके दश अंशपर, चंद्रमा का वृषके ३ अंशपर, एवं मंगल का मकर के २८ पर, बुधका कन्यके १५ अंशपर, बृहस्पतिका कर्कके ५ पर, शुक्रका मीनके २७ अंशपर, शनिका तुलाके २० अंशपर परमोच्च है ॥ ३१ ॥

ग्रहाः	सु.	चं.	मं.	बु.	बृ.	शु.	श.
उच्च.	०	१	९	५	३	११	७६
	१०	३	२८	१५	५	२७	२०
नीच.	६	७	३	११	९	५	०
	१०	३	२८	१५	५	२७	२०

पजा०—तत्सप्तमं नीचमनेन हीनो ग्रहोऽधिकश्चेद्रसभा-
द्विशोध्यः ॥ चक्रात्तदंशाङ्कलवो बलं स्यात्क्रियेणतौलींद्नु-
भतो नवांशाः ॥ ३२ ॥

उच्चराश्यंशक पूर्व श्लोकमें कहे गये उससे सप्तम नीच होता है. उच्चराश्यंश-
कमें ६ राशि जोडबेसे नीचराश्यंश परम होता है. उच्च बलकी विधि कहते
हैं कि ग्रहके नीच स्पष्टको तत्काल स्पष्ट ग्रहमें घटा देना न घटे तो ग्रहस्पष्ट
में १२ जोडके घटाना, शेष ६ राशिसे ऊपर हो तो १२ में घटाके षड्भाल्य
कर लेना, फिर उसका अंशादि करके ९ का भाग देना, लब्धि उच्चबल होता
है. उदाहरण—संवत् १९४३ वैशाखकृष्ण द्वादशी शनिवारको इष्ट घटी
१३ पल ५४ सूर्यस्पष्ट ००।१८।४२।३१ सूर्यका उच्चस्पष्ट १७।०।०
नीचस्पष्ट ६।१०।०।० को रविस्पष्ट में घटाया शेष ६।८।
२।३१ इसको १२ में घटाके षड्भाल्य किया ५।२१।१७।२९

अब यही ५ । २१ । १७ । २९ के राशिको ३० से गुनाकर १५० अंश इसमें २१ जोड़दिये १७१ । १७।२९ हुये इसमें ९ से भाग लेकर १९।१। ५६।३३ । २० यह उच्चबल हुवा ऐसेही सभी ग्रहोंके उच्चबलकी रीतिहै ॥ मुशालह नवांशको कहते हैं—एक राशि ३० अंश नौभाग ये हैं.

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३।२०	६।४०	१०।०	१३।२०	१६।४०	२०।०	२३।२०	२६।४०	३०।०

मेष सिंह धनके नवांश मेषसे गिनना. वृष कन्या मंकरके मकरसे. मिथुन तुला कुम्भके तुलासे, और कर्क वृश्चिक मीनके कर्कसे यह नवांशक 'मुशालह' की रीतिहै ॥ ३२ ॥

उपजा०—मेषेगतकार्कषशरेषु भागा जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैश्वराणाम् ॥
वृषेष्टषण्णागशरानलांशाः शुक्र जीवार्किकुजेशहदाः ॥ ३३ ॥

हदा के स्वामी कहते हैं—मेषके ६ अंश पर्यन्त बृहस्पति की हदा ६ से १२ लौं शुक्रकी १२ से बीस २० लौं बुधकी २० से २५ तक मंगल की २५ से ३० लौं शनैश्वर की; वृषके ८ अंशपर्यन्त शुक्रकी ८ से १४ लौं बुधकी १४ से २२ लौं बृहस्पति की २२ से २७ लौं शनिकी २७ से ३० तक मंगलकी 'हदा' होतीहै ॥ ३३ ॥

उपजा०—मेषडंगे नगांगभागाः सौम्यास् जिजीवकुजार्कहदाः ॥
कर्केद्रितकार्कगन्धाधिभागाः कुजास्फुजिज्ज्ञेज्यशनैश्वराणाम् ॥ ३४ ॥

मिथुनके ६ अंश पर्यन्त बुधकी ६ से १२ लौं शुक्रकी १२ से १७ लौं बृहस्पतिकी १७ से २४ लौं मंगलकी २४ से ३० लौं शनिकी; के ७ अंश पर्यन्त मंगलकी ७ से १३ लौं शुक्रकी १३ से १९ लौं बुधकी १९ से २६ लौं बृहस्पतिकी २६ से ३० लौं शनिकी 'हदा' होतीहै ॥ ३४ ॥

उपजा०—सिंहेंगभूताद्रिरसांगभागा देवेज्यशुक्रार्किकुजारहदाः ॥
स्त्रिया नगाशाब्धिनगाशिभागाः सौम्योशनोजीवकुजार्किनाथाः ॥ ३५ ॥

सिंहके ६ अंश पर्यन्त बृहस्पतिकी ६ से ११ लौं शुक्रकी ११ से १८ लौं शनिकी १८ से २४ लौं बुधकी २४ से ३० लौं मंगलकी; और कन्याके ७ अंश पर्यन्त बुधकी ७ से १७ लौं शुक्रकी १७ से २१ लौं बृहस्पतिकी २१ से २८ लौं मंगलकी २८ से ३० लौं शनिकी 'हृदा' होती है ॥ ३५ ॥

उपजा०—तुले रसाष्टाद्रिनिग क्षिभागाः कोणज्ञजीवास्फुजिदारनाथाः ॥
कीटे नगाब्ध्य शरांगभागा भौमास् जिज्ञेज्यशनैश्चराणाम् ॥ ३६ ॥

तुलाके ६ अंश पर्यन्त शनिकी ६ से १४ लौं बुधकी १४ से २१ लौं बृहस्पतिकी २१ से २८ तक शुक्रकी २८ से ३० लौं मंगलकी; और वृश्चिकके ७ अंश पर्यन्त मंगलकी ७ से ११ लौं शुक्रकी ११ से १९ लौं बुधकी १९ से २४ लौं बृहस्पतिकी २४ से ३० लौं शनिकी ॥ ३६ ॥

पजा०—चापे रवीष्वंबुधिपंचवेदा जीवास्फुजिज्ञारशनैश्चराणाम् ॥
मृगे नगाब्ध्य युगश्रुतीनां सौम्येज्य कार्किकुजेशहृदाः ॥ ३७ ॥

धनके १२ अंश पर्यन्त बृहस्पतिकी १२ से १७ लौं शुक्रकी १७ से २१ लौं बुधकी २१ से २६ लौं मंगलकी २६ से ३० लौं शनिकी. और मकरके ७ अंश पर्यन्त बुधकी ७ से १४ लौं बृहस्पतिकी १४ से २२ लौं शुक्रकी २२ से २६ पर्यन्त शनिकी २६ से ३० तक मंगलकी 'हृदा' होती है ३७ ॥

उपजा०— भे नगांगाद्रिशरेषुभागाः ज्ञशुक्रजीवारशनैश्चराणाम् ॥
मीनेकैवेदानलनंदपक्षाः सितेज्यसौम्यारशनैश्चराणाम् ॥ ३८ ॥

कुंभके ७ अंश पर्यन्त बुधकी ७ से १३ लौं शुक्रकी १३ से २० लौं बृहस्पतिकी २० से २५ लौं मंगलकी २५ से ३० लौं शनिकी; और मीनके १२ अंश पर्यन्त शुक्रकी १२ से १६ लौं बृहस्पतिकी १६ से १९ लौं बुधकी १९ से २८ लौं मंगलकी २८ से ३० लौं शनिकी 'हृदा' होती है ॥ ३८ ॥

उपजा०—त्रिंशत्स्वभे विंशतिरात्मतुंगे हृदेक्षचंद्रा दशकं दृकाणे ॥
मुशाल्लहे पञ्चलवाः प्रदिष्टा विंशोपका वेदलवैः प्रकल्प्याः ॥ ३९ ॥

पंचवर्गी बलके न्यास इस प्रकारहैं, कि, गृहबलमें ३० विश्वेबल पाता है, उच्चबलमें २० विश्वे, हृदामें १५ विश्वे, द्रेष्काणमें १० विश्वे और मुशल्लहमें ५ विश्वे; इन सबमें मिलेहुये जोड़के ४ भाग देनेसे लब्ध विंशोपक बल होताहै ॥ ३९ ॥

हृदाचक्रम् ।

मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कुं	मी	राशयः
वृ	शु	कु	मं	बृ	कु	श	मं	बृ	कु	कु	शु	ग्रहाः अंशाः
६	८	६	७	६	७	६	७	१२	७	७	१२	
शु	कु	शु	शु	शु	कु	शु	शु	वृ	कु	वृ	वृ	तथा
६	६	६	६	५	१०	८	५	७	६	६	६	
कु	शु	वृ	कु	श	वृ	वृ	कु	कु	शु	वृ	कु	तथा
८	८	५	६	७	४	७	८	८	८	७	३	
मं	श	मं	वृ	कु	मं	शु	वृ	मं	श	मं	मं	तथा
५	५	७	७	६	७	७	५	५	४	५	९	
श	मं	श	श	मं	श	मं	श	मं	श	श	श	तथा
५	३	६	४	६	२	२	६	४	५	२	२	

इंद्रवज्रा—स्वस्वाधिकारोक्तबलं हृद्रे पादोनमर्द्धं समभेरिभेङ्गिः ॥

एवं समानीय बलं तदैक्ये वेदोद्धृते हीनबलः शरोनः ॥ ४० ॥

पूर्वश्लोकोक्त पंचवर्गी बलका नियम है कि, ग्रह अपने गृहादि अधिकारोंमें पूर्ण बल और मित्रकेमें चौथाई कम, समग्रहके में आधा, शत्रुके अधिकारमें चतुर्थांश बल पाताहै, जैसे—पहिले स्थानबलमें अपनी राशिका ग्रह पूरे ३०।० बल और मित्र राशिमें पादोन २२।३० समकी राशिमें आधा १५।० शत्रु राशिमें चौथाई ७।३० पाताहै, दूसरे उच्चबलमें परमोच्चपर पूरे २०।० और परम नीचमें ०।० बीचके राशियोंमें अंतर करनेसे मिलताहै, उसकी विधि (३२) श्लोक (तत्समं नीचमनेन हीनेत्यादि) में कहागयाहै (तीसरे) हृदाबलमें अपनी हृदाका ग्रह १५।० पूरा और मित्रहृदामें पादोन ११।१५ में आधा ७।३० शत्रुमें चौथाई ३।४५ बल पाताहै, चौथे द्रेष्काण बलमें अपने द्रेष्काणका ग्रह पूरे १०।० और मित्रद्रेष्काणमें पादोन ७।३० सममें आधा ५।० शत्रुमें

चौथाई २ । ३० पांचवाँ (मुशर्रह) नवांश अपने नवांशका पूरे ५ । ० बल मित्रका पादोन ३ । ४५ समयमें आधा २ । ३० शत्रुनवांशमें चौथाई १ । १५ बल पाताहै। इस प्रकार पांचों बल लेकर सबका ऐक्य एक जुदे

०	ग्रह	बल	हदा	द्रेष्का	नवांश	
स्व०	३० ०	२० ०	१५ ०	१० ०	५ ०	#
मित्र	२२ ३०	विपरीत अनुपातसे	११ १५	७ ३०	३ ४५	#
सम	१५ ०		७ ३०	५ ०	२ ३०	#
शत्रु	७ ३०		३ ४५	२ ३०	१ १५	#

कोष्ठमें स्थापन करना, उसमें ४ से भाग लेकर लाभ विंशोपका-बल होताहै। उसे भी जुदे जुदे स्थानोंमें स्थापन करना ग्रह ५ अंक पर्यन्त निकट बल ५ से १० पर्यन्त हीनबल १० से १५

लों मध्य बल १५ से २० लों पूर्ण बली कहाताहै; जैसा जिसका बल वैसा ही फलभी देताहै ॥ ४० ॥

शालिनी-क्षेत्रं होरा त्र्यब्धिपंचांगसप्तवस्वकांशेशार्कभागास्सुधीभिः॥
विज्ञातव्या लग्नसंस्थाः शुभानां वर्गाः श्रेष्ठाः पापवर्गास्त्वनिष्ठाः॥४१॥

अब द्वादशवर्गी बल कहतेहैं। राशि १ होरा २ द्रेष्काण ३ चतुर्थांश ४ पंचमांश ५ षष्ठांश ६ सप्तमांश ७ अष्टमांश ८ नवमांश ९ दशमांश १० एकादशांश ११ द्वादशांश १२ ये द्वादश वर्ग हैं। पापवर्ग और शुभ वर्ग अलग करके देखना, शुभवर्ग अधिक पापवर्ग हीन हो तो वह वर्ष शुभ होगा, विपरीत होनेमें फलभी विपरीत होताहै ॥ ४१ ॥

इन्द्रज-ओजे रवीद्रोः सम इंदुरव्योहोरे गृहार्द्धप्रमिते विचिन्त्ये ॥

द्रेष्काणपाः स्वेषु नवर्क्षनाथास्तुर्यांशपाः स्वर्क्षजकेंद्रनाथाः ॥४२॥

प्रथमवर्ग राशीश है। यहां आचार्यने पंचवर्गी प्रकरण ३० वें श्लोकमें कहादियाहै। ग्रन्थांतरोंमें, "भौमशुक्रज्ञचंद्रार्कबुधशुक्रारमन्त्रिणः ॥ शौरिशानि-स्तथा जीवो मेपादीनामधीश्वराः ॥" ऐसा है। प्रयोजन वही है १. दुसरा बल होरा विषम राशिके १५ अंश पर्यन्त सूर्यकी १५ उपरांत चंद्रमाकी समराशियें १५ अंश पर्यन्त चंद्रमाकी १५ से ३० पर्यन्त सूर्यकी होरा

होतीहै. तीसरा, द्रेष्काण प्रथम ३० अंश पर्यंत उस राशिसे नवमीं राशिके स्वामीका द्रेष्काण होताहै. इसीको त्रिभाग भी कहतेहैं. चौथा, चतुर्थांश १ राशिके ४ चारोंभागोंमें ४ केंद्रोंके स्वामी जैसे ७ । ३० अंशपर्यंत उसी राशिके स्वामीका ७ । ३० से १५ अंश पर्यंत उस राशिसे चौथी राशिके स्वामीका १५ से २२ । ३० लों उससे सातवीं राशिके स्वामीका २२ । ३० से ३० । ० पर्यंत उससे दशवीं राशिके स्वामीका चतुर्थांश होताहै ॥ ४२ ॥

अनु०—ओजर्क्षे पंचमांशेशाः कुजार्कीज्यज्ञभार्गवाः ॥

समभे व्यत्ययाज्जेया द्वादशांशाः स्वभात्समृताः ॥ ४३ ॥

पाँचवा, पंचमांश विषम राशियोंमें ६ अंश पर्यंत मंगलका ६ से १२ पर्यंत शनिका १२ से १८ लों बृहस्पति १८ से २४ लों बुधका २४ से ३० लों शुक्रका, और समराशियोंमें विपरीत ६ अंशपर्यंत शुक्रका ६ से १२ लों बुधका १२ से १८ लों बृहस्पतिका १८ से २४ पर्यंत शनिका २४ से ३० लों मंगलका पंचमांश होताहै. बारहवां (द्वादशांश) १ राशिके बारह विभाग २ अंश ३० कला होतेहैं. जितने भागमें स्पष्टहों स्वराशिसे उतने संख्यक राशि स्वामीका द्वादशांश होताहै ॥ ४३ ॥

उपजा०—लवीकृतो व्योमचरोगशैलवस्वंकदियुद्रगुणाः खरामैः ॥

भक्तो गतास्तर्कनगाष्टनंददियुद्रभागाः कुयुताः क्रियात्स्युः ॥ ४४ ॥

पूर्व श्लोकोंमें ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ अंश छोडकर द्वादशांश कह दिया. अब इनके लिये यह रीति है कि लग्नादिभाव वा बृहस्पतिकी राशिसे ३० से गुणाकर अंश छोडदिया. सभी अंश होगये. उपरांत षष्ठांशको ६ से सप्तमांशको ७ से अष्टमांशको ८ से नवमांशको ९ से दशमांशको १० से एकादशांशको ११ से गुणाकर ३० से भाग लिया लब्धि छोडदेना शेषमें १ जोडके वर्तमान अंशेश होताहै १२ से अधिक रहे तो १२ से शेष करदेना. यह श्लोकार्थ है. प्रकट यह है कि षष्ठांशको ३०

अंशसे गुनकर ६ से भाग लिया लब्धि ५ एक भाग भया. विषम राशि हो तो मेषसे गिनना, सम राशि हो तो तुलासे गिनना. जैसे—विषम राशिमें ५ अंश पर्यंत मेषके स्वामी मंगलका ५ से १० लों वृषेश शुक्रका इत्यादि. समराशिमें ५ अंश लों तुलेशशुक्रका ५ से १० लों वृश्चिकके मंगल का इसी प्रकार सब राशियोंके षष्ठांशेश जानना. सातवां सप्तमांश ३० अंशमें ७से भागदेके ४।१७। १८। १४ यह अंशादि सप्तमांश हुआ. विषम राशि हो तो अपनी राशि से गिनना समराशि हो तो उससे सातवीं राशिसे गिनना. जैसे—विषम राशिमें ४। १७। १८ ३४ अंशादि पर्यंत उसीराशिके स्वामीका ८। ३४। १७। ८ अंशादि तो उससे दूसरी राशिके स्वामीका और सम राशि हो तो ४। १७। १४। ३४ अंशादि पर्यंत उस राशिसे सप्तमराशिके स्वामीका इससे ८। ३४। १७। ८ पर्यंत. इससे दूसरा अर्थात् स्पष्ट राशिसे अष्टम राशिके स्वामीका सप्तमांश होताहै. ऐसेही सभीको जानना. आठवां अष्टमांश ३० अंशमें ८ से भागलेकर ३ अंश ४५ कला होतीहैं चर राशिमें मेषसे गिनना. स्थिरमें धनसे और द्विस्वभावमें सिंहसे. जैसे—चर राशि १। ४। ७। १०में ३। ४५ अंशपर्यंत मेषका ७। ३० लों वृषका. और स्थिरमें ३। ४५ लों धनका ७। ३० लों मकरका और द्विस्वभावमें ३। ४५ लों सिंहका ७। ३० लों कन्याका इत्यादि सभी अष्टमांश जानना. नवें नवमांश. ३० अंशमें ९से भागलेकर ३ अंश २० कला हुई; मेष, सिंह, धनका मेषसे, वृष, कन्या, मकरका मकरसे, मिथुन, तुला, कुंभका तुलासे, कर्क, वृश्चिक मीनका कर्कसे, अर्थात् त्रिकोण राशि विभागमें प्रथम चर-संज्ञकसे गिनना. जैसे—मेष सिंह धनके ३। २० लों. मेषका ६। ४० लों वृषका और वृष कन्या मकरके ३। २० लों मकरका, ६। ४० लों कुंभका नवमांश होताहै. ऐसेही सब राशियोंके नवमांश जानना. दशवां दशमांश ३० में १० का भागदेनेसे ३ अंश दशमांश हुआ. मेष और तुलाका मेषसे, वृष वृश्चिकका कुंभसे, मिथुन धनका तुलासे, कर्क मकरका सिंहसे, सिंह कुंभका कुंभसे. कन्या मीनका मिथुनसे गिनना. जैसे—मेष और

तुलाके ३ अंश लौ मेषका, ६ लौ वृषका, वृश्चिकके ३ लौ कुंभका ६ लौ मीनका इत्यादि जानना, ग्यारहवां एकादशांश ३० अंशमें ११ से भाग लेकर २ अंश ४ ३ कला ३८ विकला होतीहैं। गणना सब राशियोंमें प्रथम मेषका, दूसरा मीनका, तीसरा धनका, चौथा मकर का, पांचवां मिथुनका, छठा वृश्चिकका, सातवां तुलाका, आठवां कन्याका, नववां सिंहका, दशमां कर्कका, ग्यारहवां वृषका एकादशांश होताहै। बारहवां द्वादशांश ३० अंशमें १२ से भाग देनेसे २ अंश ३० कला हो, जिस राशिका द्वादशांश रनाहो प्रथम उसीसे गिनकर बारह राशिपर्यंत अढाई अढाई अंश प्रत्येक राशिस्वामीका द्वादशांश होताहै। कोई २ अंश गणनाके मूल-वाक्य स्पष्टतर हैं, यहां आचार्योंने ग्रंथभूयस्त्वके कारण न लिखे। ग्रंथंतरों में ये हैं,—भौमशुक्रज्ञचंद्रार्कबुधशुक्रारमंत्रिणः॥ शौरिः शनिस्तथा जीवो मेषादीनामधीश्वराः १ ॥ लघार्क जायते होरा सर्वलघुषु सर्वदा ॥ ओजराशिभवाकर्कन्दोः समे चंद्रार्कजा मताः ॥ २ ॥ मेषादिसर्वराशीनां त्रिभागेषु यथाक्रमम् ॥ आद्यं पंचनवेशानां द्रेष्काणा भणिता बुधैः ॥ ३ ॥ एकद्वित्रिचतुर्थेषु लघुपादेषु च क्रमात् ॥ स्वस्वराश्यादिकेंद्रेशा पादांशनायका मताः ॥ ४ ॥ कुजार्कीज्यबुधाः शुक्रः पंचमांशेषु नायकाः ॥ ओजराशिषु युग्मेषु ग्रहा व्यत्ययतः स्मृताः ॥ ५ ॥ मेषाद्या विषमे राशौ समराशौ तुलादिकाः ॥ विज्ञेया विधुधैरेवं राशिषष्टांशनायकाः ॥ ६ ॥ ओजराशौ स्वराश्याद्यास्समे सप्तमराशितः ॥ सप्तांशनायकाः सर्वे विज्ञेया विबुधैः स्फुटाः ॥ ७ ॥ मेषाद्याश्वरराशीनां चापाद्याः स्थिरराशिषु ॥ द्विस्वभावेषु सिंहाद्या ज्ञेयाश्चाष्टांशनायकाः ॥ ८ ॥ मेषमृगतुलाकर्कमुखाः स्युर्नवमांशकाः ॥ मेषकेशरिघन्वादिराशिचक्रे व्यवस्थिताः ॥ ९ ॥ अजकुंभधनुस्तौलि सिंहयुग्मक्रमेण तु ॥ दशांशभावका लघे ग्रहानेवं विदुर्बुधाः ॥ १० ॥ मेषमीनघटा नक्रचापालितुलकन्यकाः ॥ सिंहकर्कटकामोक्षादिका रुद्रांशनायकाः ॥ ११ ॥ स्वस्वराश्यादिका ज्ञेया द्वादशांशकनायकाः ॥ एवं लघेत्र विज्ञेया बुधैर्द्वादशवार्षिकाः ॥ १२ ॥ 'ये वामनोक्त श्लोक हैं।' प्रयोजन इनका पूर्व लिखागयाहै इसप्रकार द्वाशवर्गी जानना ॥ ४४ ॥

अनु०—एवं द्वादशवर्गी स्याद्रहाणां बलसिद्धये ॥

स्वोच्चमित्रशुभाः श्रेष्ठा नीचारिकूरतोऽशुभाः ॥ ४५ ॥

इस प्रकार ग्रहोंके बल साधनेके लिये द्वादशवर्गी है, शुभग्रह और अपने उच्चगत ग्रह मित्र राशिस्थ ग्रह शुभ होताहै, पापग्रह और नीचराशि-शत्रुराशिगत ग्रह अशुभ होताहै. उच्च वा मित्र क्षेत्रगत ग्रह पाप भी शुभ पंक्तिमें और नीच राशिगत शुभ भी पापपंक्तिमें गिना जाता है. शुभपंक्ति अधिक होनेमें शुभ, अशुभ पंक्ति अधिक होनेमें अशुभ द्वादशवर्गी कहाती है. ऐसेही फल भी जानना ॥ ४५ ॥

उपजा०—एवं ग्रहाणां शुभपापवर्गपंक्तिद्वयं वीक्ष्य शुभाधिकत्वे॥

दशाफलं भावफलं च वाच्यं शुभं त्वनिष्टं त्वशुभाधिकत्वे ॥ ४६ ॥

इस प्रकार ग्रह होरादि द्वादश वर्ग स्थापन करके शुभ पंक्ति जुदी पाप पंक्ति जुदी स्थापन करनी; शुभपंक्ति अधिक हो तो वह ग्रह दशाफल और भावफल शुभ देगा, पापपंक्ति अधिक हो तो अनिष्ट फल देगा यही विचार द्वादशवर्गीमें है ॥ ४६ ॥

उपजा०—रूपि सौम्याधिकवर्गशाली भोतिसौम्यः शुभखेच-

श्चेत् ॥ सौम्योपि पापाधिकवर्गयोगान्नेष्टे तनिद्यः खलु पापखेटः ४ ॥

शुभग्रह शुभ वर्गाधिक हो तो अति शुभ होताहै. पापवर्गाधिक होनेसे सौम्यभी निंय होताहै. ऐसेही पापग्रह शुभ वर्गाधिक होनेसे शुभ और पाप वर्गाधिक होनेसे अति निंय होताहै. द्वादशवर्गमें भी यही विचार मुख्य है ॥ ४७ ॥

उपजा०—राशीशमित्रे रिपुक्रमेण चिंत्यस्तनोस्तच्च तथैव युक्त्या ॥

भावेषु सर्वेष्वपि वर्गचक्रं विलोक्य तत्तत्फलमूहनीयम् ॥ ४८ ॥

ग्रहोंकी द्वादशवर्गी २ पंक्ति करके भावोंके साथ उनका संबंध देखना चाहिये. जैसे--लग्नेश शुभग्रह शुभ राशिमें वा मित्रराशि वा उच्च राशिमें स्थित हो तो लग्न शुभवर्गाधिक भया. इससे लग्नसंबन्धी सभी शुभ फल होंगे, जो लग्न पापाधिकवर्ग हो और उसका स्वामी पाप या पापराशिगत वा शत्रु राशि वा नीचराशिमें हो तो लग्नसंबन्धी अनिष्ट फल अधिक होगा.

जहाँ एक प्रकार शुभ एक प्रकार अशुभ होंगे; जैसे—लग्नेश शुभ शुभराशिमें नीच वा शत्रुराशिस्थ हो अथवा लग्नेश पाप मित्रोच्च राशिस्थित हो तो मिश्र फल कहना. ऐसे ही द्वितीय तृतीय भावादिकोंसे भावसंबंधी फल विचारना. किस भावमें कौन २ विचार चाहिये यह आगे कहते हैं ॥४८॥

अनु०—शरीरवर्णोचिह्नायुर्वयोमानं सुखासुखम् ॥

जातिः शीलं च मतिमाँल्लग्न्यात्सर्वं विचितयेत् ॥ ४९ ॥

तनु १ धन २ सहज ३ सुहृत् ४ सुत ५ रिपु ६ जाया ७ मृत्यु ८ धर्म ९ कर्म १० आय ११ । व्यय १२ ये द्वाहश भावों के नाम हैं. लग्नमें शरीरका शुभाशुभ कृशता वा पुष्टता वर्ण रक्तश्वेतादि (रंग) मशक तिलादि चिह्न, आयु बाल यौवनादि, अवस्था लवुदीर्घादि मान, बल(पराक्रम)सुखदुःख, ब्राह्मणादि जाति और आचरण इतने विचार करना यहां लक्षणमात्र कहाहै बुद्धिसे विशेष इन्हींमें जानलेना ॥ ४९ ॥

अनु०—सुवर्णरौप्यरत्नानि धातुर्द्रव्यं सखा धने ॥

विक्रमे भ्रातृभृत्याध्वपित्र्यस्वलितसाहसम् ॥ ५० ॥

सुवर्ण, चांदी, रत्नजात, लोहा, शीशकादि धातु, धनादि और मित्र उपलक्षणसे वस्त्र, मोती, पशु आदि धनसंज्ञक वस्तु इतनोंका विचार धनभावसे करना, और भाई, भगिनी, नोकर, मार्ग, पौत्रिक कर्मकी हानि; साहस, उपलक्षणसे व्यापार पराक्रम, उद्यमादि इतनोंका विचार सहजभावसे करना ॥ ५० ॥

अनु०—पितृवित्तं निधि क्षेत्रं भूमिं च तुर्यतः ॥

पुत्रे मंत्रधनोपायगभविद्यात्मजेक्षणम् ॥ ५१ ॥

पितृसंबन्धि वित्त शेवधि (हंडेडा) खेती आदि भूमि कर्म, घर उपलक्षण से जलज कर्म, भूमिशोधनादि, पाताल कर्म, माता सौख्य, मित्र बांधव, वाहन (यानादि) चतुर्थभावसे विचारना, और पुत्र मंत्र धन उपाय गर्भस्थिति विद्या संतान वृद्धिबन्ध उदरकर्म विनयादि पंचमभावसे विचारना. यहां पुत्र आत्मज जो वाक्य एकही अर्थके लिखेहैं इसका हेतु यह है कि दत्तकादि बारह प्रकारके पुत्र होते हैं आत्मज औरस ही होताहै ॥ ५१ ॥

अनु०—रिपौमातुलसांघ्यारिचतुष्पाद्बन्धभ्रिणान् ॥

द्यूने कलत्रवाणिज्यनष्टविस्मृतिसंकथा ॥ ५२ ॥

छठे भावमें मातुल (माताके भाई,) रोग, शत्रु, चौपाया, पराश्रय, भय; (व्रण) विस्फोटकादिसे घावका दाग, और सप्तम भावमें स्त्री व्यापार (नष्टता) कुछ वस्तु खोयेजानेका विषय, विस्मरण, भूलका विचार करना. छहमें शरीरके तुल्य सप्तमें शरीरके विचार है. ऐसेही चतुर्थसे मातृ-शरीर, दशमसे पिता, पंचमसे पुत्रका इत्यादि जानना ॥ ५२ ॥

अनु०—हताध्वकलिमार्गादि चिंत्यं द्यूने ग्रहोऽशुभः ॥

मृत्यौ चिरंतनं व्यं मृतवित्तं रणो रिपुः ॥ ५३ ॥

दुर्गस्थानं तिर्नष्टंपरिवारो मनोव्यथा ॥

सप्तमस्थानमें और भी विचार विशेष है कि चोरीकी वस्तु, कलह, मार्ग, कार्भी विचार इसी भावसे होताहै. और ७ में सभी ग्रह अशुभ हैं अष्टमभावमें पूर्वसंचित द्रव्य, आयु, धन, ऋण, संग्राम, शत्रु कोट दुर्गादि (कठिन स्थान) मृत्यु द्रव्यादि नष्ट, मानसी व्यथा इतना विचार है ॥ ५३ ॥

अनु०—धर्मैरतिस्तथापन्थाधर्मोपायं च चिंतयेत् ॥ ५४ ॥

व्योम्निमुद्रां परं पुण्यं राज्यं वृद्धिं च पैतृकम् ॥

नवम भावमें धर्मकार्य में प्रीति अप्रीति मार्ग पुण्य पाप भाग्य ऐश्वर्यका विचार ॥ ५४ ॥ और दशम स्थानमें मुद्रा (मोहर) पुण्यकर्म, राज्यवृद्धि, पितृ-द्रव्य, और पितृशरीर इतने विचार करने ॥

अनु०—आये सर्वार्थधान्यार्धकन्यामित्रचतुष्पदाः ॥ ५५ ॥

राज्ञोवित्तं परीवारलाभोपायांश्च भूरिशः ॥

व्ययैरिनिरोधार्तिव्ययादि परिचितयेत् ॥ ५६ ॥

गुप्त प्रकट धन, सुवर्ण, मणि, मुक्तादिकोंका लाभ, चतुष्पद, राजद्रव्य, मित्र, परिवार, कन्या, भूषण वस्त्रादि अनेक वस्तुओंका लाभ, हानि ग्यारहवें भावसे विचारना. बारहवें भावमें शत्रु का निरोध. पीडा. धनव्यय. नेत्र कर्ण रोगादि और नीच कर्म इत्यादि विचार करना ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

अनु०—लग्नांशुद्वानकर्माणि केंद्रमुक्तं च कंटकम् ॥

चतुष्टयं चात्र खेटो बली लं विशेषतः ॥ ५७ ॥

लग्न १ चतुर्थ ४ सप्तम ७ दशम ११ इन भावों की संज्ञा केंद्रकंटक और चतुष्टय है चकारसे अनुक्त यहभी भास होताहै कि, केंद्रोंसे द्वितीयस्थान २ । ५ । ८ । ११ षण्णफर और इनसे भी दूसरे ३ । ६ । ९ । १२ ये आपोक्लिम कहते हैं केंद्रमें जो ग्रह है वह बली होताहै केंद्रोंमें भी लग्नका विशेष बलवान् होताहै जन्म वर्ष प्रश्न मुहूर्तादिकों में ऐसेही सर्वत्र विचार करना चाहिये ॥ ५७ ॥

अनु०—लग्नकर्मास्ततुर्व्यायसुताकस्थो बली ग्रहः ॥

यथादिमं विशेषेण सत्रिवित्ते चंद्रमाः ॥ ५८ ॥

बलवान् ग्रह लग्न १ कर्म १० अस्त ७ तुर्व्य ४ आय ११ सुत ५ अंक९ इन स्थानोंमें अधिक बली होकर शुभफल अधिक देताहै इसमें भी विशेष यह है कि, नवम की अपेक्षा पंचम इससे ग्यारहवां ग्यारहवेंसे चतुर्थ चतुर्थसे सप्तम सप्तमसे दशम दशमसे लग्नका क्रमसे अधिक बली होताहै. यह नैसर्गिक बलहै. और चन्द्रमा नवमें द्वितीय भावोंमें भी पूर्वोक्तभावों के तुल्य बली होताहै इसमें भी द्वितीय से नवम विशेष है ॥ ५८ ॥

अनु०—कुजः सत्रि पृच्छार्यां सूतौचान्यत्रचितयेत् ॥

भावानवेत्थं शस्ताःस्युः स्वामिसौम्यैर्युतोक्षिताः ॥ ५९ ॥

पूर्वोक्तभावों से विशेष मंगल नवम भावमेंभी बलाधिक होताहै. यहविचार प्रश्न जन्म और वर्षमुहूर्तादिकोंमें सर्वत्र करना ये भावशुभ हैं इनमें ग्रह बली होकर शुभ फल अधिक देताहै. और अपने स्वामी व शुभ ग्रहसे युक्त वा दृष्ट जो भावहै वह अपने संबंधी फलको अच्छा देताहै. स्वामी और शुभ ग्रह युक्त वा दृष्ट न हो तो अपना (फल) मध्यम न अतिशुभ न अतिनेष्ट

देताहै. जब पापग्रह और स्वामीके शत्रुग्रहसे भावयुक्त वा दृष्ट हो तो अपने फलोंको (अनिष्ट) बुरा करदेताहै, जब स्वामीसे अन्य ग्रह कुछ शुभ और कुछ अशुभ हो तो मिश्रफल देताहै जब भले या बुरे किसी ग्रहसे युक्त वा दृष्ट न हो तो मध्यम फल देताहै ॥ ५९ ॥

अनु०—दीप्तांशातिक्रमेशस्ताइमेपीति विचिन्तयेत् ॥ ६० ॥

पूर्वोक्त स्वामी शुभग्रह योगदृष्टिमें बुध बृहस्पतिके योगदृष्टिमें चन्द्रमा शुक्रकी अपेक्षासे विशेष शुभ होता है. रिष्फ १२ अष्ट ८ रिपु ६ये स्थान नेष्ट हैं इनको त्रिकभी कहतेहैं इसमें ग्रहबल हीन होकर अशुभ फल विशेष देताहै इनमें ग्रह अपने दीप्तांशोंके भीतर उक्त फल देताहै जब दीप्तांश से अधिक अंशपर पहुँच जाय तो अशुभ फल नहीं देता दीप्तांश सूर्यके १५ चन्द्रमाके १२ मंगलके ८ बुधके ७ बृहस्पतिके ९ शुक्रके ७ शनिके ९ इस प्रकार सर्वत्र भाव तथा ग्रहोंकी प्रीति विचारनी ॥ ६० ॥

उपजाति—त्रिराशिपाःसूर्यसितार्किशुक्रा दिनेनिशीज्येन्दु-
बुधक्षमाजाः ॥ मेषाच्चतुर्णा हरिभाद्रिलोमं नित्यंपरेष्वा-
र्किकुजेज्यचंद्राः ॥ ६१ ॥

अत्र त्रिराशीश कहते हैं, मेषसे कर्क लौं सिंहसे वृश्चिक लौं धनसे मीन पर्यंत राशिचक्र के ३ भाग हुये इससे त्रिराशीश नाम हुआ इनके स्वामी ऐसे हैं कि दिनके वर्षप्रवेशमें मेषका सूर्य, वृषका शुक्र, मिथुन का शनि, कर्क का शुक्र और रात्रिवर्षप्रवेशमें मेषका बृहस्पति, वृषका चंद्रमा, मिथुनका बुध, कर्कका मंगल, अब सिंहसे विपरीत अर्थात् मेषादिकोंके जो दिनके वे सिंहादिकोंके रात्रिके और रात्रिवाले दिनके जैसे दिनके सिंहका गुरु, कन्याका चंद्रमा, तुलाका बुध, वृश्चिकका मंगल, उपरांत धनका शनि मकरका मंगल, कुंभका बृहस्पति, मीनका चंद्रमा ये दिन रात्रिके वही स्वामीहैं जिसका विस्तार चक्रमें भी लिखा है ॥ ६१ ॥

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	राशि.
सू	शु	श	शु	बृ	चं	बु	मं	श	मं	बृ	चं	दिनमें.
गु	चं	बु	मं	सू	शु	श	शु	श	मं	बृ	चं	रात्रिमें

(अनु०)—वर्षेशार्थदिननिशाविभागोक्तास्त्रिराशिपाः ॥

पंचवर्गीबलाद्यर्थद्रेष्काणेशान्विचिंतयेत् ॥ ६२ ॥

एकतो त्रिराशीश, द्रेष्काणको कहते हैं. दूसरे मेषादि दिनरात्रिविभाग-
कोभी त्रिराशीश कहते हैं. इसमें कौनसा लेना इस लिये यह श्लोक है कि,
दिनरात्रि विभागका त्रिराशीश तो वर्षेश निर्णयको लेना. क्योंकि पंचवर्गीमें
अधिकबली वर्षेश होताहै. परंतु पंचाधिकारियोंमें नहीं होगा तो वर्षेश नहीं
होता. पंचाधिकारी जन्मलग्नेश वर्षलग्नेश मुन्थेश त्रिराशीश दिनमें सूर्य
राशिपति रात्रिवर्ष प्रवेशमें चंद्रमाके राशीशये ५ होतेहैं, इन्हीके बीचका कोई
जिसकी लग्नपर दृष्टि अधिक होवे वह वर्षेश होताहै. पंचवर्गी वर्गमें बली हो तो
विशेष है हीनबली मध्यबली हो तोभी पंचाधिकारियोंमेंसे लग्नपर दृष्टिवाला
वर्षेश होताहै. कहीं चंद्रमा वर्षेश नहीं होता है ऐसाभी लिखा है, जहां सर्व-
था चंद्रमाहीकी प्राप्ति वर्षेश होनेकी हो तो कैसे करना. इसकी व्यवस्था ऐसी
है कि, चंद्रमा जिसके साथ इत्थशाल कर्ताहो वहवर्षेश होगा. फल चंद्रमाके
तुल्य देगा. चंद्रमा स्वयं वर्षेश तोभी नहीं होता. दूसरे त्रिराशीश द्रेष्काण
कोभी कहतेहैं वह पंचवर्गीबलमें लेना यहां पंचाधिकारियोंमें त्रिराशीश
इत्यादि. यही लेना ॥ ६२ ॥

(शार्दूलविक्रीडित)—श्रीगर्गान्वयभूषणं गणितविधिंतामणिस्त-
त्सुतोऽनंतोऽनंतमतिर्व्यधात्खलमतध्वस्त्यैजनुःपद्धतिम् ॥ तत्सुनुः
खलु नीलकंठविबुधो विद्वच्छिवानुज्ञया संतुष्ट्यैव्यदधाद्ब्रह्मप्रकरणं
संज्ञाविवेकेऽमलम् ॥ ६३ ॥

ग्रंथकर्ता अध्यायके स्थानमें अपने नामादि श्लोकसे प्रकाश कर्ताहै कि,

श्री शोभा विद्याविलासयुक्त गर्गाचार्य्यके वंशका भूषण स्वरूप और गणितशास्त्रज्ञ चिंतामणि नामा आचार्य्यका पुत्र, अनंत नामा दैवज्ञ जिसकी ज्योतिष शास्त्रमें अनंतबुद्धि थी और जिसने जनुःपद्धति (जातक ग्रंथ) दुष्टजनोके मत काटनेनिमित्त रचे. इनका पुत्र नीलकंठ नामा पंडित महाभाष्यादि शास्त्रपारंगमने वेदशास्त्र और श्रौतस्मार्त्त कर्मानुष्ठान शील दाक्षिणात्य शिवनामाब्राह्मणके आज्ञानुसार समरसिंहोक्त ताजिक शास्त्रके आर्य्या-छंदोंको दुर्योजक समझकर इंद्रवंशा प्रभृति अनेक छंदोंमें और ताजिक ग्रंथोंका प्रकार सहित, इस संज्ञा प्रकरणमें ग्रह प्रकरण बारह भाव पंचवर्गी द्वादशवर्गी प्रभृति सविस्तर कहे ॥ ६३ ॥ इति महीधरकंतायां ताजिकनीलकंठी-भाषायां राशिस्वभावनिर्माणपंचवर्गीभावकृत्यप्रकरणग्रहाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

(उपजाति)—सूर्य्योनृपोनाचतुरस्रमध्यंदिनेंद्रदिक् स्वर्ण
चतुष्पदोग्रः ॥ सत्त्वं स्थिरस्तित्तपशुक्षितिश्च पित्तंजरन्पाटल
मूलवन्यः ॥ १ ॥

अब ग्रह स्वरूप प्रकरणमें प्रथम सूर्य्यका स्वरूप कहतेहैं कि, जातिमें राजा (क्षत्रिय) पुरुष, चतुरस्र मध्याह्नबली, पूर्वदिशाका स्वामी, सुवर्ण धातु स्वामी अश्वदि चतुष्पदोंका स्वामी, पाप (क्रूर) सत्वप्रधान. सद्गुणवान् स्थिर प्रकृति. तिक्त (तीता) रसको प्रियमाननेवाला पशु भूमि-चारी पित्तप्रकृति वृद्धावस्था. श्वेतरक्तवर्ण मूलवस्तु वनचारी ॥ १ ॥

(उपजातिच्छन्दः)—वैश्यः शशी स्त्रीजलभूस्तपस्वी गौरो
पराह्लांबुगधातुसत्त्वम् ॥ वायव्यदिक्श्लेष्मभुजंगरूप्यस्थूलो युवाक्षा-
रशुभःसिताभः ॥ २ ॥

चंद्रमार्का स्वरूप, वैश्यजाति वणिग्वृत्ति स्त्रीग्रह जल भूमिचारी. तपकर. नेवाला. उज्ज्वल वर्ण (गौररंग) अपराह्नबली जलचारी गैरिकादि धातु स्वामी सत्वप्रधान वायव्यदिशाका स्वामी, श्लेष्म (क्रफप्रधान) भुजंग (सर्प) का स्वामी रौप्य द्रव्यका पति. स्थूल तरुणावस्था. लवणादिक्षार रसप्रधान, सौम्यग्रह शुभवर्ण. इतने रूपादि चंद्रमाके हैं ॥ २ ॥

(उप०)—भौमस्तमः पित्त वोग्रवन्योमध्याह्नधातुर्थमदि चतुष्पात् ॥
नाराट्चतुष्कोणसुवर्णकारोदग्धावनीव्यङ्गकटुश्च रक्तः ॥ ३ ॥

मंगल तमोगुणी. पित्त प्रकृति युवावस्था, उग्र, पापग्रह, वनचारी, मध्याह्नबली. धातु प्रधान. दक्षिण दिशाका स्वामी, चौपाया पुरुष ग्रह. राजा यद्वा क्षत्रियजाति. चौकोण रूप. स्वर्णकारादियोंका स्वामी. दग्धभूमिचारी अंगहीन. कड़वारसप्रिय. ताम्रवर्ण. ताम्रादिद्रव्यका स्वामी. इतने ० मंगलकेहैं ॥ ३ ॥

(उप०)—ग्राम्यःशुभोनीलसुवर्णवृत्तःशिश्वि कोच्चः समधातुर्जः ॥

श्मशानयोषोत्तरदिक्प्रभातं शूद्रः खगः सर्वरसो रजोः ॥ ४ ॥

बुध ग्राम्य सौम्यग्रह नीलरंग सुवर्णधातुका स्वामी (वर्तुल) वृत्ताकार बाल्यावस्था ईर्ष्ये ऊंची भूमिका चारी, सम धातुजीव वात पित्त कफ तीनों बराबर जीवरक्षा करनेवाला श्मशानवासी ग्रह उत्तर दिशाका स्वामी प्रातःकालबली शूद्रवर्ण पक्षिजाति कटुकादि सर्व रसप्रधान रजोगुणी है ॥ ४ ॥

उप०—गुरुः प्रभाते नृशुभेशदिग्द्विजः पीतो द्विपाद्ग्राम्य तजीवः ॥
वाणिज्यमाधुर्य रालयेशो वृद्धः सुरत्नं समधातुसत्त्वम् ॥ ५ ॥

बृहस्पति प्रातः काल बली, पुरुष, सौम्यग्रह, ईशान दिशाका स्वामी ब्राह्मणवर्ण, पीतरंग, दोपैया, ग्रामांतरचारी, सुवृत्ताकृति, जीवप्रधान, वाणिज्य का स्वामी. मधुर रसप्रिय. देवतालय स्वामी, वृद्धावस्था, पुष्परागादि सुरत्न स्वामी, समधातु (वातपित्तकफात्मक) सत्त्वगुण प्रधान है ॥ ५ ॥

उपजाति—शुक्रः शुभः जलगोपराः श्वेतः कफी रूप्यरजोम्लमूलम् ॥ विप्रो दिग्मध्यवयोर्तीशोजलावनिः स्निग्धरुचिर्द्विपाच्च ॥ ६ ॥

शुक्र सौम्यग्रह स्त्री जलचारी अपराह्नबली श्वेतवर्ण कफप्रकृति रूपा धातु रजोगुणी. खट्टा रसप्रिय. मूल वस्तुस्वामी ब्राह्मण वर्ण. आग्नेय दिशाका स्वामी. युवावस्था. रति क्रीडारसप्रिय. जलमयभूमिवासी कोमल चपु द्विपाद मनुष्यजाति है ॥ ६ ॥

उपजाति—शनिर्विहंगोनिलवन्यसंध्या शूद्रांगनाधातुसमःस्थिरश्चा॥

ॐः प्रतीचीतुवरोतिवृद्धोत्करंक्षितीड् दीर्घसुनीललोहम् ॥ ७ ॥

शनि पक्षिजाति, वायु प्रकृति. वनवासी संध्यावली शूद्रजाति. स्त्रीग्रह समधातु. स्थिर क्रूर पश्चिम दिशाका स्वामी कृपाय (काथ कांजिक आदि) रसाप्रिय. अतिवृद्धावस्था उत्कर भूमिका स्वामी. दीर्घाकृति मुन्दरनीलवर्ण लोहधातु. ऐसा रूप शनिकाहै ॥ ७ ॥

उपजाति—राहुस्वरूपंशनिर्वान्निपादजातिर्भुजंगोस्थिपनैर्ऋतीशः ॥

केतुः शिखी तद्ददनेकरूपः खगस्वरूपात्फलमित्थमृह्यम् ॥ ८ ॥

राहुका स्वरूप शनिके तुल्यहै. परन्तु निपाद जाति. सर्पाकार मृत हड्डियों का स्वामी. नैर्ऋत्यदिशाका स्वामी. इतना विशेषहै. और केतुका रूप शनि यद्वा राहुके तुल्यहै. परन्तु शिखावान् और तुल्य बहुस्वरूपवालाहै इतना विशेषहै, ग्रहस्वरूपका प्रयोजन जैसे राशि स्वरूपादि बतलानेमें, ब्राह्मणादि जाति, बाल्यादि अवस्था, ग्रामारण्यादि स्थानज्ञान, वाग्वादि प्रकृति. चतुरस्रादि आकृति पाटलादि वर्ण विचार कहते हैं अथवा कैसा शत्रु वा मित्र मिलेगा, इत्यादि प्रश्नमेंभी यही विचार है बलवान् ग्रहके सदृश मूर्ति और ताम्रादि धातु. जन्म वर्ष यात्राप्रश्नादिमें कहतेहैं ॥ ८ ॥

वर्षलेखनक्रम, शक मास तिथ्यादिके उपरान्त ग्रहतात्कालस्पष्ट, भावस्पष्ट ग्रहकुंडली, तदनंतर मुन्था कुंडली, नवांश अर्थात् मुशाल्लह द्रेष्काण अर्थात् द्रिष्काण हद्दा और जन्म कुंडली स्थापन करके, पंचवर्गीं द्वादशवर्गीं चक्र स्थापन करना, तदनंतर पंचाधिकारी और षोडश योग विचारार्थ स्पष्ट दृष्टिचक्र स्थापन करना, उपरान्त सहम और दशा अन्तर दशाका न्यास होताहै, यहसूक्ष्म न्यास है, विशेष वर्षपत्रमें बहुत प्रकार चक्र और दशा लिखीजातीहैं,

अथ ग्रहाणां वर्णादिच ।

ग्रह	सूर्य	चंद्रमा	मंगल	बुध	वृहस्पति	शुक्र	शनि	राहु	केतु
वर्ण	क्षत्रिय	वैश्य	क्षत्रिय	शूद्र	ब्राह्मण	ब्राह्मण	शूद्र निषाद	निषाद	निषाद
पुंस्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	स्त्री	पुरुष	पुरुष
आकार	चतुरस्र	वर्तुल स्थूल	चतु ष्को.	वृत्त	वृत्त	दीर्घ	दीर्घ	दीर्घ	पुच्छ
समय	मध्या	अपरा	मध्याह्न	मभात	मभात	अपरा	अपरा	अपराह्न	अपराह्न
दिशा	पूर्व	वायव्य	दक्षिण	उत्तर	ईशान	आग्नेय	पश्चिम	नैऋत्य	नैऋत्य
धातु	सुवर्ण	रौप्य	सुवर्ण	कांस्थादि मि. वा.	हीरसुव र्ण	रौप्य	लोह	लोह	लोह
पाद	चतु ष्पाद	बहुपाद	चतु ष्पाद	द्विपाद	द्विपाद	द्विपाद	भुजंग अपाद	अपाद	अपाद
सौम्या दि	उग्र	सौम्य	उग्र	शुभ	शुभ	शुभ	पाप	पाप	पाप
गुण	सत्त्व	सत्त्व	तम	रज	सत्त्व	रज	तम	तम	तम
चरादि	स्थिर	चर	चर	द्विस्व भा.	स्थिर	चर	पक्षी स्थिर	चर	पक्षी
रस	तिक्त	क्षार	कटुक	सर्वरस	मधुर	अम्ल	कषाय काथ	कषाय	कषाय
भूमि	पृथुप्रा य	जलभू	दग्ध	इमशा.	वाणि. सुराल.	जलभू	उत्कर	ऊपर	ऊपर
पित्तादि धातु	पित्त	श्लेष्म	पित्त	समधा.	समधा.	कफ शुक्र	वायु	वायु अस्थप	वायु
अव स्था	वृद्ध	युवा	युवा	युवा	वृद्ध	युवा	अ० वृद्ध	वृद्ध	वृद्ध
वर्ण	पाटल	गौर श्वेत	रक्त	नील	पीत	श्वेत	नील	नील	धूम्र
धात्वा दि	मूल	जीव	धातु	जीव	जीव	मूल	मूल	धातु	धातु
स्थान	वन	जल	वन	ग्राम	ग्राम	ग्राम	संधि	विवर	विवर

(शार्दूलवि०)—दृष्टिः स्यान्नवपञ्चमे बलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा पादोनाखिलकार्यसाधनकरी मेलापकारण्योच्यते ॥ गुप्तस्नेहकरी तृतीयभवने कार्यस्यसंसिद्धिदान्यशोना कथिता तृतीयभवनेषड्भागदृष्टिर्भवे ॥ ९ ॥

अब दृष्टिका विचार कहते हैं, कि ग्रह अपनी आक्रांत राशिसे नवम और पंचमस्थ ग्रह, अथवा भावको पादोन ४५ । ० दृष्टिसे देखता है यह बलवान् दृष्टि है, मेलापका इस्का नाम है परस्पर प्रीति देती है, मित्रस्वजनादियोंका सुख और धन सम्पत्ति देती है, यह प्रत्यक्ष स्नेहदृष्टि हुई सम्पूर्ण कार्य यह भावजन्य साधन करती है, । द्वितीय—स्वकीय स्थानसे तृतीय ३ स्थानमें और ११ एकादशस्थानमें क्रमसे तृतीयांशोन ४०।० तथा षड्भाग १०।० दृष्टि होती है इस्कानाम गुप्तस्नेहा, और सर्वत्र कार्य सिद्धि देनेवाली दृष्टि होती है, ये दोनहूँ ३।११ दृष्टिस्नेह बढ़ावनेहारी पुत्रसुख और आयु धनको बढ़ाती है ॥ ९ ॥

(शार्दूल०)—दृष्टिःपादमिता चतुर्थदशमे गुप्तारिभावास्मृतान्योन्यसप्तमभेतथैकभवनेप्रत्यक्षवैराखिला ॥ दुःख त्रितयंक्षुताह्वयमिदं कार्यस्य विध्वंसकृतसंग्रामादिकलिप्रदं दशदशमाःस्युर्द्वादशांशांतरे ॥१०॥

यह अपनी आक्रांत राशिसे चतुर्थ ४ दशम १० स्थानमें चतुर्थांश १५ कलादृष्टि देखता है, इस्का नाम गुप्तारि दृष्टि है, और परस्पर सप्तम ७ भावमें पूर्णदृष्टि ६० कला देखता है, इस्का नाम प्रत्यक्षवैरा है, और ऐसेही एक भावस्थ ग्रहोंमेंभी प्रत्यक्षवैरादृष्टि होती है, ये तीनों दृष्टि क्षुत संज्ञक हैं अनिष्टफल देती हैं कार्यका नाश करनेवाली, संग्राम कलह आदि क्लेशफल करती हैं, यहां प्रत्यक्षस्नेहा १ गुप्तस्नेहा २ गुप्तवैरा ३ प्रत्यक्षवैरा ४ और एक स्थानस्थिता, अत्यन्तवैरा ५ पांच प्रकार दृष्टि कही हैं, परन्तु वारह अंशके भीतर अर्थात् जो देखनेवाला है उसके स्पष्ट अंशोंसे जिसे देखता है इसके स्पष्ट अंश वारह १२ अंशके भीतर हो तो दृष्टिका उक्तफल पूर्ण देता है वारह अंशके उपरांत कुछ लक्षणमात्र उक्तफलको देता है, पूराफल नहीं देता है इसका गणित उदाहरणसहित आगे कहते हैं ॥ १० ॥

(उपजाति०)—अपास्यपश्यन्निजदृश्यखेटादेकादिशेषध्रुवलि-
प्तिकाःस्युः॥ पूर्णखवेदास्तिथयोक्षवेदा स्वषष्टिरभ्रंशरवेदसंख्या॥११॥
तिथ्यः खचंद्रावियदभ्रतर्काः शेषांकयातैष्यविशेषघातात् ॥ लब्धं
खरामैरधिकोनकैष्येस्वर्णध्रुवेताः स्फुटदृष्टिलिप्ताः ॥ १२ ॥

इन दोश्लोकोंका युग्म होनेसे अर्थ दोनोंका इकट्ठे लिखतेहैं कि, जो ग्रह देखता है वह द्रष्टा और जिसे देखता है वह दृश्य कहाताहै. दृश्य ग्रह राश्यादिमें द्रष्टाग्रह राश्यादि स्पष्ट घटाय देना. शेष एक आदिक राशिमें शून्यादि कलात्मक दृष्टि ध्रुवक होताहै. जैसे एक शेष होतो दृष्टि ध्रुवक शून्य हुवा. दो शेष रहनेमें ४० तीन शेष में १५ चारमें ४५ पांचशेषमें ० छः में ६० सातमें ० आठमें ४५ नौमें १५ दशमें ११ ग्यारहमें ० बारहमें ६० जहां शून्यरहै, जैसे १।५।७।११ में है तो दृष्टि साधन प्रकार ऐसाहै कि, दोनों

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
०	४०	१५	४५	०	६०	०	४५	१५	१०	०	६०

स्पष्टोंके अंतरसे शेष अंशादिका शेषांक नामहै तथा प्राप्त ध्रुवक और ध्रुवकको अंतरयातैष्य विशेष नामक हैं. शेषांकको यातैष्य विशेषसे गुणना तीससे भागलेना लब्धि, पूर्वोक्त ध्रुवकोंमें जैसा गत गम्य है. आगेका अधिक होतो धन करना आगेका ध्रुवक पूर्व ध्रुवकसे न्यून हो तो ऋण करना. इस प्रकार दृष्टिकला सिद्ध होतीहै. (उदाहरण) भौमस्पष्ट ४।१३।३७।९ शुक्र १।२४।५२।४५ इनकी आपसमें चतुर्थ दशम दृष्टिहै. यहां द्रष्टा शुक्र और दृश्यमंगल है. भौमस्पष्ट में शुक्रस्पष्ट घटाया शेष २।१८।४४।२४ राशिशेष रही तो २ का ध्रुवक ४० गत ध्रुवक हुवा. एष्य ध्रुवक ३ के नीचेका १५ है.इन्का अंतर २५ शेष अंशादि १८।४४।२४ गुन दिये ४६ ८।३०।० अंशके स्थानमें ३० से भाग दिया लब्धि कलादिफल १५।३७।० अग्रिम ध्रुवक अधिक होता तो यह गत ध्रुवकमें जोड़ देनाथा. यहां अग्रिम १५ गत ४० से न्यून होतो ४० में लब्धि घटाच दिया शेष २४।२३।० यह कलादि दृष्टि हुई जव मंगलकी दृष्टि शुक्र परगि-

ननी है तो द्रष्टा मंगल दृश्य शुक्र हुआ पूर्ववत् विधीसे दृष्टि १३।७।२४ होती है ऐसेही सभीका जानना ॥ ११ ॥ १२ ॥

(शार्दूल वि०)—पश्यन्मित्रदृशा सुहृद्रिपुदृशा शत्रुः समास्त्वन्यथा तिथ्यकार्ष्णिनगांकशैलखचराः सूर्यादिदीप्तांशकाः ॥ चक्रेवामदगुच्यते बलवती मध्याद्यथावेश्मनीत्येकक्षीपिदगुच्यतेथजननीत्येके विदुःसूरयः ॥ १३ ॥

नवम पंचमकी प्रत्यक्ष स्नेहदृष्टि जो ग्रह देखता है. वह तत्काल, अधिमित्र होता है. और जो तीसरे ग्यारहवेंमें गुप्त स्नेह दृष्टि देखता है. वह तात्कालमें मित्र है, जो ग्रह चतुर्थ दशममें गुप्त शत्रु दृष्टि देखता है वह तात्कालमें शत्रु होता है; और जो १।७ स्थानोंमें प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि देखता है वह अधिशत्रु होता है इनसे उपरांत २।६।८।१२स्थानोंमें दृष्टि तो गणितसे कियद्भागमात्र जैसे कही ०।० भी होजाती है, परंतु तत्कालमें पूर्णभागदृष्टि न होनेसे वह सम कहाता है यह तात्काल मैत्री हुई और नैसर्गिक मैत्री ताजिकांतरोंसे यह है कि, “मित्राण्यारशांशक्रसाचिवाः सौम्यार्कदेवाचिंता जीवार्कक्षणदाधिपा शनिसितौ मंदज्ञशुक्रा इमे ॥ सूर्यात्स्यू रिपवश्च ताजिकप्रते शेपा बुधैश्चोदिताः” इति १ इसका अर्थ चक्रसे समझना ये नियत नैसर्गिकमैत्रीचक्रहै ।

ग्रहाः	सू	चं	मं	बु	बृ	शु	श	रा
मित्राणि	चं	बु	सू	शु	शु	बु	बु	बु
	मं	सू	चं	श	बु	श	शु	शु
	बृ	बृ	बृ					
शत्रवः	बु	बु	बु	सू	सू	सू	सू	सू
	शु	शु	शु	चं	चं	चं	चं	चं
	श	श	श	मं	मं	मं	मं	मं
				बृ	बृ	बृ	बृ	बृ

मित्र शत्रु हैं. प्रयोजन कहते हैं कि जो ग्रह नैसर्गिक मैत्री और तत्कालमें भी मित्र है वह अधिमित्र होता है, जो नैसर्गिकमें शत्रु और तात्कालमें भी शत्रु है वह अधिशत्रु होता है. जो एक चक्रमें मित्र दूसरेमें शत्रु है वह

समकहाता है. परंतु यह मत जातकोंका मुख्य है. मित्रामित्रीका विचार पूर्वोक्त पंचवर्ग्यादिविचारमें काम आता है. लग्नादि द्वादश भाव चक्रमें

वाम दक्षिण दो प्रकार दृष्टि होती है। जैसे लग्नसे सप्तमपर्यंत दक्षिण दृष्टि और सप्तमसे लग्नपर्यंत वामदृष्टि होती है; प्रयोजन यह है कि, एक भावस्थदृष्टि निर्बल और वामदृष्टिकी अपेक्षा दक्षिण दृष्टि बलवती होती है इसमें इनमेंसे दशमस्थ ग्रहपर सप्तमस्थके चतुर्थ होनेसे अतिबलवती दृष्टि होती है और किसी २ आचार्य्योंका मत है कि एक स्थान स्थित ग्रहोंकी परस्पर दृष्टिभी अति बलवती अर्थात् कार्य साधन करनेवाली होती है। विशेषतः शुभफल देती है। अब दीमांश कहते हैं—सूर्यके १५ अंश एवं चन्द्रमाके १२ मंगलके ८ बुधके ७ गुरुके ९ शुक्रके ७ शनिके ९ राहु केतु शनिवत् ९ । ९ दीमांश हैं, मतान्तरसे सभी ग्रहोंके दीमांश बारह मात्र हैं, दृश्यग्रह द्रष्टाग्रहके दीमांशके भीतर होवे तो इत्थशाल तथा सम्बन्ध योगादिफल शुभ वा अशुभ पूरा देता है। दीमांशसे ऊपर होजानेमें फल पूरा नहीं देता। यही दीमांशोंका तात्पर्य है; आगे षोडश विशेष योगमें काम आवेगा ॥ १३ ॥

(अनु०)—पुरःपृष्ठेस्वदीमांशैर्विशिष्टं क्फलं ग्रहः ॥ दद्यादति क्रमेतेषामध्यमं क्फलं विदुः ॥ १४ ॥ इति नीलकंठ्यां ग्रहचारदृष्टि-विचाराऽध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

दीमांशोंका प्रयोजन विशेष कहते हैं कि जो ग्रह नवम पंचमादि दृष्टि देखता है और जिसे देखता है ये दोनहूँ अपने दीमांशोंके भीतर हो तो इत्थशाल और दृष्टि आदिका नियत फल विशेष देते हैं। जो दीमांशोंसे अधिक अंशपर द्रष्टा दृश्य ग्रह हों तो उक्त फल साधारण देते हैं ॥ १४ ॥

इति महीधरकृतायां नीलकंठीभाषायां ग्रहचारदृष्टिविचारोऽध्यायद्वि० ॥ २ ॥

अथ षोडशयोगाध्यायः ।

(उपजाति०)—प्रागिक्कबालोऽपरइंदुवारस्तथेत्यशालोऽपरई-शराफः ॥ नक्तंततः स्याद्यमयामणूऊकंबूलतोगैरिकबूलमुत्तम् ॥ १ ॥


(इंद्रवज्राच्छं०)—खल्लासरं रद्मथोदुफालिकुत्थंचदुत्थोत्थ दिवीरनामा ॥ तंवीर तथा दुरफश्च योगाः ६ : षोडशैषां कथयामि लक्ष्म ॥ २ ॥

अब षोडश योगाध्यायमें प्रथम इनके नाम कहते हैं. पहिला इक्कवाल, दूसरा इंदुवार एवं इत्थशाल ३ ईशराफ ४ नक्त ५ यमया ६ मणूऊ ७ कम्बूल ८ गैरिकंबूल ९ खल्लासर १० रद ११ दुफालिकुत्थ १२ दुत्थोत्थदिवीर १३ तंवीर १४ कुत्थ १५ दुरफ १६ ये संज्ञा हैं इनके लक्षण आगे कहते हैं ॥ ० (२)

(वसन्तति०)—चेत्कंटकेपणफरेचखगाःसमस्ताःस्यादिक्रवाल-
इतिराज्यसुखातिहेतुः ॥ आपोक्लिमे यदि खगाःसकिलेन्दुवारो
न स्याच्छुभः कचन ताजिकशास्त्रगीतः ॥ ३ ॥

जो सभी ग्रह कंटक १।४।७।१० और पणफर २।५।८।११ स्थानोंमें हों अर्थात् आपोक्लिम ३।६।९।१२ में कोई ग्रह न हो तो इस योगका नाम, इक्कवाल है, इसका फल, राज्य सुख है, वह मनुष्योंको कुलानुमान होता है, अथवा जिसके वर्षमें अरिष्ट योग हो, वह अरिष्टही इक्कवाल योगके फलसे भंग होजायगा, दूसरे येभी ग्रह आपोक्लिम ३।६।९।१२ में हों अर्थात् इक्कवालोक्त कंटक १।४।७।१० पणफर २।५।८।११ में कोई ग्रह न हो तो इस योगका नाम इंदुवार है, इसका फल अनिष्ट है, इन्दुवारनामहीका अर्थ शुभका विपरीत अर्थात् अशुभ है, ऐसाही फलभी है, इनका उदाहरण कुण्डलियोंमें लिखा है ॥ ३ ॥

इक्कवालयोग.



इन्दुवारयोग.




कुण्डली.

(इ०व०)—शीघ्रोत्पन्नगैर्वनभागमदेऽग्रस्तेनिजतेजउपाददीत ॥
स्यादित्थशालोयमथोविलितालितार्द्धहीनोयदिपूर्णमेतत् ॥ ४ ॥

मंदगतिग्रह बहुत अंश होके आगे बैठा हो और शीघ्र गति अल्प अंशपर हो और दृष्टि दोनों की दीप्तांशके भीतर होतो शीघ्रग्रह अपना तेज अग्रगत मंदग्रह को दे देता है इसको मुथशिलयोग कहते हैं. यह योग चार प्रकारका होता है. प्रथम वर्तमान मुथशिल १ परिपूर्ण मुथशिल २ राश्यन्त राश्यादि स्थित शीघ्र मंद ग्रहोंसे वर्तमान मुथशिल ३ भविष्यन्मुथशिल ४ शीघ्र और मंदगति स्पष्टसे जाननी, यहां मंदगतिका प्रयोजन नहीं है. तत्काल स्पष्टकी गतिसे शीघ्र वा मंदग्रह समझना. और मुथशिल नाम इत्थशालका है. यहां प्रथम वर्तमान मुथशिल योगका उदाहरण कहतेहैं. शीघ्रगतिवाला ग्रह मंदगतिवालेसे न्यून अंशपर हो, वस्तुतः शीघ्रके दीप्तांश संख्याके भीतरहो, और दोनोंकी परस्पर. नवम पंचमादि उक्त दृष्टि होतो इसका नाम. वर्तमान इत्थशाल हुआ फल है कि शीघ्र अर्थात् पृष्ठगत ग्रह अपना तेज (सामर्थ्य) मंदगति ग्रहको देदेता है इसका फल पूर्ण मुथशिलसे न्यून होता है. अब पूर्ण

मुथशिलयोगका उदाहरण कहते हैं, वर्तमान इत्थशाल के तरह दृष्टि और शीघ्र और अल्प भाग मंदग्रह बहुत अंशपर हो परंतु शीघ्र ग्रह




मंदग्रहके बराबर अंशके पर हो केवल कला अथवा विकला मात्र न्यून हो तो इसको पूर्ण इत्थशाल कहते हैं फलभी इसका पूर्ण होता है; ५ में दो प्रकारके हुये ॥ ४ ॥

इंद्रवज्रा—शीघ्रोयदाभांत्यलवेस्थितःसन्मंदेऽन्यभस्थे निदधाति तेजः ॥ स्यादित्थशालोयमथैषशीघ्रदीप्तांशकांशैरिहमंदपृष्ठे ॥६॥ तदाभविष्यद्गणनीयमित्थशालं त्रिधैवं थशीलमाहुः ॥ लग्नेशकार्य्याधिपयोर्यथैष योगस्तथा कार्यमुशंति संतः ॥ ६ ॥

शीघ्र ग्रह २९ अंश राश्यंतमें हो अर्थात् जिस राशिसे मंद ग्रहपर पूर्ण

दृष्टि होती है उसमें जाता हो और मंदग्रह स्वल्प अंशपर हो जैसे मंगल २९ अंश धनस्थानमें है. तीसरे स्थानमें जाना चाहता है. दूसरा मंदग्रह शनि ग्यारहवें भावमें ४ अंशपरहै यहभी वर्तमान मुथशिल योगहै. राश्यंत राश्या-दिस्थ वर्तमान, इसे कहतेहैं अर्थात् मंगल तीसरे भावमें जानेको तैयार है वहां पहुंच कर शनिसे इत्थसालकरने वालाहै ३ चौथा शीघ्रग्रह मंदग्रहसे न्यून अंशपर और पूर्ण दृष्टि परस्परहो परंतु शीघ्र ग्रहके, उक्त दीर्घांशों

के अंतर्गत मंद न हो किंतु शीघ्र स्वदीर्घांशोंके अंतर मंदग्रह को लेना चाहता हो, जैसे तीसरे भावमें बुध १२ अंशपर



और ग्यारहवेंमें बृहस्पति २० अंशपरहै तो बुधके दीर्घांश ७ से अधिक परहै परंतु बुध बृहस्पतिका स्वदीर्घांशांतर्गत करना चाहता है. इसको भविष्य-मुथशिल योग कहते हैं ये ४ चार उदाहरण हैं. प्रकार तो मुख्यतः तीनहीं हैं वर्तमान, पूर्ण, और भविष्य, परंतु वर्तमानके २ प्रकार होनेसे यंहां उदाहरणमें चार भेद करदिये और मुथशिल मुथशिल मुथशील मूथशील ये चारप्रकारके नाम एक इत्थशालकेहीहैं. अब इनके फल कहतेहैं कि जिस भाव संबंधी कार्यहै उसके स्वामी और लग्नेशका इत्थशाल होनेमें उसकार्य की सिद्धि होती है. कार्य. भाइयोंके निमित्त तृतीयेश संतानार्थ. पंचमेश राज्यार्थ. दशमेश. और जायार्थ सप्तमेश इत्यादि पूर्वोक्त भाव क्रमोंसे कार्येश जानना जैसे संतान प्रश्नमें लग्नेश पंचमेशका इत्थशाल योग और स्त्री प्रश्नमें लग्नेश सप्तमेशका, एवं राज्यप्रश्नमें लग्नेश दश-मेशका योग विचारना. और इन ४ प्रकार के इत्थशालोंमें यह विचारनी मुख्य चाहिये कि ३ । ११ और ५।९ भाव संबंधी इत्थशाल तद्भावजन्य शुभफल करतेहैं; क्योंकि ये मित्र दृष्टिसेहैं और १।७ तथा ४। १० इन भाव संबंधी इत्थशाल तद्भावोक्त फलको अनिष्ट कर देतेहैं. अर्थात् तद्भावोत्थ-

कार्यको नाश करदेतेहैं. यह शत्रुदृष्टिका प्रभाव है यहफलका शुभाशुभ, पूर्वदृष्टि विचार दशवें श्लोकमें कहाहै, इत्थशाल कर्ता लग्नेश कार्यशके अंशोंका अंतर करके जो शेष रहे उसे बारह १२ से गुनदेना, इतने दिनोंमें उस इत्थशालका फल होगा ऐसे सर्वत्र जानना ॥ ५ ॥ ६ ॥


(उपजा०)-लग्नेशकार्य्याधिपतत्सहायायत्रस्थुरस्मिन्पतिसौ म्यदृष्टे ॥ तदाबलाब्धकथयंतियोगं विशेषतः स्नेहदृशापिसंतः ॥७॥

लग्नेश और कार्येशके मित्र ग्रहभी उन्हींके सदृश फलदेतेहैं परंतु, लग्ने-शादियुक्त ग्रह जिस भावमें हैं वह अपने स्वामी और शुभग्रहोंसे दृष्ट हों तो पूर्वोक्त योग बलवान होताहै उक्तग्रह इत्थशालके फलोंको (उक्तृष्ट) विशेष करदेतेहैं, पण्डित लोग स्नेहदृष्टिसें फलकी विशेषता कहते हैं, इत्थशाल हुये में इतना विचार और भी चाहिये कि इत्थशाली मन्दग्रह वक्र हो तो उक्त-फल अधिक होगा, यह विचार युक्तिसिद्धहै ॥ ७ ॥

स्त्रीशान्तिप्रश्ने.



स्त्रीजामप्रश्ने.



धनलाभप्रश्ने.



केवलार्थप्रश्ने.



(उपजाति०)-स्वर्क्षादिसत्स्थानगतः शुभैश्चेद्युतेक्षितोभूद्भविताऽथवास्ते ॥ तदा शुभंप्रागभवत्सुपूर्णमग्रे भविष्यत्यथवर्त्त-तेच ॥ ८ ॥

इत्थशाल योग कर्ता लग्नेश और कार्य्याधीश वा दोनहूं गृह उच्च वा मित्र राशि, वा स्वहृदा, स्वत्रिंशांश, स्वमुशालहादि सत्स्थानमें प्राप्तहो, और शुभ-

ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो, इत्थशालोक्त शुभफल तत्कालही होगा. जो स्वरा-
श्यादि शुभस्थानमें प्राप्त होनेवाला हो और शुभग्रह युक्त वा दृष्ट होनेवाला
हो तो, उक्तफल पीछे होगा, यदि स्वर्क्षादि शुभ स्थानसे दूसरे स्थानमें प्राप्त
हुये, थोडाही कालबीता हो तो पूर्वोक्त फल होगयाहै, कहना. ये विचार वर्ष
और प्रश्नादियोंमें सर्वत्र बुद्धिबलसे करना, ॥ ८ ॥

(उपजा०)-व्यत्यस्तमस्माद्विपरीतभावेस्वेष्टर्क्षतोनिष्टगृहं प्रपन्नः॥
अभूच्छुभं प्रागशुभं त्विदानीं संयातुकामेन च भाविवाच्यम् ॥ ९ ॥

पूर्वश्लोकमें जो स्वर्क्षादिस्थ इत्थशाली ग्रहोंसे भूत भविष्य वर्तमान का-
लिक शुभफल कहेहैं तैसेही शत्रुराश्यादि अनिष्टस्थान और पापग्रह योग-
दृष्टिसे अशुभ फलभी होताहै, जैसे लग्नेश कार्येश वा दोनहूं शत्रु वा नीच
राशिमें वा शत्रुके हृदा, मुशलहादि दुष्ट स्थानोंमें हों, और पापग्रहोंसे युक्त
वा दृष्ट हों तो इत्थशालोक्त अनिष्ट फलतत्कालही होगा, आगे पीछे शुभहोगा
जो ऐसाही स्वोच्चादिराशिगत पापयुक्त दृष्ट होकर वर्तमान राशिमें आया हो
तो उक्तफल भी पूर्वही देदेवेगा, पीछे शुभ फल देगा, जो स्वोच्चादि राशि प्राप्त
और पापयुक्त दृष्ट होनेवाला हो तो उक्तफल भी आगे होगा इन योगोंमें
अनिष्ट फलकी प्राप्ति होनेमें शुभाशुभ दोनों यथोक्तकालपर दोनहूं होते हैं,
शुभफलकी प्राप्तिमें सर्वदा शुभही होताहै, उदाहरणके वास्ते तीसरे मुखशि-
लका रूप कहतेहैंकि चन्द्रमा राश्यंत २९ अंशपर है और सूर्य्य राश्यादि
१० अंशपर है. चन्द्रमाके दीमांश १२ के भीतर होनेसे इत्थशाल हुवा, अब
इसमें यह विचारना चाहिये कि चन्द्रमा वर्तमान कुम्भराशिमें होनेसे शत्रुराशि
गत है, आगे १२ राशि मित्रराशिमें जाता है तो प्रथम अशुभ फल पीछे शुभफल
होगा, इसी प्रकार सर्वत्र गतागत वर्तमान कालिक फल कहना ॥ ९ ॥

(इं० व०)-शीघ्रो यदा मंदगतेरथैकमप्यंशमभ्येतितदेशराफः ॥

कार्यक्षयोमूशरिफेखलोत्थेसौम्येनहिह्लाजमतेनचित्यम् ॥ १० ॥

पूर्वोक्त इत्थशाल योगका विपरीत ईसराफ योग कहतेहैं कि शीघ्रगति

ग्रह जो मंदगति ग्रहके एक अंश भी आगे बढ़ जाय तो ईसराफ योग होता है. इसको मूशरिफ भी कहते हैं. यह कार्य्यका नाश अर्थात् इत्थशाल होनेमें जो कार्य्यसिद्धि होनीथी उसको विपरीत करदेता है. इसमें हिल्लाजमतसे इतना विचार है कि यह मूशरिफ पापग्रहोंका हो तो कार्य्य विपरीत अर्थात् शुभके बदले अशुभ करेगा. जो उक्त योग शुभ-ग्रहोंसे हो तो कार्य्यको विपरीत तो नहीं करेगा, किंतु शुभफल जो

इत्थशालसे होनाथा उसे न होने देगा उदाहरण ९ लघ्नमें बृहस्पति १६ अंश लघ्नमें व सप्तमेश बुध मिथुनमें १७ अंश पर है तो मंदगति बृहस्पतिसे शीघ्र गति बुध एक अंश अधिक बढ़गया, इसका नाम




ईसराफ वा मुशरीफ हुआ, स्त्रीप्राप्ति कार्य्य था यह सिद्ध नहीं होगा. यह दोनों पापग्रह होते तो स्त्रीप्राप्तिके बदले स्त्री संबन्धी कर्मसे अनिष्टहोता, ऐ-साही सर्वत्र जानना ॥ १० ॥

उपजा०—लघ्नेशकार्य्याधिपयोर्नदृष्टिर्मिथोऽथतन्मध्यगतोपिशीघ्रः ॥
आदाय तेजोयदिपृष्ठसंस्थान्न्यसेदथान्ये यदि न मेतत् ॥ ११ ॥

लघ्नेश और कार्य्याधिपकी परस्पर दृष्टि न हो किंतु इन दोनोंके बीच किसी भावमें उन दोनोंसे शीघ्र ग्रह लघ्नेश और कार्य्येशको भी देखता हो तो अपने पीछेवाले स्वल्पांश ग्रहको तेज लेकर आगेवाले बृहदंशको देदे-ताहै, परंतु यह शीघ्रगति अल्पांश ग्रहसे अधिक और मंदगति, बृहदंश ग्रहसे न्यून अंशपर होवे, यह योग अन्यद्वारा कार्य्यसिद्धि करता है, इस-कानाम नक्तयोग है, उदाहरण आगे कहतेहैं ॥ ११ ॥

(उपजा०)—लाभ च्छातनुरस्तिकन्या स्वामि धर्मसिंहगतो
दशांशैः॥सूर्य्यांशकैर्देवगुरुः कलत्रेदृष्टिस्तयोर्नास्तिमिथोथचंद्रः॥१२॥
चापेवृषेचोभयदृश्यमूर्तिः शीघ्रोर्कभागेरथवाभवांशैः ॥ आदायतेजो
बुधतोददौयज्जीवायलाभः परतः स्त्रियाःस्यात् ॥ १३ ॥

नक्षयोगका उदाहरण जैसे स्त्रीलाभ प्रश्नमें कन्या लग्न, लग्नेश शीघ्रगति बुध सिंहके दश अंशपर कार्ग्येश स्त्री प्रश्नहोनेसे सप्तमेश मंदगति बृहस्पति मीनराशिं के बारह अंश परहै इनकी परस्पर दृष्टि होती तो,



शीघ्रोत्पन्नाद्यदि इत्थशाल हो तो यहां इनकी ६ । ८ स्थानोंमें होनेसे दृष्टि नहींहै, परंतु इनके बीच धनराशिमें वा वृपराशिमें लग्नेश और कार्ग्येशके अंशोंके मध्यवर्ती बारह वा ग्यारह अंशपर चंद्रमा दोनोंसे शीघ्रगतिहै, और दोनोंको नवम चतुर्थ वा लाभ चतुर्थ पूर्णदृष्टिसे देखताहै, इस व्यवस्थामें चंद्रमा अपने पीछेवाले शीघ्रबुधका तेज लेकर अपने अग्रवर्ती मंदगति बृहस्पतिको देदेताहै, प्रयोजन है कि बुध गुरुकी दृष्टि होती तो इत्थशाल योगसे अपनीही हाथसे स्त्रीप्राप्ति होती यहां नक्षयोग. चन्द्रमा तीसरे ग्रहसे है तो स्त्रीप्राप्ति भी तीसरे किसी मध्यस्थ वनस्प्यके हाथसे होगी. ऐसाही सर्वत्र जानना. यहां तेरहवें श्लोकमें (शीघ्रोर्कभागैः) के स्थानमें (शीघ्रोत्पन्नाद्यः) ऐसा पाठहै, प्रयोजन यह है कि, चन्द्रमा ८ अंशपर होनेसे लग्नेश कार्ग्येशके बीच तो न हुआ परंतु अति शीघ्रहै, बुध १० अंशवालेको लाँघकर बारह अंशवाले बृहस्पति को पहुँच सकताहै, इसकारण नक्षयोग संभावना होती है, यह ताजिकांतर मतहै और यहां १० । ११ । १२ अंश इन तीनोंके उपलक्षणार्थ लिखे हैं, दीर्घांशोंके भीतर किसी अंशपर क्रमसे हो तो नक्षयोग होजाताहै, आगे बुद्धिके बलसे विचारना ॥ १२ ॥ १३ ॥

इंद्रवज्रा—अंतःस्थितोमंदगतिस्तुपश्येदीर्घांशकैर्द्वावथशीघ्रतस्तु ॥

नीत्वामहोयच्छतिमंदगायकार्ग्यस्यसिद्धचैयमया प्रदिष्टः ॥ १४ ॥

लग्नेश और कार्ग्येश किसी भावोंमें हों उनकी परस्पर दृष्टि न हों किंतु एक शीघ्रगति एक मंदगति हो और दीर्घांशोंके भीतर हो मध्यस्थ स्थानग तदोनोंसे मंदगतिको ही ग्रह उक्त ग्रहको देखता हो तो ग्रहसे तेजलेकर

मंदग्रह को देदेताहै। इस योगका नाम यमया है। कार्यकी सिद्धि दूसरेके द्वारा करताहै ॥ १४ ॥

ई०व०—राज्यातिपृच्छातुललग्ननाथोमेषेसितस्त्वष्टलवैवृषस्थः ॥
चंद्रोदशांशैर्यदिराज्यनाथोदृष्टिस्तयोर्नास्ति रुस्तुमंदः ॥ १५ ॥
उ० व०—दिगंशगः कर्कगतस्तुपश्यन्नुभौमहोदीतलवैः सचांद्रम् ॥
ददौसितायेतिपदस्यलाभोमात्येन भावीतिविमृश्यवाच्यम् ॥ १६ ॥

यमया योगका उदाहरण, जैसे राज्यप्राप्ति प्रश्नमें तुलालग्नका स्वामी शुक्र सप्तम भावमें मेषके ८ अंशपर और कार्य्य दशम स्थान सम्बन्धी होनेसे दशमेश चन्द्रमा वृषके १० अंशपर अष्टम स्थानमें है, इन लग्नेश कार्य्येशोंकी परस्पर दृष्टि नहीं है, दीप्तशोंके अन्तर्गत हैं। योग होनेमें



केवल दृष्टिकी न्यूनता रही यह कार्य्य, तीसरा ग्रह अर्थात् बृहस्पति सम्पादन कर्ता है कि, यह स्थान दृष्टिसे १० । ११ स्थानमें, शु० चंद्र० दोन हूँको देखता है तो शीघ्र चन्द्रमासे तेज लेकर, उससे मन्द शुक्रको देताहै इस योगका नाम यमया है। फल यह है कि, लग्नेश कार्य्येशका इत्थशाल होता तो आपही राज्यप्राप्ति होनीथी, यहां बृहस्पतिसे योग पूर्ण हुआ तो दूसरेके द्वारा राज्यप्राप्ति होगी, बृहस्पति देवगुरु यद्वा देवमन्त्री है इससे फल (राज्यप्राप्ति) पुरोहित वा अमात्यके द्वारा होगी ऐसे सभी संबंधी फल अपनी बुद्धिसे विचारके कहना, यहां राज्यप्राप्ति प्रश्न केवल उपलक्षण मात्रहै ॥ १५ । १६ ॥

(इन्द्रवज्रा)—वक्रः शनिर्वा यदि शीघ्रखेटात्पश्चात्पुरस्तिष्ठति तुय्यदृष्ट्या ॥ एकर्क्षस क्षभुवाद्दशावा पश्यंस्तथाशैरधिकोनकैश्चेत् ॥ १७ ॥ (उपजाति) (पूर्वार्द्ध) तेजोहरेत्कार्य्यपदेत्थशा-
स्थितोपिवासौमण्डःशुभो न ॥

मण्डल योगका लक्षण कहते हैं, यह नक्तयोगके तरह है परन्तु शनि वा मंगलकी ऐसी प्राप्तिमें फल विपरीत होजाता है, इसकारण यह मण्डल नाम


योग पृथक् है, मणउ पारशीय (मने) पदका पर्याय है, प्रयोजन है कि, कार्य्य करनेमें (मने) अर्थात् विघ्न करदेता है, लक्षण यह कि, लग्नेश और कार्य्येश इत्थशाली अर्थात् शीघ्रोल्पभाग मन्द धन भाग और परस्पर दृष्टियुक्तहों, परंतु इनके बीच मंगल वा शनि शीघ्रगति ग्रहके समीप उसके दीप्तांशोंके भीतर आगे वा पीछे हो और चतुर्थ सप्तम वा एकर्क्ष दृष्टिसे उसे देखे मन्दग्रहकोभी किसी दृष्टिसे देखे और इसके दीप्तांशोंके अन्तर वह मन्दग्रह होवे जो कि लग्नेश वा कार्य्येश है, तो शीघ्र ग्रहका तेज हरलेता है, मन्दग्रहको वह तेज नहीं देता यह मंगल शनिकी प्रकृति और शत्रुदृष्टिका फल है, इसको मणउ योग कहतेहैं इत्थशालका विरुद्धफल अर्थात् कार्य्यनाश कर्त्ता है ॥ १७ ॥

पजा०— स्त्रीलाभपृच्छातनुरस्तिकन्यात्रज्ञोदिगंशैस्तिथिभिः
सुरेज्यः ॥ १८ ॥ कलत्रगःखेत्रनिजो भवांशैःपूर्णबुधोभौमह-
तस्वतेजाः ॥ जीवेनपश्चान्मिलतीतिलाभोनाय्यास्तुनो पृष्ठ-
गतेथवास्मिन् ॥ १९ ॥


मणउं



मणउं



मणउं



मणउं योगका उदाहरण स्त्रीलाभ प्रश्नमें कन्या लग्न लग्नेश बुध लग्नके दश अंशपर स्त्रीलाभ कार्य्य होनेसे सप्तमेश सप्तम बृहस्पति मीनके १५ अंशमें हैं, इनका इत्थशाल स्त्रीलाभकारी था, परन्तु मंगल मणउं अर्थात् मने करता है कि यह दशम स्थानमें मिथुनके ग्यारह अंशपर स्थित होकर लग्नेश बुधको तुर्य्यदृष्टि अर्थात् शत्रुदृष्टिसे देखता है, और बुधके अंश समीपवर्त्ती है इस हेतु बुधका तेज मंगलने हरण किया, बुध निस्तेज होगया, अर्थात् फल देनेको सामर्थ्य इसको न रहा, मंगलने हानि अर्थात् मणउं मने करली


है, लग्नेश कार्घ्येश बु० वृ० के इत्थशालसे स्त्रीप्राप्ति होनीथी, मंगलके मणउं करनेसे यह कार्घ्य नहीं होगा, प्रत्यक्षतः स्त्रीसम्बन्धी हानि होगी ऐसे ही शनिसेभी मणउं योग होता है, दूसरा उदाहरण मीनलग्न मन्द लग्नेश बृहस्पति ८ अंश सप्तमेश बुध ८ अंश सप्तम स्थानमें शनि मीनके ९ अंशपर यह एक अंश अधिक होनेपरभी मणउं योग हुआ. तीसरा उदाहरण, लाभ प्रश्नमें कर्क लग्नेश लग्नेश चंद्रमा वृषके दश अंशपर लाभेश शुक्रलग्नमें कर्कके ११ अंशपर इनके इत्थशाल होनेसे धनलाभ होना था, परन्तु वृषके १६ अंश पर चन्द्रमाके साथ एक भावगत शत्रुदृष्टि देखनेवाला मंगल वा शनि होनेसे मणउं योग होगया, शीघ्र चन्द्रमाके तेज मंगलने शुक्रको न देने दिया, आष-ही नाश करदिया. फल इत्थशाल होनाथा नहीं होगा प्रत्युत हानि होगी, यहां इस योगके मूल वाक्यमें, “ अंशैरधिकोनकैश्चेत् ” अर्थात् मणउं करने वाला ग्रह शीघ्रसे पीछे वा आगे अंशोंमें समीपहो कहा है युक्तिसे यह भी विचार चाहिये कि, जो शीघ्र ग्रहसे आगे हो तो इससे भी आगे कार्घ्येश जो ग्रह है वह मणउं करनेवाले ग्रहसे मन्दगति हो. क्योंकि यह उसको अपनी गतिसे आक्रमण करसके तो मणउं योग होगा जब मणउं करनेवालेसे आगेका लग्नेश शीघ्रसे मन्दग्रह मणउंवालेसे शीघ्र हो तो मणउं करनेवालेसे, क्योंकि इसमें उसको आक्रमण नहीं कर्ता है दूसरा जब शीघ्र ग्रहसे पीछे मणउं करनेवाला मंगल वा शनि होतो यह इतना शीघ्रगति होनाचाहिये कि कार्घ्येश वा लग्नेश पूर्वोक्त शीघ्रगति ग्रहको आक्रमण करके आगेवाले योग कारक मन्द ग्रहको पहुँचसके तो मणउं ठीक होगा. जब इसकी इतनीशीघ्र गति नहीं है कि पीछेवाले शीघ्र ग्रहोंको उल्लंघनकर आगेवाले मन्दगति तीसरे ग्रहको न पहुँचसके तो मणउं योग नहीं होगा, लग्नेश कार्घ्येशका पूर्वोक्त इत्थशालही रह जायगा ऐसे विचार औरभी स्वबुद्धिसे चाहिये. यहां शनि और मंगलके मणउं योग तीन तीन प्रकारके होनेसे छः भेद हुये, उपरान्त शीघ्र ग्रहके पीछे और आगे मणउंवाला ग्रह होनेसे बारह भेदहैं, शेष बुद्धिसे विचारना, भाषा बहुत बढ़ जानेके कारण मैंने सूक्ष्मही लिखा है॥ १८।१९॥

उपजा०—यदीत्थशालोस्त्युभयोःस्वदीप्तहीनाधिकांशैः शानि
भूसुतौचेत् ॥ एकक्षंगौलग्नपकार्य्यपौस्तस्तेजोहरौकार्य्यहरौ
निरुक्तौ ॥ २० ॥

नक्तयोगका भेद औरभी है कि, जब लग्नेश कार्प्येशका पूर्वोक्त प्रकारसे
इत्थशालहो और इनके दीप्तांशोंके भीतर आगे वा पीछे शानि मंगल दोनहूं
वा एक ग्रह उन दोनोंके समीप-दीप्तांश भीतर आगे वा पीछे हो अथवा
लग्नेश कार्प्येशमें एकके साथ शानि वा मंगल उसके दीप्तांश भीतर आगे वा
पीछे हो तो यहभी मणउं योग कार्प्यनाश करनेवाला होताहै ॥ २० ॥

उपजा०—राज्याप्तिपृच्छातुललग्ननाथः कर्कसितौशैस्तिथिभि-
दिंगशैः ॥ वृषेशशीभूपलवैःकुजश्चहरेद्वयोर्भाहरतेचराज्यम् ॥ २१ ॥

इस मणउं योगका उदाहरण राज्यप्राप्ति प्रश्नमें तुला-
लग्न लग्नेश शुक्र दशम कर्कके पंद्रह अंशपर राज्येश चंद्र-
मा अष्टम वृषके दशअंशपर उच्चवर्ती तथा मंगलभी अष्टम-
वृषके १६ अंशपर है और शानिभी अष्टम वृषके दश अंशपर
है मंगल शानिमेंसे एकके होनेसेभी योग होजाता है, यहां



उपलक्षणार्थ दोनहूं लिखे हैं. प्रयोजन यह है कि, लग्नेश कार्प्येशमेंसे एकके
भी दीप्तांश भीतर आगे वा पीछे भौम शानिमेंसे एकभी होनेसे योग सम्पन्न
होता है, यहां लग्नेश कार्प्येशके शुक्र चंद्रके इत्थशालमें राज्यप्राप्ति होनीथी
मंगल शानि कार्प्येशके साथ उसके दीप्तांशोंके समीप होनेसे इन्होंने उसका
तेज नाश करदिया इसका नामभी मणउं योग है, राज्यप्राप्ति नहीं होने देगा
प्रत्युत राज्यहानि करेगा, यहभी मणउंका भेद है ॥ २१ ॥

अनुष्टुप्—लग्नकार्प्येशयोरित्थशालेत्रैद्वित्थशालतः ॥

कंबूलश्रेष्ठमध्यादिभेदैर्नानाविधंस्मृतम् ॥ २२ ॥

लग्नेश कार्प्येशका पूर्वोक्त प्रकारसे इत्थशालहो, और चन्द्रमा लग्नेश
कार्प्येश वा दोनोंके साथ इत्थशाली रहे तो इसका नाम कंबूल योग

होताहै, कंबूल पारशीय पद कबूलका पर्यायहै इसके श्रेष्ठ मध्य अध-
भेदोंसे अनेक प्रकार हैं. उच्च स्वगृहसे उत्तमाधिकार स्वहृदा द्रेशकाण नवा-
शकसे दूसरा मध्यम अधिकार शत्रु नीचगृहावस्थितिसे तीसरा अधमा-
धिकार जहां इन तीनोंमेंसे एकभी अधिकारी न हो तो यह चौथा समा-
धिकार है, इससेभी चन्द्रमा उत्तमाधिकारी हो और लग्नेश कार्येशमेंसे कोई
प्रत्येक भेद करके चार अधिकारोंमें होनेसे चारभेद; ऐसेही चन्द्रमा मध्यमा-
धिकारी और अधम तथा समाधिकारी होनेमें उनके प्रत्येक अधिकारों
करके ४। ४ भेद होतेहैं. समस्त सोलह १६ भेद हुये; पुनः १६ भेद
लग्नेशके १६ कार्येशके होनेसे संपूर्ण ३२ वत्तीस भेद होतेहैं, इनके नाम
उत्तमोत्तम १ उत्तम मध्यम २ उत्तम सम ३ उत्तमाधम ४ मध्यमो-
त्तम ५ मध्यम मध्यम ६ मध्यमाधम ७ मध्यम सम ८ समोत्तम ९

मध्यम १० सम सम ११ समाधम १२ अधमोत्तम १३ अधममध्यम १४
अधम सम १५ अधमाधम १६ ये सोलहविकल्पोंके नाम हैं, लग्नेश कार्येश-
शके प्रत्येक करके ३२ वत्तीस होते हैं, उनमें उत्तम सम और समोत्तम ये
दोनों मध्यमहीके हैं. ४। ४भेद सभीके होते तो ३२ सभी अधिक विकल्प होने
थे किंतु यहां लग्नेश कार्येशकी उच्चादिकल्पना आवश्यक नहींहै, इत्थ-
शालामात्र चाहिये, केवल चन्द्रमाके उच्चादिभेद आवश्यक होनेसे यहां १६
ही भेद होतेहैं लग्नेश कार्येशके पृथक् गणनासे ३२ वत्तीस होतेहैं ॥२२॥

अनु०—यदीन्दुःस्वगृहोच्चस्थस्तादृशौल कार्येषौ ॥

इत्थशालीकबूलंतदुत्तमोत्तम च्यते ॥ २३ ॥

चन्द्रमा स्वराशि४में अथवा अपने उच्च राशि २में ऐसे
ही स्वराशि वा स्वोच्चराशिगत लग्नेश और कार्येशभी
हो लग्नेश कार्येशका इत्थशाल हो चन्द्रमा दोनोंके
इत्थशाली हो तो इसका नाम उत्तमोत्तम कंबूल होताहै



यहां ग्रंथकर्त्ताने केवल उत्तमोत्तम उत्तमाधम दोनों आद्यन्तवालोंके उदा-

हरण कहेहैं। पूरेग्रन्थ बढ़जानेके भयसे न लिखे, अपनी बुद्धिसे समझलेना कहाहै इस भाषामें और ग्रन्थसे ग्रंथकर्ताका अभिप्राय पुष्ट करनेको मैं उदाहरण लिखताहूं कि, “मेपेरविःकुजेवापि वृषेकर्केथवाशशी ॥ तत्रेत्यशाला-त्कंबूलमुत्तमोत्तमकार्यकृत ॥ १ ॥ ” अर्थ—संतती होगी वा नहीं ऐसे प्रश्नमें मेप लग्र लग्रेशमें २० अंशपर संतानप्रश्न होनेसे पंचमेश आवश्यकहै सोही पंचमेश सूर्य लग्नमें मेपके १७ अंशपर होनेसे एकराशिस्थ दृष्टि और दीतांशा-भ्यंतर होनेसे इत्थशाल हुआ। अब कम्बूल करनेवाला चन्द्रमा स्वर्गही चतुर्थ स्थानमें कर्क १४ अंशपरहै लग्नेश कार्क्येश मं० शु० दोनहूँके साथ इत्थ-शाल करता है, यह उत्तमोत्तम कंबूल हुआ, कार्यभी उत्तमोत्तम करेगा।



इस विषयके उदाहरण तीन कुंडलियोंमें औरभी लिखेहैं और लग्नेश कार्क्येशमेंसे एक ग्रहके साथभी चन्द्रमा मुथशिल करे तो यहभी कंबूल होताहै ॥ २३ ॥


अनु०—स्वीयहृद्वाद्रिकाणांकभागस्थेनेत्थशालतः ॥

मध्यमोत्तमकंबूलंहीनाधिकृतिनोत्तमम् ॥ २४ ॥

लग्नेश कार्क्येश अपने हृद्वा स्वद्रेष्काण वा स्वनवांशकमें परस्पर मुथशिल कारी हो, और चंद्रमा स्वराशि वा उच्चराशिमें बैठकर उनके साथ इत्थशाल करे तो उत्तम मध्यम संज्ञक कंबूलयोग होता है। यहां ग्रंथकर्ताने श्लोकमें छन्दोभंगके भयसे मध्यमोत्तम लिखाहै। संज्ञा इसकी उत्तम मध्यमहै। इसका उदाहरण भाग्यवृद्धिमें तुलालग्र लग्नेश शुक्र दशम स्थानमें कर्कका

उत्तममध्यम कंबूल १

अपनी हृदयमें और भाग्यभावाधीश बुध सप्तमस्था नमें अपने हृदय में १४ अंशपर है इनकापरस्पर मुथ शिलयोगहै अब कंबूली चन्द्रमा स्वराशिगत कर्कके ८ अंशमें लग्नेश कार्येश दोनहूँके साथ मुथशिल करता है, योगपूर्णहुवा. यह लग्नेश कार्येशके स्वहृदयमें और



चन्द्रमाके स्वोच्च वा स्वराशिगत होनेसे उत्तम मध्यम कंबूलहुआ. ऐसे लग्नेश कार्येशके स्वद्रेष्काण वा स्वनवांशगत और चन्द्रमा स्वोच्च वा स्वराशिगत होनेमें उत्तम मध्यम कंबूल होते हैं, जब लग्नेश कार्येश समग्रहेश हृदय-द्रेष्काण नवांशमें स्थित होकर परस्पर मुथशिल करे और चन्द्रमा स्वग्रह वा स्वोच्चगत होकर मुथशिली हो तो उत्तम सम कंबूल होता है, इसका उदाहरण राज्यप्राप्तिप्रश्नमें मिथुनलग्न लग्नेश बुध समग्रह मंगलकी राशि ८ में और राज्यभावेश बृहस्पति समग्रह बुधके ६ राशिमेंहै, कंबूली चन्द्रमा अपने

उत्तम सम कंबूल

उच्चराशि वृषमें है स्वराशि कर्कमें होनेसेभी यही होताहै यहां अंशकन्यांश दीमांशोंके अंतर मुथशिल योग होनेके योग्य चाहिये. यह उत्तम सम कंबूल हुआ, राज्यप्राप्ति उत्तम होगी ॥ २४ ॥




अनुष्टु०—उत्त । धमतानीचरिपुगेहस्थितेनचेत् ॥

स्वद्रेष्काणांशगश्चंद्रः स्वभोच्चस्थेत्थशालकृत् ॥ २५ ॥

नीचराशि वा शत्रुराशिमें लग्नेश वा कार्येश परस्पर मुथशिली हों और चन्द्रमा अपने उच्च वा अपनी राशिमें बैठा दोनहूँके साथ इत्थशाल करे तो उत्तमाधम कंबूल होता है, यह योग चन्द्रमाके उत्तमाधिकारी और लग्नेश कार्येशके निरुद्धाधिकारी होनेसे है, उदाहरण स्त्रीप्राप्तिप्रश्नमें तुलालग्न लग्नेश शुक्र कन्याके १० अंशपर नीच राशिगत और सप्तमेश मंगल नीच

राशिगत कर्कके १५ अंशपर शुक्रके साथ इत्थशाली है. चन्द्रमा स्वराशि ४ गत कर्कके १० अंशपर बैठकर शु० मं० के साथ मुथशिली है. इस हेतु यह उत्तमाधम कंबूल हुआ, स्त्री प्राप्ति थोडे प्रयाससे होगी यह फल है. यह


उत्तमाधम कंबूल



पचीसवें श्लोकके पूर्वार्द्धका अर्थ हुआ इसके उत्तरार्द्ध और छब्बीसवेंके पूर्वार्द्ध 'मध्यमोत्तम' इसमें मध्यमोत्तमकंबूल इसप्रकारका है कि चन्द्रमा अपने द्रेष्काण वा अपने नवांशमें स्थितहो और लग्नेश कार्घ्येश अपने अपने स्थानोंमें बैठ परस्पर इत्थशाली मध्यमकंबूलके तरह यहभी है, उदाहरण स्त्रीप्राप्तिप्रश्नमें तुलालग्न लग्नेश शुक्र लग्नमें सप्तमेश मंगलमेथका

मध्यमोत्तम कंबूल

और चन्द्रमा मकर राशिमें २२ अंश अपने नवांशपर है, शुक्र मंगलका परस्पर मुथशिल और चंद्रमा दोनहूँसे मुथशिली है, यह मध्यमोत्तम कंबूल हुआ; फल पूर्ववत् है ॥ ५२ ॥




अनु०—मध्यमोत्तममेतच्चपूर्वस्मान्नविशिष्यते ॥

स्वहृदादिपदस्थेनकंबूलमध्यमध्यमम् ॥ २६ ॥

इस श्लोकके पूर्वार्द्धका अर्थ पूर्व २५ श्लोकार्थके साथ संबधवशसे लिख दिया है, उत्तरार्द्धसे मध्यम कंबूल इसप्रकार है कि स्वहृदा द्रेष्काण वा नवांशकमें स्थित लग्नेश वा कार्घ्येशहो दोनहूँ परस्पर मुथशिली हों और चंद्रमाभी स्वद्रेष्काण वा स्वनवांशमें बैठकर इनके साथ मुथशिली हो तो मध्यममध्यम कंबूल होता है, यहां तीनहूँकी स्वगृहस्वोच्चराशि छोडकर स्वहृदादि मध्यमाधिकारोंकी आवश्यकता है. उदाहरण, स्त्रीलाभ प्रश्नमें मिथुन लग्न लग्नेश बुध धनके १८ अंशपर अपने हृदामें सप्तमेश वृहस्पति

मिथुनके १६ अंशपर अपने हृदामें और चंद्रमा मीनके दूसरे द्रेष्काणमें १२ अंशपर अपने द्वादशांशपर है। यहां तीनहूँकी परस्पर स्थान दृष्टि होनेसे एवं मुथशिल परस्पर होनेसे मध्य मध्यम कंबूल हुवा। स्त्री प्राप्ति अति यत्नसे होगी यह फल है ॥ २६ ॥

मध्यम मध्यम कंबूल




अनु०—मध्यममध्यमकंबूलहीनाधिकृतखेटजम् ॥

मध्यमाधमकंबूलं नीचारिभगखेटजम् ॥ २७ ॥

स्वगृह स्वाच्च हृदा द्रेष्काण नवांश और शत्रु नीचाधिकार रहित अर्थात् समगृह हृदा द्रेष्काण नवांशमेंसे किसीमें लग्नेश कार्य्येश हों और चंद्रमा मध्यमाधिकार अर्थात् स्वनवांश वा स्वद्रेष्काणमें हो परस्पर इत्थशाली हो तो मध्यमसम कंबूल होता है। उदाहरण, संतान प्रश्नमें वृष लग्न लग्नेश शुक्र मकरके चार अंशपर सम बुधकी हृदामें

मध्यम सम कंबूल

और पंचमेश बुध तुलाके पांच अंशपर सम हृदामें और तुलाका चंद्रमा २ अंशपर है अपने द्रेष्काणमें है। यह मध्यमसम कंबूल हुवा। संतति प्राप्ति यत्नसे होगी। और, लग्नेश कार्य्येश नीच वा



शत्रुराशिमें परस्पर मुथशिल हों, चंद्रमा अपने द्रेष्काण वा नवांशकर्म बैठकर दोनोंके साथ मुथशिली हो तो मध्यमाधम कंबूल होता है। उदाहरण, मेघ लग्न

मध्यमाधम कंबूल

लग्नेश मंगल कर्कका नीच राशिमें और भाग्याधीश बृहस्पति मकर अपने नीच राशिमें चंद्रमा तुलाके पांच अंशपर है, मंगल बृहस्पतिके अंश मुथशिल योग्य लिखने चाहियें। जैसे यहां उदाहरण कुंडलीमें मंगल ९ अंश बृहस्पति १० अंश लिखा है इनका परस्पर



मुथशिल हुआ और चंद्रमा दोनहूँके साथ मुथशिली अपने त्रिभागमें है। यह अधमाधम कंबूल हुवा, भाग्य प्राप्ति अतिकष्टसे होगी ॥ २७ ॥

अनु०—इन्दुः पदोनः स्वक्षौच्चयुतेनाप्युत्तमंतुतत् ॥

स्वहृदादिगतेनापिपूर्ववन्मध्यमुच्यते ॥ २८ ॥


चंद्रमा अधिकाररहित होनेसे पदोन होता है. यह दोप्रकारका है; पहिला समग्रहके हृदा द्रेष्काण नवांशमें, और दूसरा सूक्ष्म है. कि समग्रह हृदा द्रेष्काण नवांशोंके आदि वा अंतमें संधिगत होनेमें यह दोप्रकार पदोन कहाताहै, लग्नेश वा कार्म्येश अपनी राशि वा अपने उच्चराशिमें हों परस्पर इत्थशाली लग्नेश कार्म्येश हों और पदोन चंद्रमा इनसे मुथशिली हो तो



समोत्तम कंबूल होता है, उदाहरण, धन लाभ प्रश्नमें तुला लग्न लग्नेश शुक्र लग्नमें अपने घरका धनेश मंगल अपने उच्चराशि मकरका और चंद्रमा मिथुनका समके हृदा में है. यहां अंश कल्पना इत्थशाल योग्य

करनी चाहिये. यह समोत्तम कंबूल योग हुआ. फल धनप्राप्ति उत्तम होगी. और श्लोकोत्तरार्धसे दूसरा योग यह है कि चंद्रमा पूर्ववत् पदोन हो और लग्नेश कार्म्येशमें से एक अथवा दोनहूं अपने हृदा द्रेष्काण नवांशकमें हो परस्पर लग्नेश कार्म्येशका इत्थशालहो. चंद्रमा भी इत्थशाली हो तो यह सममध्यम कंबूल होता है, उदाहरण, धनलाभ प्रश्नमें तुलालग्न. लग्नेश शुक्र ग्यारहवां सिंहके दश अंशपर अपने हृदामें. और धनेश दश अंशपर तीसरा और चंद्रमा मिथुनके दश अंशपर समकी हृदामें है, इनका परस्पर मुथशिल योग होनेसे यह समकंबूल हुआ, धनलाभ यत्नसे होगा, यह इसका फल भया ॥ २८ ॥

सम मध्यम कंबूल




अनुष्टु०—पदोनेनापिमध्यस्यादितियुक्तंप्रतीयते ॥

नीचारिस्थेनेत्थशालोऽधमं कंबूलमुच्यते ॥ २९ ॥

लग्नेश और कार्ग्येश पादोन होकर परस्पर इत्थशाली हों और चन्द्रमाभी पदोनहोकर लग्नेश और कार्ग्येशके साथ इत्थशाली हो तो समसमाख्य मध्यम

कंबूल प्रतीत होताहै "उदाहरण" धनलाभ प्रश्न मेषलग्न लग्नेश मंगल सिंहके दश अंशपर धनाधीशशुक्र कुंभके दशअंशपर और चन्द्रमा तुलाके दश अंशपर तीनहूँ द्रेष्काणोंके संधियोंमें पूर्वोक्त दूसरा प्रकार सूक्ष्म पदो-


समसमाख्य मध्यम कं०



नता हुई इन तीनहूँका परस्पर मुथशिल है, यह समसमाख्य मध्यम कंबूल हुआ फल धनलाभ मध्यम अर्थात् न बहुत अधिक न अत्यंत अल्पहोगा अथवा वही लग्नलग्नेश भौम सम और सूक्ष्मके २६ अंशपर धनेश शुक्रसम शनि हद्दामें २६

अंशमें और चंद्रमा सम बृहस्पतिके द्रेष्काणमें २० अंश परहै ये तीनों परस्पर मुथशिली हैं यह भी प्रकारंतरसे समसमाख्य मध्यम कंबूल है. फलभी पूर्वोक्त ही होगा. यह श्लोक पूर्वार्द्धिका है अबउत्तरार्धसे समाधम कंबूलका लक्षण कहते हैं कि लग्नेश वा

समसमाख्य कंबूल




कार्ग्येश नीचराशि वा शत्रु राशिमें होकर परस्पर मुथशिली हों और

पूर्ववत् पदोन चंद्रमा उनसे इत्थशाली होतो समसमाख्य कंबूल होता है. उदाहरण;


पुत्र प्रश्नमें मिथुनलग्न लग्नेश बुध नीचका मीनमें पुत्रभावेश शुक्र नीचका न्यामें चं

द्रमा बृहस्पतिके द्रेष्काणमें है, यहांभी अंश कल्पना इत्थशालयोग चाहिये. यह तीनोंके

परस्पर मुथशिल होनेसे समाधम कंबूल हुआ फल संतानप्राप्ति अल्पयत्नसे होगी ॥ २९ ॥



समसमाख्य मध्यम कं०



धनलाभ कंबूल

अनुष्टु०--नीचशत्रुभगश्वंद्रःस्वभोच्चस्थेत्यथशालकृत् ॥

अधमोत्तमकंबूलंस्वहृदादिगतेनचेत् ॥ ३० ॥

चंद्रमा नीच राशि वा शत्रु राशिमें हो. और लग्नेश वा कार्येश अपनी राशि वा अपने उच्च राशिमें दोनहूँ वा एक भी हो तो चंद्रमाके अधम और लग्नेश कार्येशके उत्तमाधिकार होनेसे यह अधमोत्तम कंबूल योग होता है.

इसका फल पूर्वोक्त अधमोत्तम कंबूलके सदृश जानना उदाहरण; सुख प्राप्ति प्रश्नमें सिंह लग्न लग्नेश सूर्य अपने उच्चमषेका और चंद्रमा अपने नीच वृश्चिकका है. यहां अंश इत्थशाल योग्य रखने चाहिये जिनसे परस्पर तीनहूँका मुथशिल होजाय. फल इसका सुख थोड़ा प्रयत्नसे


अधमोत्तम क०



प्राप्त होगा. यह श्लोकके तीन चरणोंका अर्थ हुआ. अब चौथे चरण और दूसरे श्लोक पूर्वार्द्धके अर्थसे अधममध्यम कंबूल इसप्रकारका है कि जब चंद्रमा नीच वा शत्रु राशिमें हो और लग्नेश वा कार्येश वा दोऊ अपने हृदा द्रेष्काण नवांशकमेंसे किसीमें हों परस्पर तीनहूँ इत्थशाली हो तो चंद्रमाके निकृष्टाधिकार और लग्नेश कार्येशके मध्यमाधिकारी होनेसे यह मध्यममध्य कंबूल होताहै. " उदाहरण "

पुत्रप्राप्ति प्रश्नमें कन्यालग्न लग्नेश बुध मकरके तीन अंशपर अपनी हृदामें पुत्रभावेश शनि मीनके ५ अंश अपने द्रेष्काणमें और चंद्रमा वृश्चिकके तीन अंशपर है.

मध्यममध्य क०



इसका परस्पर मुथशिल है यह अधममध्यम कंबूल हुवा. फल इसको संततिप्राप्ति अति कष्टसे होगी. इसीमें अधमसम कंबूली है कि चंद्रमा नीच वा शत्रु राशिमें हो और लग्नेश कार्येश दोनहूँ वा एक पदोन हो (पदोनका अर्थ पूर्वोक्त जानना) तो अधमसम कंबूल होता है. उदाहरण, राज्यप्राप्ति

प्रश्नमें वृष लग्न लग्नेश शुक्र सिंहके ६ अंशमें सूर्य एक राशिमें है, और राज्य भावेशशनि वृषके १० अंशमें और चंद्रमा नीच वृश्चिकके ३ अंशमें है सबकी परस्पर दृष्टि होनेसे इत्थशालभी है, यह अधम सम कम्बूल है, फल राज्यप्राप्ति कठिन उपायसे होगी ३०

अधमसम कं०




अनु०—नीचारिभस्थखेटेननीचारिभगतः शशी ॥

इत्थशालीकंबूलंतदधमाधममुच्यते ॥ ३१ ॥

अधमाधम कम्बूलका लक्षण कहते हैं कि चन्द्रमा नीच वा शत्रु राशिमें हो, और लग्नेश कार्येशभी नीच वा शत्रु राशियों में हो तो यह अधमाधम कम्बूल होता है, उदाहरण, पुत्रलाभ प्रश्नमें धनं

लग्नेश बृहस्पति अपने नीच मकर राशिमें पुत्र भावेश मंगल अपने नीच कर्कका और चंद्रमाभी अपने नीच वृश्चिकका है, यहां अंश कल्पना इत्थशाल योग्य चाहिये यहां इन तीनहूके परस्पर मुथशिल हैं, अधमाधिकार होनेसे यह अधमाधम कंबूल हुवा पुत्रलाभ नहीं होगा यह फल है. ऐसेही इनके शत्रु राशिगत होने में भी निकृष्टाधिकारसे यह योग है ॥ ३१ ॥

अधमाधम कं०



अनुष्टु०—मेषरविः कुजेवापिवृषेकर्केथवाशशी ॥

तत्रेत्थशालात्कंबूलमुत्तमोत्तमकांय्यकृत् ॥ ३२ ॥

प्रथमं भेद उत्तमोत्तम और अंतिम भेद अधमाधम उपलक्षणार्थ पुनः प्रकारांतर सुगमार्थ अन्योक्तिसे कहतेहैं कि किसी लग्नेसे मेषका सूर्य अथवा मंगल हो और चंद्रमा उच्च वृषका वा स्वराशि कर्कका हो इनकी परस्पर दृष्टि और दीमांश इससे इत्थशाल हो तो यह उत्तमोत्तम कंबूल कार्य्य कर्त्ता होताहै यह हेतु लग्नेश कार्य्येश और चंद्रमाके उत्तमाधिकार होनेका है ॥ ३२ ॥

अनुष्टु०—वृश्चिकस्थः शशीभौमः कर्कतत्रेत्थशालतः ॥

अधमाधमकंबूलकार्यविध्वंसदुःखदम् ॥ ३३ ॥

जो जन्द्रमा वृश्चिकका और मंगल कर्कका हो परस्पर इत्थशाली हो तो अधमाधम कंबूल कार्यनाशक होता है, इसका हेतु इनके अधमाधिकारी होनेसे है ॥ ३३ ॥

अनु०—एवंपूर्वोक्तभेदानामुदाहरणयोजना ॥

उक्तलक्षणसंबंधाद्बहनीयाविचक्षणैः ॥ ३४ ॥

ये भेद आदि अंतमें मुख्य हैं, इनके बीचके चौदह भेद उक्त लक्षण संबंधसे जानने एवं प्रकार सोलह भेद जो प्रकट हैं, इनके तो पृथक् २ उदाहरण कहादिये हैं, उपरांत इनके बहुत भेद होतेहैं बुद्धिमानोंने अपने बुद्धि बलसे उक्त लक्षणोंके आधारसे जानलेने ॥ ३४ ॥

अनुष्टु०—मेषस्थेब्जेशनीत्यादि दृष्टांतौ मंदशीघ्रयोः ॥

एकक्षीवस्थितावित्थशालादीनपरेजगुः ॥ ३५ ॥

प्रकारांतरसे एक राशिस्थ शीघ्रमंद ग्रहोंके मुथशिल कहते हैं, कविता, “मेषस्थेब्जे शनिना कर्कस्थे भूभुवास्त्रिया । मकरस्थेन गुरुणा सहमनिस्थज्ञं न शुभं च १” यह आर्घ्यालंदका भेद समरसिंहकृत है । जिसका प्रतीक मेषस्थेब्जेशनीत्यादि, आचार्यने कहाहै, अर्थ इसका यह है कि, मेषके चंद्रमा और शनि परस्पर अंशोंसे मुथशिली हो तो मध्यमाधम कंबूल अशुभ फल कर्त्ता होता है यहां चंद्रमा मेषमें स्वगृहोच्चाधिकारी भावहै, परन्तु स्वीय नवांशमेंहै और शनि नीचका हुवा ऐसे इस योगकी प्राप्ति हुई १ और चन्द्रमा मंगल कर्कमें इत्थशाली हो तो एक स्वगृह एक नीचका होनेमें उत्तमाधम कंबूल होताहै २ तथा चंद्रमा शुक्र कन्यामें परस्पर इत्थशाली हों तो शुक्र नीचका और चन्द्रमा कन्यामें अपने अंशपर होनेसे यह मध्यमाधमकंबूल होताहै ३ तथा चंद्रमा बृहस्पति मकरमें परस्पर मुथशिली हों तो बृहस्पति नीचका चन्द्रमा स्वनवांशका होनेसे मध्यमाधमकंबूल होताहै ४ तथा चन्द्रमा बुध मीनमें इत्थशाली हो तो बुध नीचका और चन्द्रमा स्वनवांशका होनेसे मध्यम मध्यम कंबूलहोता है, ५ ये

पाचौं उदाहरण अशुभफल देनेवाले होते हैं, आचार्य्यने मेषस्थेब्जेत्यादि समर सिंहवाक्यके दृष्टांतसे शीघ्र मंदगतिग्रहोंके एकराशिस्थ होनेमें कहा इत्यादिभेद औरभी होते हैं यह अभिप्राय प्रकट कियाहै ॥ ३५ ॥

अनु०—तद्युक्तं नीचगस्थनीचेनरिपुणारिपोः ॥

इत्थशालंकार्य्यनाशीत्युक्तं तत्रयतः स्फुटम् ॥ ३६ ॥

लग्नेश कार्य्येश और चन्द्रमा नीच वा शत्रुराशिमें हो तो इत्थशाल कार्य्य नाशक कंबूल होताहै यह पूर्वोक्तवाक्य और आचार्य्यतरोक्तिहै और यहां कार्य्य नाशक एक राशिस्थ इत्थशाल भेदभी कहा है तो इसमें अतिव्याप्ति होतीहै. इसके शंकानिवृत्त्यर्थ आचार्य्यकृत यह श्लोक है, प्रयोजन है कि, नीचराशि गतग्रह नीचस्थ ग्रहसे और शत्रुराशिस्थ ग्रहसे इत्थशाली हो और चन्द्रमा नीचशत्रुगत इत्थशाली हो तो यह अन्यत्र तो संभव है परन्तु एकराशिस्थ जो होकर अशुभफली कंबूल भेदकहेहैं उनमें अयुक्त हैं क्योंकि नीचराशि दोष-हकी एक नहीं होती तथा शत्रुराशि दोकी एकभी यहां असंभव है, जहां शत्रुता होगी तहां दृष्टि न होगी, दृष्टिविना इत्थशालही नहीं होताहै. यद्वा लग्नेश कार्य्येशकी परस्पर दृष्टि न होनेमें बीचवाले किसी ग्रहके दोनहूँके समीपांशवर्ती होनेसे इत्थशाल संभावना मानी जाय तो इसप्रकार होनेमें नक्त्योग ही होगया, यद्वा दोनहूँ के बीच तीसरा एकसे तेज लेकर दूसरेको देता है, यह मानाजाय तो यह यमया योग होजाताहै, ऐसी ही शनि मंगल से मणउं योगभी संभव है तो प्रथम भिन्न राशिगत चतुर्थ सप्तम दृष्टेत्यादि स्पष्टही कहा है, अब मेषस्थे-ब्जेत्यादि दृष्टांतको अंगीकार नहीं करते तो उक्तनक्तादि योगोंमें व्यत्यास पडताहै तस्मात् सभी योगोंमें मुथशिल विचार भिन्न राशि वा एक राशिस्थ ग्रहोंका होताही है यह सिद्धांत हुआ ॥ ३६ ॥

अनुष्टु०—लग्नकार्य्यपयोरित्थशालेत्रैकोस्तिनीचगः ॥

स्वर्क्षादिपदहीनोन्योऽत्रैदुः कंबूलयोगकृत् ॥ ३७ ॥

कंबूल योगकां भेद और प्रकारभी है कि प्रथम लग्नेश कार्य्येशमें से एकभी अपने अधिकारमें होकर मुथशिली होनेसे सम कहा, जो लग्नाधीश

वा कार्येश एक नीच राशिमें हो और दूसरा स्वर्क्षादि पदहीन अर्थात् सम द्रेष्काणादिकोंमें हों और चन्द्रमाभी पदहीन हो इन तीनहूँका परस्पर मुथशिल हो तोभी कंबूल योग होता है ॥ ३७ ॥

अनुष्टु०—तत्रकार्य्याल्पताज्ञेयायथाजात्यन्यमर्थयन् ॥

अन्यजातिपुमानर्थतथैतत्कवयोविदुः ॥ ३८ ॥

इस कंबूल भेदका फल दृष्टांत सहित कहते हैं कि, जैसे एक जाति दूसरे जातिवालेसे याचना करके स्वल्पलाभी होता है, तैसेही यह कंबूलभी स्वल्पलाभ देता है, प्रकट यह है जो यजमान ब्राह्मणको आपही बुलायकर देगा तो उसकी इच्छानुकूल देगा जो ब्राह्मण आपही जायकर मांगेगा तो यजमान स्वल्पही देगा, ऐसा फल इस कंबूलका कविजन कहते हैं ॥ ३८ ॥

अनुष्टु०—यस्याधिकारः स्वर्क्षादिशुभोवाप्यशुभोपिवा ॥

केनाप्यदृश्यमूर्तिश्चसशून्याध्वगइष्यते ॥ ३९ ॥

अब गैरिकंबूलके लक्षणके लिये प्रथम शून्य मार्गगत ग्रह लक्षण कहते हैं कि, जो ग्रह स्वग्रह वा स्वोच्च वा स्वद्रेष्काण स्वनवांशमें कोई भी शुभाधिकारी नहीं है तथा नीच शत्रु राश्यादि अशुभाधिकारीभी नहीं है, तथा (पदहीन) समद्रेष्काण हद्दा नवांशाधिकारीभी नहीं है, और उसपर पाप वा शुभ किसी ग्रहकी दृष्टि नहीं है तो वह ग्रह शून्याध्वग कहाता है ॥ ३९ ॥


अनुष्टु०—लग्नकार्य्येशयोरित्थशालेशून्याध्वगः शशी ॥ उच्चादिपद शून्यत्वान्नेत्थशालोस्यकेनचित् ॥ ४० ॥ यद्यन्यर्क्षप्रविश्यैषस्वर्क्षाच्चस्थेत्थशालवान् ॥ गैरिकंबूलमेतत्तुपदोनेनाशुभंस्मृतम् ॥ ४१ ॥

चन्द्रमा शून्य मार्ग हो और लग्नेश कार्येश एक वा दोनहूँ ऐसेही शून्याध्वग हो चन्द्रमा इनसे इत्थशाली तो नहो किंतु चन्द्रमा राश्यांतर अर्थात् दूसरी ऐसी राशिमें प्राप्त होनेवाला हो कि वह राशि जिसका स्वग्रह वा जिसका उच्च हो वह ग्रह उसीमें बैठा हो अंशोंमें ऐसा हो कि चंद्रमा प्रवेश करतेही उस ग्रहसे इत्थशाली होजाय, इसप्रकार होनेमें गैरिकंबूल योग होता है, यहभी कंबूल भेदके तुल्य फल देता है, दूसरे जो अन्य राशिस्थ

शून्याध्वग चंद्रमा उसी राशिस्थित शून्याध्वग ग्रहसे इत्थशाली हो तो यह गैरिकम्बूल अशुभ फल देताहै, यह गैरिकम्बूल पारसीय पद (गैरिकबूल) अंगीकार न करनेका अर्थ कबूलका विपरीत अशुभही है यहां जो कम्बूल भेदके तुल्य फलदेना एक पक्षकाहै इसमें राश्यंत राश्यादिवर्त्तमान इत्थशाल भाव प्राप्त होनेसे तद्वत् हुवा, अगैरिकम्बूल गैरिकम्बूलही है, यह ताजिकवेत्ता आचार्य्योंका सम्मतहै ॥ ४० ॥ ४१ ॥

अनुष्टु०—लप्स्येसुखमितिप्रश्ने सिंहल रविःक्रिये ॥ अष्टांशैः
खपः भेभौमोशैरविभिस्तयोः ॥ ४२ ॥ इत्थशालोस्तितत्रैः
कन्यायांचरमेशके ॥ स्वर्क्षादिपदहीनस्यनेत्थशालोस्यके-
नचित् ॥ ४३ ॥ स्वस्वोच्चगेनशानिनाऽन्यर्क्षस्थेनेत्थशालकृ-
त् ॥ गैरिकम्बूलमन्येनसहायाच्छाभदायकम् ॥ ४४ ॥

गैरिकम्बूलका उदाहरण, सुखप्राप्ति प्रश्नमें सिंह लग्न लग्नेश सूर्य्य मेषके आठ अंशपर नवम स्थानमें, कार्क्येश मंगल सप्तम कुम्भके १२ अंशपरहै, इनका परस्पर मुथशिलहै, अब इस योगमें चन्द्रमा द्वितीय भावमें, कन्याके अन्त्य २९ अंशमें पूर्वोक्त प्रकारसे शून्यमार्ग है, इसका लग्नेश गैरिकम्बूल, वा कार्क्येशसे मुथशिल नहीं है, परन्तु चन्द्रमा गैरिकम्बूल.
तुलाका होनेवालाहै, यह राशि शनिका उच्चहै शनि यहां तुलाके इत्थशाल योग्य अंशपर है कि, लग्नेश कार्क्येश सू० मं० के साथ इत्थशाली हो सकताहै, अब चन्द्रमा



तुलाके होनेपर शनिके साथ इत्थशाली होना चाहताहै ऐसा होनेमें शनिका दोनहूके साथ इत्थशालीका प्रयोजन चन्द्रमाने ग्रहण किया. यह गैरिकम्बूल योग चन्द्रमाके प्रभावसे शनिने किया अर्थात् स्वप्राप्ति फल तीसरे मनुष्यके सहायतासे होगा, यह प्रथम प्रकार हुवा. पुनः लग्न और सभी यथावत् हैं, और तुलामें जैसा शनि पूर्व कहा था वैसा बुधादिकोही ग्रह शून्या-


ध्वग हो तो यह गैरिकम्बूल अशुभ फल देता है
अर्थात् सुखप्राप्ति नहीं होगी इस उदाहरणमें
तुलाके शनिके स्थानमें बुध जानना ॥ ४२ ॥
॥ ४३ ॥ ४४ ॥



अनुष्टुप्—शून्येध्वनींदुरुभयोनेत्थशालोनवायुतिः ॥

खल्लासरो न शुभदः कंबूलफलनाशनः ॥ ४५ ॥

चन्द्रमा शून्य मार्गमें हो और लग्नेश कार्ग्येशके साथ इत्थशाली न हो
अथवा उनसे युक्तभी न हो तो यह खल्लासर कंबू-
लके फलका नाशक है, यद्वा अशुभ फल देता है,
खल्लासर, पारसीय खल्लासर शब्द बलवाची है,
“खल्लासरयोगोदाहरण”सिंह लग्न लग्नेश सूर्य मेप-
के तीन अंशपर, पुत्र भावेश बृहस्पति कुंभके पांच
अंशपर, परस्पर इनका मुथशिल है, चन्द्रमा कन्याके २० अंशमें है यह किसीके
साथ इत्थशाल नहीं करता लग्नेश कार्ग्येशसे युक्तभी नहीं है यह खल्लासर
योग पुत्रप्राप्तिमें बाधा करेगा यह इसका फल है ॥ ४५ ॥



रथोद्ध०—अस्तनीचरिपुवक्रहीनभादुर्बलोमुथशिलंकरोतिचेत् ॥

नेतुमेपनविभुर्यतोमहोतेमुखेपिनसकार्ग्यसाधकः ॥ ४६ ॥


रद्योगका लक्षण कहते हैं—रद्द शब्द पारसीय (निकम्मा) निर्बलका
पर्याय है जो ग्रह अस्त वा नीच राशिगत वा शत्रुराशिस्थ वा वक्रगति वा
(हीनभा) अस्त होनेवाला समीपही उदय हुवा अर्थात् बाल वा वृद्ध हो
और उपलक्षणसे (खलस्थान) तत्काल शत्रुस्थान वा पापयुक्त वा क्रूर-
क्रांत हो यह दुर्बल कहाता है, ऐसा निस्तेज ग्रह जब किसीके साथ इत्थ-
शाल करे तो आदि वा अन्तमें इत्थशालका तद्भाव जन्यफल नहीं दे सक-
ता, क्योंकि यह निर्बल होनेसे न किसीका तेज आप ले सकता न अपना
तेज किसीको देसकता, इस योगका नाम रद्द योग है ॥ ४६ ॥

उपजाति-केन्द्रस्थ आपोक्लिमगंयुनक्तिभूत्वादितोनश्यतिकार्य-
मंते ॥ आपोक्लिमस्थोयदिकेन्द्रयातंविनश्यपूर्वभवतीहपश्चात् ॥४७॥

रह्योगका लक्षण फलसहित प्रकारांतरसे यहभी है, कि जब पूर्वाक्त दुर्बल ग्रहके साथ इत्थशाल कर्ता कार्येश ग्रह केन्द्रमें हो और लग्नेश दुर्बल कार्येशसे आपोक्लिममें हो तो यह समस्त फल सर्वदा रद्दही न होगा किन्तु प्रथम वह कार्य सिद्ध होकर अन्तमें नष्ट हो जायगा यहां आपोक्लिम कहेसे तीसरा और नवमस्थान लिये जाते हैं ६ । १२ स्थानोंमें दृष्टि न होनेसे इत्थशाल योगकी सम्भावनाही नहीं जो कार्येश दुर्बल होकर आपोक्लिम स्थानमें बैठा केन्द्रस्थानगत लग्नेशके साथ मुथशिल कर्ता हो तो उक्त भावोत्थ कार्यको प्रथम नष्ट करके पश्चात् उस कार्यकी सिद्धि करदेगा 'रह्योगका प्रथमोदाहरण' मेषलग्न लग्नेश मंगल भाग्येश बृह-

प्राक्शुभपश्चादशुभरह.

स्पति और सूर्य शनि छठे स्थान में कन्याके १० । १० अंशमें है यहां लग्नेश कार्येश अस्त-
गत और पापयुक्त तथा छठे स्थानमें होनेसे



यह रद्द योग हुआ, फल भाग्यप्रश्न था भाग्यनाश होगा यद्वा 'दूसरा

उदाहरण' यही मेषलग्न लग्नेश वारहवां मंगल दुर्बल और भाग्येश बृहस्पति मकर नीचका दश अंशमें है यहां शीघ्र मंगल आपोक्लिममें बैठकर केन्द्रस्थ मन्दगति गुरुके साथ इत्थशाली होनेसे यह रह्योग प्रथम


प्राक्शुभपश्चाच्छुभरह.



अशुभ पश्चात् शुभ फल कर्ता है यद्वा तीसरा उदाहरण शीघ्र ग्रह

निर्बली केन्द्रमें कर्कके दश अंशपर नीचका मंगल और कार्क्येश बृहस्पति आपोक्लिम वारहवें स्थानमें है मंगल बृहस्पतिसे इत्यशाली है यह रद्योग पूर्व शुभ फल पश्चात् अशुभ फल कर्ता है ॥ ४७ ॥

रहोदाहरणम्.




उपजाति—मंदःस्वभोच्चादिपदेस्थितश्चेत्पदोनशीघ्रेणकृतेत्यशालः॥

तत्रापिकाय्यर्थाभवतीतिवाच्यंवक्रादिनिर्वार्यपदेनचेत्स्यात् ॥ ४८ ॥

दुष्फाली कुत्थयोगका लक्षण कहते हैं—जब मन्दगति ग्रह अपनी नीच राशि वा उच्च वा स्वद्रेक्काण स्वहृदा नवांशकमें हो और शीघ्रग्रह पदेन अर्थात् स्वभोच्चादि शुभाधिकार रहित इत्यशाली हो तोभी कार्क्यसिद्धि कठिनसे होजायगी कहना किंतु शीघ्रग्रह अस्त नीच शत्रु वक्र और बाल-वृद्ध निर्बल स्थानास्थित होकर इत्यशाली हो तो अनिष्ट फल कहना यह दुष्फाली कुत्थयोग है, पारसीय दुष्फालीशब्द दुःसाध्य और कुत्थशब्द शुभ-

वाची है, दुष्फालीकुत्थ दुःसाध्य शुभवाचकहै, उदाहरण, सौख्य प्रश्नमें मेपलग्र लग्नेश मंगल लग्नमें मेपके वारह अंशपर सुखभावेश ग्यारहवाँ कुम्भके दश अंशपर चन्द्रमा इत्यशाली है, मंगल पदयुक्त और चन्द्रमा पदहीन है, ऐसा दुष्फाली कुत्थयोग

दुःफालिकुत्थयोग.



हुआ, सुखप्राप्ति यत्नसे करता है ॥ ४८ ॥


इंद्रव०—वीर्य्योनिताकार्य्यविलग्ननाथौस्वर्क्षादिगैर्नान्यतरोयुनक्ति ॥

अन्यौयदाद्वौबलिनौतदान्यसाहाय्यतःकार्य्यमुशंसंतः ॥ ४९ ॥

दुत्थोत्थदिवीरयोगका लक्षण कहते हैं—लग्नेश कार्क्येश दोनहूँ बलहीन (अस्त नीच रिपुवक्रहीनभा) इत्यादिसे हों परस्पर इत्यशालीभी हों और इनमेंसे शीघ्रग्रह अपनेसे मन्दगतिवाले किसी अन्य तीसरे स्वर्क्षादि बलयुक्त ग्रहसे युक्तहो, विशेषतः मुथशिलीभी हो तो अन्यद्वारा कार्क्य-

सिद्धि होगी, अथवा अन्य कोई स्वर्क्षादि पदयुक्त दो ग्रह शीघ्रगति हों और लग्नेश वा कार्येश हीनबलीसे युक्त हो वा मुथशिल करें तोभी किसी औरकी सहायतासे कार्य सिद्ध होगा. यह सज्जनोक्तिहै, "उदाहरण" खीलाभ प्रश्नमें सिंहलग्न लग्नेश सूर्य नीचराशि तुलामें, कार्येश सप्तम भावका स्वामी शनि नीच राशि मेषकाहै, अथवा राश्यंतरमें बकीहै.

दुत्योत्थदिवीरयोग.



तात्पर्य्यहहै कि दोनहूँ निर्बलहूँ इनमेंसे शनि मंगलसे युक्तहै यह स्वगृही होनेसे बलवानहै, लग्नेश कार्येशके निर्बल होनेसे कार्यसिद्धि नहीं होनीथी. परंतु बलवान् मंगल तीसरे ग्रहसेभी युक्त होनेसे दूसरेके सहायत

स्त्रीप्राप्ति होगी कहना. १ अथवा दो शीघ्र ग्रह सूर्य मंगल मेषमें




अपने २ उच्च स्वगृह होनेसे बलवान् हुये शनिके साथ दोनहूँके इत्थशाल करनेसे योग होजाताहै पूर्वोक्तही फल देताहै. यहां अंश कल्पना मुथशिल योग्य करनी. इस योगका नाम दुत्योत्थदिवीर. पारसीय शब्दहै ॥ ४९ ॥

अनु०—बलीराश्यंतगोन्यर्क्षगामीदीप्तांशकैर्महः ॥

दत्तेन्यस्मैकार्य्यकरस्तंबीरोलग्नकार्य्ययोः ॥ ५० ॥

तंबीरयोगके लक्षण कहते हैं. जब लग्नेश कार्येश किसी स्थानोंमें हों इनका परस्पर इत्थशाल न हो परंतु इनमेंसे कोई राश्यंतगत हो और जिस राशिको गंतव्यहै उसमेंसे कोई अन्यग्रह बलवान् और इत्थशाल संबधि अंशोंपर हो. वस्तुतः इसके साथ वह भविष्य इत्थशालकारी हो तो वह तीसरेको तेज देताहै यह तंबीरयोग हुआ. फल इसका कार्य्य साधकहै.

“ उदाहरण ” सुखप्राप्ति प्रश्नमें तुला लग्न
लग्नेश शुक्र कर्कके दश अंशमें सुख भावेश
शनि कुंभके उनतीस अंशपर है। इनका इत्थशाल
नहीं है, परंतु हस्पति मीनके पांच अंशपर है
इसको शीघ्रगति शनि कुंभके २९ अंशपर



मीनको गंतव्य होनेसे और बृहस्पतिके साथ भविष्य मुथशिल करनेसे अपना
तेज बृहस्पतिको देता है यह भी कार्यसाधक योग है। सुखप्राप्ति करेगा ॥ ५० ॥

उपजा०—लग्नेऽथकेन्द्रेनिकटेपिवास्यविलग्नदर्शीस्वगृहोच्चदृक्के ॥

शुल्लहेस्वेनिजहद्गोवाबलीग्रहोमंदगतिस्त्वशीघ्रः ॥ ५१ ॥

पंद्रहवां कुत्थयोगका लक्षण, कुत्थ पारसीय शब्दसे बलीग्रह लिया-
जाता है वह बहुत प्रकारका है। इस कारण प्रथम बलवत्ता कहते हैं कि
और स्थानोंसे लग्नगत ग्रह बली। तदभावमें अन्य केंद्रगत ४ । ७ । १० बली
होता है तथापि लग्नकी अपेक्षा न्यून ही होता है इनसेभी पणफर आपोक्लिम
२।५।८।११।३।६।९।१२ में न्यून होता है। दुरफमें तो ६।८।१२ स्थानोंमें
निर्बली कह दिया है। केंद्रपणफर आपोक्लिममें क्रमसे बल न्यून होता है
और लग्नदर्शी तथा स्वोच्च स्वद्रेष्काण स्वनवांश स्वहृदामें ग्रह बली होता है
तथामध्यगति। (नंदाक्षा भुजंगारवेः) इत्यादि पूर्वोक्त मध्यगतिपर जो ग्रह
हो वह बलवान् और अल्पगति उससे न्यूनबली विशेष गति अधिक
बली होता है। इसमें युक्ति यह है कि लग्नगत ग्रह पूर्ण (६०) बली, पणफरमें
आधा (३०) आपोक्लिममें चरण (१५) वीर्य्य होता है, संधिमें अनुपात
करना तब लग्नदर्शी ग्रह “अपास्य पश्यन्निजदृश्यस्वेदेत्यादि” से पूर्ण पापदाष्टिसे
पादोन इत्यादि। तथा स्वगृही ग्रह पूर्णवीर्य्य स्वगृहसे सप्तममें निर्वीर्य्य और
अंतरमें त्रैराशिक विधिसे बल लेना। दुरफमें स्वगृही ७ भाव बल पावे इत्यादि
अंतरका त्रैराशिक उच्चबल विधिवत् करना। सूर्य्य चंद्रमा के एक गृह होनेसे

यही होगया भौमादियोंके दोराशि गृह होनेसे अपने गृहसे सप्तम गृह शोधके ६से न्यून हो तो वही रखना, ६से अधिक होतो बारहमें शुद्धकरलेना उपरांत उसके अंशादिमें ३० का भाग लेना लब्धिकलादि फल होगा, यह संप्रदाय युक्त है, यहभी स्मरण चाहिये कि स्वगृहारंभमें पूर्ण बल (६०) और उसके सप्तम भावारंभमें ० अंतरमें अनुपात जैसे १ राशि षष्ठ्यंश १८० से पूर्ण ६० बल मिलता है तो अ क इष्टराशिसे कितना मिलेगा, यहां ६०से अपवर्त्तन करदिया तो गुणक १ भाजक ३० हुआ इत्यादि १ उच्चबल पूर्वोक्त ही है २ द्रेष्काणारंभमें ५ बल और समाप्तिमें पूर्ण १० और समाप्त होही गया तो ० शून्यबल होता है. जैसे द्रेष्काण भुक्त भोग्यांशोंका अंतर अंशादि बारह से गुणकर बल मिलता है पांच अंशसे ६० है तो शेषसे कितना इत्यादि ३ ऐसाही मुशालहमें और हद्दामें भी जानना. गतिबलके निमित्त सूर्य चन्द्रमा नित्य शीघ्र होनेसे गति बल तुल्य है, भौमादियों के ५ होता है इति ॥ ५१ ॥

(०जा०)—कृतोदयोमार्गगतिः शुभेन तेक्षितेः रत्नगस्यदृष्ट्या ॥

क्षुताख्ययानाधिगतोनयुः । रेणसायंचसितेदुभौमाः ॥ ५२ ॥

और प्रकारसे बलवत्ता कहते हैं, कि जो ग्रह उदय हुआ है जो मार्ग गति अर्थात् वक्र होकर मार्ग हुआ है जो शुभ ग्रहयुक्त वा वीक्षित है और जिसपर क्रूर ग्रहकी क्षुत १० । ४ । ७ । १ दृष्टि है तथा जो क्रूरयुक्त नहीं है, वह बलवान् होता है, समय बलके निमित्त 'सायंचसितेदुभौमा' इस पदका अर्थ आद्यश्लोकमें कहेंगे. यहां बलगणनेकी विधि यह है कि उदय बलके वास्ते उदयदिनमें पूर्ण ६० बल अस्तदिनमें ० शून्यबल होता है अंतर दिनोंका अनुपात करना. जैसे उदय दिनसे अस्तदिन पर्यंत जितने दिन हैं उनका आधा करके जो उसमें ६० बल होता है तो इष्ट दिनोंमें कितना होगा यह त्रैराशिक विधि है. १ मार्गगति ग्रहका बल पूर्ववत् ही जानना, २ शुभ युक्त बलके लिये उसके समानलिप्ता पर्यंत हो तो ६० बल, न्यूनाधिक हो तो दोनहूँका अंतर करना वह अंश ३० से न्यून होगा, पुनः वे अंशादि दुगुणे करनेसे बल होता है ३ शुभ दृष्टि बल दृश्य ग्रहकी

पूर्वाक्त प्रकार दृष्टिमें उसकी चौथाई घटायके दृष्टिबल होताहै, ४ ऐसेही औरभी जानने ॥ ५२ ॥

(३०जा०)—यदोदयतेपररात्रिभागेजीवार्कजावह्लिनराः सर्वीर्याः॥

अन्येनिशीनस्यनचैकभागे स्थिताः स्थिरक्षेत्रचबलेनयुक्ताः ॥ ५३॥

शुक्र चंद्रमा मंगल सायंकालमें उदय हों तथा बृहस्पति शनि अर्द्ध रात्रिसे उपरांत, जिस समयमें उदय हों, तथा पुरुष ग्रह सूर्य्य भौम बृहस्पति, दिनमें स्त्री ग्रह चंद्रमा बुध शुक्र शनि रात्रिमें तथा स्थिर राशि, २ । ५ । ८ । ११ में जो ग्रहहो, इतने सभी बलवान् होतेहैं, बलानयन प्रकारहै कि सायं समयोदयी शुक्र तो होताही नहीं चन्द्र भौमका व सूर्य्य स्पष्टका अंतर करके उसमें छः घटाय देना, शेषके अंश करके तीनसे भागलेना लाभबल होगा यहां भी पूर्णबल साठ ही है उत्पत्ति उच्चबल तुल्य है शुक्र के, व सूर्य के अंतर करके छः सेगुनदेना पांचसे भागदेना लाभ बल शुक्रकाहोगा इसकी उपपत्ति, जो पचास अंशोंसे ६० बलमिलता है तो इष्टांशके कितना यह त्रैराशिक है, इनमें १० से अपवर्त्तन करके गुणक ६ भाजक ५ होताहै १ अपररात्रिस्थ बृहस्पति शनि बल निमित्त जब अर्द्धरात्रोत्तर का इष्ट हो तो अर्द्धरात्रिसे तीसरे प्रहर पर्यंत क्रम से बल षण् और तीसरे प्रहरसे क्रम करके चौथे प्रहर होनेमें बल शून्य होजाता है, अर्द्धरात्रिसे उपरांत इष्ट काल हो तो उसमें रात्र्यर्द्ध घटायदेना तीसरे प्रहर उपरांत हो तो रात्रिमानमें घटाय देना शेष साठसे गुनाकर प्रहर प्रमाण घट्यादिसे भागलेना लब्धि गुरुशानिका बल होगा २ दिवाग्रहबलविधि यह है कि जो इष्टकाल प्रातः कालसे मध्याह्नके भीतर हो तो दिनगतलेना मध्याह्नोत्तर सायंकालके अंतर हो तो दिनशेष लेना उसे ६० से गुनाकर दिनार्द्धसे भागलेना दिवाबल ग्रहोंका बल मिलेगा उपपत्ति यह है कि जब दिनार्द्धमें ६० बल मिलताहै तो दिनगत वा दिनशेष अमुक संख्यासे कितना मिलेगा ३ इसी विधिसे रात्रि बली ग्रहोंका बल रात्र्यर्द्धसे मिलता है ४ सूर्य्यके भावबलविधि यह है कि ग्रहमें सूर्य घटाय देना, शेष अंशादि त्रिगुना करके ६० से शुद्ध करना बल

होता है इसमें सूर्यके प्रवृत्ति निवृत्तिके २० अंशहैं इनमें ६० बल मिलता है तो पूर्वोक्त अंतरसे कितना मिलेगा, गुणक भाजकके २० से अपवर्त्तन करके गुणक तीन भाजक १ एक होता है. ५ स्थिर राशिबल यह है कि राशिके आरंभमें बलका आरंभ १५ अंशमें पूर्ण ६० पंद्रह अंशमें ३० तो शून्यबल क्रमसे घटता बढ़ता है ग्रहराशिके पूर्वार्द्धमें हो मुक्तांश उत्तरार्द्ध में हो तो भोग्यांशलेने वही चतुर्गुणा करके बल होता है अनुपात यह है कि १५ अंशसे पूर्ण ६० बल होता है तो मुक्त वा भोग्यांशोंसे कितना होगा ६ किसीका मत यह है कि ग्रह राश्यादिमें पूर्ण बली मध्यमें मध्य अंतमें शून्य बली क्रमसे होता है, तो ग्रहके अंशादि ३०से शुद्धकरके शेष द्विगुण करना वही बल होता है "अनुपात" जो ३० अंशसे पूर्ण बल ६० मिलता है तो ग्रह भोग्यांशोंसे कितना मिलेगा यहां दोनहूंमें ३० से अपवर्त्तन करके शेषद्विगुण बल होगा, यह अर्थयुक्त है ॥ ५३ ॥

उपेंद्रव०—स्त्रियश्चतुर्थ्यात्पुरुषावियद्वाद्भूषट्कगाओजभगाःपुमांसः ॥
समेपरेस्थुर्बलिनोविमृश्यविशेषमेतेषुफलंनिगद्यम् ॥ ५४ ॥

और प्रकारसे बल कहते हैं कि स्त्री ग्रह चं. बु. शु. श. चतुर्थ भावसे दशम पर्यंत छः स्थानमें और पुरुष ग्रह सू. मं. वृ. दशमसे चतुर्थ पर्यंत बली होते हैं तथा विषम राशियोंमें पुरुष ग्रह सम राशियोंमें स्त्री ग्रह बली होते हैं यहां स्त्रीग्रह चतुर्थसे दशम और पुरुषग्रह दशमसे चतुर्थ पर्यंत, सभी भावोंमें तुल्यही बल पातेहैं यही उपपत्ति है और विषम सम राशिगत पुं-स्त्री ग्रहोंका बल स्थिर राशिसंस्थ ग्रहवत् पूर्वोक्त प्रकारसे जानना इतने प्रकार बलाबल कहनेका प्रयोजन यह है कि इत्थशाल कर्त्ता वा इत्थशाल कर्त्ता चाहता ग्रह उक्त प्रकारोंसे जैसेमें हो वैसाही फल कहना, यहां उक्त बल भेदोंमेंसे किसी प्रकार बली जो इत्थशाली ग्रह है उसीको कुत्थ योग कहते हैं न कि कुत्थ शब्दसे बली ग्रह लिया जाताहै ॥ ५४ ॥

स्रग्धरा—लघ्नात्पृष्ठांत्यमेंत्येऽनृजुररिगृहगोनीचगोवक्रगामीक्रूरैर्युक्तो-
स्तगोवा यदिचमुथशिलीक्रूरनीचारिभस्थैः ॥ क्षुद्दृष्ट्याक्रूरदः-

(७४)

ताजिकनीलकण्ठी ।

घोव्ययरिपुमृतिगैरित्थशालंविधित्सुःकुर्वन्वानिर्बलोयंस्वगृहगन
भगोराहुपुच्छास्यवर्ती ॥ ५५ ॥ उपजा०—अनीक्षमाणस्तनुम
स्तभागास्थितः स्वभोच्चादिपदैश्चशून्यः ॥ क्रूरसराफीर्नसवीर्य्यु-
क्तः कार्य्यैविधातुंनविभुर्यतोसौ ॥ ५६ ॥

अब सोलहवें दुरफं योगका लक्षण कहते हैं, पारशीय दुरफ शब्द निर्बलवाची है यह निर्बलता बहुत प्रकार होती है इसलिये निर्बलप्रकार प्रथम श्लोकसे यह है कि वर्ष प्रश्न वा दिन लग्नसे जो ग्रह छठे आठवें बारहवें स्थानमें हो तथा गतिरहित यद्वा शत्रुराशिस्थ नीचराशिगत वक्रगतिवाला, तथा पापयुक्त और अस्तंगत ग्रह यद्वा जो शत्रु ग्रहसे वा नीच शत्रुराशिगत ग्रहसे इत्थशाली हो और जिस पर पापग्रहकी क्षुत दृष्टि ४ । १० । ७ । १ हो और छठे आठवें बारहवें स्थानगत ग्रहसे जिसका इत्थशाल हो वा कर्ना चाहता हो, यद्वा अपनी राशिसे सप्तम राशिमें हो, तथा राहुके पुच्छ वा मुखमें हो राहुके भुक्तांश पुच्छ भोग्यांश मुख होता है इतने, प्रकार युक्त ग्रह निर्बल होता है. इसके निर्बलांक गणितकी पूर्ववत्ही विधि है. जैसे शत्रु राशिगतका स्थिर राशिगत ग्रह तुल्य विधिसे करना वक्रग्रहके लिये वक्रदिनोंमें पूर्ण फिर क्रमसे पूरे दिनोंमें शून्य होता है, मध्यदिनोंसे पूर्ण (६०) मिलता है तो इष्टदिनोंमें कितना मिलेगा इति । तथा क्रूर युक्त ग्रह नौ अंशके भीतर शून्य उपरांत भाव फलके तुल्य बललेना, अस्तग्रहको उदित ग्रहवत् विधिसे त्रैराशिक करना, उपरांत ६० से शुद्ध करके अशुभ बलमिलता है इत्यादि पूर्वोक्त विधियोंसे सभीका हीन बललेना ॥५५॥ और प्रकार अशुभ बल प्रकार कहते हैं कि जो ग्रह लग्नको नहीं देखता वह निर्बल होता है जिस भावमें जिस ग्रहकी दृष्टिका अभाव है उसमें. गणितसे जो कुछ अंक पाया है वह उसके आगेके भावके अंकमें घटाय देना शेष अशुभ दृष्टि होती है १ तथा अस्तंगत सूर्य्य जिस नवांशकमें है उससे सप्तम नवांशमें जो हो वह निर्बल होता है. पूर्वविधिसे जो बल अस्तका आता है

उसे ६० में शुद्ध करके अशुभ बल होता है, किसीका मत है कि सूर्य जिस राशि नवांशमें अस्त होता है उसमें वर्तमान ग्रह निर्बल होता है परंतु जिस दिन सूर्य उदय नवांशसे अन्यमें अस्त हो उस दिन यह विचार है. सूर्य तो सर्वदा उदय नवांशमें अस्त होता है कदाचित् बदलता है २ तथा स्वग्रह उच्च हद्दां द्रेष्काण नवांश संज्ञक पदोंसे रहित ग्रह निर्बल होता है यहभी स्वग्रहादियोंका शुभ बल जो पूर्व कहा गया है उसे ६० में शुद्ध करनेसे अशुभ बल होता है और (कुरेसराफी) ईसराफ योग पूर्व कहा गया है, जो ग्रह पाप ग्रहके साथ ईसराफी अर्थात् शीघ्र घन भाग मंद अल्प भाग हो तो यह अपना तेज दूसरेको नहीं देसकता इसकारण यहभी निर्बली होता है मंदग्रहसे पीछे शीघ्रग्रह स्वदीप्तांशोंके अंतर हो तो शून्य बल इसके उपरांत क्रमसे मंदग्रहोंके अंशोंके समान होनेपर पूर्ण बली होता है, बीचमें हो तो अनुपात जैसे यदि अमुक दत्तांशोंसे पूर्ण (६०) बल मिलता है तो दीप्तांशोंमें भुक्त अंशोंका कितना मिलेगा ऐसाही ईसराफकीभी रीति है, इत्थशालीग्रह इत्युक्त प्रकारोंमें किसी प्रकारसे निर्बल हो तो इत्थशालोक्त फल नहीं देता, इसका नाम दुरफ योग है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

शालि०—चंद्रःसूर्याद्वादशेवृश्चिकाद्येखंडेनेष्टोतेतुलायांविशेषात् ॥

राशीशेनादष्टमूर्तिर्नसर्वैर्दृष्टो यःशून्यमार्गःपदोनः ॥ ५७ ॥

सब ग्रहोंके दुरफ कहने उपरांत केवल चंद्रमाका दुरफ कहते हैं कि जो सूर्यसे बारहवें स्थानमें चंद्रमा हो तो निर्बल होता है तथा वृश्चिकके पूर्वार्द्ध १५ अंशपर्यंत और तुलाके उत्तरार्द्ध १५ अंश उपरांत तद्वत् चंद्रमा जिस राशिमें है उसका स्वामी इसको न देखे, तथा चंद्रमाको कोई ग्रहनदेखे तथा शून्याध्वग जर्थात् स्वोच्चादि शुभाधिकार रहित हो तो इतने प्रकारसे चंद्रमा निर्बल होता है. ग्रंथांतरोंमें चन्द्रमाके निर्बल होनेके दश प्रकार ये हैं कि नीचगत १ नीचस्थ ग्रहसे मुथाशिली २ सूर्यके समीप १२ अंशके अभ्यन्तर ३ (राहुमुख) राहुके भोग्यांशोंमें ४ पापग्रहके साथ १२ अंशकेभीतर ५ अपनी राशिसे सप्तम मकरका ६ धन राशिमें धन नवांशका, अपनी राशिसे सप्तम राशिमें ग्रह निर्बल होता है, जो कहा वह उससे

(७६)

ताजिकनीलकण्ठी ।

पूर्व राशिके एक नवांशको लेकर होता है ७ अस्तंगतके ८ अस्तंगतके साथ
मुथशिली ९ शत्रुक्षेत्रगत १० इतने प्रकारोंसे चंद्रमा निर्बल होता है ॥ ५७ ॥

शालि०—क्षीणोभतिनाशुभोजन्मकालेपृच्छायावाचंद्रएवंविचित्यः ॥
शुक्लेभौमःकृष्णपक्षेर्कसूनुः क्षुद्रष्टयेदुंवीक्ष्यतेनोशुभोसौ ॥ ५८ ॥

और चंद्रमा कृष्ण पक्षकी एकादशीसे शुक्लकी पंचमी पर्यंत तथा
राशिके अंत्य २६ । ४० अंशसे ऊपर अर्थात् नवम नवांशक्रमे (क्षीण)
अशुभ होता है यह विचार जन्मकाल वा प्रश्नादिमें करना तथा मंगल शत्रु
दृष्टि ४ । १० । ७ १ से शुक्ल पक्षके चंद्रमाको देखे और शनि ऐसी
दृष्टिसे कृष्ण पक्षके चंद्रमाको देखे तो वह चंद्रमा संपूर्ण कार्योंमें
अशुभ होता है ॥ ५८ ॥

वसंततिलका०—शुक्लेदिवानृगृहगोर्कसुतः शशांकं कृष्णे कुजो-
निशि समक्षगतःप्रपश्येत् ॥ दोषालपतां वितनुतेऽपरथाबहुत्वं
प्रश्नेथवाजनुषिबुद्धिमतोहनीयम् ॥ ५९ ॥

जो शुक्लपक्ष और दिनमें (पुरुष राशि) विषम राशिमें बैठा शनिश्चर
चंद्रमाको देखे तथा कृष्णपक्ष और रात्रिमें (समराशि) स्त्री संज्ञक-
राशिमें बैठा मंगल इसे देखे तो चंद्रमाका पूर्वोक्त (दुरफ) निर्बलताका दोष
न्यून हो जाता है इसप्रकार श. मं. की दृष्टि न होनेमें दोष प्रबलही रहता है
यह विचार जन्म तथा प्रश्न उपलक्षणसे वर्षादियोंमें विचारना चाहिये, इन
दोनहूँको (कुत्थ) बलवाचू और (दुरफ) निर्बल योग सभी ग्रहोंके सर्वदा
विचारने चाहिये. इन दोनोंका बल उक्त प्रकारसे गिनकर इनका अंतर
करना जो कुत्थ बल अधिक हो तो वह ग्रह अशुभ स्थानमेंभी शुभ देता है,
वह शुभ स्थानमें अत्यन्तही शुभ देता है जो. दुरफ बल अधिक हो तो वह
ग्रह शुभ स्थानमेंभी अशुभ फल देता है अशुभ स्थानमें अत्यंत अशुभ देता है
ग्रह बलतारतम्यसे फल सर्व विचारना. इति १६ योग स० ॥ ५९ ॥

अथ हर्षबलानयनम् ।

३० जा०—नंदत्रिषड्लग्रभवर्क्षपुत्रध्ययाइनाद्धर्षपदंस्वभोच्चम् ॥

त्रिभंत्रिभलभ्रमतः क्रमेणस्त्रीणांनृणांरात्रिदिनेचतेषाम् ॥ ६० ॥

अब सामान्यतासे चार प्रकार हर्षस्थान कहते हैं कि सूर्य नवम स्थानमें चंद्रमा तीसरे मंगल छठेमें बुध लग्नमें बृहस्पति ग्यारहवेंमें शुक्र पंचम शनि बारहवेंमें हर्षबल पातेहैं १ दूसरा सूर्यादि ग्रह अपने २ उच्चतथा अपनी २ राशियोंमें हर्ष बली होतेहैं २ तीसरा जैसे १ । २ । ३ भावोंमें स्त्री ग्रह ४ । ५ । ६ में पुरुष ग्रह तथा ७ । ८ । ९ में स्त्री ग्रह १० । ११ । १२ में पुरुष ग्रह ३ चौथे रात्रिमें स्त्री ग्रह दिनमें पुरुष ग्रह बल पातेहैं ४ यह बल प्रश्न और जन्म वर्षादियोंमें भी विचारना. इनका न्यास चक्र बनायके जिस स्थानमें जो ग्रह बल पावे उसके उससंज्ञाके कोष्ठमें ५

कुण्डली वर्ष.		हर्षबलचक्रम् ।							
श्री०	र	चं	मं	बु	बृ	शु	श	स्थान	
स्थान	०	०	०	०	०	०	०	०	
स्वरा०	०	०	०	०	०	०	०	०	
स्वाच्च	५	०	०	०	०	५	०		
स्त्री.पु.	०	०	०	५	५	०	५		
स.दि	५	०	०	०	५	०	०		
योग.	१०	०	०	५	१०	५	५		

अंकलिखना और स्थानोंमें शून्य करदेना. पीछे सबका योग करना. जैसे कोई ग्रह एक स्थान में बल पावे तो ५ ही योगहुवा दोनोंमें बली हो तो १० तीनमें १५ चारोंमें २० योग होगा इसे हर्ष विंशोपका बल कहतेहैं इसके अनुसार फल कहना विशेष विचार यह है कि जो पूर्व कुत्थ दुरुफ बल त्रैराशिकसे मिलेहैं उनको और हर्षबलको त्रिगुण करके मिलायदेना शुभाधिक हो तो शुभफल विशेषहीन बलाधिक हो तो अंतर करके अशुभ फल विशेष कहना. यह ताजिक शास्त्रवेत्ताओंका संप्रदायहै ॥ ६० ॥

शार्दूल०—श्रीगर्गान्वयभूषणंगणितविञ्चितामाणिस्तत्सुतोऽनंतानंतमतिर्व्यधात्खलमतध्वस्त्यैजनुःपद्धतिम् ॥ तत्सूनुः खलु नीलकंठविबुधोविद्वच्चि वानुज्ञया योगान्बोडशहर्षभानिच तथासंज्ञाविवेकेव्यधात् ॥ ६१ ॥

प्रथम संज्ञा प्रकरणमें आचार्य्यने स्वनाम गुणादि प्रकट किये वही इस दूसरे प्रकरणमें भी जानना इतना विशेष है कि षोडशयोग हर्षस्थान इस दूसरे प्रकरणमें कहेहैं ॥ ६१ ॥ इति महीधरकृतायां ताजिकनीलकण्ठीभाषायां ग्रहस्वरूपदृष्टिषोडशयोगहर्षस्थानविवरणनामाध्यायः ॥

इन्द्रवज्राच्छन्दः—पुण्यंगुरुर्ज्ञानयशोथमित्रंमाहात्म्यमाशाच
समर्थताच ॥ भ्राताततोगौरवराजतातमातासुतोजीवितमंबु
कर्म ॥ १ ॥ (वसंतति०) मांघं चमन्मथकलीपरतःक्षमोक्तं
शास्त्रंसंबंधुसहमंत्वथबंदकंच ॥ मृत्योश्चसद्मपरदेशधनान्यदा-
रा स्यादन्यकर्मसवणिकत्वथकार्य्यसिद्धिः ॥ २ ॥ (अनु०)
उद्गाहसूतिसंतापाःश्रद्धाप्रतीर्बलंतनुः ॥ जाड्यव्यापारसहमे
पानीयपतनंरिपुः ॥ ३ ॥

अनुष्टुप्—शौर्योपायदरिद्रत्वंगुरुताजलकर्मच ॥

बंधनं दुहिताश्वश्चपंचाशत्सहमानिहि ॥ ४ ॥

अब सहम विचार कहतेहैं (सहम) पारशीय पद सप्तवाची है यह समर सिंहमतसे ४८ और यवनादियोंके मतसे ५० हैं कोई अधिकभी कहतेहैं यहाँ ५० के नाम कहे जातेहैं कि पुण्य १ गुरु २ ज्ञान ३ यश ४ मित्र ५ माहात्म्य ६ आशा ७ समर्थता ८ भ्राता ९ गौरव १० राजा ११ तात १२ माता १३ सुत १४ जीवित १५ जल १६ कर्म १७ मांघ १८ कामदेव १९ कलह २० क्षमा २१ शास्त्र २२ बन्धु २३ बंदक २४ मृत्यु २५ परदेश २६ धन २७ अन्यदारा २८ अन्यकर्म २९ वणिक ३० कार्य्यसिद्धि ३१ विवाह ३२ प्रसूति ३३ संताप ३४ श्रद्धा ३५ प्रीति ३६ बल ३७ तनु ३८ जाड्य ३९ व्यापार ४० पानीयपतन ४१ शत्रु ४२ शौर्य्य ४३ उपाय ४४ दरिद्र ४५ गुरुता ४६ जलकर्म ४७ बन्धन ४८ दुहिता ४९ अश्व ५० ये तो आचार्य्य कथितहैं और इनमें परदेशही मार्ग विवाहही स्त्री ज्ञानही विद्या सहम जानना. और आचार्य्य मतसे सहम औरभी हैं कि भाष्य्या ५१ मोक्ष ५२ वसु ५३ पितृव्य ५४ क्लेश ५५ गमागम ५६ गज ५७ सन्मति ५८ घात ५९ कोष्ट ६० चतुष्पद ६१ व्यसन ६२ कृषि ६३ दृष्टि ६४ आखेट ६५

भृत्य ६६ अंग ६७ प्राप्ति ६८ निधि ६९ ज्ञाति ७० ऋण ७१ बुद्धि ७२
आधान ७३ धैर्य ७४ सत्यक ७५ इतने औरभी हैं ॥ १ । २ । ३ । ४ ॥

इन्द्रव०—सूर्योनचंद्रान्वितमहिल वींद्रकं तंनिशिपुण्यसंज्ञम् ॥

शोद्धयक्षशुद्ध्याश्रयभांतरालेलग्रंनचेत्सैकभमेतदुक्तम् ॥ ५ ॥

अब सहमोंकी बनाने की रीति कहतेहैं प्रथम पुण्य सहमके लिये यह है कि, वर्षप्रवेश वा जन्मादि काल दिनका हो तो तात्कालिक स्पष्ट चन्द्रमामें तात्कालिक सूर्य स्पष्ट घटायके तात्कालिक लग्न स्पष्ट जोडदेना, रात्रिका लग्न हो तो सूर्यमें चंद्रमा घटायके लग्न स्पष्ट जोडदेना; यह पुण्य-सहमका राश्यादि स्पष्ट होताहै, परन्तु जिसमें संस्कार औरभी है, जो ग्रह घटाय जाताहै वह शोधय और जिसमें घटाय जाताहै वहशुद्ध्याश्रय कहाताहै शोधयक्ष और शुद्ध्याश्रयकेबीच अर्थात् शोधय ग्रहकी राशिसे शुद्ध्याश्रयग्रह स्थित राशिपर्यंत लग्न न हो तो पूर्वानीत पुण्यसहममें एक(१)राशि जोडदेना ऐसा न हो तो न जोडना (उदाहरण) सूर्य स्पष्ट राश्यादि ४ । ८ १०चन्द्र स्पष्ट राश्यादि ६ । १२ । १० लग्न स्पष्ट । ८ । १० । १०दिनके वर्ष प्रवेशमें सूर्य चन्द्रमामें घटाय शेष २ । ४ । ० लग्न जोडदिया तो १० १४ । १०अब संस्कार है कि शोधयक्ष सिंह ८ अंशसे शुद्ध्याश्रय तुला १२ अंशकेभीतर लग्न न होनेसे एक जोडदिया तो ११ । १४ । १० यह पुण्यसहम हुआ, रात्रिका वर्षप्रवेश हो तो उदाहरण सूर्य ८ । ४ । १०में चन्द्रमा ६ । १२ १०घटाय शेष १ । २२ । ० लग्न ० । १० । १० जोडदिया तो भया २ । २ । ० सूर्यमें चंद्रमा घटाय इस लिये तुला १२ अंशसे धन ४ अंशपर्यंत लग्न न होनेसे सैक करना इससे ३ । २ । ०यही पुण्यसहम भया शोद्ध्याश्रय राशयंतर लग्न न हो तो, राशिमें १ जोडना यह संस्कार सभी सहमोंमें जानना ॥ ५ ॥

उ० जा०—व्यत्यस्तमस्मा रुविद्ययोस्तुसंसाधनंपुण्यवियुक् रे-
ज्यः ॥ दिवाविलोमंनिशिपूर्ववत्तुयशोभिधंतत्सहमंवदंति ॥ ६ ॥

अब गुरुविद्या और यश सहमकी विधि कहते हैं, इनमें गुरु और विद्या, सहम तो पुण्य सहमके विपरीतहै जैसे दिनमें सूर्यमें चन्द्रमा घटायके रात्रिमें चन्द्रमामें सूर्य घटायके लग्न जोड़देना 'शोद्धयक्षेत्यादि' संस्कार करके गुरु और विद्यासहम होतेहैं विद्यासहमको ज्ञानभी कहतेहैं ३ यश सहमके लिये दिनमें बृहस्पतिमें पुण्य सहम घटायदेना रात्रिमें पुण्य सहममें बृहस्पति घटायदेना शोद्धयक्षेत्यादि सर्वत्रहीहै यह यशसहम होताहै ॥ ६ ॥

रथोद्ध०—पुण्यसहमगुरुसहमतस्त्यजेद्व्यत्ययोनिशिसितान्वितंचतत् ॥

सैकतातनुवदुत्तरीतितोमित्रनामसहमंविदुर्बुधाः ॥ ७ ॥

मित्र सहम निमित्त दिनमें गुरु सहममें पुण्यसहम घटायके शुक्र जोड़ देना, रात्रिको पुण्य सहममें गुरु सहम घटायके शुक्र जोड़ना शोद्धयक्ष शुद्ध्याश्रय भांतराल लग्न हो तो १ जोड़देना मित्र ५सहम होताहै ॥ ७ ॥

शालिनी—पुण्याद्गौमंशोधयेदुक्तवत्स्यान्माहात्म्यंतन्नक्तंस्माद्विलो-
मम् ॥ शुक्रमंदादह्नित्तं विलोममाशाख्यस्यादुक्तवच्छेषमूह्यम् ॥ ८ ॥

माहात्म्य और आशा सहमके लिये पुण्य सहममें मंगल घटाके लग्न जोड़देना शोध्यक्षेत्यादिसे सैक प्राप्ति हो तो १ जोड़देना दिनका माहात्म्य सहम ६ होताहै रात्रिको विपरीत, जैसे मंगलमें पुण्य सहम घटायके शेष पूर्ववत् करना आशा सहमको शनिमें शुक्र घटायके शेष लग्नमें जोड़ना एक योगकी प्राप्ति हो तो जोड़ना. दिनका आशा सहम होताहै, रात्रिको विपरीत जैसे शुक्रमें शानि, घटायके शेष पूर्ववत् करना. आशा इच्छाका नामहै ॥ ८ ॥

इन्द्रवज्रा—सामर्थ्यमारान्तनुपंविशोधयन्तं विलोमंतनुपेकुजेतु ॥

जीवाद्दिशुध्येत् सततंपुरावद्भारार्किहीनाद्भूरुतःसदोह्यः ॥ ९ ॥

दिनको लग्नेश मंगलमें घटाना रात्रिको मंगल लग्नेशमें घटाय देना जब लग्नेश मंगलही हो तो दिन तथा रात्रिमें बृहस्पतिमें शुद्ध करना सामर्थ्य-सहम होताहै तथा दिन रात्रिमें बृहस्पतिमें घटायके शेष पूर्ववत् करना यह भ्रातृसहम होताहै ॥ ९ ॥

उपजाति—दिनेगुरोश्चंद्रमपास्यनत्तरर्विक्रमादकंविधूचदेयौ ॥

रीत्योक्त्यागौरवमर्कमाकैरपास्यवामंनिशिराजतातौ ॥ १० ॥

दिनको बृहस्पतिमें चन्द्रमा घटायके शेषमें सूर्य जोड़ना, रात्रिको बृहस्पतिमें सूर्य घटायके चन्द्रमा जोड़ना शोध्यर्क्षत्यादिसे अन्तरालमें सूर्य वा चन्द्रमा न हो तो १ जोड़ना गौरवसहम होताहै १० तथा दिनको शनिमें सूर्य घटायके और रात्रिको सूर्यमें शनि घटायके पूर्ववत् लग्न जोड़ना, शोध्यर्क्ष त्यादि संस्कार करके राजसहम होताहै ११ यह पितृसहम १२ भी है ॥ १० ॥

इंद्रव०—मातेन्दुतोपास्यसितं विलोमं नक्तंसुतोहर्निशमिंदुमीज्यात् ॥
स्याज्जीविताख्यंगुरुमार्कितोह्निवामंनिशीदंसममंवयांबु ॥ ११ ॥

दिनको चन्द्रममें शुक्र घटायके रात्रिको शुक्रमें चन्द्रमा घटायके लग्न जोड़ना, मातृ और अंबु अर्थात् जलसहम होताहै १३ दिनको और रात्रिकोभी गुरुमें चन्द्रमा घटायके लग्न जोड़ना पुत्रसहम होताहै १४ दिनको शनिमें बृहस्पति घटायके रात्रिको बृहस्पतिमें शनि घटायके लग्न जोड़ना जीवितसहम होताहै १५ इसीको ऐश्वर्यसहमभी कहते हैं अम्बुसहम मातृ सहमही होता है सो कह चुके हैं १६ ॥ ११ ॥

इ०व०—कर्मज्ञमारात्रिशिवाममुक्तंरोगाख्यमिंदुंतनुतःसदैव ॥

स्यान्मन्मथोलग्रपमिंदुतोह्नि वामंनिशीदुंतनुपंसदाऽर्कात् ॥ १२ ॥

दिनको मंगलमें बुध रात्रिको बुधमें मंगल घटायके लग्न जोड़ना कर्मसहम १७ होता है, लग्नमें चन्द्रमा घटाय लग्न जोड़के रोगसहम १८ दिनरात्रि का होताहै, लग्नमें चन्द्रमा घटायके रात्रिको विपरीत करके लग्न जोड़ना कामसहम १९ होता है चन्द्रमाही लग्नेश हो तो दिन तथा रात्रि सूर्यमें चन्द्रमा घटाना ॥ १२ ॥

उ०जा०—कलिश्मेस्तोगुरुतोविशुद्धेकुजेविलोमंनिशिपूर्वेरीत्या ॥

शास्त्रंदिने सौरिमपास्यजीवाद्दामं निशिज्ञस्यश्रुतिःपरावत् ॥ १३ ॥

बृहस्पतिमें मंगल घटायके लग्न जोड़ना दिनका कलिसहम २० होताहै, रात्रिको मंगलमें बृहस्पति घटायके लग्न जोड़ना क्षमासहमभी इसी प्रकारका

है २१ दिनको बृहस्पतिमें शनि रात्रिको शनिमें बृहस्पति घटायके शेषमें बुध जोड़ना शास्त्रसहम होताहै २२शोधयर्क्षेत्यादि संस्कार सर्वत्रही है ॥ १३ ॥

०जा०—दिवानिशंज्ञाच्छशिनंविशोध्यबंध्वाख्यमेतन्निशिवंदकंस्यात् वामादिवैतन्मृतिरष्टमक्षादिंदुंविशोध्योक्तवदार्कियोगात् ॥ १४ ॥

दिनको बुधमें चन्द्रमा घटायके लग्न जोड़ना रात्रिकोभी यही करना बन्धुसहम होताहै २३ दिनको चन्द्रमामें बुध और रात्रिको बुधमें चन्द्रमा घटायके लग्न जोड़ना बंदरसहम होताहै २४ दिन तथा रात्रिमें मृत्युभावमें चंद्रमा घटायके शनि जोड़ना मृत्युसहम २५ होताहै ॥ १४ ॥

उपजा०—अहर्निशंवित्तपमर्थभावाद्धिशोध्यपूर्वोक्तवदर्थसद्म ॥

देशांतराख्यंनवमाद्धिशोध्यधर्मेश्वरंसंततमुक्तवत्स्यात् ॥ १५ ॥

दिवा और रात्रिमेंभी धनभावमें धनभावेश घटायके लग्न जोड़ना धन-सहम २६ होताहै तथा दिवा रात्रि धनभावमें धर्मभावेश घटायके लग्न जोड़ना परदेशसहम २७ होताहै ॥ १५ ॥

उपजा०—सितादपास्यार्कमथान्यदाराह्वयंसदाप्राग्वदथान्यकर्म ॥

चन्द्राच्छनिवाममथोनिशार्यांशश्चद्विज्यंदिनबंदकोत्तया ॥ १६ ॥

दिनरात्रि शुक्रमें सूर्य घटायके लग्न जोड़ना परस्त्री सहम २८ होता है, दिनको चन्द्रमामें शनि रात्रिको शनिमें चन्द्रमा घटायके लग्न जोड़ना पर-कर्म २९ सहम होताहै, दिनरात्रि चन्द्रमामें बुध घटायके लग्न जोड़ना वा-णिज्य सहम ३० होताहै ॥ १६ ॥

उपजा०—शनेर्दिवाकैनिशिवंद्रमाकैर्विशोध्यसूर्येदुभनाथयोगात् ॥

स्यात्कार्यसिद्धिःसततंविशोध्यमंदंसितात्स्यात्तुविवाहसद्म ॥ १७ ॥

दिनको शनिमें सूर्य घटायके सूर्यराशिनाथ जोड़ना, रात्रिको शनिमें चंद्रमा घटायके चंद्रराशिस्वामी जोड़ना कार्ग्यसिद्धिः ३१ सहम होताहै, दिन-रात्रि शुक्रमें शनि घटायके लग्न जोड़ना विवाहसहम ३२ होताहै ॥ १७ ॥

उपजा०—गुरोर्बुधं प्रोज्झ्य भवेत्प्रसूतिर्वामनिशीर्दुंशानितो विशोध्य ॥
षष्टीक्षिपेदुक्तदिशासदैव संतापसद्धारमपास्यशुक्रात् ॥ १८ ॥

दिनको बृहस्पतिमें बुध रात्रिको बुधमें बृहस्पति घटायके लग्न जोडना प्रसूतिसहम होताहै ३३ दिनरात्रि शनिमें चन्द्रमा घटायके रिपुभाव जोडना संतापसहम ३४ होताहै ॥ १८ ॥

उ०जा०—श्रद्धासदाप्रोक्तादिशाथपुण्यांविद्याख्यतः प्रोज्झ्यसदापुरोक्त्या
प्रीत्याख्यमुक्तंवलदेहसंज्ञेयशःसमेजाड्यमपास्यभौमात् ॥ १९ ॥

दिनरात्रि शुक्रमें मंगल घटायके लग्न जोडना श्रद्धासहम ३५ होता है, दिनको रात्रिकोभी विद्यासहममें पुण्यसहम घटायके लग्न जोडना प्रीतिसहम ३६ होताहै, बलसहम ३७ और देहसहम ३८ यशसहमके तुल्य जानने और दिनको मंगलमें तथा शनि रात्रिमें विपरीत करके बुध जोडना जाड्य ३९ सहम होगा ॥ १९ ॥

उपजा०—शानिविलोमनिशिचांद्रयोगाद्द्व्यापारमाराज्जमपास्यशश्वत् ॥
पानीयपातः शशिनंविशोध्यसौरेर्विलोमनिशिपूर्ववत्स्यात् ॥ २० ॥

दिनरात्रि भौममें बुध घटायके लग्न जोडदेना व्यापारसहम ४० होताहै दिनको शनिमें चन्द्रमा रात्रिको चन्द्रमामें शनि घटायके लग्न जोडना पानीय-पतनसहम ४१ होताहै ॥ २० ॥

उपजा०—मन्दंकुजात्प्रोज्झ्यरिपुर्विलोमंरात्रौभवेद्भौमविहीनपुण्यात् ॥
शौर्य्यविलोमनिशिपूर्ववत्स्यादुपायईज्यंशानितोविशोध्य ॥ २१ ॥

दिनको मंगलमें शनि रात्रिको शनिमें मंगल घटायके लग्न जोडना शत्रु ४२ सहम होताहै, दिनको पुण्यसहममें मंगल रात्रिको मंगलमें पुण्यसहम घटायके लग्न जोडना शौर्य्यसहम ४३ होता है, दिनको शनिमें बृहस्पति रात्रिको बृहस्पतिमें शनि घटायके लग्न जोडना, उपायसहम ४४ होताहै २१ ॥

(८४)

ताजिकनीलकण्ठी ।

उपजा०—वामनिशिज्ञान्तुविशोध्य पुण्याज्ज्युग्विलोमनिशितदरिद्रम् ॥
सूर्योच्चतःसूर्यमपास्यनक्तं चन्द्रंतदुच्चाद्गुरुतापुरोक्तया ॥ २२ ॥

दिनको पुण्यसहममें बुध घटायके बुध जोड़ना रात्रिको बुधमें पुण्यसहम
घटायके बुध जोड़ना तो दारिद्र्यसहम ४५ होता है, दिनको सूर्यके उच्च० ।
१० में सूर्य घटायके लग्न जोड़ना, रात्रिको चन्द्रमाके उच्च१।३ में चन्द्रमा
घटायके लग्न जोड़ना गुरुसहम ४६ होता है, शेषकर्म शोध्वर्क्षेत्यादिसे संस्कार
सर्वत्रही देखना चाहिये ॥ २२ ॥

अनु०—कर्काद्र्तःशनिप्रोज्झयस्याज्जलाध्वान्यथानिशि ॥

पुण्याच्छनिविशोध्याह्निवामनिशितुबंधनम् ॥ २३ ॥

दिनको कर्कके आधा ३ । १५ में शनि घटायके रात्रिको विपरीत करके
लग्न जोड़ना जलमार्गसहम ४७ होता है, दिनको पुण्यसहममें शनि और
रात्रिको शनिमें पुण्यसहम घटायके बंधन ४८ सहम होता है ॥ २३ ॥

सहमसारणी ।

सं०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
ना०	पुण्य	गुरु	ज्ञान विद्या	यशव लवपु	मित्र	माहा त्म्य	आशा	समर्थ.	भ्रातृ	गौरव
दिवा लग्न	चंद्रे	रवौ	रवौ	जीवे	गुरु सहम	पु. स.	ज्ञानौ	भौमे	जीवे	जीवे
ऋण	रवि	चंद्र	चंद्र	पु. स.	पु. स.	भौम	शुक्र	तनुप.	शनि	चंद्र
धन	ल.	ल.	ल.	ल.	शुक्र	ल.	ल.	ल.	ल.	रवौ
रा. ल.	रवौ	चंद्रे	चंद्रे	पुण्ये	पुण्ये	भौमे	शुके	तनुप ता	गुरौ	गुरौ
ऋ.	चंद्र	रवि	रवि	जीवे	गु. स.	पु. स.	शनि	भौम	शनि	रवि
धन	ल.	ल.	ल.	ल.	शुक्र	ल.	ल.	ल.	ल.	चंद्रः

सं०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
ना०	राज	तात.	माता जल.	सुत.	जीव.	अंबु. कांति.	कर्म.	रोग.	काम. दो	कालि.
दिवा लय.	शनौ.	शनौ.	चंद्रे.	गुरौ.	शनौ.	चंद्रे.	भौमे	शनौ.	चंद्रे.	गुरौ.
ऋण.	रवि.	रवि.	शुक्र.	चंद्र.	जीव	शुक्र.	बुध.	चंद्र.	लघेश.	भौमे.
धन.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.
रात्रौ	रवौ.	रवौ.	भृगौ.	गुरौ	गुरौ.	शुके.	बुधे.	तनौ.	लघेश	भौम.
ऋण.	शनि.	शनि.	चंद्र.	चंद्र	शनि.	चंद्र.	भौम.	चंद्र.	चंद्र.	गुरौ.
धन.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.

सं.	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२
ना.	क्षमा	शास्त्र	बंधु	वंदक	सृत्यु	परदेश	धन	अन्य द्वारा	परकर्म	वणिक्	काच	विवाह.
दिवाल.	शनौ	जीवे	बुधे	चंद्रे	सृत्यु भाव	धर्मभा	धनभा	शुके	चंद्रे	चंद्रे	शनौ	शुके
ऋण	भौम	शनि	चंद्र	बुध	चंद्र.	धर्मेश	धनेश	रवि	शनि	बुध	सूर्य	शनि
धन	लघ	बुध	लघ	ल.	शनि	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	सूर्यरा- शीश	ल.
रा.ल.	भौमे	शनौ	बुधे	बुधे	सृत्यु भाव	धर्मभा	धनभा.	शुके	शनौ	चंद्रे	शनौ	शुके
ऋण	गुरु	जीव	चंद्र	चंद्र	चंद्र	धर्मेश	धनेश	रवि:	चंद्र:	बुध:	चंद्र:	शनि
धन.	ल.	बुध	ल.	ल.	शनि	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	चंद्ररा शीश	ल.

सं०	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४
ना०	प्रसूति	संताप	श्रद्धा	प्रीति	वल सैन्य	तनु	जाडय	न्यापार	पानी यपात	रिपु	शौर्य	उपाय
दि.ल.	गुरौ	शनी	शुके	विद्या सहमे	गुरौ	गुरौ	भौमे	भौमे	शनी	कुजे	पुण्य सहमे	शनी
रू.	बुध	चंद्र	भौम	पुण्य सहमे	पु. स.	पु. स.	शनि	बुध	चंद्रे	श.	भौम	गुरु
घ.	ल.	रिपुभाव	ल.	ल.	ल.	ल.	बुध	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.
रा.ल.	बुधे	शनी	शुके	त्रिया भाव	पुण्यस.	पु. स.	शनी	भौमे	चंद्रे	शनी	भौमे	गुरौ
रू.	गुरु	चंद्र	भौम	पुण्यस.	गुरु	गुरु	भौ.	बुध	शनि	कुजे	पुण्यस.	शनि
घ.	ल	रिपुभाव	ल.	ल.	ल.	ल.	बुध	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.

सं.	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६
ना.	दरिद्रः	गुरुता	जल मानी	वैधन	कन्या	अश्व	गज	हस्त	मार्ग	ऐश्वर्य	खी	देशांतर
दिवाल.	पुण्यस	०११०	३ १५	पुण्य सहमे	शुके	पु. स.	चंद्रे	चंद्रे	धर्म भावे	शनी	शुके	धर्मेश
रू.	बु.	सू.	श.	श.	चं.	सू.	गु.	शं.	धर्मेश	गुरु	जायेश	धर्म भाव
घ.	बु.	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.	आ प.भा	ल.	ल.	ल.	ल.	ल.
रात्रि.ल.	बुधे	११३	शनी	श.	शु.	सू.	चं.	श.	धर्म भाव	गु.	शु.	धर्म भावे
रू.	पु.स.	चंद्र	३११५	पुण्य सहमे	चंद्र	पु.स.	गु.	चं.	धर्मेश	श.	जायेश	धर्मेश
घन	बु.	ल.	ल.	ल.	ल.	आय भाव	ल.	ल.	ल.	ल.	जाचा भाव	ल.

अनुष्टु०—चंद्रंसितादपास्योक्तं सदाकन्याख्यमुक्तवत् ॥

पुण्यादर्कमपास्याययोगादश्वोन्यथानिशि ॥ २४॥

दिन तथा रात्रिको शुक्रमें चंद्रमा घटायके लग्न जोडना कन्यासहम ४९
होताहै, दिनको पुण्यसहममें सूर्य्य घटायके लग्न जोडना रात्रिको सूर्य्यमें

पुण्यसहम घटायके ग्यारहवां भाव जोडना अश्वसहम ५० होताहै, ये ५० सहम आचार्य्योक्त कहेगये. मतांतरसे जो अन्य सहम हैं उनमेंसे कोई तो इनहीमें अंतर्भावहै कोई सारणीमें लिखेंगे सहमसारणी आवेहै सहम विचार जिसके निमित्त करनाहै उसीके संबंधी भावसे सहमकल्पना करनी. जैसे भाइयोंके वास्ते तृतीयभावको स्त्रीके निमित्त सप्तम भावको लग्न जानकर पुण्यादि सहम कल्पना करनी यहभी किसीका मत है ॥ २४ ॥

उपजा०—स्वनाथहीनं सहमं तदंशाः स्वीयोदयघ्ना वि-
हृतास्त्रिशत्या ॥ तत्सन्नपाको दिवसैर्हि लब्धैः स्यात्तदशायां
तदसंभवेवा ॥ २५ ॥

सहमका फल पाकसमय कहतेहैं कि, सहमका फल पाकसमय चाहिये उसमें उस भावके स्वामीका स्पष्ट घटाय देना शेषके अंश करके स्वदेशीय लग्न खंडसे गुणना. ३०० तीनसौसे भाग लेना लब्धि उस सहमफल पाकके दिन जानना. किसीका मत है कि पूर्वविधिसे जो दिन मिले हैं उनमें ३०का भागदेके लब्धि राशि जाननी तदनंतर वर्षप्रवेशकालिक सूर्यराश्यादि कलापर्यंत में जोडदेना राशिस्थानमें १२ से अधिक होनेपर १२ से शेषकर देना यह सूर्य स्पष्ट जिस समयपर आवे. वह समय सहम फल पाकका जानना कोई कहतेहैं कि, हीनांश पात्यांश क्रमसे जब सहमेशकी दशा हो तब फल होगा, यह सर्व संमत है. इन दो मतोंमें यह निश्चय है कि, पूर्वोक्त प्रकारसे जो दिन मिलेहैं, यदि उनके भीतर तत्स्वामीकी दशा हो तो दशाहीमें फल होजायगा. जब उक्तदिनोंसे उपरांत दशा हो तो दशाप्रारंभ दिवससे उतने दिनोंमें फल होगा. इसमेंभी स्मरण चाहिये कि ऐसी विधिसे वर्षांत होजाय तो दूसरे वर्षमें फल कहना, परंतु इसमें बहुत शंका होतीहै इस लिये यादववाक्यहै कि, “सहमेश्वरयोः कार्यमंतरं पूर्वराशिकम् ॥ तद्युक्तोर्को भवेद्यावांस्तादृक्संक्रांतिभे फलम् ॥” अर्थात् जिस भावसंबंधी सहमका फल चाहताहै उसके पूर्वभावसे उसका अंतर

करके दशाप्रवेशसामयिक सूर्यस्पष्टमें जोडे उसके जितने अंश हों उतने सौर दिनोंमें फल होगा यह निश्चय है ॥ २५ ॥

इति महीधरकृतायां नीलकण्ठीभाषायां सहमाधिकारः समाप्तः ।

वसंततिलका—स्वोच्चादिसत्पदगतो यदिलग्नदर्शी वीर्या
न्वितस्सहमपोयदिनेक्षतेगम् ॥ नासौवलीरविशशिथ्रितभेद
दर्शपूर्णतिलग्नपवलस्य विचारणेत्यम् ॥ २६ ॥ १ ॥

सहमेशोंका बलावल कहतेहैं कि, अपने उच्चादि पूर्वोक्त शुभ स्थानोंमें होकर लग्नको यद्वा अपने सहमको सहमेश देखें तो बलवान् होतेहैं. जो लग्नको न देखें तो सत्पदगतभी निर्बल होताहै और इसमें जन्मकालिक सूर्यराशीश १ जन्मकालिक चन्द्रराशीश २ जन्ममासकी पूर्णमासी जिस-लग्नमें अंत हो इसका स्वामी ३ जन्ममासकी अमावास्या जिस लग्नमें अंत हो उसका स्वामी ४ इनका बलावलभी इसी रीतिसे विचारना, इनके बलावलसे पुण्यसहमके तुल्य फल कहना ॥ २६ ॥ १ ॥

अनु०—पंचवर्गीबलेनोनो नहर्पस्थानमाश्रितः ॥

अवलोयं लग्नदर्शी बलीस्वल्पेस्तिचेत्पदे ॥ २७ ॥ २ ॥

जो ग्रह पंचवर्गीमें (हीन) पांचसे कम बली हो तथा हर्पस्थानमें न हो उपलक्षणसे लग्नदर्शी भी न हो वह निर्बल होताहै. जो त्रैराशिक मुसल्लहसंज्ञक लग्नस्थानमेंभी हो और लग्नको देखे तो बली होताहै, स्वग्रहोच्च “ महाधिकारी ” स्वहृदा मध्यम और स्वत्रैराशिक स्वमुसल्लह स्वल्पाधिकार कहेहैं यह सर्वत्र जानना ॥ २७ ॥ २-॥

वसंतति०—स्वस्वामिनाशुभखगैःसहितंचदृष्टंस्वामीवलीचय-
दितत्सहमस्यवृद्धिः ॥ यत्स्वामिनाशुभखगैश्चनयुक्तदृष्टंत्सं
भवनहि भवेदितिचित्यमादौ ॥ २८ ॥ ३ ॥

जो सहम अपने स्वामी शुभ यद्वा पापसे युक्त वा दृष्ट हो तथा शुभ ग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तथा सहमेश पूर्वोक्त प्रकारसे बली हो तो उस सह-

मकी वृद्धि होती है और जो सहम शुभग्रह तथा स्वस्वामीसे युक्त दृष्ट नहो वह सहम निर्बल होता है फल देनेकी सामर्थ्य उसको नहीं होती है ॥ २८ ॥ ३ ॥

रथोद्ध०—अष्टमाधिपतिनायुतेक्षितं पापदृग्युतमथेत्यशालितम् ॥

संभवेऽपिविलयं प्रयातितत्तेन जन्मनि पुरेदमीक्ष्यताम् ॥ २९ ॥ ४ ॥

जो सहम वर्षलग्नसे वा अपने स्थानसे अष्टमभावशसे युक्त वा दृष्ट हो तथा पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो यद्वा पूर्वोक्त अष्टमेशसे वा पापग्रहसे सहमेश इत्यशाली हो तो पूर्वोक्त शुभफलदातृलक्षणयुक्तभी हो तोभी निर्बल कहाता है फल देनेकी सामर्थ्य नहीं होती है जन्ममें प्रथम इसी बलको देखलेना ॥ २९ ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—आदौ जन्मनिसर्वेषां सहमानां बलाबलम् ॥

विमृश्य संभवायेषां तानि वर्षैर्विचिंतयेत् ॥ ३० ॥ ५ ॥

सहमोंका प्रथम बल सहम बलादि सर्वप्रकारसे सहमोंका बलाबल जन्ममें तदुत्तरवर्षमें देखके जिनका बलाधिक हो फल देनेकी सामर्थ्य हो उन्हें वर्षमें स्थापन करना जिनको फल देनेकी सामर्थ्य न हो उन्हें छोड़ देना ॥ ३० ॥ ५ ॥

अनु०—सबले पुण्यसहमे धर्मवृद्धिर्धनागमः ॥

शुभस्वामीक्षितयुते व्यत्यये व्यत्ययं विदुः ॥ ३१ ॥ ६ ॥

अब सहमोंके फल कहे जाते हैं. प्रथम पुण्यसहमका फल यह है कि पुण्य सहम पूर्वोक्त लक्षणोंसे बलवान् हो तो धर्मकी वृद्धि धनका आगमन होता है शुभग्रह स्वस्वामियुक्त दृष्ट होनेमें भी ऐसा ही फल है जो इनसे विपरीत पूर्वोक्त प्रकारसे बलरहित तथा पापयुत दृष्ट हो तो फल भी विपरीत अर्थात् धर्म धन हानि होगी ॥ ३१ ॥ ६ ॥

अनु०—लग्नात्पष्ठाष्टरिः फस्थं धर्मभाग्ययशोहरम् ॥

शुभस्वामिदृशा प्राप्ति सुखधर्मादिसंभवः ॥ ३२ ॥ ७ ॥

जो पुण्यसहम लग्नसे ६।८।१२ इन स्थानोंमें हो तो भाग्य (ऐश्वर्य) यशका हरण करता है और शुभग्रह स्वस्वामीसे युक्त वा दृष्ट

(१०)

ताजिकनीलकण्ठी ।

हो तो सुख और धर्मादि शुभ फलका संभव करता है, स्वस्वामी वा शुभसे युक्त दृष्ट सहम वर्षके उत्तरार्द्ध अर्थात् प्रवेशसे ६ महीने पीछे सौख्यादि फल देता है, जो पापादि युक्त दृष्टसे अशुभ फल है, वह वर्ष पूर्वार्द्धमें होता है ॥ ३२ ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—पापयुक्तुभदृष्टं चेदशुभं प्राक्ततः शुभम् ॥

शुभयुक्तं पापदृष्टमादौ शुभमसत्परे ॥ ३३ ॥ ८ ॥

संसर्गसे स्वभाव गुण बदल जाता है पुण्यादिसहम पापयुक्त और शुभ दृष्ट हो तो वर्षके पूर्वार्द्धमें अशुभ, उत्तरार्द्धमें शुभ फल देते हैं. जो शुभ युक्त और पाप दृष्ट हों तो पूर्वार्द्धमें शुभ फल उत्तरार्द्धमें अशुभ फल देते हैं जो युक्त और दृष्टभी पापहीसे हो तो समस्त वर्षमें अशुभही फल होगा; जो शुभहीसे युक्त और दृष्टभी हों तो समस्त वर्षमें शुभही फल होगा ॥ ३३ ॥ ८ ॥

अनु०—यत्राब्दे पुण्यसहमं शुभं सोऽत्र शुभावहः ॥

अनिष्टेऽस्मिन् भूनेति पुण्यमादौ विचारयेत् ॥ ३४ ॥ ९ ॥

जिस वर्षमें पुण्यसहम पूर्वोक्त विधिसे शुभ हो वह समस्तही शुभ होता है और सहम अशुभ भी हों तो अनिष्टफल सहसा नहीं देसकते जिसमें पुण्य सहम (निर्बल) अशुभ है वह वर्ष अशुभही व्यतीत होता है. और सहम शुभ भी हों तो शुभ फल नहीं देते इसकारण पुण्यसहम सभी "जन्मवर्षमें" मुख्य विचार्य्य है ॥ ३४ ॥ ९ ॥

अनु०—सूतौ षष्ठाष्टरिः फस्थे मध्ये पापहतं पुनः ॥

पुण्यं धर्मार्थसौख्यं पत्यौ दग्धे फलं तथा ॥ ३५ ॥ १० ॥

जन्ममें पुण्यसहम लग्नसे छटा आठवाँ वा बारहवाँ हो और वर्षमें पापयुक्त हो तथा सहमेश (दग्ध) अस्तंगत हो, तो धर्म, धन और सुखका नाश करता है ॥ ३५ ॥ १० ॥

अनु०—सहमान्यखिलानीत्थं सूतौ वर्षे विचिंतयेत् ॥

मांघारिकलिमृत्यूनां व्यत्ययादादिशेत्फलम् ॥ ३६ ॥ ११ ॥

उक्त प्रकारसे सम्पूर्ण सहम जन्म तथा वर्षमें विचारने पुण्यसहमके बल-
वान् होनेमें द्रव्यादिक लाभ होतेहैं, परंतु रोग अरि कलि झकटक मृत्यु इन
सहमोंके बलवान् होनेमें विपरीत फल, उनके नामसदृश होताहै. यदि
रोगादि पांच अनिष्ट सहम निर्बल अशुभफलदाता हों तो वर्षादिमें शुभ
फल जानना ॥ ३६ ॥ ११ ॥

रथोद्ध०—कार्यसिद्धिसहमंयुतंशुभैर्दृष्टमूथशिलगंजयप्रदम् ॥

संगरेथशुभपापदृष्टियुक्केशतो जयउदीरितोबुधैः ॥३७॥१२॥

कार्यसिद्धि सहम शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो अथवा शुभग्रहसे मुथ-
शिलकारी हो तो संग्राममें जय देता है. शुभयुत दृष्ट और शुभमुथशिली भी
हो तो विशेषतर जय देता है. जो दृष्ट युक्त वा मुथशिली शुभ और पापों
सेभी हो तो संग्राममें क्लेशसे जय देता है ऐसा ही विचार विवाहादिसहमोंमें
करना. यद्वा कार्यसिद्धि हर किसी कार्यकी होती है ॥ ३७ ॥ १२ ॥

मंजुभा०—कलिसद्मपापखगदृष्टिसंयुतंयदिपापमूथशिल-

गंकलेर्मृतिम् ॥ अथतत्रसौम्यसहितावलोकितेजयमेतिमि

श्रद्दशितेकलिव्यथे ॥ ३८ ॥ १३ ॥

कलि कलह सहम पापशुभ दोनोंही से दृष्ट वा युक्त हो तथा पापग्रहसे
मुथशिली हो तो कलहमें मरण होवे जो वही कलिसहम शुभग्रहसे युक्त वा
दृष्ट हो तो थोडेही कलहमें जय होवे. जब पाप और शुभ ग्रहोंकी दृष्टि
तुल्य हो वा दोनोंहीसे युक्त हो तो कलह वा व्यथा पारिश्रममात्र होती है
जय वा पराजय परिणाममें कुछ भी नहीं ॥ ३८ ॥ १३ ॥

उपजा०—विवाहसद्माधिपसौम्यदृष्टंयुतंशुभैर्मूथशिलंशुभातिम् ॥

कुर्याद्यदामिश्रसमेतदृष्टंकष्टादथक्रूरमृतीश्वरैर्न ॥ ३९ ॥ १४ ॥

विवाहसहम स्वस्वामी वा शुभ ग्रह युक्त वा दृष्ट हो और शुभग्रहके
साथ मुथशिल करे तो विवाहप्राप्ति करेगा जो शुभ और पाप ग्रहोंसे युग-
पत्त युक्त वा दृष्ट हो उपलक्षणसे मिश्रहीके साथ इत्यशाली हो तो विवाह

प्राप्ति कष्टसे करेगा. जब पापहीसे युक्त दृष्ट और मुखशिली हो तो विवाह प्राप्ति नहीं होने देगा ॥ ३९ ॥ १४ ॥

उपजा०—यशोधिपेनैधनगेखलेनयुतेक्षितेसद्यशसोविनाशः ॥ पापा
जितस्यायशसोस्तिलाभोनष्टौजसिस्यात्कुलकीर्तिनाशः ॥ ४० ॥ १५ ॥

यशसहमाधीश अष्टम स्थानमें हो और पापयुक्त वा दृष्ट हो तो अपने प्राप्ति किये. यशका नाश होवे. किंच स्वयमर्जित महापातकोंमेंसे किसी एक पातक संबन्धी अयशका लाभ होवे जब यही यशसहमेश अष्टम और पापयुक्त दृष्ट होकर अस्तंगत भी हो तो अपने वंशसे चलाआया पितृ पितामहादिकोंका जो यश उसे नाश करता है अर्थात् अपने सारे वंशकी कीर्ति नाशक है ॥ ४० ॥ १५ ॥

उपजा०—शुभेत्थशालेशुभदृष्ट्युतेवाबलान्वितेस्याद्यशसोभिवृद्धिः ॥
युद्धेजयोवाहनशस्त्रलाभः पापेसराफादयशोर्थनाशः ॥ ४१ ॥ १६ ॥

यशसहमेश शुभग्रहसे मुखशिली अथवा शुभदृष्ट वा युक्त हो तो यशकी वृद्धि होवे. उपलक्षणसे धर्मवृद्धि धनलाभभी होवे तथा संग्राममें जय, अश्वादि वाहन और धनुषादि शस्त्रोंका लाभ होवे जो यशसहमेश पापग्रहसे मुखशिली यद्वा शुभग्रहसे ईसराफी उपलक्षणसे नष्टबली हो तो अपयशवृद्धि और धननाश होवे ॥ ४१ ॥ १६ ॥

उपजा०—आशातदीशश्चषडपरिःफविवर्जितःसौम्ययुतेक्षितश्च ॥
स्याद्वांछितार्थवृत्तवाहनादिलाभःखलेक्षायुतितोतिदुःखम् ॥ ४२ ॥ १७ ॥

आशासहम और इसका स्वामीभी ६।८।१२स्थानोंमें न हों तथा शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो इच्छानुकूल हिरण्यादि द्रव्य वस्त्र वाहन आदि और शस्त्रसे भूमिलाभ होताहै, जो दोनोंही पूर्ववर्जित स्थानोंमें हों तथा पापग्रह युक्त वा दृष्ट हों तो अतिदुःख और वांछितार्थनाश होवे ॥ ४२ ॥ १७ ॥

उ०जा०—मांघ्राधिपःपापयुतेक्षितश्चपापःस्वयंरोगकरोविचिंत्यः ॥
चेदित्थशालोमृतिपेनमृत्युस्तदाभवेद्धीनबलेतिकष्टात् ॥ ४३ ॥ १८ ॥

रोगसहमेश आप पापग्रह हो तथा पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो वह रोगकर्त्ता जानना; पुनः लग्नसे अष्टमभावशसे इत्यशालीभी हो तो मृत्युकरेगा, इसमें हीनबल हो तो मृत्यु भी अतिकष्टसे होगी बलवान् हीनेमें अल्पसे मृत्यु होगी, इसप्रकार कष्टाधिक्यकी प्राप्ति होनेमें धर्मशास्त्रोक्त शांति करनी चाहिये जैसे उक्तभीहै कि “क्लेशेषु शांतिरुक्ता ज्ञातव्या तत्र शास्त्रैः” इति ॥ ४३ ॥ १८ ॥

उपजा०—स्वस्वामिसौम्येक्षणभाजिमांघ्रिनाथेसवीर्य्यैषपडंत्यवर्ज्यः ॥
रोगस्तदानैवभवेद्विमिश्रंयुतेक्षितेरुग्भयमस्ति किंचित् ॥ ४४ ॥ १९ ॥

मांघ्रसहम अपने स्वामी वा शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट पूर्वोक्त रीतिसे हो और छठा आठवां बारहवां न हो तो रोग नहीं होगा सुखी रहेगा जो सौम्य पाप दोनहूँसे युक्त दृष्ट होतो स्वल्परोगभय होगा जो वह सहमेश बली होकर शुभग्रहसे मुथशिलकारी होतो वाहनादिप्राप्ति भी होगी उपलक्षणसे रोग सहमेश का शुभग्रह मुथशिली भी ऐसाही होताहै, यह रोग न होनेका योग सिद्ध होजावे तो समझना कि, पूरेतौर से रोग होगा क्योंकि पूर्वमें लिख दिया है आचार्य्यने कि, “मान्द्यारिक्रलमृत्यूनां व्यत्ययादादिशेत्फलम्” ॥ ४४ ॥ १९ ॥

शार्दूलवि०—अर्थाख्यंशुभनाथदृष्टिसहितंद्रव्यागमात्सौख्यं
पापैर्दृष्टयुतंचवित्तविलयंकुर्यादथोपापयुक् ॥ सहृष्टंचशुभे-
त्यशालियदितपूर्वधननाशयेत्पश्चादर्थसमुद्भवंचसुखंव्य-
त्यासतोव्यत्ययः ॥ ४५ ॥ २० ॥

अर्थाख्यसहम स्वस्वामी वा शुभग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो द्रव्यकी प्राप्ति करके सुख देताहै, जो पापग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो द्रव्यका नाश करता है, शत्रुग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो शत्रुसंबंधी कर्मसे धननाश होताहै, जो पापयुक्त और शुभदृष्ट भी हो और शुभग्रहके साथ इत्यशाली भी हो तो पूर्वसंचितद्रव्यका नाश करके पुनः अपने पुरुषार्थसे द्रव्यसंचय सुखसहित करता है, केवल पापयोग दृष्टिसे सर्वथा धननाश करताहै ॥ ४५ ॥ २० ॥

अनु०—रिपुदृष्टचारिपोर्भीतिस्तस्करादेर्धनक्षयः ॥

मित्रदृष्ट चामित्रयोगाद्धनमानोयशःसुखम् ॥४६॥२१॥

सहसहमेशपर शत्रुदृष्टि हो तो शत्रुभय और चोर आदिसे धनक्षय होताहै, मित्रदृष्टि हो तो मित्रके संबंधसे धनप्राप्ति मानोदय यशलाभ और सुख होताहै ॥ ४६ ॥ २१ ॥

इन्द्रव०—सत्स्वामिदृष्टयुतमात्मजस्यलाभंसुखंयच्छतिपुत्रसद्म ॥

पापान्वितंसौख्यखगेत्थशालीप्राग्दुःखदंपुत्रसुखाय पश्चात् ४७॥२२॥

पुत्रसहम स्वस्वामी शुभ ग्रहयुक्त वा दृष्ट हो तो पुत्रसुख अर्थात् पुत्रोत्पत्ति और उत्पन्न पुत्रोंका सुख देताहै, ऐसाही शुभ मृथशिलसेभी कहना. जो पुत्रसहम पापयुक्त और शुभ ग्रहसे इत्थशाली होतो प्रथम पुत्रसंबंधी दुःख पश्चात् पुत्रसौख्य देताहै, योगफल प्रथम दृष्टिफल पीछे होताहै ॥ ४७ ॥ २२ ॥

इन्द्रव०—पापान्वितंपापकृतेसराफंनाशायपुत्रस्यगतौजसीशे ॥

मृतौसुतेशःसहमेश्वरोब्देपुत्रस्यलब्धैशुभमित्रदृष्टः॥४८॥२३॥

जो पुत्रसहम पापयुक्त वा दृष्ट हो और पापग्रहसे इसराफी हो तथा पुत्रभावेश निर्बल अस्तंगत हो तो पुत्रनाश करताहै, जो जन्मलग्नसे पंचमेश वर्षमें भी पंचमेश वा पुत्रसहमाधीश हो और शुभग्रह स्वस्वामि स्वमित्र युक्त दृष्ट हो तो पुत्रप्राप्ति करताहै ॥ ४८ ॥ २३ ॥

वसंतति०—पित्र्यंसदीक्षितयुतंपति, कृदृष्टं तातस्ययच्छतिध

नांबरमानसौख्यम् ॥ पत्यौगतौजसिमृतौखलमूसरीफेनाशः

पितुश्वरगृहे परदेशयानात् ॥ ४९ ॥ २४ ॥

पितृसहम शुभग्रह वा स्वस्वामि युक्त वा दृष्ट और शुभग्रहसे इत्थशाली हो तो पितृसंबंधी धन वस्त्र मान सुख देता है, जो पितृसहमेश अस्तादिसे निर्बल हो वा लग्नसे अष्टम स्थानमें हो पापग्रहसे मूसरीफी हो और

चरराशिमैं हो तो पिता विदेशमें मरजावे, स्थिरराशिमैं हो तो स्वदेशमें मरे ॥ ४९ ॥ २४ ॥

उपजा०—शुभेत्थशालेखलखेटयोगेगदप्रकोपःप्रथममहान्स्यात् ॥

पश्चात्सुखर्विदतिपूर्णवीर्य्यैनाथेनृपान्मानयशोऽभिवृद्धिः ॥५०॥२५॥

पितृसहम स्वस्वामीसे वा शुभग्रहसे इत्थशाली हो और पापग्रहसे युक्तभी हो तो वर्षके पूर्वार्द्धमें रोगवृद्धि होवेउत्तरार्द्धमें सुख होवे, जब पितृसहम स्वामी पूर्णवीर्य्य १५ विश्वासे अधिक बल होकर शुभस्थानमें हो तो राजासे मान तथा यशकी वृद्धि होवे, मातृसहममेंभी ऐसाही जानना ॥ ५० ॥ २५ ॥

रथोद्धता—बंधनाख्यसहमंयुतेक्षितस्वामिनानाहितदास्तिबंधनम् ॥

पापवीक्षित तेस्तुबंधनं पापजे सुथशिलेविशेषतः ॥ ५१ ॥ २६ ॥

बन्धनंसहम स्वस्वामी वा शुभग्रह युक्त दृष्ट हो तो बंधन (कारागार) आदिका भय नहीं होता, पापयुक्तवीक्षितसे तथा पापेत्थशालसे बंधन होता है यहभी फल विपरीतही जानना चाहिये ॥ ५१ ॥ २६ ॥

रथोद्ध०—गौरवाख्यसहमंयुतेक्षितं स्वामिनाशुभखगैः सुखात्तये ॥

राजगौरवयशोंबरत्तयःपापवीक्षणयुतेपदक्षतिः ॥ ५२ ॥ २७ ॥

गौरव सहम स्वस्वामी वा शुभग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो सुख प्राप्ति और राज्य गुरुता अर्थात् बडप्पन और यश तथा वन्नप्राप्ति होतीहै इत्थशाली शुभग्रहसेभी हो तो धन, वाहन, यश और सुख मिलते हैं जो पापग्रहसे युक्त दृष्ट वा इत्थशाली हो तो पद (अधिकार) तथा धननाश सौख्य नाश करता है ॥ ५२ ॥ २७ ॥

उपजा०—शुभाशुभैर्दृष्टयुतंग्वलैश्चेत्कृतेत्थशालंधनमाननाशम् ॥

पूर्वविधत्तेचरमेशुभेत्थशालेसुखंवाहनशस्त्रलाभम् ॥ ५३ ॥ २८ ॥

गौरवसहमका फल और भी कहते हैं कि जो यह शुभ पाप दोनहूँ प्रकारके ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो और पापग्रहसे इत्थशाली हो तो पूर्वार्द्धमें धन

तथा मानका नाश कर्ता है; उत्तरार्द्धमें शुभ फल देताहै, जो पाप शुभसे दृष्ट युक्त होकर शुभ ग्रहसे इत्थशाली हो तो वर्षपूर्वार्द्धमें शुभ उत्तरार्द्धमें अशुभ फल देताहै सभी प्रकार मिश्र हो तो संपूर्ण वर्षमें मिश्रही फल करता है, केवल इत्थशालीभी एक राशि साहित्यसे पूर्वार्द्धमें भिन्नराशि साहित्यसे उत्तरार्द्धमें शुभ फल सौख्य वाहन शस्त्रादि वा वस्त्रादि लाभ देताहै (वस्त्रलाभम्) ऐसा भी पाठहै ॥ ५३ ॥ २८ ॥

रथोद्ध०—कर्मभावसहमाधिपाःशुभैःस्वामिनामुथशिलाबलान्विताः ॥
हेमवाजिगजभूमिलाभदाःपापदृष्टियुतितोऽशुभप्रदाः ॥ ५४ ॥ २९ ॥

कर्मभाव, कर्मभावेश, तथा कर्मसहम, कर्मसहमेश, ये चारों प्रागुक्त रीतिसे बलवान्‌हों अर्थात् स्वस्वामी शुभग्रह युक्त दृष्ट तथा शुभग्रहके साथ इत्थशाली हों तो सुवर्ण घोडा हाथी भूमि इनका लाभ देतेहैं जो पापयुत दृष्ट वा पापग्रहसे इत्थशाली हों तो द्रव्यका नाशादि अशुभ फल देतेहैं ॥ ५४ ॥ २९ ॥
शालि०--दग्धावकाःकर्मवैकल्यदास्तेयुक्तादृष्टाःसौरिणातेविशेषात् ॥
राज्यभ्रंशःकर्मनाशश्चराजकर्मेशौचेन्मूशरीफौखलेन ॥ ५५ ॥ ३० ॥

पूर्वोक्त कर्मभाव सहमाधिपति पापग्रह युक्त वा दृष्ट अथवा पापसे इत्थशाली हो तो कर्मकी विकलता (नाश) देताहै, यद्वा शनिसे युक्त वा दृष्ट हो तो विशेष करके कर्मका नाश करताहै, ऐसे ही दग्ध (पापकर्त्तव्यादिसे उपद्रुत) तथा वक्र (विपरीत गति) होनेमें भी फल देतेहैं तथा राज्य सहमेश, कर्मभावेश, राज्यभावेश, कर्मसहमेश, जो पापग्रहसे मुथशिली हों उपलक्षणसे क्रूरयुक्त दृष्ट हों तो राज्यनाश पापमूशरीफसेभी यही फलहै तथा सुवर्णादि द्रव्यका नाश करतेहैं शुभ पापसे तुल्य योग दृष्टि वा मूशरीफ हो तो फल बलाबलके तारतम्यसे विचारके कहना इसीप्रकार माता आदि सह-मोंका विचार करना ॥ ५५ ॥ ३० ॥

अनु०—उपदेष्टागुरुर्ज्ञानविद्याशास्त्रंश्रुतिस्मृती ॥

मोहोजाडचंवलंसैन्यमंगदेहोजलंघुतिः ॥ ५६ ॥ ३१ ॥

किसी २ सहमोंके पदार्थसे अर्थ भ्रम होताहै। जैसे गुरु, गौरवं, कर्म, राज, बल, वपु, इत्यादि इसके सन्देह निवारणार्थ कहतेहैं कि, गुरु उपदेश करनेवाला, विज्ञान विद्यामात्र विषयिक बुद्धि विद्या (वेदन) जानना, शास्त्र श्रुति स्मृति ज्ञान, जाड्य अज्ञान ग्रन्थविस्मरणादि, बल सेना, सामर्थ्य शारीरादिक बल, देह हस्तपादादि पिंड देह, जल काति, हीरकादि मणि; कांतिवत्, जलपथ जलमार्ग, इत्यादि इनके पर्याय हैं ॥ ५६ ॥ ३१ ॥

अनु०—गुरुतामंडलेशत्वंगौरवंमानशालिता ॥

निग्रहानुग्रहविभूराजा त्रादिलिंगभाक् ॥ ५७ ॥ ३२ ॥

गुरुता, मण्डलेशत्व, सामान्यराजा गौरव, श्रेष्ठ, मानी, राजा निग्रह कारा-गार, बंधन, सामर्थ्य, तथा अल्पानल्प देश, द्रव्य, दान, सामर्थ्य, तथा छत्र चामरादि राजचिह्नधारीको राजा कहते हैं ॥ ५७ ॥ ३२ ॥

अनुष्टु०—माहात्म्यमन्त्रगांभीर्य्यधृतिबुद्ध्यादिशालिता ॥

सामर्थ्यदेहजाशक्तिःशौर्य्ययत्नोरनिग्रहे ॥ ५८ ॥ ३३ ॥

माहात्म्य मन्त्र गांभीर्य्यका नाम है धृतिनाम बुद्धिमान्नीका है सामर्थ्य शरीर शक्तिको और शौर्य्य शूर वा वीरत्व शत्रुनिग्रहत्व सामर्थ्यको कहते हैं ॥ ५८ ॥ ३३ ॥

अनुष्टु०—आशेच्छो ऽमतिर्धर्म्याश्रद्धावन्दःपराश्रयः ॥

पानीयपतनं वृष्टिर्जलेऽकस्माच्चमज्जनम् ॥ ५९ ॥ ३४ ॥

आशा इच्छाका नाम है दिशाकाभी नाम है, श्रद्धा, धर्म कार्यकी मतिको कहते हैं तथा यहां विश्वासताका अर्थ लेना मुख्य है। वन्दनाम पराश्रयका है पानीयपतनका प्रयोजन वृष्ट्यादि ऊपरसे गिरनेवाला पानीका है जलमें डबनेकाभी अर्थ है ॥ ५९ ॥ ३४ ॥

अनुष्टु०—आधिंव्याधीतापमाद्येसपिण्डाबंधवः स्मृताः ॥

सत्यालीकंवणिग्वृत्तिराधानंप्रसवःस्मृतः ॥ ६० ॥ ३५ ॥

आधि मानसी व्यथा, व्याधी रोग, ताप संताप, ये सब मांघके पर्यायहैं,

(९८)

ताजिकनीलकण्ठी ।

बांधव, सपिण्ड सातपुरुष पर्यन्तका नाम है, सत्यालीक वणिग्भावका पर्य्याय है प्रसव गर्भाधान सन्तानोत्पत्तिका नाम है ॥ ६० ॥ ६५ ॥

अनुष्टु०—दासत्वं परकर्मोक्तमन्यत्स्पष्टंस्वनामतः ॥

निरूप्याणियथायोग्यकुलजातिस्वरूपतः ॥ ६१ ॥ ३६ ॥

परकर्म दासत्वका पर्य्याय है इतने सहमोंके नाम द्वयर्थ होनेसे पर्य्याय कहे गये शेष सहमोंके प्रकट नाम हैं जैसे पुण्य विवाह आदि यथायोग्य कुल, तथा जाति विचारके फल कहना ॥ ६१ ॥ ३६ ॥

अनुष्टु०—शुभयोगेक्षणत्सौख्यं पत्युर्वीर्यानुसारतः ॥

दारिद्र्यमृतिमांघारिकलिपूक्तो विपर्य्ययः ॥ ६२ ॥ ३७ ॥

सम्पूर्ण सहम शुभग्रहके दृष्टि तथा योगसे सहमेशके वीर्यानुसार शुभफल देते हैं परन्तु दारिद्र्य, मृत्यु, मांघ, कलह ये ४ सहम विपरीत फल देते हैं अर्थात् शुभयोगेक्षण, तथा स्वामी बलवान् होनेमें भावसदृश अशुभ फल और पापयोग दृष्टि तथा सहमेशके निर्बल होनेमें नाम गुणसे विपरीत शुभ फल देते हैं ॥ ६२ ॥ ३७ ॥

अनुष्टु०—प्रश्नकालेपिसहमविचार्य्यप्रष्टुरिच या ॥

सर्वेषामुपयोगोत्रचित्रं पृच्छंति यज्जनाः ॥ ६३ ॥ ३८ ॥

जिसका जन्मपत्र हो तो प्रथम जन्मके तदुत्तर वर्षके सहम विचारने जन्म पत्र जिसका न हो उसके प्रश्न लग्नसे पुण्यादि सहम विचार करना (यतः) प्रष्टा अनेकप्रकार प्रश्न पूछते हैं सहमोंसे सभी प्रकार कहदेना ॥ ६३ ॥ ३८ ॥

वसंत०—आसीदसीमगुणमण्डितपण्डिताग्र्योव्याख्यद्भुजं-

गपदवीः श्रुतिवित्सुवृत्तः ॥ साहित्यरीतिनिपुणोगणिताग-

मज्ञश्चिन्तामणिर्विपुलगर्गकुलावतंसः ॥ ६४ ॥ ३९ ॥

इस तंत्रकी समाप्तिमें ग्रंथकर्ता अपने नामादि कहता है कि साधुत्व शास्त्र पांडित्यादि निःसीम गुणोंसे भूषित तथा पंडितोंमें श्रेष्ठ तथा शेषनागके वाणी पातंजलादि महाभाष्यकी व्याख्या करनेवाला तथा वेदज्ञान जाननेवाला तथा शुभाचरण युक्त और गणितादि ज्योतिश्शास्त्र पारंगम साहित्य का-

व्यादिकी रीतिमें निपुण होरहा ऐसा चिन्तामणि नामा दैवज्ञ गर्गमहर्षिके कुलका भूषण हुआ ॥ ६४ ॥ ३९ ॥

उजा०—तदात्मजोनंतगुणोऽस्त्यनंतोयोऽधोक्सदुक्तिकिलकामधेनुम् ॥ संतुष्टयेजातकपद्धतिचन्यरूपयद्दुष्टमतंनिरस्य ॥ ६५ ॥ ४० ॥

तिसका पुत्र अगणित गुणशाली अनंत नामा दैवज्ञ है जिसने सुन्दर वाणीयुक्त गणितरूपी कामधेनु जैसी कामधेनुका दोहन किया, अर्थात् कामधेनुगणितकी टीकाकी तथा गुणज्ञ सज्जनोंके प्रसन्नतार्थ जन्मपद्धति सम्प्रदायके अनभिज्ञ दुष्ट जनोंके दुष्ट मतको नाश करके गणितग्रन्थविशेष जातकपद्धतिभी निर्मित करी ॥ ६५ ॥ ४० ॥

इंद्रव०—पद्मांब्रयासाविततोविपश्चिनीनीलकंठःश्रुतिशास्त्रनिष्ठः ॥

विद्वच्छिवप्रीतिकरंव्यधात्तंसंज्ञाविवेकंसहमावतंसम् ॥ ६६ ॥ ४१ ॥

ऊपर अपने पिताका नाम अनन्तज्योतिर्विद् ग्रन्थकर्त्ताने प्रकट किया पुनः पद्मानामा अपनी मातासे उत्पन्न पण्डित वेद तथा शास्त्र व्याकरण सीमांसा ज्योतिष तन्त्रादि पारंगम श्रीनीलकंठ नामा दैवज्ञने संज्ञाविवेक नामा ताजिकग्रन्थका एक तंत्र जिसमें सहमरूप भूषण है ऐसा शिवनामा पाठक पंडित महाराष्ट्रदेशीय ब्राह्मणकी प्रीति करनेवाला यद्वा, विद्वद्भूत भविष्यद्वर्त्तमान त्रिकालज्ञ सर्वोत्तर्यामी शिव सकलदुःखापनोदन पूर्वक कल्याण करणशील श्रीमहादेवजीकी प्रीति करनेवाला यह ग्रन्थ निर्माण किया ॥ ६६ ॥ ४१ ॥ इति महीधरकृतायां नीलकंठीभाषायां सहमविवेको नाम तृतीयं प्रकरणम् ॥ ३ ॥

श्रीनीलकंठव्याविदधान्महीधरस्संज्ञाविवेकस्यमतिप्रवर्द्धिनीम् ॥

माहीधरीसज्जनतोषकारिणीभाषाविवृत्तिसुमनःप्रसादिनीम् ॥ ४२ ॥

श्रीनीलकंठ दैवज्ञकृत ताजिकनीलकंठीके संज्ञाविवेक नाम एक प्रथम तंत्र की बुद्धि बढानेवाली तथा सज्जनोंको संतोष करनेवाली सद्बुद्धिपाठकोंके मन प्रसन्न करनेवाली माहीधरी नाम भाषाटीका महीधरने रची ॥ ४१ ॥

इति महीधरकृतनीलकंठीभाषाटीकायां प्रथमं संज्ञातंत्रम् ।

श्रीगणेशायनमः ।

अथर्न द्वितीयतंत्र र भः

उपेद्रवज्राछन्दः—स्वस्वामिलापनहिलब्धुमीशानिर्विघ्नमीशानमुखाः
सुरौघाः ॥ विनाप्रसादंकिलयस्यनौमितंढुंडिराजंमतिलाभहेतुम् ॥१॥

ग्रंथकर्ता आचार्य्य नीककंठ दैवज्ञ ताजिकनीलकण्ठी द्वितीय फलतंत्र-
प्रारम्भमें निर्विघ्नतार्थ गणेशजीको प्रणाम करताहै कि, जिसके लुपा विना
महादेव प्रभृति देवसमूह अपने अपने अभिलाषोंको निर्विघ्नतासे पानेको समर्थ
नहीं हैं ऐसे ढुंडिराज गणेशको सद्बुद्धिप्राप्तिके लिये प्रणाम करताहूं ॥ १ ॥

स्थोद्धता—जातकोदितदशाफलंयतःस्थूलकालफलदंस्फुटंनृणाम् ॥

तत्रनस्फुरतिदैवविन्मतिस्तद्बुवेब्दफलमादिताजिकात् ॥ २ ॥

जातकोंमें दशाफल बहुत कालपर्यंत एकही फलदाता मनुष्योंको कहेहैं
यहां ज्योतिषीकी बुद्धि स्फुरित नहीं होती जैसे शुक्रकी दशा २० वर्ष पर्य्य-
तकी कहीहै तो इतने समय पर्य्यंत एकहीसा किसीकोभी नहीं रहता इस
लिये सौर वर्ष मात्र समयावधिवाला सूक्ष्म फलविचार में प्राचीन ताजिकके
अनुसार कहताहूं ॥ २ ॥

(गाथा) तत्कालेको जन्मकालरविणा स्याद्यतःसमः ॥

एकैकराशिवृद्ध्याचेत्तुल्योशाद्यैर्यदारविः ॥

तदामासप्रवेशोद्युप्रवेशश्चेत्कलासमः ॥ ३ ॥

जन्म कालका सूर्य्य स्पष्ट राश्यादि पूरा वही जब मिले वह वर्ष प्रवेश-
का समय होताहै, उसी स्पष्टमें एक राशिमात्र जोडके अंशादि वही स्थापन
करके मास प्रवेशका सूर्य्य स्पष्ट होताहै तथा इसी स्पष्टमें एकएक अंश जोडके
जिस महीनेका दिन प्रवेश करना है उसकी राशि उसी महीने लौं रखके तथाकला
विकला पूर्ववत्ही स्थापन करके दिनप्रवेश होता है ॥ इस सूर्य्य स्पष्टसे

लग्नस्पष्टसे इष्टकाल निकालनेका "उदाहरण" जन्मकालका सूर्य
 ० । १८ । ४२ । ३१ है; संवत् १९४३ वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिवार
 इष्टघटी १३ । ५४ वर्ष प्रवेश ३८ में भी सूर्य स्पष्ट यही ० । १८ । ४२ । ३१
 है अब इससे लग्नस्पष्ट और लग्नस्पष्टसे इष्टकाल लेना है सूर्यस्पष्टसे लग्नस्पष्टकी
 विधि उदाहरणसहित प्रथम संज्ञातंत्रके २१ । २२ । २३ श्लोकके टीकामें
 प्रकट लिखा है. सूर्यस्पष्टसे इष्टकालके लिये ग्रहलाघवका श्लोकार्थ
 " अर्कभोग्यस्तनोर्भुक्तकालान्वितो युक्तमध्यादेयोभीष्टकालो भवेत् ॥ " यह
 है, इसके क्रमसे लग्नस्पष्टसे इष्टघटी साधन होता है, " उदाहरण " सूर्य
 स्पष्ट राश्यादि ० । १८ । ४२ । ३१ लग्न स्पष्ट ३ । १० । २७ । ३
 सायन सूर्य १ । ११ । २६ । ३१ अंशादि ३० में घटायके भोग्यांश १८ ।
 ३३ । २९ हुये, ३० से उद्धृत करनेपर भोग्य काल १५० । १९ ।
 १२ हुवा, सायन लग्न ४ । ३ । ११ । ३३ सोदयसे गुनके ३० से भाग
 दिया तो भुक्तकाल ३७ । ४० । ४५ हुवा, अर्क भोग्य काल १५० । १९
 १२ में जोड़ दिया १८७ । ५९ । ५७ अब सूर्य और सायन लग्नके बीच
 जितने लग्न हैं उनके स्वदेशीय खंड जोड़ने हैं यहां मिथुन ३०० कर्क ३४६
 ये दो जोड़ दिये तो ८३३ । ५९ । ५७ हुये इनमें ६० से भागदेकर
 लब्धि १३ घटी शेष ५३ पला और विशेष विपलभी ५९ । ५७ जानना
 अर्द्धाधिक्ये रूपम् १ के प्रमाणसे १३ । ५४ यह इष्टकाल होगया जो
 किसीकारण इष्टकाल खोगया हो और लग्न स्पष्ट सूर्य स्पष्ट हो तो ऐसेही इष्ट
 निकाललेना यह प्रसंगसे लिख दिया है ॥ ३ ॥

वसंतति०—तात्कालिकास्तुखचराः सुधिया विधेयाः स्प
 विलग्नसुखभावगणो विधेयः॥वीर्यं तथोक्तविधिना निखिलग्रहा
 णामब्दाधिपस्यविधयेकथयामियुक्तिम् ॥ ४ ॥

ग्रंथकर्ता कहता है कि प्रथमोक्त प्रकारसे तात्कालिक ग्रह स्पष्ट लग्नादि भाव
 स्पष्ट करके सदबुद्धिमान ज्योतिषीने ग्रह तथा भावोंका बल उसप्रकार सभीका

करके वर्षेश नियत करना इसके विधिनिमित्त आगे युक्ति कहताहूँ ॥ ४ ॥

स्थोद्धता-जन्मलग्नपतिरब्दलग्नपो मुंथहाधिप इतित्रिराशिपः ॥

सूर्यराशिपतिरह्निचंद्रभाधीश्वरो निशि विमृश्यपंचकम् ॥ ५ ॥

कि जन्मलग्नका स्वामी १ तथा वर्ष लग्नका स्वामी २ मुंथाराशिका स्वामी ३ त्रिराशीश, (त्रिराशिपाः सूर्य सिताकिं शुक्रेत्यादिसे) ४ और दिनमें वर्ष प्रवेश हो तो सूर्य राशीश रात्रिका वर्ष प्रवेश हो तो चंद्र राशीश ५ ये पांच अधिकारी हैं इनकी विधि पूर्व संज्ञातंत्रयें कहीहै ॥ ५ ॥

उपजाति-बलीयर्षांतनुमीक्षमाणस्सवर्षपो लग्नमनीक्षमाणः ॥

नैवाब्दपोदृष्टयतिरेकतः स्याद्बलस्यसाम्ये विदुरेवमाद्याः ॥ ६ ॥

उक्त प्रकार पंचाधिकारियोंको स्थापन करके इनका दृग्बल पंचवर्गी बल देखके, जो ग्रह बलसे अधिक हो तथा लग्नकोभी देखे तो वह वर्षेश होताहै, बलाधिक हो और लग्नको न देखे तो वर्षेश नहीं होता, बलाधिककी दृष्टिभी पूर्ण हो तो वही होगा इसके अभावमें इससे न्यून बली तथा इससेभी न्यूनबली दृष्टि विशेष वर्षेश होताहै, जो वर्षमें सभी वा २ तुल्यबली हो तो जिसकी दृष्टि अधिक हो वही होगा, लग्नपर दृष्टि जिसकी नहीं है वह बलाधिक हो तौभी वर्षेश नहीं होताहै ॥ ६ ॥

उ०जा०-दृगादिसाम्येप्यथ निर्बलत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु ॥

पंचापिनोचेत्तनुमीक्षमाणावीर्याधिकोब्दस्यविभुर्विचिंत्यः ॥ ७ ॥

जो पंचाधिकारियोंमें सभीकी दृष्टि लग्नपर बराबरहो तथा बलवानभी सभी तुल्य हों यद्वा(हीनबलःसरोनः)इत्यादिसे सभी हीनबल हों, तो मुंथाराशिपति वर्षेश होताहै, जो पांचोंमें कोई लग्नको न देखे तो बलाधिक ग्रह वर्षेश होताहै जो लग्नपर दृष्टि पांचोंकी पूर्णही हो तो उनमेंसे बलाधिक वर्षेश जानना, कोई कहते हैं कि, पांचोंमें बल तथा दृष्टि पूर्ण कोई न हो तो वर्ष लग्नेश राजा होताहै, किसीका मत है कि ऐसी प्राप्तिमें जिसके स्वोच्च गृह नवांश द्रेष्काण हृद्वादि बहुत अधिकारहैं वह राजा होगा, किसीका मत है कि पांच अधिकारियोंमें जिसके

दो तीन वा चार अधिकार मिलेहों वह राजा होताहै. इतने मर्तोमें प्रमाणभी अन्यग्रन्थोंसे है, इनमें भी जिसका बल यद्वा दृष्टि अधिक हो वही वर्षराजा करना ॥ ७ ॥

उपजा०—बलादिसाम्ये रविराशिपोह्निनिशींदुराशीडितिकेचिदाहुः ॥
येनेत्थशालोब्दविभुःशशीसवर्षाधिपश्चंद्रमपोऽन्यथात्वे ॥ ८ ॥

किसीका मत है कि बल तथा दृष्टिके तुल्य पांचोंके होनेमें दिनका वर्ष हो तो सूर्यराशीश रात्रिका वर्ष हो तो चन्द्रराशीश राजा करना. पूर्वोक्त प्रकारोंसे चंद्रमा वर्षेश हो तो यह वर्षेश न करना, पांच अधिकारियों मेंसे जिसके साथ यह इत्थशाली हो उसे वर्षेश करना, जब किसीके साथ इत्थशाल भी न हो तो जिस राशिमें चंद्रमा बैठा है उसके स्वामीको वर्षेश करना, जो चंद्रमा कर्कका हो तो चंद्रराशीश चंद्रमाही हुआ, तब तो चन्द्रमाही वर्षेश करना पड़ा इसी हेतु आचार्यने आगे चंद्रमा वर्षेशके फल भी लिखेहैं. नहीं तो चंद्रमा राजा न होता तो इसका राजत्व फलभी नहीं होनाथा ॥ ८ ॥

वसंतति०—अब्दाधिपोव्ययषडष्टमभिन्नसंस्थो लब्धोदयोब्द
जनुपोःसदृशो बलेन ॥ निःशेषमुत्तमफलंविदधातिकायेनैरुज्य
राज्यबललब्धिमतीवसौख्यम् ॥ ९ ॥

अब वर्षेशका सामान्य फल कहतेहैं कि, वर्षेश व्यय १२ षट् ६ वा अष्ट८ इन स्थानोंमें न हो तथा जन्मवर्षमें उदयी हो अस्तंगत न हो बलमें पूर्ण हो यद्वा जन्ममें तथा वर्षमेंभी बली हो तो संपूर्ण उत्तम फल देताहै तथा शरीरमें नीरोगिता कुलानुमान राजसुख और बल तथा अतिसौख्य देताहै ॥९॥

अनु०—बलपूर्णेब्दपे पूर्णं शुभं मध्ये च मध्यममम् ॥

अधमे दुःखशोकारिभयानि विविधाः शुचः ॥ १० ॥

वर्षेश पूर्वोक्त गणितांगत बलसे पूर्ण बली हो तो शुभ फल पूर्ण देताहै मध्यबली हो तो मध्यम अर्थात् शुभ न अशुभ और अधम बली हो तो

रोगादि दुःख तथा स्वजन वियोगादि शोक शत्रुभय और नानाप्रकार की चिंता उत्पन्न करताहै ॥ १० ॥

वसं०तिल०—सूर्य्येब्दपे बलिनि राज्यसुखात्मजार्थलाभः
कुलोचितविभुः परिवारसौख्यम् ॥ पुष्टं यशो गृहसुखं विविधा
प्रति शत्रुर्विनश्यति फले जनिखेटयुत्तया ॥ ११ ॥

सूर्य्य उत्तम बली होकर वर्षेश हो तो कुलानुमान राज्य तदीय सुख और पुत्र तथा धनलाभ होवै कुलानुसार प्रभुता और कुटुंबका सौख्य मिले शरीरमें पुष्टता होवै यश बढे गृहसंबंधि सौख्य होवै, अनेक प्रकारकी प्रतिष्ठा बढे शत्रुनाश होवे इतने फल जन्मक्रेभी स्वोच्च गृहादि उत्तम बली होनेमें होता है जन्मका हीन बली हो तो फल पूरे नहीं होते, मिश्रतामें मिश्रही फलभी होतेहैं ॥ ११ ॥

वसं०ति०—मध्ये रवौ फलमिदं निखिलं तु मध्यं स्वल्पं सुखं
स्वजनतोपि विवादमाहुः ॥ स्थानच्युतिर्न च सुखं कृशता
ऽपि देहे भीतिर्नृपान् थशिलोनशुभे न चेत्स्यात् ॥ १२ ॥

सूर्य्य मध्य बली होकर वर्षेश हो तो पूर्वोक्त उत्तम बलका फल मध्यम होता है सुख थोडा होताहै और अपने मनुष्योंसे कलहभी कराता है, तथा स्थान वा पदसे भ्रष्ट हो जाना सुख न मिलना शरीरपीडा होजाना राजासे भय होना, और इतने फल होतेहैं परंतु यह सूर्य्य शुभग्रहसे इत्थशाली हो तो उत्तम बलोक फल होतेहैं ॥ १२ ॥

वसं०ति०—सूर्य्ये बलेन रहितेब्दपतौ विदेशयानं धनक्षयशुचो
ऽरिभयं च तंद्रा ॥ लोकापवादभयसु रुजोतिदुःखं पित्रादितो
पिनसुखंसुतामित्रभीतिः ॥ १३ ॥

सूर्य्य बलरहित होकर वर्षेश ही तो विदेशगमन तथा धननाश चिंता शत्रुभय तंद्रा (आलस्य सहित अर्द्धनिद्रा) होवे, तथा संसारमें अपवाद (झूठे कलंककी भय) होवै, उग्ररोग उत्पन्न और अति दुःख होवै पिता माता आ-दिसेभी सुख न मिलै, तथा पुत्र और मित्रोंसेभी भय होवै ॥ १३ ॥

अनुष्टु०—चंद्रेब्दपे मुथशिलं येनासावब्दपे नचेत् ॥

कंबूलमिन्दुना जन्म निशिवर्षं तदोत्तमम् ॥ १४ ॥

चंद्रमाकी वर्षेशप्रामिमें जिसके साथ यह मुथशिल करता हो वह वर्षेश होताही है परंच उसके साथ चंद्रमा यदि उत्तमादि भेदसे कंबूल करे और रात्रिका वर्षप्रवेश हो तो यह ग्रह हीनबलीभी हो तौभी वर्षमें उत्तमही फल देता है. पूर्ण बली वह ग्रह हो तो क्याही कहना पडता है अर्थात् अत्युत्तम फल देता है. जो दिनका वर्ष हो तो सामान्य फल जानना ॥ १४ ॥

व० ति०—वीर्यान्विते शशिनिवित्तकलत्र त्रमित्रालयादिविधिंसुखमाहुरार्याः ॥ स्रग्ंधमौक्तिकदुकूलसुखानि भूतिर्लाभः कुलोचितपदस्य पैःसखित्वम् ॥ १५ ॥

चंद्रमा जब किसीके साथ इत्थशाली न होकर वर्षेश पूर्वोक्त विधिसे होही जावै तो उत्तम बल होनेमें धन स्त्री पुत्र मित्र गृहादि अनेक प्रकारके सुख देताहै ऐसे श्रेष्ठजन कहतेहैं. तथा शृंगारी वस्तु माला चंदन मृगमदादि सुगंधि मोती वस्त्र आदिकसे सुख देताहै. ऐश्वर्य, लाभ तथा कुलानुमान अधिकार देताहै और राजाओंसे मैत्री होतीहै ॥ १५ ॥

व० ति०—वर्षाधिपे शशनि मध्यबले फलानि मध्यान्यमूनि रिपुतासुतमित्रवर्गैः ॥ स्थानांतरे गतिरथो कृशता शरीरे श्लेष्मोद्भवश्च यदि पापकृतेसराफः ॥ १६ ॥

चंद्रमा वर्षेश मध्य बली हो तो उत्तम बलोक्त फल सभी मध्यम होतेहैं तथा पुत्र और मित्रवर्गसे शत्रुता होतीहै एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन और शरीरमें पीडापन होतीहै. जो पापग्रहके साथ ईसराफ योगभी करता हो तो श्लेष्मविकारसे क्लेश भी देताहै ॥ १६ ॥

व० ति०—नष्टेब्दपे शशनिशीतकफादिरोगश्चैर्यादिभिः स्वजनविग्रहमप्युशांति ॥ दूरेगतिः सुतकलत्रसुखात्ययश्च स्यान्मृत्युतुल्यमतिहीनबले शशांके ॥ १७ ॥

नष्टबली चंद्रमा वर्षेश हो तो शीत तथा कफ आदिक रोग हों चोर ठग आदिसे भय हो और अपने मनुष्योंमें कलहभी कहतेहैं दूर गमन होवै पुत्र व स्त्रीका सुख नष्ट होवै और यह अतिहीनबली हो तो शीतकफादि रोगोंसे मृत्यु समान कष्ट होताहै ॥ १७ ॥

व० ति०—भौमेब्दपे बलिनीकीर्त्तिजयारिनाशः सेनापतित्व-
रणनायकता प्रदिष्टा ॥ लाभःकुलोचितधनस्य नमस्यता च
लोकेषु मित्रसुतवित्तकलत्रसौख्यम् ॥ १८ ॥

बलवान् मंगल वर्षेश हो तो कीर्त्ति बढ़े शत्रुसे जीत मिले तथा शत्रुनाश होवे सेनापतिका अधिकार तथा रणमें श्रेष्ठताभी होवै है और कुलउचित धनकी प्राप्ति होवै. संसारमें साधारण मनुष्योंसे नमस्कार प्रणाम करनेके योग्य होवे. मित्र पुत्र धन स्त्रीका सौख्य मिलै ॥ १८ ॥

व० ति०—मध्येब्दपेवनिमुते रुधिरस्तुतिश्चक्रोपोधिकोझकट
शस्त्रहतिक्षतानि ॥ स्वामिस्वमात्मगणतो बलगौरवं च मध्यं
सुखं निखिलमुक्तफलं विचिंत्यम् ॥ १९ ॥

मध्यबली मंगल वर्षेश हो तो शरीरसे किसीप्रकार रुधिर गिरै. क्रोध बहुत आवै, शस्त्रकी चोट लगनेसे घाव होवै और अपने जनोंमें स्वामित्व तथा बल और गुरुता मिलै. सौख्य मध्यम होवे इसप्रकारका कहा हुआ फल मध्यबलमें मध्यमही विचारना ॥ १९ ॥

व० ति०—हीनेब्दपेऽसृजिभयं रिपुतस्कराञ्चिलोकापवादभय
मात्मधिया विनाशः ॥ कार्य्यस्य विघ्नमतिरोगभयं विदेशयानं
क्षयोपनयतो गुरुदृष्ट्यभावे ॥ २० ॥

हीनबली मंगल वर्षेश हो तो शत्रु चोर और अग्निसे भय होवे. झूठा कलंक लगनेका भय होवै, और अपनीही बुद्धिसे वस्तु वा कार्यका नाश होवे. तथा कार्य्यमें विघ्न होवे, बहुधा रोगभय तथा परदेशगमन होवे. और उद्धतपनसे धन एवं कार्यादिकक्षय होवे; परंतु इतने फल ऐसे मंगलपर बृह-
स्पतिकी दृष्टि न होनेमें-होतेहैं, गुरुकी दृष्टि होनेमें सभी शुभफल कहेहैं ॥ २० ॥

वसंतति०—सौम्येब्दपे बलवति प्रतिवादलेख्यसच्छास्त्रसद्भव-
हृतौ विजयोऽर्थलाभः ॥ ज्ञानं कलागणितवैद्यभवं गुरुत्वं राजा-
श्रयेण नृपता नृपमंत्रिता वा ॥ २१ ॥

बुध पूर्ण बली वर्षराजा हो तो विवादमें तथा लिखनेके कर्मसे और शुभ
शास्त्र शुभ व्यवहारसे विजय तथा धनलाभ होवे. मंत्रादि कला वैद्यत्व गणित
शास्त्र, इनसे गौरवता मिले, ज्ञान होवे और राजाके आश्रयसे राज्य मिले
अथवा राजमंत्रित्व मिले ॥ २१ ॥

वसंतति०—अब्दाधिपे शशिसुते खलु मध्यवीर्य्ये स्यान्मध्यमं
निखिलमेतदथाध्वयानम् ॥ वाणिज्यवर्तनमथात्मजमित्रसौख्यं
सौम्येत्थशालवशतोऽपरथानसम्यक् ॥ २२ ॥

मध्यबली बुध वर्षेश हो तो पूर्वोक्त उत्तम बलीका फल समस्त मध्यम
होताहै और मार्ग चलना पडताहै. व्यापार तथा पुत्रमित्रोंका सुख होताहै.
परंतु शुभग्रहसे इत्थशाली हो तो उक्तफल है अन्यथा अशुभ फल देताहै २२ ॥

वसंतति०—सौम्येब्दपेऽधमबलेबलबुद्धिहानिर्द्धर्मक्षयः परिभवो
निजवाक्यदोषात् ॥ निक्षेपतो विपदतीव मृषैव साक्ष्यं हानिः
परव्यवहृतेः सुतवित्तमित्रैः ॥ २३ ॥

अधम बली बुध वर्षेश हों तो बल तथा बुद्धिकी हानि धर्मका क्षय होवे
तथा अपनेही वचनसे अपमान पावे इत्यादि निक्षेप (निधानसे) विपत्ति
बहुत होवे झूठी साक्षी (गवाहीमें) कठिनाई आनपड़े पराये व्यापारमें
अपनी धनहानि और पुत्र मित्र धनकीभी हानि होवे ॥ २३ ॥

व०ति०—जीवेऽब्दपे बलयुते परिवारसौख्यं धर्मो णग्रहिलता
धनकीर्तिपुत्राः ॥ विश्वास्यतोजगति सन्मतिविक्रमातिर्लाभो
निधेर्नृपतिगौरवमप्यरिन्नम् ॥ २४ ॥

बृहस्पति उत्तम बली वर्षेश हो तो कुटुंबका सुख तथा धर्म होवे शौर्ग्यादि
गुणोंका आग्रह होवे अर्थात् ये गुण मिलें धन यश और पुत्र प्राप्ति होवे ।

संसारमें सभी विश्वास माने अच्छी बुद्धि होवे पराक्रमासिद्धि तथा निधि
वस्तु मिले राजासे गुरुता मिले, शत्रुनाश होवे ॥ २४ ॥

वसंतति०—अब्दाधिपे सुरगुरौ किलमध्यवीर्यै स्यान्मध्यमं
फलमिदं नृपसंगमश्च ॥ विज्ञानशास्त्रपरताप्यशुभेसराफे दारि
द्र्यमर्थविलयश्चकलत्रपीडा ॥ २५ ॥

मध्यबली बृहस्पति वर्षेश हों तो पूर्वाक्त उत्तम बलके फल मध्यम होतेहैं.
तथा शुभ ग्रहसे इत्थशालभी करता हों तो राजाका संगम होगा. ज्ञान तथा
शास्त्रमें तत्पर रहताहै जो पापग्रहसे ईसराफ योग कर्त्ता हो तो दारिद्र और
धननाश और स्त्रीसे कष्टभी करेगा ॥ २५ ॥

वसंतति०—जीवेद्दपेधमबले धनधर्मसौख्यहानिस्त्यजंति सुत
मित्रजनाः सभार्याः ॥ लोकापवादभयमाकुलताऽतिक वृत्ति
स्तनौ कफरुजोरिपुभीः कलिश्च ॥ २६ ॥

अधमबली वर्षेश बृहस्पति हो तो धन धर्म और सुखकी हानि होवे, तथा
पुत्र मित्र लोग और स्त्री उसे त्यागदेवें. संसारमें झूठे कलंक लगनेकी डर होवे.
चित्त व्याकुल रहे आजीवन बड़े कष्टसे होवे. शरीरमें कफ रोग होवे. शत्रुसे
भय तथा कलहभी होवेहै ॥ २६ ॥

वसंततिलकाछंद—शुक्रेद्दपेबलिनिनीरुजताविलाससच्च | ध्वरत्न
मधुराशनभोगतोषाः ॥ क्षेमप्रतापविजयावनिताविलासो
हास्यंनृपाश्रयवशेन धनं सुखंच ॥ २७ ॥

उत्तम बली वर्षेश शुक हो तो शरीर नीरोग रहै. नित्यसुखसे विलास
करे. शुभ शास्त्र तथा मिष्टान्न भोजनादि भोगोंसे प्रसन्नता रहै सर्वथा कुशल
प्रताप बढै शत्रुसे जय मिले स्त्रीविलासका सुख रहै. प्रसन्नता रहे और राजा
के आश्रयसे धन तथा सुख मिले ॥ २७ ॥

वसंतति०—अब्दाधिपे भृगुसुते खलुमध्यवीर्यै स्यान्मध्यमं
निखिलमेतदथाल्पवृत्तिः ॥ तं च दुःखमखिलं मुनिबद्धवृत्तिः
पापारिवीक्षितयुते विपदोऽर्थनाशः ॥ २८ ॥

मध्यबली शुक्र वर्षेश होतो पूर्वोक्त उत्तमबलीका फल सभी मध्यम होतेहैं तथा आजीवनार्थ थोडा द्रव्यादि मिलते हैं गुप्त प्रकारसे दुःख लगा रहे, वाच्य अथवा अवाच्य सुख मध्यम वृत्ति जीवनोपाय अल्प रहे; जो पापग्रह शत्रुसे युक्त दृष्ट हो तो विपत्ति होवे धननाश भी होवे ॥ २८ ॥

व०ति०—शुक्रेब्दपेधमबलेमनसोऽतितापो लोकोपहासविप
दो निजवृत्तिनाशः॥ द्वेषः कलत्रसुतमित्रजने कष्टाद् शनं
च विफलक्रियता न सौख्यम् ॥ २९ ॥

अधश बली शुक्र वर्षेश हो तो मनमें अति संताप रहे लोगोंसे उपहास होवे, अपनी आजीवनकी वृत्ति नष्ट होवे, स्त्री पुत्र मित्रजनोसे वैर होवे, भोजन भी अति कष्टसे प्राप्त होवे. जो कुछ कर्म भलाई निमित्त करै वही निष्फल होवे, सुख न मिले ॥ २९ ॥

व०ति०—मंदेऽब्दपे बलिनि नूतनभूमिवेश्मक्षेत्रातिरर्थनिचयो
यवनावनीशात् ॥ आरामनिर्मितजलाशयसौख्यमंग िः -
लोचितपदाति णाग्रणीत्वम् ॥ ३० ॥

उत्तम बली शनि वर्षेश हो तो नवीन गृह भूमि (खेती) मिले, धन बहुत मिले, यवनावनीश (मुसलमान आदि जाति राजा) वा राजतुल्यसे मिले, उपवन (बगीचा) बनावे, जलाशय, कूप तडागादिका सुख मिले, शरीर पुष्ट रहे. अपने कुलयोग्य अधिकार मिले अपने समाजमें श्रेष्ठ रहे ॥ ३० ॥

व०ति०—अब्दाधिपेरविसुते खलुमध्यवीर्यैस्यान्मध्यमं नि-
खिलमन्नभुजिस्तु क त् ॥ दासोष्ट्रमाहिष लान्यरतस्तुलाभः
पापं फलं भवति पापयुगीक्षणेन ॥ ३१ ॥

मध्यबली शनि वर्षेश हो तो पूर्वोक्त फल उत्तम सभी मध्यम होवे तथा अन्न खानेमें किसी प्रकार (अपची) अरुची, आदिसे होवे और दास ऊंट भैंस तथा अपनेसे हीन कुलमें तत्पर रहे कहीं 'कुधान्यरत' ऐसा पाठ भी है अर्थात् दुष्ट अन्न कोद्व, सांवा, जुवार, बगड आदिमें तत्पर

रहे. इतनी वस्तुओंका लाभ भी होवे, और पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो समस्त फल दृष्टही होंगे शुभ दृष्टिसे शुभ जानना ॥ ३१ ॥

व०ति०—मंदेबलेन रहितेऽब्दपतौ क्रियाणां वंध्यत्वमर्थविलयो विपदोरिभीतिः ॥ स्त्रीपुत्रमित्रजनवैरकद्वन्द्वभुक्तिः सौम्येत्थशालयुजिसौख्यमपीषदाहुः ॥ ३२ ॥

शनि हीनबली वर्षेश हो तो कर्ममात्रकी वंध्यत्व (निष्फलता) होवे, (कुत्सितअन्न) कुलत्थ, कोद्रव, जुवार, सांवा, आदि भोजनको मिले धननाशं तथा विपात्त, शत्रुभय और स्त्री पुत्र मित्र जनोसे वैर होवे, जो शुभग्रहसे इत्थशाली वा युक्त हो तो थोडा सुख भी होगा ऐसा कहतेहैं ॥ ३२ ॥

व०ति०—वर्षेश्वरो भवति यः सदशाधिपोब्दे ज्ञेयोऽखिलोब्दजनुषोर्बलमस्य चिंत्यम् ॥ वीर्यान्वितेच निखिलं शुभमब्दमाहुर्हीनि त्वनिष्टफलतासमतासमत्वे ॥ ३३ ॥

पूर्वोक्त प्रकारसे जो वर्षेश हुआ वही प्रथम दशाधीश भी जानना यतः सभीदशाधीश ग्रहोंका यह राजा होताहै इसका फल थोडा २ सभीके दशाओंमें होताहै, और वर्षेश बल जन्ममें भी पंचवर्गी क्रमसे वर्षतुल्य गिनना, जन्म वर्षका बल मिलायके बलाबल जानना, दोनहूमेंसे बली होनेसे पूर्णबली कहाताहै, संपूर्ण वर्षमें शुभही फल देताहै, इसी क्रमसे उत्तम मध्यम कनिष्ठ भी बल जानना, हीनबलमें मध्यम फल कनिष्ठमें अशुभ सममें समफल समस्त वर्षमें विचारसे कहना बलाबल विधि पूर्ण कही है ॥ ३३ ॥

उ०जा०—येनेत्थशालोब्दपतौग्रहाऽसौस्वीयस्वभावात्सुफलंददाति ॥ शुभेसराफे शुभमस्तिर्किंचिदनिष्टमेवाशुभसूसरीफे ॥ ३४ ॥

वर्षेश जिस ग्रहके साथ इत्थशाल करता हो वह ग्रह अपने पूर्वोक्त स्वभावानुसार शुभ फल देताहै. जो शुभग्रहसे ईसराफ योग हो तो शुभ फल थोडा देताहै, और पापग्रहसे इत्थशाल हो तो अनिष्ट फल देताहै. बलाबलसे उत्तम मध्यम व अधम फल का विचार करना ॥ ३४ ॥

अनुष्टु०—हृदे यादृशिं यः खेटः आधत्तेत्रचयोमहः ॥

जन्मन्यब्देचतादृक्त्वे तदात्मफलदस्त्वसौ ॥ ३५ ॥

जन्ममें जो ग्रह जिस प्रकारकी हृदामें होकर दूसरेका तेज ग्रहण करता हो वर्षमेंभी उसी प्रकार हृदामें हो तो अपना फल अपने संबंधी ग्रहको देदे-ताहै अर्थात् जन्ममें जिस हृदामें ग्रह हैं उसी हृदामें जो कोई ग्रह हो उसके साथ मुथशिली हो तो जन्मके उस ग्रहका तेज लेलेताहै, जैसे जन्ममें राज्य भावेश मंगल मेषके २० अंश अपने हृदामें हैं, और शुक्रादि कोई ग्रह सुराधीश १६ अंशपर स्थित होकर मुथशिली होनेसे तेज ग्रहण करता है. एवं वर्षमें मंगल स्वहृदामें होकर शुक्रके मुथशिली हो तो शुक्र अपनी दशामें मंगलके स्वभाव तुल्य फल दशम भावसंबन्धी फल भी देगा ॥ ३५ ॥

अनुष्टु०—योजन्मनिफलं दातुं विभुर्मूसरिफोस्यचेत् ॥

अब्दलग्नाब्दपतिनातस्मिन्नब्देनतत्फलम् ॥ ३६ ॥

जो ग्रह जन्मसे शुभ वा अशुभ फल देनेको समर्थ है वह वर्षमें वर्ष-लग्नेश वा वर्षेशके साथ मूसरिफ योग करता हो तो जन्मकालोक्त फल वर्षमें नहीं होताहै, जो इनके साथ ईसराफ हो तो जन्मकालोक्त फल वर्षमें होताहै, ईसराफ, मूसरिफ कोई भी नहीं हो तो जन्मोक्तफल जन्महीमें वर्षोक्त वर्षहीमें फल देताहै इसका उदाहरण अगले श्लोकमें है ॥ ३६ ॥

इन्द्रवज्रा—पुत्राधिपो जन्मनि पुत्रभावं पश्यन्सुतंदातुमसौसम-

मर्थः ॥ वर्षेत्रपुत्राब्दपमूसरीफी पुत्रस्य नाशोभवतीहवर्षे ॥ ३७ ॥

जन्मकालमें पुत्रभावेश पुत्रभावको देखे “उपलक्षणसे” वा पुत्र स्थानमें हो तो अपनी दशामें इसे पुत्र देनेकी सामर्थ्य है, वर्षमें यही जन्मका पुत्रभा-वेश वर्षलग्नेश वा वर्षेशसे वा पंचमेशसे मूसरीफ योग करे तो इस वर्षमें अवश्य पुत्रनाश करेगा यह पर्व श्लोकका उदाहरण है, ऐसेही सभी भावोंका विचार करना ॥ ३७ ॥

अनुष्टु०—अब्देश्वरोगुरुर्मित्रहृदेमित्रदशाशशी ॥

महोत्राधाद्यमुद्दिश्यवर्षेशस्तेनशोभनः ॥ ३८ ॥

(११२)

ताजिकनीलकण्ठी ।

वर्षमें वर्षेश बृहस्पति हो और जन्ममें बृहस्पतिसे चन्द्रमा इत्यशाल करता हो, परन्तु बृहस्पति अपनी हृदामें हो और वर्षमें चन्द्रमाको देखे तो जन्ममें चन्द्रमा बृहस्पतिको तेज देनेसे यह वर्ष शुभफलदेनेवालाहोगा ॥ ३८ ॥

अनुष्टु०—एवमुन्नेयमन्यच्चशुभाशुभफलं धैः ॥

बलाबलविवेकेन योगत्रयविमर्शतः ॥ ३९ ॥

इतिश्रीनीलकण्ठैव कृतायां नीलकण्ठ्यांफलतंत्रे वर्षपति
फलानि समाप्तानि ॥ १ ॥

इसी प्रकार जन्मका तथा वर्षका बलाबल संबंध देखके तथा भविष्य मुथशिलं वर्तमान मुथशिल ईसराफ तीन योगोंसे पंडितोंने विचार करना चाहिये, यह लक्षण मात्र कहाहै ऐसेही औरभी विचार सर्वत्र करलेना ॥ ३९ ॥

इति महीधरकृतायां नीलकण्ठीभाषायां वर्षतंत्रे वर्षेशफल-
निरूपणं नाम प्रथमं प्रकरणम् ॥ १ ॥

अथ मुथानिरूपणम् ॥

उ०व०—स्वजन्मलग्नात्प्रतिवर्षमेकैकराशिभोगान्मुथंहाभ्रमेण ॥

स्वजन्मलग्नंरवितृयातंगताव्दयुक्तंभमुखेथिहास्यात् ॥ १ ॥

जन्मलग्नका नाम मुंथाहै प्रतिवर्ष एक एक राशि भोगनेके क्रमसे भ्रमण, करती है. जैसे जन्मका सिंह लग्न हो तो दूसरे वर्षमें कन्याकी तीसरेमें तुलाकी इत्यादि, पुनः तेरहवें वर्षमें जन्मलग्न सिंहकी चौदहवेंमें कन्याकी यही क्रमहै, जन्मलग्नमें गतवर्ष जोडके बारहसे भाग करके शेष राशिमें मुंथा वर्षकी होतीहै, जन्मलग्नका जो स्पष्ट है वही मुंथा स्पष्ट रहताहै केवल एक एक राशिमात्र प्रतिवर्ष बढ़ती है ॥ १ ॥

अनुष्टु०—प्रत्यहंशरलिप्ताभिर्वर्द्धते सानुपाततः ॥

सार्द्धमंशद्वयंमासइत्याहुः केपिसूरयः ॥ २ ॥

मासप्रवेश दिनप्रवेशमें मुंथाके लिये अनुपात त्रैराशिकसे है कि सौर-
मान १ वर्षमें १ राशि भुगती है तो एक महीनेमें कितना एक राशिके ३०

अंश; १अंशकी ६० कला प्रसिद्धहैं त्रैराशिक करनेसे एकमहीनेमें २ अंश ३० कला और एकदिनमें ५ कला मिलतीहैं मासप्रवेशमें वर्ष मुंथाके ६ में २ अंश ३० कला जोडके दूसरे मासकी मुंथाका स्पष्ट होताहै पुनः प्रतिमास २ अंश ३० क० जोडतेरहना दिनप्रवेशमें केवल ५ कला प्रतिदिन जोडना ॥ २ ॥

अनुष्टु०—स्वामिसौम्येक्षणात्सौख्यंक्षुतदृष्ट्याभयंरुजः ॥

भावालोकनसंयोगात्फलमस्यानिरूप्यते ॥ ३ ॥

मुंथाका फल कहतेहैं कि, जिस राशिमें मुंथाहै उसका स्वामी मुंथेश कहाताहै मुंथा स्वस्वामी वा शुभ ग्रहके देखनेसे सुख देतीहै तथा शत्रु और पाप अल्पबली ग्रहके दृष्टिसे भय तथा रोग देतीहै, भाव दृष्टि और योगके अनुसार इसका फल कहा जाताहै ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—वर्षलग्नात्सुखास्तांत्यरि रंघ्रिष्वशोभना ॥

पुण्यकर्मायगाः सौख्यंदत्तेऽन्यत्रोद्यमाद्धनम् ॥ ४ ॥

मुंथा वर्षलग्नेसे सुख ४ अस्त ७ अंत्य १२ रिपु ६ रंघ्र ८ स्थानोंमें शुभ नहीं होती, पुण्य ९ कर्म १० आय ११ स्थानोंमें ख देनेवाली होती है इनसे उपरांत १ । २ । ३ । ५ स्थानोंमें उद्यम करनेसे धन देतीहै ॥ ४ ॥

उपजा०—शत्रु यं मानसतुष्टिलाभं प्रतापवृद्धिं नृपतेः प्रसादम् ॥

शरीरं द्विविधोद्यमांश्चददातिवित्तं सुथहातनुस्था ॥ ५ ॥

मुंथाके भावफल कहते हैं लग्नेमें मुंथा हो तो शत्रुक्षय होवे मन संतुष्ट रहे प्रताप बढे राजासे प्रसाद हो शरीर पुष्ट रहे अनेक प्रकारका उद्यम होवे तथा धन देवे ॥ ५ ॥

उपजा०—उत्साहतोर्थागमनंयशश्च स्वबंधुसम्माननृपाश्रयश्च ॥

मिष्टान्नभोगोबलपुष्टिसौख्यं स्यादर्थभावेसुथहायदाब्दे ॥ ६ ॥

मुंथा द्वितीय स्थानमें हो तो उत्साहसे धन आवे यश बढे (बंधु) स्वजातिमें सम्मान होवे तथा राजाका आश्रय मिले मीठे पदार्थ खानेको मिलें. शरीरमें बल तथा पुष्टता होवे और सुख मिले ॥ ६ ॥

उपजा०—पराक्रमाद्विस्तयशःसुखानिसौंदर्यसौख्यंद्विजदेवपूजा ॥

सर्वोपकारस्तनुपुंकांतिनृपाश्रयाश्चेन्मुथहातृतीया ॥ ७ ॥

मुंथा तीसरे स्थानमें हो तो अपने पराक्रमसे धन यश और सुख होवे, सुरूपता और सौख्य होवे, देव ब्राह्मणोंकी पूजा अपनेसे होवे. सभीका उपकार अपनेसे बने शरीर पुष्ट कांतिमान् होवे, राजाका आश्रय मिले ॥ ७ ॥

उपजा०—शरीरपीडारि भीः स्ववर्गवैरंमनस्तापनिरुद्यमत्वे ॥

स्यान्थहायांसुखभावगायां जनापवादामयवृद्धिदुःखम् ॥ ८ ॥

मुंथा चतुर्थ स्थानमें हो तो अपने समुदायमें वैर होवे मनको संताप रहै उद्यमहानि अर्थात् आलस्य रहै लोगोंमें झूठा कलंक लगे अनेक प्रकारके रोग और दुःख बढ़ें ॥ ८ ॥

उपजा०—यदीथिहापंचमगाब्दवेशे सद्बुद्धिसौख्यात्मजवित्तलाभः॥

प्रतापवृद्धिर्विधाविलासादेवद्विजार्चानृपतेःप्रसादः ॥ ९ ॥

मुंथा पंचम स्थानमें हो तो भली बुद्धि तथा सुख पुत्र धनलाभ होवे, प्रताप बढ़े अनेक प्रकार हर्षभाति होवे देव ब्राह्मणोंका पूजन अपनेसे होवे ॥ ९ ॥

उपजा०—कृशत्वमंगेषुरिपूदयश्चभयंरुजस्तस्करतानृपाद्वा ॥

कार्यार्थनाशोमुथहारिगाचेद्बुद्धिवृद्धिः स्वकृतोनुतापः ॥ १० ॥

मुंथा छठे स्थानमें हो तो सभी अंग मांडे होजावें शत्रु बढ़ें रोग उत्पन्न होवे चोरसे वा राजासे भय होवे कार्य तथा धनका नाश होवे, दुष्टबुद्धि बढ़े अपने किये कामसे आपही पछतावे ॥ १० ॥

उपजा०—कलत्रबन्धुव्यसनारिभीतिरुत्साहभंगोधनधर्मनाशः ॥

दूनोपगाचेन्मुथहातनौस्याद्भुजामनोमोहविरुद्धचेष्टे ॥ ११ ॥

स्त्री और बांधव पक्षमें कष्ट होवे दूनोपगादि व्यसनसे हानि शत्रुभय उद्यमहानि धन और धर्मका नाश होवे शरीरमें रोग होवे, मनकी अज्ञानता पा वंद्रादिसे विपरीत कर शारीरी चेष्टाओंको बिगाड देवे ॥ ११ ॥

उपजा०—भयंरिपोस्तस्करतो विनाशोधर्मार्थयोर्दुर्व्यसनामयश्च ॥
मृत्युस्थिताचेन्मुथहानराणां बलक्षयः स्याद्गमनंसुदूरे ॥ १२ ॥

मुंथा अष्टम भावमें हो तो शत्रुसे भय चोर धन धर्मका नाश दुष्ट व्यसन, जुवाँ चोरी वेश्या आदिमें नाश हो रोगभी पैदा हो बलहानि हो बहुत दूर गमन निरर्थक करना पड़े ॥ १२ ॥

इंद्रवं०—स्वामित्वमर्थापिगमो नृपेभ्योधर्मोत्सवः पुत्रकलत्रसौख्यम् ॥
देवद्विजार्चापरमंयशश्च भाग्योदयो भाग्यगतैथिहायाम् ॥ १३ ॥

नवम स्थानमें मुंथा हो तो सब लोगोंमें स्वामित्व मिले, राजासे धन आवे, धर्म संबंधी उत्साह होवे पुत्र और स्त्रीका सुख मिले, देव ब्राह्मण पूजन होवे, पूरा यश मिले ऐश्वर्य बढे ॥ १३ ॥

उपजा०—नृपप्रसादं स्वजनोपकारं सत्कर्मसिद्धिं द्विजदेवभिमम् ॥
यशोभिवृद्धिं विविधार्थलाभं दत्तेवरस्था मुथहा पदाप्तिम् ॥ १४ ॥

मुंथा दशम स्थानमें हो तो राजासे प्रसाद मिले अपने मनुष्योंका उपकार होवे. भले कर्मकी सिद्धि तथा देवता ब्राह्मणकी भक्ति अपनेसे बने यश बढे, अनेक प्रकार धन लाभभी देतीहै और(पदाप्तिम्)उत्तमस्थानभी देतीहै १४

उपजा०—यदीथिहा लाभगता विलाससौभाग्यनैरुज्यमनःप्रसादाः ॥
भवंति राजाश्रयतो धनानि सन्मित्रपुत्राभिमतान्तयश्च ॥ १५ ॥

मुंथा ग्यारहवें स्थानमें हो तो अष्ट प्रकार शृंगारका विलास और सौभाग्य नीरोगिता मनकी प्रसन्नता होवे, राजाके आश्रयसे धन मिले, अच्छे मित्र और पुत्र मिलें मन मानती भलाई होवे ॥ १५ ॥

उपजा०—व्ययोधिको दुष्टजनैश्च संगो रुजातनौ विक्रमतोप्यसिद्धिः ॥
धर्मार्थहानिमुथहाव्ययस्था यदातदास्याज्जनतोऽपिवैरम् ॥ १६ ॥

मुंथा बारहवें स्थानमें हो तो व्यय बहुत होवे दुष्टमनुष्योंकी संगति मिले शरीरमें रोग होवे पराक्रम करनेमें परिश्रम व्यर्थ जावे. धर्म और धनकी हानि होवे सज्जनोंसे वैर होवे ॥ १६ ॥

अनु०—क्रूरदृष्टः क्षुतदृशा योभावो ऽथहाऽत्रचेत् ॥

भंतद्भावजं नश्येदशुभंचापि वर्द्धते ॥ १७ ॥

मुंथाफल विशेष कहते हैं कि जो भाव पापयुक्त हो वा जिसपर क्रूरग्रहकी शत्रु दृष्टि हो उसीमें मुंथा हो तो शुभस्थानगतभी हो तौ भी उस भावका शुभ फल नहीं देती है, प्रत्युत अशुभ फल बढ़ता है ॥ १७ ॥

भुजंगप्रयात—शुभस्वामियुक्तेक्षितावीर्य्ययुक्चैथिहास्वामि-
सौम्येत्यशालम्प्रपन्ना ॥ शुभंभावजं वर्द्धयन्नाशुभंसान्यथात्वे
न्यथाभाव उह्यो विमृश्य ॥ १८ ॥

जो मुंथा स्वस्वामी वा शुभ ग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तथा स्वामी बलवान् हो अथवा अपने स्वामी यद्वा शुभ ग्रहसे इत्थशालिनी हो तो जिस भावमें है उस भाव संबंधि शुभ फलको बढ़ाती है अन्यथा शुभ फलको नहीं बढ़ाती तथा अन्यथामें अन्यथा जैसे शुभ ग्रह स्वस्वामीसे युत दृष्ट न होनेसे निर्बल हो यद्वा पापग्रहसे मूसरीफ करती हो तो उस भाव संबंधि शुभ फल को नाशकर अशुभ फलको बढ़ाती है ऐसे भाव संबंधि फलका शुभाशुभ मुंथाके बलसे विचारके कहना ॥ १८ ॥

०प्र०—जनुर्ल तोऽस्तांत्यपण्मृत्युबंधुस्थितान्देहता ० रवेदौ-
स्तुसाचेत् ॥ विनश्येत्समयत्रैथिहाभाव एवं शुभः स्वामिदृष्टौ
ननाशःशुभंचा ॥ १९ ॥

मुंथा जन्मलग्नसे छठे आठवें वा चौथे स्थानमें हो तथा वर्षमें पाप-
युक्त पापाक्रांत हो तो जिस भावमें मुंथाहै उस भावको नाश करती है, जैसे
द्वितीयमें धनका तृतीयमें भाईका इत्यादि परन्तु वर्षमें स्वस्वामी शुभग्रहसे
युक्त दृष्ट हो तो यह फल नहीं होता प्रत्युत शुभ फलदेती है ॥ १९ ॥

अनुष्टु०—यदोभयत्रापिहता भावो नश्येत्ससर्वथा ॥

उभयत्रशुभत्वेतुभावोऽसौवर्द्धतेतराम् ॥ २० ॥

मुंथा जन्मलग्नसे तथा वर्षलग्नसे शुभ स्थानमें हो पापाक्रांत न
हो तो उसभावसंबंधि शुभ फल, अर्थात् वह भाव बढ़ता है जैसे जन्मलग्नसे

वर्षलग्नसे मुंथा पंचम शुभ ग्रह स्वस्वामियुक्त दृष्ट हो तो पुत्रवृद्धि करती है इत्यादि जो जन्म तथा वर्षलग्नसे अनिष्ट स्थानमें हो तथा पापयुत दृष्ट वा पापेत्थशालिनी हो वह भाव अवश्य नष्ट होगा ॥ २० ॥

अनुष्टु०—वर्षेप्यनिष्टगेहस्था यद्भावे जनुषिस्थिता ॥

क्रूरोपघातात्तंभावंनाशयेच्छुभयुक्छुभा ॥ २१ ॥

जन्मलग्नसे ४।६।८।१२ दुष्ट भावमें तथा वर्षमें ऐसेही अतिष्ट स्थानोंमें हो तथा पापग्रहयुक्त वा दृष्ट स्वामीके अस्तंगतादिसे निर्बल हो तो उस भावको नाश करती है और स्वस्वामियुक्त दृष्ट वा इत्थशालसे शुभ फल देती है ॥ २१ ॥

भुजंगप्रयात०—जनुर्लग्नतस्तुर्यगासौम्ययुक्ताब्दवेशोपितुर्द्रव्यलाभंविधत्ते ॥ नृपाद्गीतिदापापयुक्तातिकष्टाष्टमादावपीत्थंविमशोविधेयः ॥ २२ ॥

जन्मलग्नसे मुंथा चतुर्थ भावमें शुभग्रहयुक्त हो तो पिताका द्रव्य धन भूम्यादिलाभ करती है, ऐसेही पापयुक्त हो तो राजासे भय और आजीवन अति कष्टसे होवे, ऐसेही जन्म लग्नसे अष्टमगत शुभयुक्त हो तो शुभफल तथा पापयुक्त होनेमें अनिष्ट फल देती है ऐसेही षष्ठादि स्थानोंमेंभी बुद्धि विचारसे मुंथाका तारतम्य देखके फल कहना ॥ २२ ॥

शालिनी—यस्मिन्भावे स्वामिसौम्येक्षिताचेद्भावोजन्मन्येषयस्तस्यवृद्धिः ॥ एवंपापैर्नाशउक्तस्तुतस्येत्यूह्यंवीर्य्याद्वर्षपस्यास्ति सौख्यम् ॥ २३ ॥

वर्षलग्नमें मुंथा स्वस्वामी शुभग्रह दृष्ट युक्त जिस भावमें हो वह जन्मलग्नसे जो भावमें हो उस भावकी वृद्धि करती है, जैसे वर्षमें मुंथा चतुर्थ शुभग्रह वा स्वामियुक्त वा दृष्ट है और जन्मलग्नगणनासे यह भाव तीसरा होता है तो इस वर्षमें भ्रातृसम्बन्धी शुभफल होगा तथा पापग्रहयुक्त वा दृष्ट जिस भावमें हो वह जन्मलग्नसे जो भाव हो उसकी हानि होती है परन्तु वर्षेश बलवान् तथा शुभग्रह हो तो मुंथा पापयुक्तका पूर्वोक्त फल न होगा ॥ २३ ॥ ॥ इति मुंथाभावफलम् ॥

अथ ग्रहयुक्तदृष्ट्याफलम् ।

उपजा०—यदीथिहासूर्यग्रहे युतावा सूर्येणराज्यं नृपसंगमंच ॥

दत्तेगुणानांपरमामवार्तिस्थानान्तरस्येतिफलं दृशोपि ॥ २ ॥

मुंथाको प्रत्येक ग्रह युक्तका फल कहते हैं सूर्यकी राशि ५ में हो अर्थात् सूर्यके साथ वा सूर्यसे दृष्ट हो तो कुलानुमान राज्य मिले तथा राजाकी संगति मिले, स्त्री व भूषणादि श्रेष्ठ भोग मिलें ॥ २४ ॥

उपजा०—कुजेन युक्ता जभे कुजेन दृष्टा च पित्तोष्णरुजंविधत्ते ॥
शस्त्राभिघातं रुधिरप्रकोपं सौरीक्षिता सौरिग्रहे विशेषात् ॥ २५ ॥

मुंथा मंगलसे युक्त वा दृष्ट हो मंगलकी राशि १ । ८ में हो तो पित्त विकार उष्ण रोग देतीहै, और शस्त्रसे घात रुधिर कोपसे कष्टभी करती है, ऐसी मुंथा शनिसे युक्त वा दृष्टभी हो यद्वा शनि राशिमें मंगलसे युक्त वा दृष्ट हो तो पूर्वोक्त फलको विशेष बढ़ायदेती है शनि मंगलका मुंथाके निमित्त परस्पर तुल्य फलहै ॥ २५ ॥

उपजा०—चंद्रेण युक्तेदुग्ृहेथदृष्टेदुनापि वा धर्मयशोभिवृद्धिम् ॥

नैरुज्यसंतोषमतिप्रवृद्धिं ददाति पापेक्षणतोऽतिदुःखम् ॥ २६ ॥

मुंथा चन्द्रमासे युक्त चन्द्रमाके राशि (४) में अथवा चन्द्रमासे दृष्ट हो तो धैर्य तथा यशकी वृद्धि करतीहै नीरोगिता तथा प्रसन्नताकी तो अतिही वृद्धि देती है और पापग्रहकी दृष्टि भी हो तो अतिदुःख करतीहै ॥ २६ ॥

उपजा०—बुधेनशुक्रेणयुतेक्षितावा तद्रेपिवास्त्रीमतिलाभसौख्यम् ॥

धर्मं यशश्चाप्यतुलं विधत्ते कष्टंच पापेक्षणयोगतःस्यात् ॥ २७ ॥

मुंथा बुध अथवा शुक्रसे युक्त वा दृष्ट अथवा इनके राशि २ । ३ । ६।७। में हो तो स्त्री तथा बुद्धिलाभ और सुख होवे तथा अनुपम धर्म और यशभी देती है इसमें पापग्रहकी दृष्टि वा योगभी हो तो कष्ट होताहै ॥ २७ ॥

उपजा०—युतेक्षिता वा गुरुणा गुरोर्भे यदीथिहा पुत्रकलत्रसौख्यम् ॥

ददाति रत्नांबरधर्मसौख्यं शुभेत्थशालादिहराज्यलाभः ॥ २८ ॥

मुंथा बृहस्पतिसे युक्त वा दृष्ट तथा गुरु राशि ९ । १२ में हो तो पुत्र तथा स्त्रीका सुख और रत्न व धर्मका देती है शुभग्रहसे इत्यशालिनीभी हो तो कुलानुमान राज्य मिलताहै ॥ २८ ॥

उप०—शनेगृहेतेनयुतेक्षितावायर्दीथिहावातरुजंविधत्ते ॥

यानक्षयंवह्निभयंधनस्यहानिचजीवेक्षणतः भातिम् ॥ २९ ॥

मुंथा शनिकी राशि १० । ११ में यद्वा शनिसे युक्त वा दृष्ट हो तो वात संबन्धि रोग उत्पन्न करती है वाहनहानि भी करतीहै जो इसपर बृहस्पतिकी दृष्टिभी हो तो शुभ फलभी देतीहै ॥ २९ ॥

०व०—तमोमुखेचेन्मुथहाधनातिर्यशः खंधर्मसमु तिश्व ॥

सितेज्ययोगेक्षणतः पदातिःसुवर्णरत्नांबरलब्धयश्च ॥ ३० ॥

मुंथा राहुके मुखसंज्ञक अंशोंमें हो तो धनप्राप्ति और यश सौख्य धर्मकी उन्नति होतीहै. शुक्र बृहस्पतिसे युक्त वा दृष्टभी हो तो अधिकार प्राप्ति और सुवर्णरत्न वस्त्रलाभभी होते हैं ॥ ३० ॥

अनुष्टु०—भोग्याराहोर्लवास्तस्य मुखं पृष्ठगतालवाः ॥

ततःसप्तमभे च्छंविमृश्येतिफलंवदेत् ॥ ३१ ॥

राहुके मुखपुच्छलक्षण कहते हैं राहुकी वक्रगति स्पष्टही है जो राहुके एक राशिमें भोग्य अंश हैं वह मुख और भुकांशको पृष्ठ कहतेहैं किसीर मतहै कि मुखपृष्ठ में राहु स्थित अंशसे १५ । १५ अंश पूर्व और पीछेके लेते हैं और इससे सप्तम राशिमें केतु रहताहै यह पुच्छ कहाता है. तारतम्य विचारके फल कहना ॥ ३१ ॥

इ०व०—तत्पृष्ठभागेनशुभप्रदास्यात्तत्पुच्छ भागाद्रिपुभीतिकष्टम् ॥

पापेक्षणादर्थसुखस्यहानिश्चेज्जन्मनीत्थंगृहवित्तनाशः ॥ ३२ ॥

राहुके पृष्ठभाग अर्थात् राहुस्थित अंशसे विपरीत पूर्व पंद्रह वा राशयंतपर्यन्त अंशके आभ्यंतर मुंथा हो तो शुभ फल नहीं देती और पुच्छगत अर्थात् केतुयुक्त हो तो शत्रुसे भय और कष्ट देती है तथा पापग्रह दृष्टिसे धन सुखकी हानि करती है ऐसेही जन्ममें मुंथा हो तो गृह और धनका नाश करती है ॥ ३२ ॥

उपजा०—ये जन्मकाले बलिनोब्दकालेचेदुर्बलास्तैरशुभं समाति ॥
विपर्ययेपूर्वमनिष्टमुक्तं तुल्यंफलंस्यादुभयत्रसाम्ये ॥ ३३ ॥

जो ग्रह जन्म कालमें बलवान् और वर्षाकालमें निर्बल हो वह वर्षके पूर्वाद्धमें शुभ और वर्षके उत्तराद्धमें अशुभफल निर्बलताका देते हैं इनसे विपरीत अर्थात् जो जन्ममें निर्बल और वर्षमें बलवान् हैं वे वर्षपूर्वाद्धमें अशुभ उत्तराद्धमें शुभ फल देते हैं दोनों कालमें तुल्यही हों तो सम्पूर्ण वर्षमें तुल्यही फल देते हैं ॥ ३३ ॥

उपजा०—षष्ठेष्टमेंत्येभुविर्वेधिहेशोस्तगोथवक्रो शुभदृष्टयुक्तः ॥

क्रूरान्तुर्थास्तगतश्चभव्योनस्याद्गुजंयच्छतिवित्तनाशम् ॥ ३४ ॥

मुंथाका स्वामी छठे आठवें बारहवें वा चौथे स्थानमें हो अथवा अस्तंगत हो वा वक्री हो तथा पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो अथवा क्रूर ग्रहसे चौथा वा सप्तम अर्थात् शत्रुदृष्टिमें हो तो शुभ फल देनेवाला नहीं होता है और रोगोत्पत्ति धननाशभी करता है ॥ ३४ ॥

उप०—यद्य मेशेनयुतोथदःक्षुताख्यदृष्टयान भस्तद पि ॥

योगद्वयेस्यान्निधनयदैकयोगस्तदामृत्युसमत्वमाः ॥ ३५ ॥

जो मुंथेश वर्षलग्ने अष्टमेश युक्त अथवा १ । ४ । ७ । १० क्षुत दृष्टिसे दृष्ट हो तोभी शुभफल नहीं देता, एक योग यहहै एक योग पहिले श्लोक (षष्ठेष्टमेंत्ये) इत्यादिमें कहाहै जिस वर्षमें ये दोनों योग हों तो मृत्युफल देतेहैं जो एकही हो तो भी मृत्युसमान कष्ट देताहै ॥ ३५ ॥

अनुष्टु०—थहातत्पतिर्वापि जन्मनीक्षितयुक्छुभैः ॥

वर्षारंभेशुभंघत्तेऽब्देचेदंत्येन्यथाशुभम् ॥ ३६ ॥

इति नीलकंठ्यां फलतंत्रेमुथहाफलाध्यायः ॥ २ ॥

जो जन्मकालमें मुंथा वा मुंथेश शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो पूर्वाद्धमें शुभ फल देताहै मुंथा पुंथेश दोनों शुभग्रहयुक्त वा दृष्ट हों तो अतिशुभ फल वर्षपूर्वाद्धमें देतेहैं तथा वर्षकालमें मुंथा वा मुंथेश शुभग्रह युक्त वा हों तो वर्षके उत्तराद्धमें शुभफल देतेहैं तथा मुंथा मुंथेश दोनों शुभ-

ग्रहयुक्त दृष्ट हों तो अति शुभफल वर्षोत्तरार्द्धमें देतेहैं और ऐसेही जन्ममें मुंथा मुंथेशमेंसे एकभी पाप ग्रहयुक्त वा दृष्ट हो तो वर्षपूर्वार्द्धमें अशुभ फल जो दोनों पापयुक्त दृष्ट हों तो अति अशुभ फल देतेहैं. एवं वर्षमें मुथा मुंथेश मेंसे एकग्रह पापयुक्त दृष्ट हो तो वर्ष उत्तरार्द्धमें अशुभ फल तथा दोनों हों तो अति अशुभ फल देतेहैं ॥ ३६ ॥

इति महीधरकृतायांनीलकंठीभाषाटीकायां फलतंत्रेमुंथाफलप्रकरणं द्वितीयम् २

अथ वर्षारिष्टविचारः ।

अनुष्टु०—लग्नेशेष्टमगेषेशेतनुस्थेवाकुजेक्षिते ॥

ज्ञजीवयोरस्तगयोःशस्त्राघातो विपन्मृतिः ॥ १ ॥

व्याकरणमें 'रिष् रिष् हिंसायां' इसमें रिष् धातुसे अनिदृक्कः' प्रत्ययका आदान करके रिष्ट पद सिद्ध होताहै, नन् समाससिद्ध आरिष्ट पदका अर्थ विपरीत जान पढता है. परंतु ज्योतिषग्रंथोंमें सर्वत्र रिष्ट और आरिष्ट पद तुल्यार्थवाची होतेहैं. अब आरिष्टयोग कहतेहैं कि वर्षलग्नका स्वामी अष्टम स्थानमें हो इसपर मंगलकी दृष्टि हो अथवा अष्टमेश लग्नमें भौमदृष्ट हो उपलक्षणसे पापदृष्ट हो अथवा बुध बृहस्पति अस्तंगत हों तो शस्त्रसे चोट लगे, विपत्ति होवे और मृत्यु होवे ये तीन फल निर्वलताके क्रमसे हैं, जैसे प्रथम सामान्य बलमें शस्त्राघात, हीन बलमें विपत्ति, अतिहीन बलमें मृत्यु इस क्रमसे जानना. इस श्लोकमें तीन योगहैं ॥ १ ॥

अनुष्टु०—अब्दलग्नेशरंघ्रेशौव्ययाष्टहिबुकोपगौ ॥

मुंथाहासंयुतौ मृत्युप्रदौ तद्भातुकोपतः ॥ २ ॥

वर्षलग्नेश वा अष्टमेश मुंथा सहित बारहवें आठवें चौथे स्थानमें हो तो उस ग्रहके पितादि धातु उक्तसे मृत्युसमान कष्ट होवे, जो मुंथासहित लग्नेश अष्टमेश दोनों उक्त स्थानोंमें से एकमें हों तो मृत्यु देतेहैं ॥ २ ॥

अनुष्टु०—जन्मल धिपोऽवीर्य्यो मृतीशोलग्नपोयदा ॥

सूर्य्यदृष्टो मृतिं धत्ते ष्टं कंडूं तथापदः ॥ ३ ॥

जन्मलग्नेश जन्म तथा वर्षमें निर्वल हो और वर्षमें अष्टमेश लग्नमें हे

सूर्यकी दृष्टिभी हो तो मृत्यु वा कुष्ठ कंडू (खुजली) और आपत्ति देताहै ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—ऋरमूसरीफोब्देशोजन्मेशः रितः शुभैः ॥

कंबूलोपि विपन्मृत्युरित्थमन्याधिक रितः ॥ ४ ॥

वर्षेशके साथ ऋर ग्रहका मूसरीफ हो तथा जन्मलग्नेश ऋर होगया हो जैसे पापयुक्त बुध क्षीणचंद्रमा शुभभी कर है और चंद्रमादि शुभग्रह कंबूल योगभी करे तो विपत्ति अथवा मृत्यु होवे. ऐसेही जन्मलग्नेश वर्ष-लग्नेश मुंथेश आदि पंचाधिकारियोंसे भी यही योग होताहै, जैसे यहां वर्षेश ऋर मूसरीफी कहा तैसेही मुंथेशादि ऋर मूसरीफी और कंबूल पर्वचंद्रमाका ही कहाहै यहां उसी विधिसे सभी शुभ ग्रहोंका विचारना ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—अस्तगौ मुथहालग्ननाथौ मदेक्षितौ यदा ॥

सर्वनाशो मृतिः कष्टमाधिव्याधिभयं भवेत् ॥ ५ ॥

मुंथेश और लग्नेश अस्तंगत हों इनपर शनिकी दृष्टिभी हो तो स्त्री पुत्रादि सर्वनाश अथवा मृत्युतुल्य कष्ट वा कुष्ठ और मानसीचिंता शरीर-पीडा आदिसे भय होवे ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—ऋरावीर्याधिकाः सौम्या निर्बला रिपुरंध्रगाः ॥

तदाधिव्याधिभीतिः स्यात्कलिर्हानिस्तथा विपत् ॥ ६ ॥

ऋरग्रह बलवान् अर्थात् पंचवर्गमें १५ से अधिक बली और ३ । ६ । ११ स्थानोंमें हों तथा शुभग्रह निर्बल अर्थात् पंचवर्गमें ५ से न्यून बल हों और ६ । ८ । १२ स्थानोंमें हों तो मानसीव्यथा और रोग भय हो तथा कलह धनहानि और विपत्ति होवे ॥ ६ ॥

अनु०—नीचे शुक्रो गुरुः शत्रुभागे सौख्यलवोपि न ॥

लग्नेशेऽष्टमगेषेश तनौ वा मृतिमादिशेत् ॥ ७ ॥

शुक्र नीचराशि ६ में और बृहस्पति शत्रुके अंशकर्म हो तो उस वर्षमें सुखका अंशभी न होवे १. और लग्नेश अष्टम अष्टमेश लग्नमें हो तो मृत्यु होवे ये २ योग हैं ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—निर्बलौ धर्मवित्तेशौ दुष्टखेटास्तनौस्थिताः ॥

लक्ष्मीश्विरार्जिता नश्ये दि शोपि रक्षिता ॥ ८ ॥

धर्मस्थान ९ का स्वामी तथा धन स्थान २ का स्वामी निर्बल हो और पापग्रह लग्नमें हो तो इंद्र भी रक्षा करने आवें तो भी बहुत दिनोंका संचित धन नष्ट होजावे ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—नीचचंद्रेस्तगास्सौम्यावियोगःस्वजनैःसह ॥

शरीरपीडा मृत्युर्वा साधिव्याधिभयं द्रुतम् ॥ ९ ॥

चंद्रमा नीचराशि ८ में हो तथा शुभग्रह अस्तंगत हो तो अपने मनुष्यों साथ बिछोह होवे तथा शरीरपीडा वा मृत्यु अथवा मानसीव्यथा रोग-भय शीघ्रही एकसे एक होवे ॥ ९ ॥

अ ०—अब्दलं जन्मलग्नराशिभ्यामष्टमं यदा ॥

कष्टं महाव्याधिभयं मृत्युः पापयुतेक्षणात् ॥ १० ॥

वर्षलग्न जन्मलग्न जन्मराशिसे अष्टम हो तो कष्ट और महारोग क्षयादिका भय होवे, ऐसे अष्टम लग्नपर पापग्रहकी दृष्टि वा पापग्रहका योग होवे तो मृत्यु होवे ॥ १० ॥

अनुष्टु०—जन्मन्यष्टमगः पापो वर्षलग्ने रुगाधिदः ॥

चंद्राब्दल पौ नष्टबलौ चेत्स्यात्तदा मृतिः ॥ ११ ॥

जन्मकालमें जो ग्रह अष्टम है वही वर्षमें लग्नका हो तो रोग तथा मानसीव्यथा देताहै, जो चंद्रमा और लग्नेश दोनों (नष्टबल) ५ से हीन होवें तो मृत्यु होवे ॥ ११ ॥

अनुष्टु०—जन्माब्दलग्नपौ पापौ पतितभस्थितौ ॥

रोगाधिदौमृत्युकरावस्तगौ नेक्षितौ भैः ॥ १२ ॥

जन्मलग्नेश तथा वर्षलग्नेश भी पापयुक्त होकर अष्टमस्थानमें हों तो रोग और मानसीव्यथा देते हैं और अस्तंगत तथा शुभग्रह दृष्टिरहित भी हों तो मृत्यु करतेहैं ॥ १२ ॥

व्ययांभुनिधनारिस्थाजन्मेशाब्दपमुंथहाः ॥

एकक्षगास्तदामृत्युः पापक्षुतदशा भ्रुवम् ॥ १३ ॥

जन्मलग्नेश वर्षेश और मुंथा तीनों बारहवें चौथे आठवें और छठे स्थानोंमेंसे किसीमें साथही हों तो मृत्युतुल्य कष्ट होवे, जो इनपर पाप ग्रहोंकी क्षुताख्य दृष्टि भी हो तो अवश्य मृत्यु ही होगी ॥ १३ ॥

अनुष्टु०—चंद्रोव्ययेशानियुतः शुक्रः षष्ठोर्थाशकृत् ॥

चित्तवैकल्यमशुभेसराफात्रशुभेक्षणात् ॥ १४ ॥

शानिके साथ चंद्रमा बारहवाँ हो और शुक्र छठा हो तो धननाश करता है और शनि शुक्रके साथ किसी पापग्रहका ईसराफ योग हो तो चित्त विकल रहै, इनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो धननाश तथा चित्तवैकल्य दोनों फल होवें ॥ १४ ॥

अनुष्टु०—चंद्रोर्कमंडलगतोरिपुरिःफाष्टबंधुगः ॥

त्रिदोषतस्तस्यरुजाविबुधेज्यदशा शुभम् ॥ १५ ॥

चंद्रमा अस्तंगत होकर छठे, बारहवें, आठवें, वा चौथे, स्थानमें हो तो (त्रिदोष) वात पित्त कफके विकारसे सन्निपातादि रोग होवें जो इस पर बृहस्पति की दृष्टि होजाय तो परिणाममें नीरोगी होजायगा ॥ १५ ॥

अनु०—हृदाहायनलग्नेशौ सप्ताष्टान्त्येखलान्वितौ ॥

स्वदशायां निधनदौ शुभदृष्ट्या शुभं वदेत् ॥ १६ ॥

लग्नेमें जिसकी हृदा तत्काल हो वह और लग्नेश सप्तम अष्टम वा बारहवें पापयुक्त हों तो अपनी दशामें मृत्यु देते हैं इनपर शुभग्रहकी दृष्टि भी हो तो रोग भोगकर परिणाममें सुख होगा कहना ॥ १६ ॥

अनुष्टु०—अब्दलग्नाहज्वनृज्व्ययार्थस्थौरुजातदा ॥

एवंवर्षाब्दलग्नेशजन्मेशैरपिबंधनम् ॥ १ ॥

वर्षलग्नेसे बारहवां मार्गग्रह द्वितीय स्थानमें वकी ग्रह हो तो रोग होताहै इसका नाम कर्त्तरीयोग है, ऐसेही जन्मलग्नेश वा वर्षलग्नेश वा वर्षशसे कर्त्तरी हो तो बंधन कहना और सप्तम स्थानपर भी कर्त्तरीयोग रोग वा दुष्ट उपद्रवोंसे बंधन देताहै ॥ १७ ॥

अनुष्टु०—नीचे त्रिराशिपे पापदृष्टे कार्य्यं विनश्यति ॥

इत्थिहेशेब्दपे वारिभेस्तंयाते रुजा विपत् ॥ १८ ॥

त्रिराशिपति नीच राशिमें पापदृष्ट हो तो अभिलषित कार्य्यका नाश होता है १ और मुंथेश तथा वर्षेश छठा वा उपलक्षणसे आठवाँ अस्तंगत हों तो रोगों से विपत्ति होवे यह २ दो योगहैं ॥ १८ ॥

शार्दूलवि०—चंद्रोरिःफषड भूद्युनगतो दृष्टोऽशुभैर्ना भैःसोरिष्टं
विदधातिमृत्युमथवाभौमेक्षणादा भीः ॥ श द्राशानिराहुकेतु-
भिररेभीतिरुजां वायुजां दारिद्र्यं रविणाशुभं भद्रशेज्यालो-
कनादादिशेत् ॥ १९ ॥

चन्द्रमा बारहवें छठे आठवें प्रथम वा सप्तम स्थानमें हो इसपर पाप ग्रहोंकी दृष्टि हो शुभ ग्रहोंकी न हो तो अरिष्ट वा मृत्युही देदेताहै, दृष्टिवशसे विशेष फल यह है कि उक्तप्रकार के चन्द्रमा पर मंगलकी दृष्टि हो तो अग्निका भय वा शस्त्रसे भय देताहै शनि राहु वा केतुकी दृष्टि हो तो शत्रुभय तथा वात-रोगसे पीडा तथा सूर्यकी दृष्टि हो तो दरिद्रता देताहै, जो शुभग्रहकी विशेष करके बृहस्पतिकी दृष्टिभी हो तो उक्तपीडा परिहार उपरांत कल्याणदेताहै १९

व० ति०—कूरान्वितेक्षितयुताशनिनेथिहाधिव्याधिप्रदाजनुषि
रिःफसुखारिरंध्रे ॥ द्यूनेच वर्षतनुनैधनगा मृतिं सा दत्ते ले-
क्षितयुतेत्यपिचित्यमार्यैः ॥ २० ॥

इतिनीलकंठ्यांफलतंत्रेऽरिष्टाध्यायः ॥ ३ ॥

मुंथा क्रूरग्रहसे युक्त हो और शनि उसे देखे अनिष्टस्थान ६। १२। १८। ४ में हो तो मानसीव्यथा तथा शरीरमें रोग देती है १ यही मुंथा जन्मकालमें अर्थात् जन्मलग्नसे १२। ४। ६। ८। ७ स्थानमें हो तथा वर्षमें अष्टम स्थानगत हो पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो मृत्यु देतीहै इस प्रकार विद्वानोंने विचार करना ॥ २० ॥

इतिमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायांफलतंत्रेऽरिष्टविचाराध्यायस्तृतीयः ३

अथारिष्टभंगाध्यायः ।

अनुष्टु०—लघ्राधिपोवल्युतःशुभेक्षितयुतोपिवा ॥

केंद्रत्रिकोणगोरिष्टनाशयेत्सुखवित्तदः ॥ १ ॥

पूर्वोक्त अरिष्ट योगोंके परिहारार्थ अरिष्टभंग योग कहते हैं कि वर्षलग्न स्वामी बलवान् पंचवर्गोंमें १५ से अधिक बली हो शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तथा केन्द्र १ । ४ । ७ । १० वा त्रिकोण ५ । ९ में हो तो पूर्वोक्त दृष्ट योगोंका अरिष्टफल नाश करके सुख और धन देताहै ॥ १ ॥

अनुष्टु०—गुरुःकेंद्रेत्रिकोणेवापापाटःशुभेक्षितः ॥

लग्नचंद्रैथिहारिष्टविनाशयार्थसुखं दिशेत् ॥ २ ॥

बृहस्पति केंद्र वा त्रिकोणमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो और इसपर पापग्रहकी दृष्टि न हो तो लग्न चन्द्रमा और मुन्थाजन्य पूर्वोक्त अरिष्टका नाश और सुखप्राप्ति कहना ॥ २ ॥

अनुष्टु०—सुखंस्वामियुतंसद्भिर्दं सौख्ययशार्थदम् ॥

लग्नेतृतीयेऽथगुरुर्जन्मेत्सौख्यार्थदःसुखे ॥ ३ ॥

चतुर्थभावं अपने स्वामीसे युक्त तथा शुभग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो तो यश और धन देता है और बृहस्पति लग्न वा तृतीय स्थानमें तथा जन्मलग्नेश सुख ४ स्थानमें हो तो सुखपूर्वक धन देता है ॥ ३ ॥

उपजा०—लग्नेद्युनेशस्तनुगः सुरेज्यः रैरदृष्टःशुभमित्रदृष्टः ॥

रिष्टं निहंत्यर्थयशःसुखातिं दिशेत्स्वपाके नृपतिप्रसादम् ॥४॥

सप्तमेश लग्नमें बृहस्पतिके साथ हो क्रूरग्रह इसे न देखें शुभग्रह तथा मित्र-ग्रहोंसे दृष्ट उपलक्षणसे युक्तभी होवे तो अरिष्टको नाशकर धन यश और सुख देताहै तथा अपने दशामें राजप्रसादभी देगा कहना ॥ ४ ॥

उपजा०—बलान्वितौधर्मधनाधिनाथौक्रूरैरदृष्टौ तनुगौ यदास्ताम् ।

राज्यं गजाशवांवररत्नपूर्णारिष्टस्यनाशोप्यतुलं यशश्च ॥ ५ ॥

नक्षमेश तथा धनभावेश बलवान् और लग्नमें हों पापग्रह इन्हें न देखें तो हाथी घोडा वज्र रत्नोंसे पूर्ण राज्य मिले तथा अरिष्टका नाश हो और अनुपम यशभी होवे ॥ ५ ॥

०जा०—त्रिषष्टलाभोपगतैरसौम्यैः केंद्रत्रिकोणोपगतैश्चसौम्यैः॥
रत्नांबरस्वर्णयशःसुखातिर्नाशोप्यनिष्टस्यतनोश्च ष्टिः ॥ ६ ॥

पापग्रह तीसरे छठे ग्यारहवें स्थानोंमें हों तथा शुभग्रह केंद्र वा त्रिकोण-
णमें हों तो रत्न वस्त्र सुवर्ण यश और सुख मिलें और पूर्वोक्त आरिष्टका नाश
होवे तथा शरीरमें पुष्टिभी होवे ॥ ६ ॥

उ०जा०—यदासवीर्य्योमुथहाधिनाथोल धिपोजन्मविलग्रपोवा ॥
केंद्रत्रिकोणायधनस्थितास्तेसुखार्थहेर्मांबरलाभदाः स्युः ॥ ७ ॥

जो मंथेश वा लग्नेश अथवा जन्मलग्नेश पूर्ण बली होकर केंद्रत्रिकोण
वा ग्यारहवें वा द्वितीय स्थानमेंसे किसीमें हों तो सुख तथा धन सुवर्ण वस्त्र
देतेहैं तीनों ऐसे हों तो विशेषतर उक्त लाभ देतेहैं ॥ ७ ॥

उपजा०—तुंगेशनिर्वाभृगुजोगुरुर्वाशुभेत्यशालाद्यवनाद्धनाप्तिम् ॥
बली जो वित्तगतोयशोर्थतेजांस्यकस्मा सुखानिदद्यात् ॥ ८ ॥

शुभग्रहसे इत्थशाली उच्चराशिका शनि वा शुक्र अथवा बृहस्पति हो तो
श्रेष्ठ यवनसे धनलाभ होवे शनियोगसे और शुक्रकृत योग हों तो स्त्रीसे
और गुरुकृत योग हो तो ब्राह्मणसे यवनातके माने यवनादि ग्रहानुसार जाति-
योंसे जो तीनों उक्त ग्रह उच्चवर्ती तथा शुभ ग्रहेत्थशाली हों तो यवन रा-
जासे बहुत धन मिले औरनसे थोडा २ और बलवान् मंगल धनस्थानमें हो
तो यश धन और तेज मिलें तथा अकस्मात् सुखभी प्राप्त होवे ॥ ८ ॥

इंद्रव०—सूर्य्येज्यशुक्रामिथइत्थशालं युस्तदाराज्ययशःसुखार्थाः ॥
सूर्यः जोवोपचयेददातिभद्रंयशोमंगलमिथिहायाः ॥ ९ ॥

सूर्य्य बृहस्पति शुक्र परस्पर इत्थशाल करें तो राज्य यश सुख और धन-
मिलें १ तथा सूर्य्य वा मंगल मुंथासे उपचय ३।६।१०।११ स्थानमें हों तो
कल्याण अतियश और मंगल देते हैं ॥ ९ ॥

अनुष्टु०—शुक्रज्ञचंद्राहदेस्वेपापाख्यायगतायदि ॥

स्वबाहुबलतोहेमसुखकीर्तिनरोश्नुते ॥ १० ॥

शुक्र बुध और चन्द्रमा अपनी हृदयमें हों और पापग्रह तीसरे ग्यारहवें स्थानमें
हों तो मनुष्य अपने बाहुबलसे सुवर्ण सौख्य और कीर्तियोंका भोग करताहै १०

अनु०—बुधशुक्रौमूसरिफौ गुरुर्विक्रमभावगः ॥

तदारज्ययशोहेममुक्ताविद्रुमलब्धयः ॥ ११ ॥

बुध शुक्रका मूसरीफ योग हो और बृहस्पति तृतीयस्थानमें हो तो राज्य यश और सुवर्ण मोती मूंगे आदि रत्न मिलें ॥ ११ ॥

अनु०—भौमोमित्रगृहेऽव्देशःकंबूलीस्वगृहादिगैः ॥

गजाश्वहेमांबरभूलाभंदत्तेसुखाधिकम् ॥ १२ ॥

मंगल वर्षेश होकर मित्रके राशिमैं हो और स्वगृहादि पदस्थित किसी ग्रहसे मुथशिली तथा चन्द्रमासे कंबूलीभी हो तो हाथी घोड़े सुवर्ण वस्त्र भूमि का लाभ और अधिक सुख देते हैं ॥ १२ ॥

अनु०—इत्थंजन्मनिवर्षेचयोगकर्तुर्बलाबलम् ॥

विमृश्यकथयेद्भ्राजयोगंतद्भंगमेवच ॥ १३ ॥

इस प्रकार जन्म तथा वर्षमें योग करनेवाले ग्रहोंका बलाबल विचारके राजयोग तथा राजयोगभंग कहना. जैसे योगकर्ता ग्रह उच्चादि पदस्थ वा पूर्णबली हो तो राज्यप्राप्ति निर्वल होनेमें राज्यादि हानि इत्यादि ॥ १३ ॥

उ०जा०—अव्दंथिहेशादिरवगाःखलैश्चेद्युतेक्षिताह्यस्तगनीचगावा ॥

सौम्यावलोनानृपयोगभंगंतदाभवेद्वित्तसुखक्षयश्च ॥ १४ ॥

वर्षमें मुंथेशादि ग्रह जो पापयुक्त वा पापदृष्ट वा अस्तंगत नीचगत हों तथा शुभग्रह बलरहित हों तो राजयोगभी हो तौ भी भंग होगा और धन तथा सुखकाभी क्षय कहना ॥ १४ ॥

शा०वि०—श्रीगर्गान्वयभूपणंगणितविच्चितामणिस्तत्सुतोऽनंतोनंत-
मतिर्व्यधात्खलमतध्वस्त्यैजनुःपद्धतिम् ॥ तत्सूनुःखलुनीलकंठविद्युधौ
विद्वच्छिवानुज्ञयाऽवोचद्वर्षपमूंथहाफलमथारिष्टादिसद्योगयुक् ॥ १५ ॥

इस श्लोकका अर्थ पूर्वाक्तही है विशेष यह है कि वर्षेश मुंथाफल अरिष्ट-
योग अरिष्टभंग राजयोग इस अध्यायमें ग्रंथ कर्ताने कहेहैं ॥ १५ ॥

इति महीधरकृतायां नीलकंठीभापाटीकायां फलतंत्रे अरिष्टभंगराजयोग-

राजयोगभंगकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ भावविचारेषु तावत्प्रथमभावविचारः ।

अनुष्टु०—योयोभावःस्वामिसौम्यैर्दृष्टोयुक्तोयमेधते ॥

पापदृष्टयुतेर्नाशोमिश्रैर्मिश्रफलंवेदेत् ॥ १ ॥

जो जो भाव अपने स्वामी वा शुभ ग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो उस भावकी वृद्धि और जो भाव पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो उसकी हानि होती है, शुभ पाप दोनोंसे युक्त वा दृष्ट वा एक प्रकारसे युक्त दूसरे प्रकारसे दृष्ट हो तो मिश्रफल कुछ शुभ कुछ अशुभ कहना, सभी भावोंमें यह विचार है ॥ १ ॥

इंद्रव०—लग्नाधिपेवीर्ययुते खानिनैरुज्यमर्थागमनंविलासः ॥

स्यान्मध्यवीर्यैरल्पसुखार्थलाभःक्लेशाधिकत्वंविपदल्पवीर्यै ॥२॥

लग्नेश पूर्वोक्त प्रकारसे बलवान् हो तो सौख्य तथा नीरोगता धनप्राप्ति और हास विलासादि सुख होंगे. जो मध्यवीर्य्य हो तो सौख्य और धनलाभ थोड़ा थोड़ा होते हैं जो अल्प वा हीनवीर्य्य हो तो अधिक क्लेश और विपत्ति होती है ॥ २ ॥

शार्दूलवि०—जन्माब्दांगपतींथिहापतिसमानाथाद्यधीकारवा-

न्मूर्त्यौनष्टबलस्त्वगक्षिविलयंकुर्यान्निरुत्साहताम् ॥ नीचत्वं

पितृमातृतोऽप्यभिभवश्चंद्रैक्षिकार्थक्षयोदारिद्र्यंचपराभवोऽगृह-

कलिव्याध्यादिभीतिस्तथा ॥ ३ ॥

अधिकारी ग्रहोंके निर्बलतामें प्रत्येकके फल कहते हैं कि जन्मलग्नेश वा वर्षलग्नेश वा मुंथेश अथवा वर्षेश नष्टवली पंचवर्गोंमें ५ से न्यून होनेमें यह फल है कि, सूर्य्य हो तो नेत्ररोगसे दृष्टिहानि कुछ दद्दु आदि त्वचारोग उत्साहभंग होंगे तथा नीचकर्म करने पड़ें माता पितासे "पराभव" अधिकारहानि होवे चन्द्रमा हो तो नेत्रक्षय कार्य्यहानि दरिद्र अपमान घरमें कलह मानसीव्यथा रोगभय होते हैं ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—भौमेऽबलत्वं भीरुत्वं बुधे मोहपराभवौ ॥

जीवे धर्मक्षयः कष्टफलाजीवनवृत्तयः ॥ ४ ॥

पूर्वोक्त प्रकारसे बंगल-बलहीन अधिकारी हो तो शरीरमें निर्बलता और

भय प्राप्त होवे. बुध हो तो मूर्च्छा वा अज्ञान और अपमान होवे बृहस्पति हो तो धर्मक्षय और जीविका कष्टसे होवे ॥ ४ ॥

अनु०—शुक्रविलाससौख्यानां नाशः स्त्रीभिः समं कलिः ॥

सौरौ भृत्यजनाहुःखं रुजो वातप्रकोपतः ॥ ५ ॥

ऐसाही शुक्र हो तो हास विलास सुखका नाश और स्त्रियोंसे कलह होवे शनि हो तो भृत्यमनुष्यसे दुःख और वात रोगसे रोग होवे ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—लं पापयुतं सौम्यैरदृष्टं सहितं नृणाम् ॥

विवादं वध्नं दुष्टमशनं च पे विंदति ॥ ६ ॥

लघु पापग्रहसे युक्त हो तथा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त वा न हो तो मनुष्योंको कलह होवे कोई ठगलेवे दुष्ट वस्तु खानेको मिले इतने फल होतेहैं ॥ ६ ॥

शार्दूलवि०—जन्माब्दांगपरं ध्रुवाब्दमुथहानाथाबलाब्द्यास्तदा
रम्यं वर्षमुशान्तिं सर्वमतुलं सौख्यं यशोर्थागमः ॥ षष्ठाष्टांत्यगता
नचेदिह पुनस्ते दुःखभीतिप्रदानिर्वीर्यायदिवर्षमेतदशुभं वाच्यं
शुभेक्षां विना ॥ ७ ॥

जन्मलग्नेश वर्षलग्नेश अष्टमेश वर्षेश और मृथेश बलवान् हों तथा छठे आठवें बारहवें स्थानोंमें न हों तो सम्पूर्ण वर्षमें दैवज्ञ शुभही फल कहते हैं और अगणित सुख तथा यश और धनागमभी होते हैं जो उक्त ग्रह बलरहित हों और इनपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि भी न हो तो दुःख तथा भय देते हैं और सम्पूर्ण अशुभ फलही देते हैं, यदि निर्बल अशुभदृष्ट ६।८ । १२ में भी हों उक्त ग्रह तो मृत्युही देतेहैं ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—सूतौ धनप्रदः खेटो धनाधीशश्चतौ यदि ॥

वर्षे नष्टौ चित्तनाशान्यनिक्षेपापवाददौ ॥ ८ ॥

जन्ममें जो ग्रह धन देनेवाला है वह और जन्महीका धनभावेश वर्षमें नष्टबली हो तो धननाश तथा (अपवाद) कि मैंने इसको कुछ धन धरोहर दियाथा इसने चुरालिया ऐसा कलंक लगे, जो उक्त दोनों बलवान् हों तो धन देते हैं ॥ ८ ॥

अनु०—एवं समस्तभावानां सूतौ नाथाश्चपोषकाः ॥

अब्देनष्टबलास्तेषां नाशायोह्याविचक्षणैः ॥ ९ ॥

इसी प्रकार सम्पूर्ण भावोंके स्वामी जन्ममें बलवान् वर्षमेंभी बलवान् हो तो उस भावको पालते हैं जो भावेश जन्ममें तथा वर्षमें भी निर्बल हों तो बुद्धिमानोंने उस भावका नाश कहना ॥ ९ ॥

इति महीधररुतायां नीलकंठीभाषाटीकायां वर्षतन्त्रे प्रथमभावफलाध्यायः ॥ १ ॥

अथ धनभावविचारः ।

उपजा०—वित्ताधिपोजन्मनिवित्तगोब्देजीवोयदालग्रपतीत्थशाली ॥

तदाधनातिः सकलेपिवर्षे कूरेसराफे धनधान्यहानिः ॥ १ ॥

जो जन्मका धन भावाधीश बृहस्पति वर्षमें धनभावगत हो और लग्नेश के साथ इत्थशाली हो तो सम्पूर्ण वर्षमें धनप्राप्ति होवे, जो उक्त बृहस्पति पापग्रहसे ईसराफी हो तो धन तथा अन्नका नाश करे ॥ १ ॥

अनुष्टु०—जन्मन्यथावलोकीज्योऽब्देब्देशोबलवान्यदा ॥

तदा धनातिर्बहुलाविनायासेनजायते ॥ २ ॥

जन्ममें धनस्थानको बृहस्पति देखे और वर्षमें वर्षश होजावे बलवान् भी होवे तो विना परिश्रम बहुत धनप्राप्ति होवे ॥ २ ॥

अनुष्टु०—एवंयद्भावपोजन्मन्यब्देतद्भावगोगुरुः ॥

लशेनेत्थशालीचेत्तद्भावज खंभवेत् ॥ ३ ॥

ऐसेही जन्ममें जिस भावका स्वामी बृहस्पति है वर्षमें उसी स्थानमें हो और उपलक्षणसे वर्षश हो जावे, लग्नेशसे इत्थशाली हो तो उस भावका सुख होता है जैसे जन्ममें तृतीयेश बृहस्पति वर्षमें तीसरा वा वर्षश होकर लग्नेशसे इत्थशाली हो तो भ्रातृसुख होगा ऐसेही संपूर्ण भावोंमें विचार करना ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—तथाजनुषियंपश्येद्भावमब्देब्दपो रुः ॥

तदातद्भावजंसौख्यमुक्तंताजिकवेदिभिः ॥ ४ ॥

जैसे पूर्व कहा गया ऐसेही बृहस्पति वर्षमें वर्षश हो और जन्ममें वह जिस भावको देखे उस भावजन्य सुख देताहै ताजिकशास्त्र जाननेवालोंका यह मत है ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—जन्मषष्ठाधिप धःषष्ठोब्देस्वल्पलाभदः ॥

पापादिते रौरध्रेऽर्थेवादंडःपतेद्भवम् ॥ ५ ॥

जन्ममें बुध षष्ठेश हो और वर्षमें छठे स्थानमें हो तो थोड़ा लाभ देता है; चार प्रकारके ग्रहयुद्धसे पापपीडित बृहस्पति अष्टम वा धनस्थानमें हों तो निश्चय राजासे दंड पडे ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—गुरुर्वित्तेऽग्नौ भैर्दृष्टो युतो वाराजसौख्यदः ॥

जन्मन्यब्दे च मुथहारा शिपश्यन्विशेषतः ॥ ६ ॥

बृहस्पति धनस्थानमें शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो राजासे सुख देता है. जन्म और वर्षमें भी मृंथा राशिको बृहस्पति देखे तो विशेष राजसुख देता है ॥ ६ ॥

अ०—एवंसितेब्दपेभूरिद्रव्यंधान्यंचजायते ॥

वित्तलेशसंयोगो वित्तसौख्यविनाशदः ॥ ७ ॥

बृहस्पतिके तरह शुक्र धनस्थानमें शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो और वर्ष-शमी शुक्रही हो तो बहुतसा धन तथा अन्न होता है और धनेश लघेश एकही स्थानमें हों तो धन सुखका नाश करते हैं, इसमें भी विचार है कि, इनका इत्थशाल हों तो धनसुख होता है "ईसराफ हो तो धन सुखका नाश होता है" और इत्थशाल वा ईसराफ न हो केवल संयोगमात्र हो तो भी धन सुख होता है यह अर्थ बहुत संमत है ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—एवंबुधेसवीर्य्यस्याल्लिपि नोद्यमैर्द्धनम् ॥

जन्मलग्नगताः सौम्यावर्षेर्धनलाभदाः ॥ ८ ॥

ऐसेही बुध बलवान् वर्षेश धनस्थानमें शुभ युक्त दृष्ट हो तो लिखनेके काम तथा ज्ञान शास्त्र और उद्यम (व्यवसाय) से धन मिले और जन्ममें जो शुभग्रह लग्नमें हैं वही वर्षमें धनस्थानमें हों तो धनलाभ देते हैं ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—मालसद्भानिवित्ते वा बुधेज्यसितसंयुते ॥

तैर्वाद्दृष्टेधनंभूरि स्व लेराज्यमाप्नुयात् ॥ ९ ॥

पारसीय भाषामें (माल) धनको कहते हैं मालस्थानमें वा मालसहममें बुध बृहस्पति और शुक्र हों वा ये तीनों उसे देखें तो बहुत धन तथा अपने कुलका राज्य मिले ॥ ९ ॥

अनुष्टु०—अर्थार्थसहमेशौ चेच्छुभैर्मित्रदृशोक्षितौ ॥

बलिनौसुखतोलाभप्रदौयत्नादरेर्दशा ॥ १० ॥

धनभावेश और धनसहमेश पर शुभ ग्रहोंकी मित्रदृष्टि हो तथा बल-
वान्भी हो तो पूर्वक धनलाभ होवे, जो इन्हें शुभ ग्रह शत्रुदृष्टिसे देखें
तो यत्नसे धनलाभ देते हैं ॥ १० ॥

अ ०—मित्रदृष्ट्यामुथशिलेर्थांगयोः स्वतोधनम्

तयोर्मूसरिफेवित्तनाशदुर्नयभीतयः ॥ ११ ॥

लग्नेश धनेशका मित्रदृष्टिसे मुथशिल योग हो तो अनायाससे धन मिले
जो इनका शरिफ योग हो तो धननाश तथा दुर्नय (त्र) भय होवे ॥ ११ ॥

अ ०—जन्मनीज्योस्तियद्राशौसराशिवर्षल : ॥

भस्वामीक्षितयुतो नैरुज्यस्वाम्यवित्तदः ॥ १२ ॥

बृहस्पति जन्ममें जिस राशिका होवे वह राशि वर्षमें लग्न हो शुभग्रह
तथा स्वस्वामियुक्त दृष्ट हो तो नीरोगता अपने देशका स्वामित्व और धन
देता है ॥ १२ ॥

अनुष्टु०—सुतौलग्नैरविर्वर्षे धनस्थोधनसौख्यदः ॥

शनीवित्तेकार्य्यनाशोलाभोल्पोऽथधनव्ययः ॥ १३ ॥

जन्ममें सूर्य्य लग्नका और वर्षमें धनस्थानका हो तो धनका देता
है, ऐसाही शनि धनस्थानमें कार्य्यनाश थोडा लाभ बहुत धनहानि
करता है ॥ १३ ॥

अनु ०—तृसौख्यंगुरुयुतेभूतयःस्युः भेक्षणात् ॥

क्रूरयोगेक्षणात्सर्वं विपरीतं फलं भवेत् ॥ १४ ॥

परंतु यह उक्त प्रकार शनि बृहस्पतियुक्त तथा शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो
शुभार्थ और भाइयोंका देता है, क्रूर ग्रहोंके योग तथा दृष्टिसे उक्त
शुभ फल संपूर्ण विपरीत होता है ॥ १४ ॥

अनु ०—वित्तेशोजन् निगुरुर्वर्षेवर्षेशतां दधत् ॥

यद्वावगस्तमाश्रित्य लाभदोल आत् नः ॥ १५ ॥

(१३४)

ताजिकनीलकण्ठी ।

जन्ममें बृहस्पति धनभावका स्वामी हो और वर्षमें वर्षश हो जाय तो जिस भावमें बैठा हो उस संबंधी लाभ देता है, जैसे उक्त बृहस्पति लग्नमें हो तो अपने पुरुषार्थसे लाभ देता है और आत्मनः-शरीरको सुख देता है ॥ १५ ॥

अनु०-वित्ते सुवर्णरूप्यादेर्भ्रात्रादेः सहजर्क्षगः ॥

पितृमातृक्षमादिभ्योवित्तंसुहृदि पंचमे ॥ १६ ॥

उक्त कार बृहस्पति धन स्थानमें हो तो सुवर्ण रौप्यादि लाभ हो तीसरा हो तो भ्रातादिकोंसे, चौथा हो तो पिता माता वा उनके सहशोंसे 'पंचमे' इसका अर्थ दूसरे श्लोकार्थमें है ॥ १६ ॥

अनुष्टु०-सुहृत्तनयतःपष्टेरिवर्गाद्भानिभीतिदः ॥

स्त्रीभ्योद्यूनेष्टमेमृत्युरथहेतुस्तथांकगे ॥ १७ ॥

और पंचम होनेमें मित्र वा मित्रपुत्र वा आत्मपुत्रसे धनलाभ और छठा हो तो शत्रुवर्गसे धनहानि और भय देता है. सातवें हो तो स्त्रियोंसे धन देता है, आठवें हो तो मृत्युतुल्य धनक्लेश देता है, नववें हो तो अनेक प्रकारसे धन देता है ॥ १७ ॥

अनुष्टु०-स्वेनृपादेर्नृपकुलादायंत्येव्ययदो भवेत् ॥

इत्थंविमृश्यसुधियावाच्यमित्यपरेजगुः ॥ १८ ॥

दशवें हो तो राजा मंत्री आदिकोंसे ग्यारहवां हो तो राजकुलसे धन देता है. बारहवां हो तो व्यय देता है. बुद्धिमानोंने इस प्रकार विचारके फल कहना, ऐसा और आचार्यभी कहते हैं ॥ १८ ॥

इति महीधरकृतायां नीलकण्ठीभाषाटीकायां फलतंत्रे धनभावविचाराध्यायः २ ॥

अथ सहजभावविचारः ।

अनु०-अवदेशैकैसितेवापि सबलेपापवर्जिते ॥

सौख्यमिथःसोदराणां व्यत्ययाद्व्यत्ययंवदेत् ॥ १ ॥

वर्षश सूर्य्य अथवा शुक्र बलवान् हो तथा पापग्रहोंसे युक्त न हो तो परस्पर भाइयोंका सुख होवे. जो पापग्रहयुक्त होतो विपरीत. फल कहना अर्थात् भाइयोंके साथ परस्पर कलहादि उपद्रव होवें ॥ १ ॥

वसं०ति०—दग्धकलिः सहजपेद्दपतौतयोर्वाजीविवलेनरहिते
सहजेसहोत्थैः ॥ वैरतृतीयभवनाधिपतीसराफेमांघ्रंकरिस्व-
जनसोदरतश्चविदेत् ॥ २ ॥

तृतीयस्थानका स्वामी (दग्ध) दुष्टस्थान अस्तंगतादि दोषसहित हो
तो भाइयोंके साथ कलह होवे; शुक्र वा सूर्य दग्ध हो तौ भी यही फल है
और बृहस्पति बलरहित तृतीयस्थानमें हो तौभी यही फल होताहै। तथा
आकुलता भी उनको होतीहै (बलवान् बृहस्पति तृतीय भ्रातृसुख देता है)
और वर्षेश तथा तृतीयेशका ईसराफ योग हो तो भाई तथा अपने मनुष्योंसे
कलह और उनके शरीरमें कष्टभी जानना ॥ २ ॥

उपजा०—यदेत्थशालःसहजेश्वरेण गुरुस्तृतीयेसहजात्सुखातिः ॥
सारेविधौस्यात्कलहस्तृतीयेदृष्टीयुतौनोगुरुणायदातौ ॥ ३ ॥

यदि निर्बलभी बृहस्पति तृतीयमें हो पर तृतीयेश से शुभ दृष्टिका इत्थ-
शाल करता हो तो भाईसे सुख कहना सबल होके ३ में इत्थशालके विना
भी भ्रातृसुख देताहै, यह पूर्वसिद्ध है, मंगलसहित चंद्रमा तीसरे स्थानमें हो
तो भाइयोंके साथ कलह होवे परन्तु इनपर बृहस्पतिकी दृष्टि न हो तो यह
फल है गुरु दृष्टिसे शुभ फल होजाताहै ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—सहजेसहजाधीशेधिकारिणिसमापतेः ॥

लग्नपेवामुथशिलेमिथःसौख्यंसहोत्थयोः ॥ ४ ॥

तृतीयेश तृतीय स्थानमें हो और अधिकारयुक्त हो तथा वर्षेश लग्नेशसे
मुथशिली हो तो प्रस्पर भ्रातृसौख्य होवे ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—रेसराफेकलहःशनौभौमक्षेगेरुजः ॥

क्षेभौमेनुजेमांघ्रंवेत्सहजगेस्फुटम् ॥ ५ ॥

तृतीयेशसे पापग्रहोंका ईसराफ योग हो तो भाइयोंसे कलह होवे। शनि
मंगलकी राशि १ । ८ में तीसरा हो तो भाइयोंको रोग उत्पन्न होवे तथा
बुधकी राशि ६ । ३ में मंगल तीसरा हो तो भाइयोंको क्लेशी कहना ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—मंदक्षेगेसृजिबुधेकुजक्षेसहजेशुभैः ॥

युतेक्षितेसोदराणांमिथःसौख्यंसुखंबहु ॥ ६ ॥

शनिकी राशि १० । ११का मंगल तृतीय स्थानमें यद्वा मंगलकी राशि १ । ८ का बुध तीसरा हो शुभ ग्रहसे युक्त वा दृष्ट हों तो भाइयोंका परस्पर बहुत सुख होवे ॥ ६ ॥

वसन्तति०—जन्माब्दपौबुधसितौसबलौतृतीयेसोदर्यबंधुगण-
सौख्यकरौगुरुश्च ॥ वीर्यान्वितेदुगृहगोभृगुजोधिकारी सूत्य-
ब्दयोःसहजबंधुगणस्यवृद्धयै ॥ ७ ॥

जन्म तथा वर्षलभेश बुध यद्वा शुक्र बलवान् होकर तृतीय स्थानमें हो तो सहोदर भाई तथा और बंधुगणका सुख करते हैं, इस प्रकार बृहस्पतिभी उक्त फल देता है और अधिकारी शुक्र जन्म तथा वर्षमें बलवान् हो तथा चंद्रमाकी राशि ४ में हो तो भाई तथा बंधुगणकी वृद्धि करता है ॥ ७ ॥

वसन्तन्ति०—पापान्वितेतुसहजेसहमेशभावनार्थेक्षणोनरहिते
सहजस्य दुःखम् ॥ एवंसहोत्थसहमेपिवदेत्तदीशौ दग्धौयदां
सहजनाशकरौ विचित्यौ ॥ ८ ॥

तृतीय भाव पापग्रह युक्त हो तथा तृतीयेश वा सहजेश सहजसहमेशकी दृष्टि इसपर न हो तो भाईको दुःख मिले, इसी प्रकार सहोत्थसहममेंभी कहना और तृतीयभावेश तथा सहज सहमेश दग्ध (दुष्ट स्थानगत) अस्तंगतादि दोष सहित हों तो भाइयोंके नाश करनेवाले जानना शुभ युक्त दृष्ट हों तो भाइयोंको शुभ जानना ॥ ८ ॥

उपजा०—तृतीयपादब्दपतौद्युनस्थे लग्नेश्वरेवासहजैर्विवादः ॥

तृतीयपोजन्मनिताद्गब्दे शुभेक्षितस्तत्रसहोत्थतुष्टयै ॥ ९ ॥

तृतीयभावेशसे वर्षेश वा वर्षलभेश सप्तम हो तो भाइयोंसे लह होवे और जन्म तथा वर्षमेंभी तृतीयेश तृतीयगत हो शुभ ग्रहकी दृष्टिभी इसपर हो तो परस्पर भाइयोंका आनंद देनेवाला होताहै ॥ ९ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां वर्षतंत्रेतृतीयभावविचारः ॥ ३ ॥

अथ स्वभावविचारः ।

उपजा०—तुय्यैरवीन्द्रूपितृमातृपीडापापान्वितौपापनिरीक्षितौच ॥

जन्मस्थसूर्य्यर्क्षगतेर्कपुत्रेऽवमानता वैरकलीचपित्रा ॥ १ ॥

चतुर्थ स्थानमें पापयुक्त वा पापदृष्ट सूर्य्य हो तो पिताको और ऐसाही चंद्रमा हो तो माताको पीड़ा करता है. जो सूर्य्य चंद्रमा साथही चतुर्थ हों वा सूर्य्य चंद्रमा पापयुक्त दृष्ट हों तो पिताको पीड़ा देते हैं और जन्ममें सूर्य्य जिस राशिकाहै वर्षमें उस राशिका शनि हो तो अपमान होवे तथा पिताके साथ कलह वैर होवें ॥ १ ॥

उपजा०—चद्रेजनन्येवमुशांतिबंधौसुखाधिपे । तिसुखानिपित्रोः ॥
तुय्याधिपेल पतीत्थशालेवीय्यान्वितेसौख्यमुशांतिपित्रोः ॥ २ ॥

जन्ममें चंद्रमा जिस राशिमें है वर्षमें उस राशिका शनि हो तो मातासे वैर तथा कलह होवे, चतुर्थ स्थानका स्वामी चतुर्थहीमें हो तो मातापिताके साथ प्रीति तथा उनका सुख कहते हैं, उपलक्षणसे पितृ वा मातृ सहम भी चतुर्थ होनेमें यही फल देता है तथा चतुर्थेश चतुर्थभावको देखे तो पितृ मातृ-सुख देताहै और बलवान् चतुर्थेश लग्नेशसे इत्थशाली हो तो पितृ मातृ सुख होवे उपलक्षणसे लग्नेश चतुर्थेशका योगभी उक्तफल देनेवाला होताहै ॥ २ ॥

व०ति०—सौख्याधिपोजनुषिनष्टबलोब्दसूत्योः पित्रोरनि -
दथोसहमेशयोस्तु ॥ दग्धेतुरीयगृहगेचयर्दीथिहायांनाशस्तयोः
सहमयोरपिदग्धयोःस्यात् ॥ ३ ॥

जन्मका चतुर्थभावेश वर्ष तथा जन्ममें बलहीन हो तो माता पिताको अशुभ फल करता है ऐसाही मातृपितृसहममें भी विचारना तथा इन सह-मोंमें दग्ध पापग्रह हों और मुंथासे चतुर्थ पढ़ें तो पिता माताका नाश होवै तथा मातृ पितृ सहमोंके स्वामी नष्टबल वा पापाक्रांत और अस्तंगत हों तो यही फल देतेहैं सुखेश वा उक्त सहमेश बली हों तो मातापिताको शुभ फल देतेहैं ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—जन्मन्यंबुगृहंयच्चतत्पतिस्तत्पदोपगौ ॥

शान्यारौक्लेशदौपित्रोर्नचेत्सौम्यनिरीक्षितौ ॥ ४ ॥

जन्ममें चतुर्थभाव और चतुर्थेश के आश्रितराशियोंमें शनि और मंगल बैठे हों तो माता पिता को क्लेश करते हैं पापदृष्ट भी हों तो अधिक श

करते हैं, शुभ दृष्ट हों तो नहीं क्लेश देते हैं अथवा चतुर्थशके साथ शनि मंगल हों तो पूवाक फल देते हैं, जो ये शनि मंगल सुखमें वा सुखेशके साथ हों और शुभग्रह भी साथ हों वा देखें तो पिताको कष्टहोकर परिणाममें सुखभी होता है ४ ॥

वसन्ताति०—मातुः पितुश्चसहमेतनुपेत्यशालेतुय्यैपिचेत्थमव-
गच्छसुखानिपित्रोः ॥ चेदष्टमाधिपतिनाकृतमित्थशालंपि-
त्रोर्विपद्भयमनिष्टकृतेसराफे ॥ ५ ॥

मातृपितृसहममें वर्ष लवेशका इत्थशाल हो तो माता पिता का सुख जानना ऐसेही चतुर्थभावमें वर्षलग्नके स्वामीके इत्थशालसे भी मातापिताको सुख जानना और मातृ पितृ सहम वा सुखभावमें वर्षलग्नसे अष्टमभावेशका इत्थशाल हो तथा अशुभफल दाता ग्रहसे ईसराफ योग हो तो मातापिताको विपत्ति तथा भय जानना ॥ ५ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां वर्षतंत्रे चतुर्थभावविचारः ॥ ४ ॥

अथ सुतभावविचारः ।

उपजा०—पुत्रायगोवर्षपतिर्गुरुश्चेत्सूर्य्यारसौम्योशनसोऽथवेत्थम् ॥

सत्पुत्रसौख्यायखलार्दितास्तेदुःखप्रदाःपुत्रतएवचित्याः ॥ १ ॥

वर्षेशःबृहस्पति पंचम वा ग्यारहवें स्थानमें हो अथवा सूर्य्य मंगल बुध शुक्रमेंसे कोई वर्षेश होकर पांचवां वा ग्यारहवां हो तो सत्पुत्रसे सुख मिले और यही ग्रह उक्तप्रकार होकर पापपीडित भी हों तो पुत्रजनित अस्वास्थ्य कलहादि क्लेश विचारना ॥ १ ॥

वसन्ताति०—पुत्रेसुतस्यसहमेसबलेसुताप्तिः सौम्येक्षितेप्यति-
सुखंयदितत्रवर्षैट् ॥ सौम्येक्षितःशुभगृहेसकुजोबुधश्चेत्पुत्रा-
यगःसुतसुखंविबलाःसुतार्तिम् ॥ २ ॥

पंचमभाव वा पुत्रसहम बलसहित हो तो पुत्रप्राप्ति होती है, शुभग्रहकी दृष्टि भी उसपर हो तो अति सुख पुत्रसंबंधी होता है, जो वर्षेश भी पंचम हो तो उक्त फल देता है और शुभ ग्रहोंकी राशिमें मंगलके साथ बुध पंचम वा ग्यारहवां हो शुभ ग्रह भी इन्हें देखें तो पुत्रसुख देते हैं ऐसा निर्बल बुध पंचम वा ग्यारहवां हो तो पुत्रको पीड़ा करता है ॥ २ ॥

अनुष्टु०—जीवोजन्मनियद्राशावब्देसौ तगोबली ॥

पुत्रसौख्यायभौमोज्ञोवर्षेशोत्र सुतासिदः ॥ ३ ॥

जन्मकालमें बृहस्पति जिस राशिमें है वह राशि वर्षमें पंचम हो तथा बलवान् वह राशि हो तो पुत्रप्राप्ति सौख्य देता है और मंगल वा बुध वर्षेश होकर जन्मकी गुरु राशिमें पंचमस्थानगत हों तो वे भी पुत्रप्राप्ति करते हैं ॥ ३ ॥

हर्षिणी—यत्रेज्यो जनुषिगृहेविलग्नमेतत्पुत्रास्यै बुधसितयो-
रपीत्थमूह्यम् ॥ यद्राशौ जनुषिशनिः कुजश्चसोब्दे पुत्रार्ति-
नुसुतगःकरोतिनूनम् ॥ ४ ॥

जन्मकालमें बृहस्पति जिस राशिमें है वह वर्षमें लग्न हो तो पुत्रप्राप्ति करता है ऐसेही बुध शुक्रका फलभी जानना. जैसे बुध और शुक्र जन्मके जिस राशिमें हों वह राशि लग्नमें होनेसे पुत्रप्राप्ति कहना, और जन्ममें जिस राशिका शनि वा मंगल हो वह राशि वर्षलग्नमें वा पंचम में हो तो पुत्रकष्ट करता है, यहां शनिकी राशि लग्नमें मंगलकी राशि पंचम होनेमें यह योग होता है यह निकृष्टफल है ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—पुत्रेसुतस्य सहमे त्रास्यैशुभदृष्टियुक्त ॥

ल पुत्रेश्वरौपुत्रेपुत्रदौबलिनौयदि ॥ ५ ॥

चंद्रोजीवोथवा ऋःस्वोच्चगः सुतदःसुते ॥

वक्राभौमःसुतस्थश्चेदुत्पन्नसुतनाशनः ॥ ६ ॥

जो लग्नसे पंचमभावमें तथा पुत्रसहममें शुभ ग्रह हों वा इनकी दृष्टि हों तो पुत्रप्राप्ति करते हैं और लग्नेश पुत्रभावेश बलवान् होकर पंचममें हों तो भी पुत्रप्राप्ति करते हैं ॥ ५ ॥ तथा चंद्र बृहस्पति वा शुक्र अपनी उच्चराशि उपलक्षणसे उच्चंशकका पंचम वा लग्नमें हो तो पुत्र देते हैं और वक्रगति मंगल पंचम हों तो पुत्रनाश करता है ॥ ६ ॥

०जा०—सुताधिपोजन्मनिभार्गवोब्देपुत्रेविल धिपतीत्थशाली ॥

त्र दो मंदपदस्थपुत्रे पापाधिकारीक्षितआत्मजार्तिः ॥ ७ ॥

जन्मकाल में पंचमेश शुक्र हो वर्षमें बलवान् होकर पंचममें हो तथा लघ्नेशसे इत्थशाली हो तो पुत्र देता है और जन्मका शनि जिस राशिमें हो वह वर्षमें पंचम हो तथा कोई अधिकारी पापग्रह उसे देखे वा पंचम हो तो पुत्रको पीडा देता है ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—यद्राशिगोग्रहःसृतौसराशिस्तत्पदाभिधः ॥

वर्लाजन्मोत्थसौख्याय वर्षैतद्दुःखदोन्यथा ॥ ८ ॥

जन्मकालमें जो ग्रह जिस राशिका है वह उसका पद कहाता है वह पदसंज्ञक वर्षराशिमें उसी भावमें हो, यद्रा वह ग्रह उसी पदमें हो तथा वह ग्रह उसी भावमें हो तो बलवान् होनेमें तद्रावसंबंधी शुभ फल देता है इसमें विचार बहुत हैं सभी भावोंमें बुद्धिबलसे विचारना ॥ ८ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां० नी० भा० पंचमभावफलानि ॥ ५ ॥

अथ षष्ठभावविचारः ।

व०ति०—मंदेब्दपेनृजुगते पतितेरुजार्तिःस्यात्सन्निपातभव-
भीररिगेत्रशूलम् ॥ गुल्माक्षिरोगविषमज्वरभीर्गुरौतु पापादिते-
निलरुजोपिकंबूलशून्ये ॥ १ ॥

वर्षेश शनि वक्रगति होकर छठे स्थानमें हो तथा पापाक्रांतभी हो तो वातसंबंधी रोगसे पीडा तथा सन्निपात(वात पित्त कफ) तीनोंके साथही कोप होनेसे भय तथा शूलरोग पेटमें गुल्मरोग नेत्ररोग और विषम ज्वरका भय होवे, जो बृहस्पति वक्रगति पापाक्रांत छठे स्थानमें हो और चंद्रमासे कंबूल योग न हो तो वातरोग कमलवातादि तथा नेत्ररोगभी होवे ॥ १ ॥

व०ति०—स्यात्कामलाख्यरुगपीत्थमसृज्यसृग्भीः पित्तंचरि-
ष्फगरवौदृशिःशूलरोगः ॥ पित्तंपुनारिपुग्हेत्रभृगौनृभेरौश्लेष्मा-
भयेक्षितयुतेपिकफोरिगेंदौ ॥ २ ॥

मंगल वक्रगति होकर छठे स्थानमें पापपीडित हो और वर्षेशभी हो तो रुधिरविकारसे रोग होवे. पित्तरोग भी होवे (इस श्लोकमें कामलाख्य रोग पूर्वश्लोकोक्त योगका संबंधी है) और ऐसाही सूर्य्य छटा हो तो नेत्रशूलदि

अक्षिरोग होवें तथा ऐसाही शुक्र छठे स्थानमें हो तो पित्तरोग होवे, जो पुरुष राशिका शुक्र छठा हो और षष्ठेशकी दृष्टिभी इस पर हो तो श्लेष्मरोग होवे और ऐसाही चन्द्रमा छठा हो तो कफसंबंधी रोग होवे ॥ २ ॥

इं०व०—एवं बुधेपापयुतेब्दपेऽरौवातोत्थरोगोजनिलग्ननाथः ॥

पापोब्दपेनक्षुतदृष्टिदृष्टो रोग दोमृत्युकरःसपापः ॥ ३ ॥

जो वर्षेश बुध पापयुक्त वक्रगति होकर छठे स्थानमें हो तो वातप्रधान रोग होवे, जो जन्मलग्नका स्वामी पाप हो और वर्षेश इसे क्षुतदृष्टिसे देखे तो रोग देनेवाला होताहै जो वही पाप जन्मलग्नेश और पापयुक्त भी हो तो मृत्युतुल्य कष्ट फल देताहै ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—सूत्यार्किभेल गतेरूक्षशीतोष्णरुग्भयम् ॥

शनीतियाप्यतास्यात्सपापेमृत्युमादिशेत् ॥ ४ ॥

जन्ममें जिस राशिका शनि है वह राशि वर्षका लग्न हो तो रूक्ष एवं शीतपित्तके दंष्ट्र व रोगका भय होवे इस पर शनिकी दृष्टिभी होवे तो और निंद्यरोग होवे और वही जन्मकी शनि राशि वर्षलग्नमें हो शनिकी दृष्टि और पापयुक्त भी होवे तो मृत्युभय होवे ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—एवंभौमेशुतदृशारक्तपित्तरुजोग्निभीः ॥

ततोन्येबहुलारोगाःशुभदृष्टौरुजालपता ॥ ५ ॥

ऐसेही जन्मकालीन मंगलकी राशि वर्षलग्नमें हो पापग्रह क्षुतदृष्टिसे देखें तो र एवं पित्तरोग तथा अग्निभय होवे, जो यही जान्मिक मंगल राशिवर्षमें होकर इसीमें मंगलभी हो यद्वा मंगलकी दृष्टि भी उस पर हो तो उक्तरोग अल्पही होवें ॥ ५ ॥

वसंतति०—लधिपाब्दपतिषष्ठपतीत्थशालोरोगप्रदःखचर-

धातुविकारतः स्यात् ॥ स्मारोगदोजनिसितांश्रितभोजिसू-

य्यैषष्ठेसितेपततिरूक्सहमं सपापम् ॥ ६ ॥

लग्नेश वा वर्षेशसे षष्ठेशका इत्थशाल हो तो वातादि धातुमें जो उस

ग्रहका धातु संज्ञाप्रकरणमें कहा है उसके विकारसे रोग होवे और जन्ममें जिस भावका शुक्र है उसमें वर्षकालका सूर्य्य हो तो धातुविकारसे रोग होवे, यहां श्लोकमें जन्मकी शुक्रराशिका सूर्य्य ऐसा अर्थ प्रकट होता है, परन्तु जन्ममें सूर्य्य जिस राशिका है वर्षमें भी उसी राशिका होगा शुक्रकी राशिमें कैसे जानना संभव है, जो सूर्य्य शुक्र एकही राशिमें किसीके साथ हों तब यह सम्भावना है तो उसके नित्यही यह योग होगा इससे यह अर्थ वर्षमें योग्य नहीं है, इसलिये शुक्रभावका सूर्य्य होना प्रमाण है. जो जन्ममें सूर्य्य शुक्र एक राशिमें हों और वर्षमें शुक्र छटे पडजाय तो स्माररोग (कामविकार) रोग होता है रोगसहम सपाप हो तो विशेषसे कहना ॥ ६ ॥

भु० प्र०—सपापेगुरैरंग्रगेलग्नारेसतंद्रास्तिमूर्च्छागनाशःसचद्रे ॥

खलाःसूतिकेद्रेद्वलग्रेरुगात्स्यैकफोद्वयंघ्रिगैरीद्व्यमाणेसितेस्यात् ॥ ७ ॥

पापयुक्त बृहस्पति अष्टम और मंगल. लग्नमें हों तो तन्द्रा (आलस्य सहित मूर्छा) होवे, जो चन्द्रमायुक्त अष्टम बृहस्पति और लग्नमें मंगल हों तो किसी रोगसे किसी अंगका नाश (अति पीडा) होवे, जो पापग्रह जन्मके केन्द्रमें हों और वर्षमें लग्नके हों तो रोगोत्पत्ति करते हैं. यथा नरराशिमें बैठे हुये पापग्रहोंसे शुक्र क्षुतदृष्टिसे देखाजाय तो वर्षमें कफरोग होता है ॥- ७ ॥

भु० प्र०—दिनेब्दप्रवेशोविलग्रेब्दसूत्योर्यदादृक्कहदागृहाद्योधिकारः ॥

खेर्वाकुजस्यात्रपीडाज्वरात्स्याद्दशासौम्यखेटोत्थयावैसुखातिः ॥ ८ ॥

दिनका वर्षप्रवेश हो और जन्म तथा वर्षकालके लग्नमें सूर्य्य वा मंगलका स्वग्रह हद्दा द्रेष्काण आदि कोई अधिकार हो तो उस वर्षमें ज्वरसे कष्ट होवे, जो लग्नपर शुभ ग्रहकी दृष्टि भी हो तो परिणाममें सुख होगा ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—निशिसूतौवर्द्धमानेचन्द्रेभौमेत्थशालतः ॥

रुग्ग्रथेदेधतेमदेत्थशालाद्व्यत्ययोन्यथा ॥ ९

रात्रिका जन्म हो तथा चन्द्रमा वर्द्धिष्णु (शुक्लपक्षका) हो और वर्षमें मंगलके साथ मुथशिली हो तो रोगनाश होवे और ऐसाही चन्द्रमा शनिसे

मुथशिली हो तो रोग बढ़ताहै, विपरीतमें फलभी विपरीत जानना, जैसे दिनका जन्म हो और कृष्णपक्षका चन्द्रमा मंगलसे मुथशिली हो तो रोग करताहै, ऐसाही चन्द्रमा शनिसे मुथशिली हो तो, रोगनाश करताहै ॥९॥

अ०—रव द्विशिवित्केतुयुतेब्दंनिखिलंगदाः ॥

अधिकारीबलीसूतावब्देकेतुज्ञयु था ॥ १० ॥

ऐसाही सूर्य मंगल वा शनिके साथ मुथशिली तथा बुध केतुयुक्तभी होवे तो सम्पूर्ण वर्षमें रोग रहे तथा जन्मकालका अधिकारी बुध वर्षमें केतुयुत हो तो वही फल देता है ॥ १० ॥

अनु ०—चतुर्थेस्तेचमुथहाक्षुतद चाशनीक्षिता ॥

शूलपापखगैर्दृ तच्छूलपरिणामजम् ॥ ११ ॥

चतुर्थ वा सप्तम स्थानमें मुंथा हो शनिसे युक्त वा शत्रुदृष्टिसे दृष्ट हो तो शूलरोग होता है तथा चतुर्थ सप्तममें मुंथा किसी पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो किसी कर्म वा किसी रोगसे शूल उत्पन्न होवे ॥ ११ ॥

वसंततिल०—जन्मस्थजीवसितराशिगतेमहीजेसूर्य्याशुगेपि-

टकशीतलिकादिमां म् ॥ शीतोष्णगंडभवरुक्सबुधेचसंदै

ष्टंभगंदरुजोपि सगंडमालाः ॥ १२ ॥

जन्ममें जिस राशिका बृहस्पति वा शुक्र हो उसी राशिका वर्षमें मंगल अस्तंगत हो तो पिटका (फुन्शी) शीतला, दड्ढ आदि रोग तथा शीतपित्त और गंडमाला आदि रोग होवें और जन्मका बृहस्पति शुक्रकी राशिका बुध वर्षमें चन्द्रमा सहित हों तो कुष्ठादि रोग होवें ॥ १२ ॥

अनुष्टु०—जन्मलग्नेथिहानाथौष पापान्वितेक्षितौ ॥

निर्बलौज्वरपीडांगवैकल्याद्यतिकष्टदौ ॥ १३ ॥

जन्मलग्नेश एवं मुंथेश छोटे स्थानमें पापयुक्त वा पापदृष्ट और निर्बल हों तो ज्वरपीडा तथा किसी अंगकी विकलतासे अति कष्ट देते हैं ॥ १३ ॥

अनुष्टु०—मुथहालग्नतथाःपापांतःस्थास्तुरोगदाः ॥

ब शेषैष्टगेसौम्येस्त्रियःप्राप्तिरितीर्य्यते ॥ १४ ॥

मुंथा और मुंथेश लग्न और लग्नेश ये चारों पापग्रहोंके बीच हों तो रोगोत्पत्ति करते हैं. यहां एक वा दो के पापांतःस्थ होनेमें रोग, चारोंसे मृत्युतुल्य कष्ट जानना, और पण्डेश शुभग्रह छठेही स्थानमें हो तो स्त्रीप्राप्ति होतीहै, परन्तु कन्या मिथुन तुलाका शुक्र छठे कफरोग करता है यह ताजिकांतर-मत है ॥ १४ ॥

अनुष्टु०—रोगकर्त्तायत्रराशावंशेस्यादनयोर्वली ॥

तत्स्थानंतस्यरोगस्यवाच्यंराशिस्वरूपतः ॥ १५ ॥

उक्तयोगोंसे रोगकर्त्ता ग्रह जानकर रोगका स्थान जाननेकी यह विधि है कि वह ग्रह जिस राशिमें एवं जिस नवांशकमें है उनमेंसे जो अधिक बली है उसका कालांग राशिस्वरूपमें जो स्थान है उसमें रोग उत्पन्न करता है बुद्धिसे बलाबल विचारके कहना ॥ १५ ॥

अनुष्टु०—जन्मपष्टाधिपेभौमे वर्षेपष्टगतैरुजः ॥

क्रूरैत्यशालेविपुलःशुभदृग्योगतस्तनुः ॥ १६ ॥

जन्मका पण्डेश मंगल वर्षमें छटाही हो तो रोग करता है, इसमें भी विशेष विचार है कि, इसके साथ पापग्रहका इत्यशाल हो तो रोग बहुत, शुभग्रह का हो तो अल्परोग होता है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां ता० नीलकण्ठीभाषाटी० पष्ठभावफलाध्यायः ॥६॥

अथ सप्तमभावविचारः ॥

उपजा०—बलीसितोब्दाधिपतिःस्मरस्थःस्त्रीपक्षतः सौख्यकरो

विचिंत्यः ॥ ईज्येक्षितोत्यंतसुखंकुजेनाधिकारिणाप्रीतिकरो

मिथःस्यात् ॥ १ ॥

वर्षेश शुक्र बली होकर सप्तमस्थानमें हो तो स्त्रीपक्षसे सुख करता है, और बृहस्पतिकी दृष्टिभी इस पर हो तो अत्यंतही स्त्रीसुख करता है, जो ऐसे शुक्रपर अधिकारी मंगलकी दृष्टि हो तो स्त्रीपुरुषकी परस्पर प्रीति बढ़ाता है, (जो शुक्र सप्तम निर्बल नष्ट दग्ध हो तो स्त्रीसे कष्ट देता है) ॥ १ ॥

अनुष्टु०—धेक्षितेजारतास्याल्लब्ध्यामंद्देनवृद्ध्या ॥

गुरुदृष्ट्यानवाभाय्यां संततिस्त्वरितंततः ॥ २ ॥

वही वर्षश शुक्र यदि अधिकारी बुधसे देखा जाय तो (लघ्वा) थोड़ी अवस्थाकी परस्त्री वारस्त्रीसे जारता उक्त शुक्र अनधिकारी शनिसे देखा जाय तो वृद्धा परस्त्रीसे जारता होवे—उक्त शुक्र पर अधिकारी अनधिकारी गुरुकी दृष्टि होने से विवाहिता नवीन भार्यासे संयोग तथा शीघ्र सन्तानोत्पत्ति होती है, इस श्लोकमें 'गुरुदृष्ट्या' यह पाठ प्रमादसे है, क्योंकि पूर्व पद्यमें निरुक्त है यहां 'गुरुयोगात्' ऐसा पाठ होना चाहिये, उक्त भी है ताजिकसुधानिधिमें 'गुरुयुतेऽपि च नतनवल्लभा भवति तत्र च सन्तति राशु हि" ॥ २ ॥

अनुष्टु०—जन्मलग्नाधिपेऽस्तस्थेदारसौख्यंबलान्विते ॥

जन्मशुक्रर्क्षमस्तेब्दे लाभायसितेब्दपे ॥ ३ ॥

जन्मलग्नेश वर्षकालमें सप्तम बलवान् हो तो स्त्रीसुख होता है, जन्मकी शुक्रराशि वर्षमें सप्तम हो और शुक्रही वर्षेश हो तो स्त्रीलाभ होवे ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—जन्मलग्नाधिपेवर्षे लग्नात्स मग्रेसति ॥

उदितेसबलेचैवदारसौख्यंप्रजायते ॥ ४ ॥

जन्मलग्नेश वर्षलग्नेश सप्तम हो और उदित तथा बलवान् हो तो स्त्रीसौख्य होवे ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—शुक्रोजन्मनियद्राशौवर्षे लग्नेश्वरो यदि ॥

तद्राशौसप्तमस्थेपिपुंसःपरिणयस्तदा ॥ ५ ॥

जन्मका शुक्र जिस राशिमें है उसमें वर्षलग्नेश हो, अथवा वह राशि सप्तममें हो तो पुरुषका इस वर्षमें विवाह होगा, यह योग ताजिकसारमें "शुक्रस्य लग्नपतेर्विवाहः" अर्थात् शुक्रकी राशिका लग्नेश हो ऐसा लिखा है यह भी प्रमाणही है ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—नष्टेदौशुक्रपदगेमैथुनंस्वल्पमादिशेत् ॥

जन्मशुक्रर्क्षगोभौमः सुखोत्सवकृद्बली ॥ ६ ॥

जन्मकी शुक्रराशिमें वर्षमें क्षीण चन्द्रमा हो तो इस वर्षमें मैथुनसुख थोड़ा होवे, जो जन्मकी शुक्रराशिमें वर्षका बलवान् मंगल हो तो स्त्रीसुख उत्सवकारी होवे ॥ ६ ॥

व०ति०—जन्मास्तपेन्दपसितेनयुगीक्षितेस्यात्स्त्रीसंगयोबहुविलाससुखप्रधानः ॥ केन्द्रत्रिकोणगगुरोजनिशुक्रमस्थेस्त्रीसौख्यमुत्तमितिहृदविवाहयोश्च ॥ ७ ॥

जन्मका सप्तमेश वर्षमें शुक्रसे युक्त वा दृष्ट किसी स्थानमें हो तो स्त्रीसंगम बहुत विलास हास सुखपूर्वक होवे १, जन्मका शुक्र जिस राशिमें हो उसमें वर्षका बृहस्पति लग्नसे केन्द्र वा त्रिकोण हो तो स्त्रीमुख होवे २, वर्षलग्नकी हृदाका स्वामी जन्मकी शुक्रराशिमें वर्षलग्नसे केन्द्र त्रिकोणमें हो तो स्त्रीसौख्य होवे ३, ऐसा ही वर्षका विवाहसहस्रस्वामी, जन्मके शुक्रराशिका वर्षलग्नसे केन्द्रत्रिकोणमें हो तो स्त्रीप्राप्ति होवे ये चार योग हैं ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—अधिकारिपदस्थेकेस्त्रीभ्योव्याकुलतानिशम् ॥

इंथिहाधिकृतस्थानेगुरुदृष्ट्याविवाहकृत् ॥ ८ ॥

पंचाधिकारियोंमेंसे किसीकी राशिमें सूर्य्य हो तो स्त्रियोंसे नित्य व्याकुलता रहे, एवं मृगेशकी राशिका बृहस्पति हो वा मृग्याकी राशिमें बृहस्पति हो वा मृग्या राशिको बृहस्पति देखे तो विवाहयोग कहा है ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—इंथिहाकार्युग्धूनेशूरितेसहमेस्त्रियाः ॥

स्त्रीपुत्रेभ्योभवेत्कष्टं पापदृष्ट्याविशेषतः ॥ ९ ॥

सूर्य्य मंगलके साथ मृग्या सप्तम स्थानमें हो तथा स्त्रीसहस्र पापाक्रांत होवे तो स्त्रीसे एवं पुत्रसे कष्ट होवे पापग्रहकी दृष्टि भी उसपर हो तो स्त्रीपुत्रोंसे अधिक ही कष्ट होगा ॥ ९ ॥

अनुष्टु०—सूतौघूनाधिपः शुक्रोवेदघूनेवलवान्भवेत् ॥

लग्नेशेनेत्थशालश्चेत्स्त्रीलाभं कुरुतेसुखम् ॥ १० ॥

जन्मका सप्तमेश शुक्रवर्षमें बलवाच होकर सप्तम स्थानमें हो तथा लग्नेशके साथ इत्थशालीभी हो तो सुखपूर्वक स्त्रीप्राप्ति होवे ॥ १० ॥

अनुष्टु०—भौमेन्दपेसितदृशाशुक्रेवदेशेकुजेक्षया ॥

तदृष्टेदारसहमेस्त्रीलाभोभवतिमुक्त्वा ॥ ११ ॥

वर्षेश मंगलपर शुक्रकी दृष्टि हो तो स्त्रीलाभ होता है तथा वर्षेश शुक्रपर मंगलकी दृष्टि हो तो यही फल होता है. इन दोनों योगोंके भेद हैं कि शुक्रकी दृष्टिमें मंगल हो तो विवाह होगा १, मंगलकी दृष्टिमें शुक्र हो तो भी विवाह होगा २, और जन्मकी स्त्रीसहम राशिपर वर्षमें मंगल शुक्रकी दृष्टि हो तो निश्चय विवाहयोग होता है ॥ ११ ॥

अनुष्टु०—सूतौवादारसहमेतद्वेष्योषिदाप्यते ॥

स्वामिदृष्टस्त्रीसहमंशुक्रदृष्टंविवाहकृत् ॥ १२ ॥

जन्मके वा वर्षके स्त्रीसहममें मंगल शुक्रकी दृष्टि हो तो विवाहप्राप्ति होती है और स्त्रीसहमपर शुक्र तथा सहमेशकी दृष्टिसे यही फल है ॥ १२ ॥

अनुष्टु०—सूतौघूनाधिपेवर्षेसहमेशोस्त्रियाःसुखम् ॥

जन्मास्तपैथिहानाथवर्षेशाः खेद्युनेतथा ॥ १३ ॥

जन्मका सप्तमेश वर्षमें स्त्रीसहमका स्वामी हो तो स्त्रीसे सुख मिले और जन्मका सप्तमेश मंथेश तथा वर्षेशभी दशम वा सप्तम हो तो स्त्रीसे सुख होवे ॥ १३ ॥

अनुष्टु०—मुथहातोघूनसंस्थःस्वगृहोच्चगतःशशी ॥

विदेशगमनंकुर्यात्केशः पापेक्षणाद्भवेत् ॥ १४ ॥

चंद्रमा अपने गृह वा अपने उच्चका मंथसे सप्तम हो तो विदेशगमन करता है, इस पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो विशेष कष्टसे गमन अन्यथा सुखसे होता है ॥ १४ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां सप्तमभावफलाध्यायः ॥७॥

अथाष्टमभावविचारः ।

अनुष्टु०—भौमेब्दपे क्रूरहतेऽयसाघातोबलोऽज्झते ॥

अग्निभीराग्निभेक्रूरनराद्विपदभेमृतिः ॥ १ ॥

वर्षेश मंगल बलरहित और पापपीडित हो तो लोहाके शस्त्रसे किसी अंगपर क्षत होवे, अंगकी निश्चयता द्रेष्काणवशसे संज्ञाध्यायमें कही है तथा अग्निराशि मेष सिंह धन १ । ५ । ९ में यह होवे तो अग्निभय होवे.

और यही मंगल द्विपद मिथुन कन्या तुला और धनके पूर्वार्द्धमें हो तो चौरादि दुष्ट मनुष्यसे मृत्यु होवे ॥ १ ॥

अनुष्टु०—वियत्यवनिपामात्यरिपुतस्करतोभयम् ॥

तुय्येमातुःपितृव्याद्दामातुलात्पितृतो गुरोः ॥ २ ॥

इसी प्रकार वर्षेश मंगल निर्बल तथा पापपीडित होकर दशम स्थानमें हो तो राजा वा राजमंत्री वा शत्रु वा चोरसे भय होवे और ऐसा ही मंगल चतुर्थस्थानमें हो तो माता वा ताऊ वा चाचा वा मामा वा पितासे भय होवे ॥ २ ॥

व०ति०—लग्नेथिहापतिसमापतयोमृतीशाश्चोदित्यशालिनइमे
निधनप्रदाःस्युः ॥ चेत्पाकरिष्टसमये मृतिरेव तत्र सार्केकुजे
नृपभयं दिवसेऽब्दवेशे ॥ ३ ॥

लग्नेश मुंथेश और वर्षेश अष्टमेश इत्यशाली हों तो मृत्युफल कहा है, परंतु जिस वर्षमें यह योग है उससे मारक दशा वा दशारिष्ट किसी प्रकार-काभी हों तो मृत्यु होती है. केवल उक्त इत्यशाले ही हो तो मरणतुल्य कष्टमात्रही होता है और दिनके वर्षप्रवेशसे वर्षेश मंगल सूर्यसहित हो तो राजासे भय होवे ॥ ३ ॥

शार्दूलवि०—सूर्येमूसरिफेसितेनजननेवर्षेधिकारीतथा केंद्रेरा
जगदाद्भयंचरुगसृक्स्थानेधिकारीदुजे ॥ सौम्येऋदृशाकुज-
स्यरुगसृक्दोषादिनांशुस्थिते दग्धबंधमृतीविदेशतइतिप्राहुर्बुधे
तादृशे ॥ ४ ॥

जन्ममें सूर्य शुक्रसे मूसरिफ कर्त्ता हो तथा वर्षमें पंचाधिकारियोंमेंसे किसी अधिकारवाला होकर केंद्रमें हो तो राजरोग (क्षयरोग) का भय होवे १ और जन्मके भौमराशिस्थितमें अधिकारी बुध वर्षमें हो तो यही फल देता है २ तथा अधिकारी बुधपर मंगलकी क्रूर दृष्टि हो तो रुधिर दोषसे रोग होवे ३ तथा अधिकारी बुध अस्तंगत और मंगलयुत दग्ध हो तो विदेशमें बंधनसे मृत्यु होवे ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—भौमस्थानेधिकारिंदौ तंनृपभयंरुजः ॥

मंदोधिकारीखेलोहहतेपीडाकरःस्मृतः ॥ ५ ॥

जन्मकी मंगलस्थित राशिमें वर्षका अधिकारी चंद्रमा हो तो गुप्त (अनजाने) में राजभय होवे एवं रोगभय भी होवे १. और अधिकारी शनि दशम स्थानमें हो तो लोहाके प्रहारसे पीडा करनेवाला कहाहै ॥५॥

अनु०—भौ मे भयं वहेः प्रहारोवानृपाद्रयम् ॥

आरेखस्थेचतुष्पद्भ्यःपातोदुःखंरुजोसृजा ॥ ६ ॥

अधिकार रहित मंगल अष्टम हो तो अधिका भय अथवा श दैसे चोट और राजासे भय होवे, और अधिकारी मंगल दशम हो तो घोडा आदि चौपाया से पतन तथा श और रुधिरसंबंधि रोग होवे ॥ ६ ॥

अनुष्टु०—वित्तेष्टगेज्योधनहा यद्यब्देशोऽशुभेक्षितः ॥

देद्यूनेदुर्वचनापवादकलिभर्त्सनम् ॥ ७ ॥

वर्षेश बृहस्पति पापग्रहदृष्ट द्वितीय तथा अष्टम हो तो धननाश होवे और शनि सप्तम हो तो बुरे वचन झूठाकलंक कलह और झिडकन मिले ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—पतितेज्ञेकूरदृशाऽऽरेत्थशालेमृतिवदेत् ॥

कुजहृदास्थितेनाशःसौम्यदृष्ट्याशुभं वदेत् ॥ ८ ॥

बुध पापाक्रांत हो और मंगलके साथ कूर दृष्टिसे इत्थशाल करता हो तो मृत्यु होवे तथा बुध मंगलकी हृदामें पापदृष्ट हो तो अश्व आदि द्रव्यका नाश होवे और इसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो शुभफल देताहै ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—लग्नाधिपेनष्टदग्धेयोषिद्रादोऽशुभान्विते ॥

जन्मन्यष्ट गोज्जाधिकारीकलिःपृ : ॥ ९ ॥

लग्नेश पापयुत बलहीन और अस्तंगत हो तो किसी से कलह होवे, और जन्ममें बृहस्पति अष्टम हो वर्षमें अधिकाररहित हो तो बडा कलह होवे ॥९॥

अनुष्टु०—जयःशुक्रेक्षणादुःप्रत्युत्तरवशेनतु ॥

भौमेंत्यगेधनेसूर्यैवादाते शंविर्निर्दिशेत् ॥ १० ॥

(१५०)

ताजिकनीलकण्ठी ।

जन्मका बृहस्पति अष्टम वर्षमें अधिकाररहित हो और शुक्र इसे देखे तो विवादमें प्रत्युत्तर देनेसे जय होवे, और मंगल बारहवें स्थानमें सूर्य्य द्वितीय स्थानमें हों तो विवादसे क्लेश होगा. कहना ॥ १० ॥

अनुष्टु०—रिपुगोत्रकलिर्भीतिः संख्येकुजहतेवदपे ॥

दग्धोजन्मांगपोवर्षेष्टमोरोगकली दिशेत् ॥ ११ ॥

वर्षेश भौमसे पीडित हो तो शत्रुवोंसे और अपने कुलेकभी शत्रुवोंसे कलह होवे तथा संग्राममें भय होवे और जन्मलग्नेश अस्तंगत हो वर्षमें अष्टम हो तो रोग तथा कलह होवे कहना ॥ ११ ॥

अनु०—सूत्यब्दयोरधिकृतौभौमस्थानेगुरुहृतः ॥

पापैर्वादःस्फुटोप्येवंतादृशीदौशानेःपदे ॥ १२ ॥

बृहस्पति जन्मकाल और वर्षकालका अधिकारी होके जन्मकालिक मंगलके आक्रांत राशिमें हो पापग्रहसे हत होय तो लोगोंके साथ बहुत कलह होगा और जन्मकालिक शनिराशिके जन्म और वर्षकालका अधिकारी चंद्र पापग्रहसे हत होय तो ऐसाही फल जानना ॥ १२ ॥

अनुष्टु०—सूत्यब्दयोरधिकृतेचंद्रेबुधपदेहते ॥

रैर्विदेशगमनंवादःस्याद्भिमनस्कता ॥ १३ ॥

जन्म तथा वर्षका अधिकारी चंद्रमा जन्मके बुधकी राशिमें पाप-पीडित हो तो विदेशगमन कलह और मानसी क्लेश होवे ॥ १३ ॥

अनुष्टु०—मेर्षेसिंहेधनुष्यारेब्दपेरंश्रेऽसितोभयम् ॥

मृत्यौमृतीशलग्नेशौमृत्युदौपापदृग्युतौ ॥ १४ ॥

मेष सिंह धनका मंगल वर्षेश होकर अष्टममें हो तो तलवारसे भय होवे और अष्टमेश एवं लग्नेश अष्टम स्थानमें पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो मृत्यु देते हैं ॥ १४ ॥

अनुष्टु०—यत्रर्क्षेजन्मनिकुजःसोव्दलश्रोपगोयदा ॥

बुधोवर्षपतिर्नष्टबलस्तत्र नशोभनम् ॥ १५ ॥

जिस राशिमें जन्मका मंगलहै वही वर्षका लग्न हो और वर्षश बुध भी नष्टबल होवे तो वह वर्ष अच्छा नहीं होगा ॥ १५ ॥

अनुष्टु०—सार्केशनौभौमयुतेखाष्टस्थेवाहनाद्भयम् ॥

सार्कैभौमैष्टमस्थे तु पतनं वाहनाद्भवेत् ॥ १६ ॥

शानि सूर्य्य मंगल सहित दशम वा अष्टममें हो तो वाहन (सवारी) से भय होवे और सूर्य्य सहित मंगल अष्टम हो तो वाहनसे पतन होवे ॥ १६ ॥

अनुष्टु०—सारेण्डपेष्टमेमृत्युश्चंद्रैत्याारिमृतौमृतिः ॥

उदितेमृतिसन्नेशोनिर्वलेजीवितेमृतिः ॥ १७ ॥

वर्षेश मंगल सहित अष्टम हो तो मृत्यु फल देता है तथा चन्द्रमा भौम युक्त छठा आठवां बारहवां हो तो भी मृत्यु देताहै और मृत्युसहमेश उदय हो जीवितसहमेश निर्बल हो तो मृत्यु होता है ॥ १७ ॥

अनुष्टु०—पुण्यसन्नेश्वरःपुण्यसहमादष्टमोयदा ॥

सूत्यष्टमेशःपुण्यस्थो मृतिदःपापदृग्युतः ॥ १८ ॥

पुण्यसहमेश पुण्यसहमसे अष्टम हो पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट भी हो तथा जन्मका अष्टमभावेश पुण्यसहम राशिमें पापयुक्त वा दृष्ट हो तो मृत्यु देताहै ॥ १८ ॥

अनुष्टु०—सूत्यष्टमगतोराशिःपुण्यसद्गनिनाथयुक् ॥

अब्दलग्नाष्टमक्षैवाचेदित्थंस्यान्मृतिस्तदा ॥ १९ ॥

जन्मकी अष्टमभावरशि वर्षमें पुण्यसहम होके निजनाथसे युक्त हो तथा वर्षलग्नसे अष्टमेश अष्टमगत हो तो मृत्यु होतीहै ॥ १९ ॥

अनुष्टु०—पुण्यसद्गात्रुभाक्रांतंमृतीशोंत्यारिर्ध्रगः ॥

मुथहेशोण्डपोवापिमृत्युंतत्रविनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

पुण्यसहममें पापग्रह हों और अष्टमेश त्रिकस्थान ६ । ८। १२ में हो तो मृत्यु होवे और वर्षेश वा मुंथेश पापाक्रांत त्रिकस्थान ६ । ८। १२ में हो तो मृत्यु देताहै कहना ॥ २० ॥

अनुष्टु०—सक्रूरजन्मपेमृत्यौमृतिश्चेदितिहाकियुक् ॥

भौमक्षुतेक्षणेतत्रमृत्युःस्यादात्मघाततः ॥ २१ ॥

जन्मलग्नेश वा जन्मराशीश पापग्रहयुक्त वर्षलग्नेसे अष्टम हो तो मृत्यु होती है और मुंथा भी कहीं बैठी होय पर शनैश्वरके साथ होय और जो इसपर मंगलकी शत्रुदृष्टि भी हो तो आत्मघात (अपनेही हाथसे) मृत्यु होवे ॥ २१ ॥

अनुष्टु०—मंदोष्टमोमृतीशेत्यशालान्मृत्युकरःस्मृतः ॥

शुभेत्यशालात्सर्वेपियोगानाशुभदायकाः ॥ २२ ॥

अष्टम शनि अष्टमेशसे इत्यशाली हो तो मृत्यु देनेवाला कहा है और जो ग्रह उक्त योगोंमेंसे मृत्युफल करनेवाले हैं वे किसी शुभग्रहसे इत्यशाल करते हों तो मृत्यु नहीं होती प्रत्युत शुभफल देते हैं ॥ २२ ॥

अनुष्टु०—सूतिरंघ्रपतिर्मंदोष्टमोब्देलग्रपेनचेत् ॥

इत्यशालीक्रूरदृशातत्कालेमृत्युदायकः ॥ २३ ॥

जन्मका अष्टमेश शनिवर्षमें अष्टम हो तथा लग्नेशसे क्रूरदृष्टिका इत्यशाल करता हो तो वर्षप्रवेशहीमें मृत्यु देताहै ॥ २३ ॥

स्थोद्धता—पुण्यमघ्ननिविधुस्तनैतथास्तेखलोमृतिरथार्थरिःफगौ ॥

मृत्युदौखलखगावथोजनुर्वर्षवेशतनुपौमृतौमृतिः ॥ २४ ॥

पुण्यसहममें वा लग्नेमें चन्द्रमा और इससे सप्तम पापग्रह हो तो मृत्युतुल्य कष्ट देताहै तथा लग्नेसे दूसरे बारहवें पापग्रह हों तो भी यही फल देते हैं, पुण्य सहम और चन्द्रराशिसे भी द्वितीय द्वादश पापग्रह होनेमें यही फल है, इसमें पापकर्त्तरी विशेषहै. और ऐसाही विचार जन्मलग्न वर्षलग्न पुण्यसहम चन्द्रराशिका भी करना और वर्षलग्नेश वा वर्षेश और अष्टमेश अष्टम हो तो मृत्यु देताहै ॥ २४ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकण्ठभाषाटीकायाम मभावाध्यायः ॥ ८ ॥

अथ नवमभावविचारः ।

अनुष्टु०—भौमेब्दपेत्रिनवगेक्रूरायुक्तेबलान्विते ॥

शुणावहस्तदामार्गश्चरंकार्यस्थिरततः ॥ १ ॥

वर्षेश मंगल तृतीय वा नवम स्थानमें बलवान् हो और पापयुक्त न हो तो मार्ग अर्थात् सफर गुणदायक होवे. चरकार्य भी स्थिर होजावे अर्थात् जलकर्म नहर आदिसे शुभत्व होवे ॥ १ ॥

अनुष्टु०—त्रिधर्मस्थोब्दपःसूर्य्यःकंबूलीमार्गसौख्यदः ॥

अन्यप्रेषणयानंस्यात्सचेन्नाधिकृतोभवेत् ॥ २ ॥

वर्षेश सूर्य्य तृतीय वा नवम स्थानमें अधिकारयुक्त हो और चन्द्रमारो कंबूली भी हो तथा स्वगृहोच्चादिमें होवे तो अपनी इच्छासे मार्ग चलना पड़े, मार्गमें सुखभी होवे, जो वह सूर्य्य स्वग्रहादि अधिकारयुक्त न हो तो दूसरेके प्रेषणसे गमन होवे मार्गमें सुख भी न होवे ॥ २ ॥

अनुष्टु०—शुक्रेब्दपेत्रिनवगे मार्गसौख्यं विलोमगे ॥

अस्तेवाकुगतिः सौम्येदेवयात्रातथाविधे ॥ ३ ॥

वर्षेश शुक तीसरे वा नवम स्थानमें क्रूररहित हो बलवान् भी हो और वक्रगतिमें हो तो गमन होनेमें मार्गमें सौख्य होवे, जो यह अस्तंगत होकर उक्तस्थानोंमें हो तो कुगति इच्छासे विरुद्ध गमन होवे, और वर्षेश बुध पापरहित बलवान् तीसरे नवम स्थानमें बक्री हो तो तीर्थ वा देवता-संबंधी यात्रा होवे ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—क्रूरादितेकुयानंस्याद्भूरावेवांचिंतयेत् ॥

इत्थशालेलग्नधर्मपत्योर्यात्रास्त्यर्चिता ॥ ४ ॥

पूर्वोक्त बुधके सदृश वर्षस्वामी बृहस्पति पापग्रहरहित ३ । ९ स्थानोंमें होनेसे तीर्थ देवसंबंधी यात्रा देताहै. जो हीनवली वा क्रूर पीडितादि हों तो कुयान अनिष्टगमन देताहै, और लग्नेश नवमेशका परस्पर इत्थशाल हो तो अकस्मात् गमन होवे, जहांका स्मरण नहीं गमन संभावनाभी नहीं ऐसा गमन होता है ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—लग्नेशोधर्मपयञ्च न्स्वमहर्चिताध्वदः ॥

एवंलग्नाब्दयोर्योगे मुथहांगपयोरपि ॥ ५ ॥

लग्नेश अपना तेज नवमेशको देवे अर्थात् लग्नेश शीघ्रगति अल्पांश और नवमेश अधिकांश मंदगति हो, दोनों दीर्घांशोंके भीतर हों तो पूर्वनिश्चित

यात्रा होवे और नवमेश अपना तेज लग्नेशको देता हो तो अर्चितित यात्रा होवे, ऐसे ही वर्षलग्नेश वर्षेशका तथा लग्नेश मुथेशका योग भी फल देताहै ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—गुरुस्थानेकुजेधर्मेसद्यात्राभृत्यवित्तदा ॥

ज्ञस्थाने लग्नपाद्भौमोदृष्टःसद्यानसौख्यदः ॥ ६ ॥

जन्मकालमें बृहस्पति जिस राशिका है उसीमें वर्षका मंगल नवमस्थान में हो तो गमनमें मृत्यु और धनकी प्राप्ति होवे, और जन्मका बुध जिस राशियें है उसी राशियें वर्षका मंगल हो और लग्नेशकी दृष्टि उसपर हो तो गमन में सौख्य होवे ॥ ६ ॥

अनुष्टु०—स्वस्थानगोवावलवाँल्लग्रदर्शीसुथानदः ॥

जन्माधिकारीज्ञोमंदस्थाने क्रूरयुतोयदा ॥ ७ ॥

पंथारिपोर्झकटकान्द्रुरध्वेदुजीवयोः ॥

धर्मेशानिर्नाधिकारीपंथानमशुभं वदेत् ॥ ८ ॥

जन्मका मंगल अपनी राशि १ । ८ में हो वर्षमेंभी अपनी राशिका नवमस्थानमें हो और सावयव दृष्टि स्पष्टसे भावानुसार लग्नको देखता हो तो गमनमें खुशी होवे, शुभकार्यसंबंधी गमन होवे १ और जन्मका अधिकारी बुध शनिकी राशियें होवे और वर्षमें पापयुक्त नवम स्थानमें हो तो शत्रुकलह सम्बन्धी मार्ग चलना होवे. ऐसेही चन्द्रमा और बृहस्पति का भी जन्ममें शनि सहित और वर्षमें पापयुक्त नवम स्थानमें हो तो विना प्रयोजन दीर्घमार्ग चलना होवे, मंगलसे भी ऐसा योग होताहै, और अधिकार रहित शनि वर्षमें नवम स्थानगत हो तो चौरादि उपद्रवयुक्त मार्गमें गमन होवे ॥ ७ ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—इत्थंगुरौदूरयात्रानृपसंगस्ततोगुणः ॥

कुजेब्दपेनष्टबलेस्वजनादूरतो गतिः ॥ ९ ॥

ऐसेही बृहस्पति अधिकार रहित नवम स्थानमें हो तो दूरगमन और राजाका संग तथा द्रव्यलाभादि गुण होवें तथा वर्षेश मंगल बलरहित होकर नवम स्थानमें हों तो अपने बन्धुजनोंसे दूर गमन होवे ॥ ९ ॥

अनुष्टु०—द्यूनेधिहाधर्मइंदौ सबलेऽध्वाविदेशजः ॥

वर्षेशोबलवान्पापायुतःकेंद्रेधिकारवान् ॥ १० ॥

जो मुन्था सप्तम और चन्द्रमा बलवान् होकर नवमस्थानमें हो तो विदेशसंबंधी मार्ग चलना होवे और वर्षेश बलवान् किसी पापसे युक्त न होके केंद्रमें हो तो परदेशमें अधिकार मिलनेसे गमन होवे अथवा सेनापति होकर विदेशगमन करे ॥ १० ॥

अनुष्टु०—आधिकारेगतिःसंख्येसेनापत्येपिवावदेत् ॥

एवंबुधेकुजे जीवयुतेर्कान्निर्गते पुनः ॥ ११ ॥

पूर्वाद्धश्लोकका अर्थ पूर्वश्लोकके अर्थमें लिखागया है, उत्तराद्धका प्रयोजन यह है कि, बृहस्पतिके तरह बुध वा मंगल केंद्रवत्ति बलवान् अधिकारवान् और उदयी तथा बृहस्पति युक्त हो तो जय यश और सुख देनेवाली यात्रा होवे ॥ ११ ॥

अनुष्टु०—प्रसैन्योपरिगतिर्जयस्यातिसुखावहा ॥

जीवान्नवमगेभौमेशुभायात्रानृणांभवेत् ॥ १२ ॥

इस श्लोकके पूर्वाद्धका प्रयोजन सम्बन्धवशसे पूर्व ११ वें श्लोकके साथ लिखाहै उत्तराद्धसे यह है कि बृहस्पतिसे नवम मंगल बलवान् हो तो मनुष्योंकी शुभ यात्रा होवे ॥ १२ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां नवमभावफलाध्यायः ॥९॥

अथ दशमभावविचारः ।

अनुष्टु०—सबलेब्दपतौरखस्थेराज्यार्थसुखकीर्त्तयः ॥

स्थानांतरातिरन्यस्मिन्केन्द्रेगृहसुखाप्तयः ॥ १ ॥

बलवान् वर्षेश दशम स्थानमें हो तो कुलानुमान राज्य तथा धन सुख और कीर्त्ति मिले जो अन्य केंद्र लग्न चतुर्थ सप्तममें हो तो गृहसम्बन्धी सुख मिले ॥ १ ॥

अनुष्टु०—इत्थंबलीरविभूस्थैःपूर्वार्जितपदातिकृत् ॥

एकादशोस्मिन्सख्यंस्थान्नृपामात्यगणोत्तमैः ॥ २ ॥

वर्षश सूर्य्य बलसहित चतुर्थ स्थानमें हो तो पितृपितामहादिकोंका उपा-
जित राज्य वा कोई अधिकार मिले, जो ऐसाही सूर्य्य ग्यारहवाँ हो तो राजाके
उत्तम अमात्य (वजीर) आदिकोंसे मैत्री होवे ॥ २ ॥

अनुष्टु०—रविस्थानेधिहालश्रेखेवाराज्यातिसौख्यदा ॥

नीचैर्कःपापसंयुक्तोभूपाद्बन्धवर्धदेशत् ॥ ३ ॥

जन्मके सूर्य्यस्थित राशिकी मुन्था वर्षके लग्न वा दशम स्थानमें हो तो
राज्यप्राप्ति और सुख देतीहै, और वर्षेश सूर्य्य नीच राशिका दशम स्थानमें
षापयुक्त हो तो राजासे मृत्यु वा बंधन कैद होना कहना ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—सिंहेरविर्बलीखस्थःस्थानलाभोनृपाश्रयः ॥

स्थानांतराधिकप्राप्तिरिन्दुरारपदेबली ॥ ४ ॥

जन्मका सूर्य्य सिंहराशिमें हो और वर्षमें बलवान् होकर दशम स्थानमें
हो तो नवीन स्थानप्राप्ति और राजाका आश्रयभी होवे और जन्मकी
मंगल स्थित राशिका वर्षमें चन्द्रमा हो तो अन्य स्थानमें अधिकारप्राप्ति
वा राज्यप्राप्ति होवे ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—खेशलग्नेशवर्षेशेत्थशालोराज्यदायकः ॥

वर्षेशेराजसहमेऽकेत्थशालोमहात्तपः ॥ ५ ॥

दशमेश लग्नेश और वर्षशका परस्पर इत्थशाल हो तो राज्य देताहै और
वर्षेश राजसहममे होकर सूर्य्यसे इत्थशाली हो तो महाराजा होवे ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—शनिस्थानेकुजःपश्यन्मुथर्हांपापकर्मतः ॥

नृपभीतिवित्तनाशंदद्याद्दशमगोयदि ॥ ६ ॥

जन्मकी शनिस्थित राशिमें वर्षका मंगल दशमस्थानमें हो और मुन्थाको
देखे तो कुकर्मसे राजभीति और धननाश होवे ॥ ६ ॥

अनुष्टु०—ईदृशेत्त्रिनवस्थेस्मिन्दग्धनष्टेऽघसंचयः ॥

मन्दोऽव्दपोऽधिकारीत्रिधर्मगोधर्मवृद्धिदः ॥ ७ ॥

जन्मकी शन्याक्रांत राशिमें वर्षका मंगल तीसरे वा नवम स्थानमें
नष्टबल दग्ध वा अस्तंगत हो तो पुण्यनाशद्वारा पापवृद्धि होवे और

वर्षेश शानि अधिकारी होकर तीसरे वा नौवें स्थानमें हो तो पापनाशद्वारा धर्मवृद्धि होवे ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—अस्मिन्दग्धेविनष्टेचपापकृद्धर्मनिन्दकः ॥

ईदृशीदृक्फलंसूर्य्येगुरावित्थंनयार्थभा ॥ ८ ॥

तथा अधिकारी वर्षेश शानि दग्ध वा नष्ट हो तो इस वर्षमें पाप करने वाला तथा धर्मकी निंदा करनेवाला होवे ऐसा ही वर्षेश सूर्य अधिकारी वर्षमें तीसरे वा नवम स्थानमें हो तो ऐसाही फल होताहै, और ऐसेही वर्षेश बृहस्पति अधिकारवान् ३ । ९ स्थानमें नष्ट वा दग्ध हो तो न्यायसे द्रव्यप्राप्ति होती है ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—तत्रस्थामुथहा ष्यागमंपापंखलाश्रयात् ॥

सूतौखेशेरवौखस्थेवधैमुथशिलंयदि ॥ ९ ॥

मुंथा तीसरे नववें स्थानमें पुण्यागम करती है और इन्हीं स्थानोंमें पापयुक्त मुंथा हो तो पापकी प्राप्ति करती है और जन्मका दशमेश सूर्य्य वर्षमें दशम हो बलवान् भी हो तथा (मंदगामी) लग्नेशसे इत्थशाली भी हो तो अपने बलके अनुसार राज्यप्राप्ति करता है ॥ ९ ॥

अनुष्टु०—ल धिपेनराज्यातिरुक्तावीर्यानुमानतः ॥

धर्मकर्माधिपौदग्धौधर्मराजक्षयावहौ ॥ १० ॥

लग्नेश बलवान् होनेमें इसके बलानुसार राज्यप्राप्ति होती है और नवमेश एवं दशमेश दग्ध वा पापपीडित हो तो धर्म तथा राज्यको क्षय करते हैं. यहां दशमभाव राज्यसहम कर्मसहम और लग्न तथा इनके स्वामी बलवान् और शुभग्रहोंके साथ होनेमें शुभ फल तथा वक्रदग्धादि निर्वल और पापयुक्त होनेसे अशुभ फल देतेहैं यह विचार विशेष है ॥ १० ॥ इतिश्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां दशमभावफलाध्यायः ॥ १० ॥

अथ अभभावविचारः ।

अनुष्टु०—अब्दपे र्थगेलामो वाणिज्याच् भट्टग्युते ॥

सैथिहेस्मिँ ते लाभःपठनलेखनात् ॥ १ ॥

वर्षश बुध धनस्थानमें शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो अन्नादि द्रव्यके व्यापारसे धनलाभ होवे जो यही बुध मुंथासहित लग्नमें हो तो पढने लिखनेसे लाभ होवे ॥ १ ॥

अनुष्टु०—अस्मिन्षष्ठाष्टांत्यगतेसङ्करेनीचकर्मकृत् ॥

रेक्षणोन्लाभोस्तंगतेनलिखनादितः ॥ २ ॥

वर्षश बुध छठे आठवें वा नारहवें स्थानमें पापग्रह सहित हो तो नीच कर्म कराताहै, जो इस पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो श्रम करनेमें भी लाभ न होवे जो यह अरतंगत हो तो लिखने पढनेमें व्यर्थ श्रम होवै लाभ न होवे ॥ २ ॥

अनुष्टु०—लग्नेन्द्रेपेक्षरहते लग्नेहानिर्भयंनृपात् ॥

अस्मिन्नधिकृतेयूनेव्यवहाराद्धनात्तयः ॥ ३ ॥

लग्नेश वा वर्षश पापपीडित होकर लग्नमें हो तो राजासे भय होवे यही अधिकारी, सप्तम स्थानमें हो तो व्यवहारसे धनप्राप्ति होवे ॥ ३ ॥

अनुष्टु०—लग्नायेथेत्यशालेस्याल्लामः स्वजनगौरवम् ॥

सर्वेलाभेच वित्तास्यै सबला निर्बला न तु ॥ ४ ॥

लाभेश लग्नेशका इत्थशाल हो तो बडा लाभ होवे, अपने मनुष्योंसे गौरवता भी मिले तथा कोई भी ग्रह नारहवें स्थानमें बलवान् हो निर्बल न हों तो धनप्राप्ति करते हैं ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—सवीर्योऽज्ञःसमुत्थहोलग्न्यर्थसहमे शुभाः ॥

तदारखनितद्रव्यस्यलाभःपापदशानतु ॥ ५ ॥

बलवान् बुध मुंथाके साथ लग्नमें हो और अर्थसहममें शुभग्रह हो तथा लग्नपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो खान (धात्वादि भूमि) संबंधी द्रव्यका लाभ होवे लग्नमें पापदृष्टि हो तो उक्तलाभ नहीं होगा ॥ ५ ॥

इति श्रीमहीधररुतायां नीलकण्ठीभाषाटीकायां लाभभावफलाध्यायः ॥ ११ ॥

अथ व्ययभावविचारः ।

वसन्तति०—लग्नाब्दपौहत्तबलौव्ययपण्भृतिस्वोयद्राशिगौतदनु
सारिफलंविचित्यम् ॥ षष्ठेन्द्रेपेभृगुसुतेथविनष्टवीर्येदृष्टेखलैःक्षुतद
शाद्रिपदर्क्षसंस्थे ॥ १ ॥ भृत्यक्षतिस्तुरगहाचतुरंग्रिभस्थेन्यास्मिन्न-

पीदमुदितंफलमब्दनाथे ॥ स्वस्थेकुजेशशियुतेतुरगादिनाशः स्याद्भ्या-
कुलत्वमशुभोपहतेव्ययेवा ॥ २ ॥

लघेश तथा वर्षेश बलहीन छठे आठवें बारहवें स्थानमें चतुष्पदादि
जैसी राशिमें हो उसके सदृश फल देते हैं. जैसे चतुष्पदराशि उक्त स्थानोंमें
हो तो चौपायाका वा उससे नाश होवे यह इस भावका सामान्य विचार है.
और विशेष शुक्र नष्ट बल छठे स्थानमें पापग्रहोंसे क्रूरदृष्टि दृष्ट हो तथा
मनुष्यराशिमें हो तो सेवकोंकी हानि होवे तथा ऐसाही शुक्र चतुष्पदराशिमें
हो तो हाथी घोड़े आदि चौपायोंकी हानि करताहै ऐसेही वर्षेशके अष्टम
द्वादश स्थानगत होनेमें फल कहना और वर्षेश मंगल चंद्रया सहित दशम
स्थानमें हो तो घोड़े आदिकोंका नाश करताहै तथा मनमें व्याकुलता भी
करता, तथा पापपीडित मंगल छठे होनेसे भी यही फल देताहै ॥ १ ॥ २ ॥

व० ति०—षष्ठेखलहते चतुरंभ्रिभस्थेभृत्यैःसमंकलिरथा-
ष्टमरिष्फगेपि ॥ मंदेब्दपेबलयुतेरिपुरिष्फसंस्थेभूवासनंदु-
मजलाशयनिर्मितिश्च ॥ ३ ॥

वर्षेश सूर्य्य स्थानमें पापपीडित और चतुष्पदराशिमें हो तो अपने
नौकरोंके साथ कलह होवे तथा आठवाँ और बारहवाँ होनेमें भी यही
फल होता है. और वर्षेश शनि बलयुक्त छठा वा बारहवाँ हो तो त्याग
करीहुई भूमिमें नदीन वसती बनानेसे आजीवन होवे तथा वृक्षारोपण, जल-
स्थान, कूप, तलाव, धारा आदिकोंका निर्माण होवे ॥ ३ ॥

उपजा०—स्वक्षौञ्चगेकर्मणिसूर्य्य त्रैनेरुज्यमथाधिगमश्चजीवे ॥

सूर्य्येनृपाद्बाहुबलात्कुजेथोबुधेभिषग्ज्योतिषकाव्यशिल्पैः ॥ ४ ॥

वषश शनि अपनी राशि १० । ११ का वा उच्च ७ का दशमस्थान
में हो तो शरीर नीरोग रहै तथा धनागम भी होवे जो ऐसाही बृहस्पति वर्षेश
अपनी राशि ९ । १२ वा उच्च ४ का दशम हो तो यही फल देता है तथा
वर्षेश सूर्य्य स्वराशि ५ वा उच्च १ का दशम हो तो राजासे धन मिले तथा वर्षेश
मंगल स्वराशि १ । ८ वा उच्च १० का दशम हो तो अपने बाहुबलसे धनागम

होवे, तथा वर्षेश बुध स्वराशि ३ । ६ उच्चका दशम हो तो वैद्यक ज्योतिष और शिल्प (कारीगरी) से लाभ होवे ॥ ४ ॥

अनु०—मंदेन्दपेगतबलेनैराश्यदौस्स्थ्यमादिशेत् ॥

सूर्य्येन्देशेशशिस्थानेमंदेन्दजनुषोर्हते ॥ ५ ॥

वर्षेश शनि निर्बल पापाक्रांत हो तो नैराश्य (प्राप्ति) नाश होवे तथा एकजगह स्थिति न होवे जो वर्षेश सूर्य्य हो और जन्मके चन्द्रमाकी राशिका वर्षमें शनि हो तथा जन्मकाल वर्षकालमें पापाक्रांत निर्बल शनि हो तो संपूर्ण शुभ कर्मोंमें विकलता (असिद्धि) होवे. और ऐसाही शनि वक्र वा अस्तंगत हो तो उक्तफलही होताहै ॥ ५ ॥

अनुष्ट०—सर्वकर्मसुवैकल्यं वक्रेस्ते च तथा पुनः ॥

कर्मकर्मेशसहमनाथाः शनियुतेक्षिताः ॥ ६ ॥

इस श्लोकके पूर्वाद्धका अर्थ पूर्व ५ श्लोकोंमें लिखाहै उत्तराद्धका यह है. दशमस्थान तथा दशमेश और कर्मेश और कर्म सहमेश शनिसे युक्त वा दृष्ट हो तो (कर्मवैकल्य) कार्यहानि व्यर्थपरिश्रम होवे ॥ ६ ॥

अनुष्टु०—षडष्टव्ययगेन्देशे कर्मेशेचबलोज्झिते ॥

सूतावन्देचनशुभंतत्रान्देमृतिपेतथा ॥ ॥

वर्षेश छठा आठवाँ वा बारहवाँ होवे तथा जन्म और वर्षका दशम भावेश निर्बल हो वर्षका अष्टमेशभी ६ । ८। १२ स्थानमें हो तो इस वर्षमें शुभ फल नहीं होगा ॥ ७ ॥

अनुष्टु०—यत्रभावेशुभफलोद्दुष्टेवाजन्मनिग्रहः ॥

वर्षैतद्भावागस्तादृक्त्तत्फलं यच्छति ध्रुवम् ॥ ८ ॥

जन्ममें जो ग्रह जिस भावमें शुभ वा अशुभ देनेवालाहै वर्षमेंभी वह ग्रह उसी स्थानमें हो तो निश्चय वही फल विशेषतासे देताहै ॥ ८ ॥

इंद्रव०—येजन्मनिस्त्युःसबलाविवीर्यावर्षेसुखंप्राक्चरमेत्वनिष्टम् ॥

दृष्टुर्विलोमं विपरीततायांतुल्यं फलं स्यादुभयत्र साम्ये ॥ ९ ॥

जो ग्रह जन्ममें बलवान् और वर्षमें निर्बल है वह वर्षके पूर्वार्ध में शुभफल

और उत्तरार्द्धमें अशुभ फल देते हैं जो जन्ममें निर्बल और वर्षमें बलवान् हैं वे वर्षके पूर्वार्द्धमें अशुभ उत्तरार्द्धमें शुभ फल देते हैं दोनों कालमें (तुल्य) बली हों तो समान फल देते हैं ॥ ९ ॥

इति श्रीमही० व्ययभावफलाध्यायः ॥ १२ ॥

शार्दू०—श्रीगर्गान्वयभूषणंगणितविचिंतामणिस्तत्सुतो नंतोऽनं
तमतिर्व्यधात्खलमतध्वस्त्यैजः पद्धतिम् ॥ तत्सूनुः खलुनी-
लकंठवि धोविद्विचि वानु यासन्तुष्ट्यैव्यदधाद्विवेचनमिदं
भावे सत्ताजिकात् ॥ १० ॥

इति ताजिकनीलकंठ्यां द्वादशभावविचारः ।

यह श्लोक अध्यायका है इसका अर्थ पूर्ववत्ही है इतना विशेष है कि अच्छे ताजिकग्रन्थोंके मतसे भावफलविवेचना इस अध्यायमें रक्खी है ॥ १० ॥
इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां भावफलप्रकरणं पंचमम् ॥ ५ ॥

अथ वर्षदशाक्रमविचारः ।

उपजा०—स्पष्टान्सलान्खचरान्विधायराशीन्विनात्यल्पलवंतुपूर्वम् ॥
निवेश्यतस्मादधिकाधिकांशक्रमादयंस्यात्तुदशाक्रमोन्दे ॥ १ ॥

पात्यांशी दशाका क्रम कहते हैं. प्रथम लग्नसहित सभी ग्रहोंको स्पष्ट करके राशियोंको छोड़ देना अंशादिदशाक्रमसे स्थापन करना उसका क्रम यह है कि सबसे अल्प अंशवाला ग्रह पहिले और उससे अधिकांश उससे आगे फिर अधिक अधिक अंशवाले का क्रमसे आगे आगे स्थापन करते जाना, अन्तमें सबसे अधिकांश ग्रह आवेगा, यह दशाका स्थापनक्रम है उदाहरण चक्रमें है ॥ १ ॥

स्पष्टाः							अंशादयः								
र	चं	मं	बु	बृ	शु	श	ल	र	चं	मं	बु	बृ	शु	श	ल
३	९	<	४	३	४	३	४	९	२८	१९	२	१९	१६	२१	<
९	२८	१९	२	१९	१६	२१	<	३६	१६	५७	१८	२३	४४	५७	५७
३६	१६	५७	१८	२३	४४	५७	५७	५७	३१	<	२८	३७	२६	३	२
५७	३१	<	२८	३७	२६	३	२	५७	३२	७५	<	१३	७	७	०
५	३१	३०	५४	३६	३२	५२	०								

हीनांशादिक्रमः								
बु.	ल.	सू.	शु.	वृ.	मं.	श.	चं.	०
२	८	९	१६	१९	१९	२१	२८	
१८	५७	३६	४४	२३	५७	५७	१६	०
२८	१२	५७	२६	३७	८	३	३१	

उ०जा०—न्यूनविशोभ्याधिकतःक्रमेणांशाद्यंविशुद्धांशकशेषकैक्यम् ॥
सर्वाधिकांशोन्मितमेवतस्यादनेनवर्षस्यमितिस्तुभाज्या ॥ २ ॥

सभीसे न्यूनंश जो ग्रह है वह उससे अधिकांशमें घटावना; बुनः वह अधिकांशभी उससे अधिकांशमें घटावना, ऐसेही सभी घटायके अंत्यमें जो ग्रह सभीसे अधिकांश है उसके तुल्य सब हीनांशोंका योग होगा, तब ठीक समझना. उदाहरण—सबसे हीनांश बुध २ । १८।२८ अंशादि है यह यथास्थित रहा, इसके आगे इससे अधिकांश लग्न ८ । ५७ । २ है इसमें बुध घटाया तो ६ । ३८ । ३४ यह लग्नके पात्यांश हुये, अब इसके आगे सूर्य ९ । ३६ । ५७ है इसमें लयांश ८।५७।२ घटाया, शेष १ । ३९ । ५५ यह सूर्य हुआ, ऐसेही सभीको पात्यांश करके अंत्यमें सर्वाधिकांश चन्द्रमा २८ । १६ । ३१ है इतनाही सभीका योगभी है, यह निश्चयार्थ

पात्यांशाः							
बु.	ल.	सू.	शु.	वृ.	मं.	श.	चं.
२	६	७	७	२	०	१	६
१८	३८	३९	७	३९	३३	५९	१९
२८	३४	५५	२९	११	३१	५५	२८

युक्तिहै—हीनांश करके भी चन्द्रमा सर्वाधिकांशही रहता है और पात्यांश करके सब अंशादिकोंके योगसे सर्वाधिकांशही होता है, अंत्यके सर्वाधिकांशसे वर्षकी मिति सौरकी ३६० वा सावनकी

३६५।१५। ३१। ३० से भाग देना जो लाभ हो वह वर्षमें लब्धध्रुवांक हागा ॥ २ ॥

उपजा०—शुद्धांशकास्तांगुणयेदनेनलब्धध्रुवांकेनभवेदशायाः ॥

मानंदिनाद्यंखलुतद्ग्रहस्यफलान्यथासांनिगदेत्तुशास्त्रात् ॥ ३ ॥

उक्त प्रकारके लब्ध ध्रुवांकसे प्रत्येक ग्रहके पात्यांशादि गोमूत्रिका क्रमसे वा हीनजाति पिंड करके गुणना, दिन घटी पलात्मक ३ अंक

रखना यह उसी ग्रहके नीचे स्थापन करना दिनादि दशा होतीहै ऐसेही सभी ग्रहोंकी दशा दिनादि निश्चय करके प्रथमवाले ग्रहके दिनादि सूर्यके अंशा-दिकोंमें जोड़कर आगेके ग्रह यथाक्रम जोड़ने और उसके नीचे लिखते जाना अन्त्यमें अगले वर्षका सूर्य स्पष्ट ठीक मिल जायगा अथवा वर्षप्रवेशके दिनघटीपलाओंमें प्रथम दशामान जोड़के क्रमसे सभी जोड़ने अंत्यमें अगले वर्षके दिन घटी पला ठीक मिलेगीं, ऐसेही सावनक्रम तिथ्यादि जोड़नेसे अग्रिम वर्षके तिथ्यादि मिलते हैं, उदाहरण—सब पात्यांशोंका जोड़ २८ । १६ । ३१ यही अंत्यवाले चंद्रमाके अंशादि हैं, अब इससे वर्षकी मितिमें भाग लेनाहै, प्रथम योगको एकजाति करना, जैसे २८ को ६० से गुना १६८० कला १६ जोड़दी १६९६ हुवा, इसे भी ६० से गुना १०१७ ६० हुवा विकला ३१ जोड़दिया १०१७९१ यह सवर्णित भाजक हुवा, इसीप्रकार भाज्य ३६० को भी दोवार ६० से गुनाकर १२९६००० यह सवर्णित भाज्य हुवा, इसमें उक्त भाजकसे लब्ध १२ मिला, फिर शेष ७४५०८ को ६० से गुनाकर भाजकसे भाग लिया ४३ मिला, फिर ऐसाही करनेसे ५५ मिला यह ११ । ४३ । ५५ ध्रुवांक हुवा इससे सभी ग्रहोंके अंशादि गोमूत्रिका क्रमसे प्रत्येक गुणके प्रत्येकके दिनादि दशा होतीहै, उपरांत प्रथम दशावालेके दिनादि वर्षप्रवेश समयके सूर्य स्पष्टमें जोड़ने; फिर उसमें उसके आगेवाली दशा जोड़ना ऐसे क्रमसे सभीको जोड़कर अंत्यमें अगले वर्षप्रवेशसमयका सूर्य स्पष्ट मिलेगा, अथवा प्रथम दशा वालेके दिनादि क्रोंमें वर्षप्रवेशसमयके गत दिन पैट वा प्रविष्टा और घटी पला जोड़के फिर उक्तक्रमसे सभीको जोड़ना, अंत्यमें अगले वर्षप्रवेशका दिन घटी पला आवेंगे, उदाहरण—वर्षप्रवेशमें सूर्य स्पष्ट ३ । ९ । ३६ । ५७ इसी समयमें बुधकी दशा प्रारंभ हुई, बुधके पूर्वक्रमसे दिन २९ घटी २२ पला ६ हैं, सूर्य स्पष्टमें जोड़कर ४ । ८ । ५९ । ३ इतने सूर्यस्पष्ट पर्यंत बुधकी दशा पहुँची, उपरांत दूसरे लग्नकी दशा प्रवेश हुई, विशेष उदाहरणार्थ पाकदिनादि और सूर्यस्पष्ट चक्रमें लिखेहैं, ऐसे संक्रांतिमानके दिनादि जोड़नेसे संक्रांतिक्रम दिनादि मिलते हैं ॥ ३ ॥

बु	ल	सू	शु	वृ	मं	श	चं	योग	ग्रह
२९	८३	९	९०	३३	७	२५	८०	३६०	दशापाकदिन
२२	४४	१९	४२	४६	६	२६	३१	०	वटी
६	२८	३४	१७	४३	४४	४६	२२	०	पला

सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सू	सूर्यः
३	४	७	७	१०	११	११	०	३	स्पष्ट
९	८	२	१२	१२	१६	२३	१९	९	राश्यादि
३६	५९	४३	३	४६	३२	३८	६	३६	
६७	३	३१	६	२२	६	४९	३६	६७	

उपजा०—शुद्धांशसाम्येवलिनोदशाद्यावलस्यसाम्येल्पगतेस्तुपूर्वा ॥

साम्येविलग्रस्यखगेनचित्या वलादिकालज्ञपतेर्विचित्या ॥ ४ ॥

दशाक्रमहीनांश प्रथम उससे अधिक उसके आगे लिखना कहा है, यदि अंशादि दो आदियोंके तुल्य ही हों तो उन्मेंसे जो अधिक बली है वह प्रथम दशेश होगा, यहां 'शुद्धांशसाम्ये' यह पाठ अनुचित है किंतु 'हीनांशसाम्ये' यह पाठ उचित है; जब बलभी समान हो तो मन्द गतिवाला प्रथम शीघ्र गतिवाला उपरांत लिखना, ग्रह और लग्नके अंशादि साम्य होनेपर लग्नेशसे बलादिकका विचार करके जिसकी प्रथम हो उसकी दशा प्रथम लिखनी, यही क्रम है ॥ ४ ॥ अन्तर्दशाके लिये ग्रन्थान्तरका श्लोक है कि, "शुद्धांशयोगेन भजेत्स्वकीयदशादिनाद्यं स्वलवौर्निहन्यात् ॥ शुद्धांशकांशाच्चिजतः क्रमेण चांतर्दशाथो विदशापि चैव ॥ १ ॥"

अर्थात् जिस ग्रहकी अन्तर्दशा करनी है उसके शुद्धांशको पहिले उसीके शुद्धांशसे गुणना फिर जिन २ की अन्तर्दशा लानी हैं उन्हेंउन्हके शुद्धांशसे गुणना तथा सर्वाधिकांशसे भाग लेना लब्धभाजक जात्यनुसार अन्तरदशामान होता है अथवा (प्रकारांतर) उसके मासादिसे जिसकी दशामें अन्तर्दशा करनी हो उसके मासादि गुन देने और हीनांशयोग जो सर्वाधिकांश है उससे भागदेना, लब्धिदिनादि अन्तर्दशा होती है, ऐसेही प्रत्येक ग्रहमें सभीकी

अंतर्दशा होती है उदाहरण—लग्नकी दशादिनादि ८३। ४४ । २८ इसमें सबहीकी अंतर्दशा करनीहै प्रथम बुधहै इसके दिनादि २९ । २२ । ६ सभी ग्रहोंके दशाका योग दिनादि ३६० । ०।० है तो गोमूत्रिका क्रम करके बुधसे लग्न गुनदिया २५०९ । २० । १३ हुआ इसमें ३६० से भाग दिया तो ६ । ५८ । १३ दिनादि लग्नदशामें बुधकी अंतर्दशा हुई ऐसेही और ग्रहोंकीभी अंतर्दशा लेनी सबका योग जिसकी अंतर्दशाहै उसके दिनादि पर ठीक मिले तो सत्य जानना, मासप्रवेशमेंभी दशाका यही क्रमहै, जैसे “ पात्यांशयोगेन भजेद्रतैष्यमासांतरंस्याद्गुणकोत्थितेन ॥ पात्यांशकाःसंगुणितादशाःस्युरुक्तक्रमान्मासफलेदशानाम् ॥ १ ॥ ” मासभिति- ३० ग्रह पात्यांशोंसे गुनाकर पात्यांश योगसे भाग लेना प्रत्येक ग्रह पात्यांशसे ऐसेही रीतिसे प्रत्येककी दशा होतीहै. गौरीमतसे प्रथम दशेशके लिये मासप्रवेशदिननक्षत्रमें जो ग्रह दशेश आवै कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा-षाढसे आ० चं० कु० रा० जी० श० बु० के० शु० ये तीन आवृत्तिसे हैं. यही प्रथम दशाधीश होगा इन सबके दिनादिमान यह है ऐसेही दिन

सू	चं	मं	रा	बु	श	बु	के	शु
१॥	२॥	१॥॥	४॥	५४	४॥॥	४	१॥॥	५

प्रवेशमें दिननक्षत्रसे जानना, और जैसे जातककी मुख्यदशा दशहै ऐसेही-वर्षकीभी पात्यांश १ तासीर २ भावतासीर ३ स्थलभावतासीर ४ काल-होरादशा ५ हद्दादशा ६ नैसर्गिकदशा ७ तनुभावदशा ८ मुद्दादशा ९ बल-राममतीदशा १० दश दशाहैं. यहां ग्रन्थभूयस्त्वभयसे ग्रंथकचाने मुख्य पात्यांशही स्थित करीहैं तथापि सर्व साधारणमें जैसे जातककी महादशा ऐसे वर्षमें भी उसी छायासे मुद्दादशा प्रमाण प्रचलित और फलमें अनुभव करीहै, इसलिये इस दशाका क्रम लिखताहूं. “ जन्मक्षंसंख्यासहिता गताब्दा हगूनितानंदहतावशेषाः ॥ आ. चं. कु. रा. जी. श. बु. के. शु. पूर्वा ग्रहा दशास्वामिन इत्थमब्दे ॥ १ ॥ ” जन्मनक्षत्रमें गतवर्ष जोडके दो घटायदेना शेष ९से भाग देकर जो शेष रहै वह आ. चं. कु. रादि क्रमसे दशेश जानना.

(१६६)

ताजिकनीलकण्ठी ।

जैसे जन्मनक्षत्र रोहिणी ४ गतवर्ष ८ जोडके १२ हुये दो घटाये १० रहे ९ से भाग देकर १ शेष रहा तो सूर्यकी दशा प्रथम हुई २ शेषमें चंद्रमा ३ में मंगल ४ में राहु ५ में बृहस्पति ६ में शनि ७ में बुध ८ में केतु ९ में शुक्रकी दशा होतीहै उपरांत ग्रहोंके जो जातकोक्त दशावर्ष सू. ६ चं. १० मं. ७ राहु. १८ बृ. १६ श. १९ बु. १७ के. ७ शु. २० है इन्है तीनसे गुनाकर वर्षके दिन होतेहैं, जैसे सूर्यके १८ चंद्रमाके ३० मंगल २१ रा. ५४ बृ. ४८ श. ५७ बु. ५१ के. २१ शु. ६० दिन होतेहैं. अब इसकी अन्तर्दशाके लिये सुगम रीति है. कि "वेदा ४ नागाः ८ शराः ५ सप्त ७ दिग् १० रसां ६ क० ९ शरा ५ रसाः ६ ॥ सूर्यादीनां च गुणकास्तौर्निघ्नास्वदशामितिः ॥ १ ॥ पट्याभांतर्दशास्तस्यजायतेऽति-मुदादशाक्रमः ।

सू	चं	मं	रा	बृ	श	बु	के	शु	ग्रहाः
कृ	रो	मृ	आ	पु	ति	क्ल	म	पू	नक्षत्र
उ	ह	वि	त्वा	वि	अ	ज्ये	मृ	पू	नक्षत्र
उ	श्र	धं	श	पू	उ	रे	अ	भ	नक्षत्र
आ	क्ल	उ	त्वा	ज्ये	उ	श	रे	कृ	आर्द्रादि
३	३	३	३	३	३	३	३	३	क्रमः
१८	३०	२१	५४	४८	५७	५१	२१	६०	दिनयोः ३६०
१॥	२॥	१॥॥	४॥	४	४॥॥	४॥	१॥॥	५	योग ३०
३	५	३॥	९	८	९॥	८॥	३॥	१०	योग ६०

परिस्फुटा ॥ यस्यवर्षेभवेत्तस्य प्रथमांतर्दशा भवेत् ॥ २ ॥ अन्यास्तदग्निमस्थानाज्जायतेतर्दशा अपि ॥ ३ ॥" इन क्षेपकोंसे प्रत्येक ग्रहके दशादिन गुननेसे प्रत्येककी अंतर्दशा होतीहै ॥ जैसे गु० सूर्यके दिन १८ से गुने ७२ साठसे भाग दिया १ । १२ यह सूर्यकी दशामें सूर्यका अंतर हुवा उपरांत चंद्रमाका गुणक ८ से सू० १८ गुना १४४ हुवा ६० से भाग दिया तो २।२४ यह सूर्यमें चंद्रमाकी अंतर्दशा दिनादि हुई ऐसेही सभी ग्रहोंको जानना प्रकटताको चक्रमें लिखेहैं ॥ ४ ॥

सू	चं	भौ	रा	वृ	श	बु	के	शु	ग्रहः
१८	३०	२१	५४	४८	५७	५१	२१	६०	
१८	४८	६९	१२३	१७१	२२८	२७९	३००	३६०	योग
४	८	५	७	१०	६	९	५	६	गुणक

सू	चं	भौ	रा	वृ	श	बु	के	शु	ग्रहः
११२२	११२२	४१०	११४५	६११८	८१०	५१४२	७३९९	११४५	गुणक
चं	भौ	रा	वृ	श	बु	के	शु	आ	०
२१२४	२३०	२१२७	९१०	४४८	८३३	४१५	२१६	४११	०
भौ	रा	वृ	श	बु	के	शु	आ	चं	०
१३०	३३०	३३०	५२४	७१२	४१५	५६	१२४	८१०	०
रा	वृ	श	बु	के	शु	आ	चं	भौ	०
२	५१०	२१६	८६	४१०	४४८	३४८	३४८	११४५	०
वृ	श	बु	के	शु	आ	चं	भौ	रा	०
३१०	३१०	३१४	४३०	४४८	३४८	६४८	११४५	७१०	०
श	बु	के	शु	आ	चं	भौ	रा	वृ	०
११४	४३०	११४५	५२४	३१२	६२४	५१५	२१२७	१०१०	०
बु	के	शु	आ	चं	भौ	रा	वृ	श	०
२१४२	१३०	२१६	३३६	६२४	४१४५	५१५७	३३०	६१०	०
के	शु	आ	चं	भौ	रा	वृ	श	बु	०
१३०	३१०	११२४	७१२	४१०	६३०	८३०	२१६	९१०	०
शु	आ	चं	भौ	रा	वृ	श	बु	के	०
११४८	२१०	२१४८	४३०	५३६	१३१	५६	३१९	५१०	७०

अथ दशाफलानि ।

अनु०—हेममुक्ताफलद्रव्यलाभमारोग्यमुत्तमम् ॥

कुरुतेस्वामिसम्मानंदशालग्रस्यशोभना ॥ ५ ॥

लग्नकी उत्तम दशाका फल—सुवर्ण, मोती, द्रव्य, इनका लाभ, उत्तम आरोग्य और स्वामीसे सन्मान देती है ॥ ५ ॥

लाभंदिष्टेनवित्तस्यमानहीनस्यसेवनम् ॥

मनसोविकृतिं र्याद्दशाल स्यमध्यमा ॥ ६ ॥

लग्नकी मध्यम दशाका फल ऐसा है कि लग्नकी मध्यम दशा दिष्टेन (भा-

ग्यसे) द्रव्यका लाभ मानहीनकी सेवा मनका और विकार करती है "दिष्टं दैवं भागधेयमित्यमरः" ॥ ६ ॥

विदेशगमनंक्लेशबुद्धिनाशंकदव्ययम् ॥

मानहानिकरोत्येवंक क्लेशदशाफलम् ॥ ७ ॥

कष्टालग्रदशाका फल-विदेशमें जाना क्लेश, बुद्धिका नाश युद्ध व्यय और मानकी हानि कष्टालग्रदशा करतीहै यह कष्टालग्रदशाका फल है ॥ ७ ॥

रूल दशामध्यासौख्यंस्वल्पंधनव्ययम् ॥

अंगपीडांत्व ष्टिचक्रुरुतेमृत्युविग्रहम् ॥ ८ ॥

क्रूर लग्नकी दशा मध्यम रहती है. वह स्वल्प सौख्य धनका व्यय अंगमें पीडा क्लशता मृत्यु और झगडा ये करती है ॥ ८ ॥

उपजा०—दशारवेःपूर्णबलस्यलाभं गजाश्वहेमांबररत्नपूर्णम् ॥

मानोदयंभूमिपतेर्ददाति यशश्चदेवद्विजपूजनादेः ॥ ९ ॥

अब ग्रहदशाका फल कहते हैं—पूर्णबली सूर्यकी दशा हो तो हाथी घोडे सुवर्ण रत्नादिसे पूर्ण लाभ होवे तथा राजासे मानोदय और देवता ब्राह्मण पूजनादिसे यश देताहै ॥ ९ ॥

उपजा०—दशारवेर्मध्यबलस्यसर्वमिदंफलमध्यममेवदत्ते ॥

ग्रामाधिकारव्यवसायधैर्यैःकुलानुमानाच्चसुखादिलाभः ॥ १० ॥

जो सूर्य मध्यबली हो तो अपनी दशामें पूर्वोक्त फल मध्यम और कुलानुमान मानादियोंका अधिकार व्यवसाय धीरतासे सुखादिलाभ देताहै ॥ १० ॥

उपजा०—दशारवेरल्पबलस्यपुंसांददातिदुःखंस्वजनैर्विवादात् ॥

मतिभ्रमंपित्तरुजंस्वतेजोविनाशनंधर्षणमप्यरिभ्यः ॥ ११ ॥

अल्पबली सूर्य अपनी दशामें अनेक प्रकार दुःख तथा अपने मनुष्यों के साथ विवाद बुद्धिभ्रम पित्तरोग धनहानि और शत्रुसे पराभव (हार) भी देताहै ॥ ११ ॥

उपजा०—दशारवेर्नष्टबलस्यपुंसांनृपाद्रिपोर्वाभयमर्थनाशम् ॥

स्त्रीपुत्रमित्रादिजनैर्विवादं करोतिबुद्धिभ्रममामयंच ॥ १२ ॥

नष्टबली सूर्य्य अपनी दशामें पुरुषोंको राजासे भय धननाश स्त्रीपुत्रमि-
त्रोंसे धनसंबंधी विवाद बुद्धिभ्रम और रोगभी करता है ॥ १२ ॥

उपजा०—लग्नद्रविःषट्त्रिदशायसंस्थोनिद्योपिदत्तेशुभमर्द्धमेव ॥

मध्यत्वमूनःशुभतांचमध्येयातीत्यमत्यंतशुभःशुभःस्यात् ॥ १३ ॥

जो सूर्य्य लग्नसे ६।३।१०।११ स्थानमें हो तो निर्बलभी हो तो भी आधा
फल शुभ देताहीहै आर हीनबली होके पूर्वोक्त स्थानोंपर हो तो मध्यत्वका
फल देता है और मध्यबली हो के होय तो पूर्णबलका फल देता है तथा
उत्तमबली होके होय तो अत्यंत शुभ फल देताहै ॥ १३ ॥

उपजा०—इंदोर्दशापूर्णबलस्यदत्तेशुक्लांबरस्रङ्गमणिमौक्तिकाद्यम् ॥

स्त्रीसंगभंराज्यसुखंचभूमिलामंयशः कांतिबलाभिवृद्धिम् ॥ १४ ॥

पूर्णबली चंद्रमाके दशामें श्वेत वस्त्र माला मणि मोती आदिकोंका लाभ
होवे और स्त्रीसंगमसे तथा राज्यसे सुख भूमिलाभ और यश क्रांति बल बढै १४

इंदोर्दशा मध्यबलस्यसर्वमिदंफलंमध्यममेवदत्ते ॥

वाणिज्यमित्रांबरगेहसौख्यंधर्मप्रतिकर्षणतोन्नलामम् ॥ १५ ॥

मध्यबली चंद्रमा अपनी दशामें पूर्वोक्त संपूर्ण फल मध्यम देताहै तथा व्या-
पारसे लाभ मित्र वस्त्र घरका सुख धर्मकी वृद्धि और कृषिकार्यमें लाभ देताहै १५

इंदोर्दशास्वलपबलस्यदत्तेकफामयंकांतिविनाशमाहुः ॥

मित्रादिवैरंजननंकुमार्याधर्मार्थनाशंसुखमल्पमत्र ॥ १६ ॥

अल्पबली चंद्रमाकी दशा कफरोग तथा शरीरकी कांतिका नाश मित्रादि
कोंसे वैर कन्याका जन्म धर्म धनका नाश और सुख अल्प देतीहै ॥ १६ ॥

इंदोर्दशा नष्टबलस्यलोकापवादभीर्तिधनधर्मनाशम् ॥

शीतामयंस्त्रीसुतामित्रवैरंदौःस्थ्यंचदत्तेविरसान्नुक्तिम् ॥ १७ ॥

नष्टबली चंद्रमाकी दशा शीतरोग पुत्रमित्रोंसे वैर और शरीरका अस्वास्थ्य
स्वादाहरित अन्नके भोजन झूठा कलंक और धन तथा धर्मका नाश करतीहै १७

षष्ठाष्टमांत्येतरराशिसंस्थोनिद्योपिदत्तेर्द्धसुखंदशायाम् ॥

मध्यत्वमूनःशुभतांचमध्ये यातीत्यमिदुःशुभगःशुभःस्यात् ॥ १८ ॥

जो चंद्रमा ६।८।१२ स्थानोंमें न हो तो हीनबलभी आधा शुभ फल देता

है, हीन बल उक्त भिन्न स्थानोंपर हो तो मध्यबलका फल देताहै और मध्यबली हो तो शुभ फल देताहै और उत्तमबली हो तो अत्यंत शुभफल देताहै १८

दशापतिःपूर्णबलोमहीजःसेनापतित्वंतनुतेनराणाम् ॥

जयरणेविद्रुमहेमरत्नवस्त्रादिलाभंप्रियसाहसत्वम् ॥ १९ ॥

दशापति मंगल पूर्ण बली हो तो मनुष्योंको सेनापतित्व, बहुतोंका अग्र गण्य करताहै तथा संग्राममें जय मूंगा सुवर्ण रत्न वस्त्रोंका लाभ और साहसभी देता है ॥ १९ ॥

दशापतिर्मध्यबलोमहीजः कुलानुमानेन धनं ददाति ॥

गजाधिकारोप्यथतत्परत्वं तेजस्वितांकातिबलाभिवृद्धिम् ॥ २० ॥

दशापति मध्यबली मंगल कुलानुमान धन देताहै तथा हाथियोंका अधिकार और हाथीकी सवारीमें प्रसन्न रहै तथा तेजस्वित्व कांति और बलकी वृद्धि देताहै ॥ २० ॥

उपजा०—दशापतिःस्वल्पबलोमहीजोददातिपित्तोष्णरुजंशरीरे ॥

रिपोर्भयबंधनमास्यतोभृक्स्रवंचवैरस्वजनैश्चशश्वत् ॥ २१ ॥

दशापति मंगल अल्पबली हो तो अपनी दशामें पित्त और गरमीके विकारसे शरीरमें रोग देताहै तथा शत्रुभय यद्वा बंधन तथा मुखसे रुधिरस्राव और अपने मनुष्योंके साथ निरंतर वैर होवे ॥ २१ ॥

उपजा०—दशापतिर्नष्टबलोमहीजोविवादमुग्रंजनयेद्रागांवा ॥

चौराद्भयंरक्त रुजंज्वरंचविपत्तिमल्पस्वहृतिचखर्जम् ॥ २२ ॥

दशापति मंगल नष्टबल हो तो उत्कट कलह अथवा रणही करदेताहै तथा चोरसे भय रुधिरसंबंधि रोग, विपत्ति, थोड़ी धनहानि और खुजली का रोग करताहै ॥ २२ ॥

अनुष्टु०—त्रिपष्टायगतोभौभोनष्टवीर्य्यःशुभाद्धदः ॥

मध्योहीनः शुभोमध्यः शुभोत्यंतंशुभावहः ॥ २३ ॥

मंगल दशापति ३।६।११ स्थानमें नष्टबली हो तो शुभफल आधा देता है, हीनबली हो तो मध्यबलीका फल देताहै और मध्यबली होके शुभ फल देता है और उत्तम बली हो तो अत्यंत शुभ फल देता है और भावोंका उक्ती जानना ॥ २३ ॥

उपजा०—दशापतिःपूर्णबलोबुधश्चेद्यशोभिवृद्धिर्गणितात् शिल्पात् ॥

तनोतिसेवांसफलांनृपादेर्दूत्यंचवैदूष्यगुणोदयंच ॥ २४ ॥

दशापति बुध पूर्णबली हो तो गणित एवं शिल्पविद्यासे यश बढे राजादि-
कोंकी सेवा सफल होवे दूतत्व मिले और निर्दोष गुणोंका उदय होवे ॥ २४ ॥

उपजा०—दशापतिर्मध्यबलोबुधश्चेद्गुरोस्सुहृद्भ्योऽलिपिकाव्यशिल्पैः ॥

धनाभिदोथोसुतमित्रबंधुसमागमान्मध्यममेवसौख्यम् ॥ २५ ॥

दशापति बुध अल्पबली हो तो गुरुजन मित्रजन एवं लिखने पढने और
शिल्पविद्यासे धनप्राप्ति होवे, और पुत्र मित्र बंधुजनोंका समागम होवे
सुख मध्यम होवे ॥ २५ ॥

उपजा०—दशापतावल्पबलेबुधेस्यान्मानस्यनाशःस्वजनापवादः ॥

अकार्य्यकोपस्वलनाद्यनिष्टंधनव्ययंरोगभयंचविद्यात् ॥ २६ ॥

दशापति बुध अल्पबली हो तो माननाश अपने जनोंसे झूठा कलंक विना
प्रयोजनका कोप अपनी वाणी चकजानेसे बुरा धन खर्च और रोगभय
भी जानना ॥ २६ ॥

उपजा०—दशापतौहीनबलेबुधेस्यात्स्व द्विनाशोवधबंधभीतिः ॥

दूरेगतिर्वातकफामयार्त्तिर्निखातवित्तस्यचनापिलामः ॥ २७ ॥

हीनबली बुधके दशापति होनेमें अपनी बुद्धिका नाश और बंधन, वा
वध, कार्श्यसंबंधी भय, दूरगमन वातकफसंभव रोगसे पीडा होवे और
अपना ही स्थापित द्रव्य नहीं मिले ॥ २७ ॥

अनुष्टु०—षडष्टान्त्येतरर्क्षस्थोनष्टोऽज्ञोर्द्धशुभप्रदः ॥

मध्योहीनःशुभोमध्यःशुभोऽत्यंतसुखावहः ॥ २८ ॥

दशापति बुध ६।८।१२ स्थानोंसे रहित और किसी स्थानमें हो तो
नष्टबलीभी आधा शुभ फल देताहै, जो षडष्टान्त्य मित्रस्थानोंमें नष्टबल बुध
मध्यबलका फल और मध्यबली शुभ फल देताहै, उत्तमबली अत्यंत शुभ-
फल देता है ६।८।१२ स्थानोंमें उत्तमबली भी अशुभ हीनबली अत्यंत अ-
शुभ फल देताहै ॥ २८ ॥

उपजा०—गुरोर्दशापूर्णबलस्यदत्तेमानोदयंराजसुहृद्गुरुभ्यः ॥

कांत्यर्थलाभोपचयंसुखानिराज्येसुत तिरि रोगनाशम् ॥ २९ ॥

पूर्णबली बृहस्पतिकी दशा राजा मित्र और गुरुजनोंसे मान देतीहै तथा क्रांति बढ़तीहै धनलाभ बहुत राज्यका सुख पुत्रप्राप्ति शत्रु और रोगका नाश होता है २९ ॥

उपजा०—गुरोर्दशामध्यबलस्यधर्मैर्मतिसखित्वंनृपमंत्रिवर्गैः ॥

तनोतिमानार्थसुखाभिलाभंसिद्धिसदुत्साहबलातिरेकाम् ॥ ३० ॥

मध्यबली बृहस्पतिकी दशामें राजासे मित्रता पुत्र स्त्री सुख और मित्र व धर्मके लाभ होतेहैं ॥ ३० ॥

दशागुरोरल्पबलस्यदत्तोरोगदारिद्र्यत्वमथारिभीतिम् ॥

कर्णामयंधर्मधनप्रणाशवैराग्यमर्थंच णंचकिंचित् ॥ ३१ ॥

अल्पबली बृहस्पतिकी दशा रोग दारिद्र्य और शत्रुभय देती है तथा कानोंमें रोग धर्म तथा धनका नाश होताहै परंच चित्तमें वैराग्य और थोडा धनागम और स्वल्प गुणभी देती है ॥ ३१ ॥

उपजा०—दशागुरोर्नष्टबलस्य सांदद तिदुःखानिरुजंकफार्तिम् ॥

कलत्र त्रस्वजनादिभीर्तिधर्मार्थनाशंतन्पीडनंच ॥ ३२ ॥

अल्पबली बृहस्पतिकी दशा पुरुषोंको अनेक दुःख एवं रोग कफविकारसे कष्ट और स्त्री पुत्र एवं अपने मनुष्यादिकोंको भय धर्म और धनका नाश तथा शरीरपीडा देतीहै ॥ ३२ ॥

अनुष्टु०—पडष्टरिष्फेतरगोगुरुर्निद्योर्द्धसत्फलः ॥

मध्योहीनःशुभोमध्यःशुभोत्यंतशुभावहः ॥ ३३ ॥

दशापति बृहस्पति ६।८।१२ भावोंसे अन्य स्थानोंमें हो तो नष्टबली भी शुभफल आधा देताहै और हीनबली मध्यफल और मध्यबली शुभ फल देताहै और पूर्णबली अत्यंत शुभफल देताहै ६।८।१२ स्थानोंमें उत्तमबली भी शुभफल पूर्ण नहीं देता ॥ ३३ ॥

उपजा०—दशाभृगोःपूर्णबलस्यसौख्यस्रग्गंधवेशमांबरकामिनीभ्यः ॥

ह्यादिलाभःसुतकीर्तितोषानैरुज्यगांधर्वरतिः पदाप्तिः ॥ ३४ ॥

पूर्णबली शुक्रकी दशा, माला सुगंधि वस्तु गृह व स्त्रीजनोंसे सुख दे-

तीहै तथा घोडा आदि वाहनलाभ पुत्रसुख कीर्ति नीरोगता गायनादि आनंद और पदलाभ देतीहै ॥ ३४ ॥

उपजा०—दशाभृगोर्मध्यबलस्यदत्तेवाणिज्यतोर्थागमनंकृषेश्च ॥

मिष्टा पानांबरभोगलाभमित्राणिश्चयोषित्सुतसौख्यलाभम् ॥ ३५ ॥

मध्यबली शुक्रकी दशामें व्यापारसे तथा कृषिकर्मसे धनलाभ और मीठा अन्न सवारी वस्त्रादि भोगलाभ और मित्र पुत्र स्त्रीसे सुख मिले ॥ ३५ ॥

उपजा०—दशाभृगोरल्पबलस्यदत्तेमतिभ्रमंज्ञानयशोर्थनाशम् ॥

कदन्नभोज्यव्यसनामयात्तिस्त्रीपक्षवैरंकलिमप्यरिभ्यः ॥ ३६ ॥

अल्पबली शुक्रकी दशा बुद्धिभ्रम ज्ञान यश और धनका नाश करतीहै तथा जुंवार बाजरा आदिक अन्न भोजन व्यसनबुद्धि रोगपीडा स्त्रीपक्षसे वैर शत्रुसे कलह होताहै ॥ ३६ ॥

उपजा०—दशाभृगोर्नष्टबलस्यदत्तेविदेशयानंस्वजनैर्विरोधम् ॥

पुत्रार्थभार्याविपदोरुजश्चमतिभ्रमोपिव्यसनंमहच्च ॥ ३७ ॥

नष्टबली शुक्रकी दशा विदेशगमन अपने मनुष्योंसे विरोध पुत्र धन स्त्री आदिकी विपत्ति और रोग बुद्धिभ्रम तथा बडा व्यसन देतीहै ॥ ३७ ॥

अनुष्टु०—षडष्टरिष्फेतरगोभृगुर्निद्योर्द्धसत्फलः ॥

मध्योहीनःशुभोमध्यःशुभोत्यंतशुभावहः ॥ ३८ ॥

दशापति शुक्र ६ । ८ । १२ से अन्य स्थानोंमें नष्टबलीभी शुभ फल आधा देताही है और हीनबली मध्य फल मध्यबली शुभ फल देता है, उत्तमबली अत्यंत शुभ फल देताहै ६ । ८ । १२ स्थानोंमें शुभभी अशुभ देताहै ॥ ३८ ॥

उपजा०—दशाशनेःपूर्णबलस्यदत्तेनवीनवेशमांबरभूमिसौख्यम् ॥

आरामतोयाश्रयनिर्मितिश्चम्लेच तिसंगान्त्वपतेर्द्धनासिः ॥ ३९ ॥

पूर्णबली शानिकी दशा नये घर वस्त्र भूमिका सुख देती है वा जलस्थान निर्माण और म्लेच्छसे तथा राजासे धनप्राप्ति होतीहै ॥ ३९ ॥

उपजा०—दशाशनेर्मध्यबलस्यदत्तेखरोष्टपाखंडजतोधनाप्तिम् ॥

वृद्धांगनासंगमदुर्गरक्षाधिकारचिंताविरसान्नभोगः ॥ ४० ॥

मध्यबली शानिकी दशा गंधा ऊंट एवं उडदआदि अन्न और (पाखंडज)

मिथ्या धर्मसंचारसे धनप्राप्ति होवे तथा वृद्धास्त्रीका संगम होवे किलाआदि की रक्षा अधिकारकी चिंता होवे रसरहित अन्न भोजनको मिले ॥ ४० ॥

उपजा०—दशाशनेःस्वल्पबलस्यपुंसांतनोतिदुःखंरिपुतस्करेभ्यः ॥

द्वारिद्यमात्मियजनापवादरोगंचशीतानिलकोपमुग्रम् ॥ ४१ ॥

अल्पबली शनिकी दशा पुरुषोंको शत्रु और चौरोंसे दुःख देतीहै तथा दरिद्रता अपने मनुष्यसे झूठा कलंक और शीत तथा वातके कोपसे उग्र-रोग उत्पन्न होवे ॥ ४१ ॥

उपजा०—दशाशनेर्नष्टबलस्यपुंसामनेकधादुर्व्यसनानिदत्ते ॥

स्त्रीपुत्रमित्रस्वजनैर्विरोधरोगादिवृद्धिमरणेनतुल्याम् ॥ ४२ ॥

नष्टबली शनिकी दशा पुरुषोंको अनेक व्यसन देती है तथा पुत्रमित्रादि अपने मनुष्योंसे विरोध रोगादिकोंकी वृद्धि मरणतुल्य करती है ॥ ४२ ॥

अनुष्ट०—त्रिषु लाभोपगतोमंदोर्निद्योर्द्धसत्फलः ॥

मध्येहीनःशुभोमध्यःशुभोत्यंतशुभावहः ॥ ४३ ॥

शनि ३ । ६।११ स्थानोंमें नष्टबली भी आधा शुभफल देताही है तथा हीनबली मध्य मध्यबली शुभ फल देताहै उत्तमबली अत्यंतही शुभ फल देताहै ॥ ४३ ॥

उपेन्द्रव०—दशातनोःस्वामिबलेनतुल्यफलंददातीत्यपरोविशेषः ॥

चरेशुभामध्यफलाधमाचद्विसूर्तिभेस्याद्विपरीतसूह्यम् ॥ ४४ ॥

लग्नकी दशा अपने स्वामिबलके सदृश फल देतीहै, जैसे उदित स्वग्रहा-दिगत लग्नेश हो तो उसका उत्तमबली दशोक्तफल और अस्त नीच होनेमें हीनबलोक्त स्वदशा फल देताहै इसमें यह विशेष है कि चरलग्नमें प्रथम द्रेष्काण हो तो दशा शुभ दूसरे द्रेष्काणमें मध्यबलोक्त और तीशरे द्रेष्काणमें हीनबलोक्त दशा फल देतीहै द्विस्वभाव राशिमें चरसे विपरीत अर्थात् प्रथम द्रेष्काणमें अधम द्वितीयमें मध्यम तृतीयमें उत्तम बलीका फल देतीहै ॥ ४४ ॥

उपे०व०—अनिष्टमिष्टंचसमस्थिरक्षैक्रमाहकाणैःफलमुक्तमाद्यैः ॥

सत्स्वामियोगेक्षणतःसुखंस्यात्पापेक्षणात्कष्टफलंचवाच्यम् ॥ ४५ ॥

स्थिरराशिमें प्रथम द्रेष्काण हो तो हीनबलीका दूसरा हो तो उत्तमबली

का तीसरा हो तो मध्यमबलीका फल देताहै। इसप्रकार पूर्वाचार्याँने लग्नदशा का फल द्रेष्काणवशासे कहाहै तथा लग्नपर लग्नेशकी दृष्टि हो वा लग्नमें लग्नेश ही तो सु और पापयोग पापदृष्टिसे कष्टफलभी कहना ॥ ४५ ॥

अर्थांतर्दशाप्रकारः । अ०—दशामानसमामानंप्रकल्प्योक्तेनवर्त्मना ॥

अंतर्दशाःसाधनीयाःप्राक्पात्यांशवशेनतु ॥ ४६ ॥

अंतर्दशाकी रीति कहते हैं कि, पहिले जिसविधिसे पात्यांशी दशा कही वही इसकीभी है और सावनवर्षभितिका जहां काम है तहां दशेशकी दशा दिनादि लेलेने यही विशेषहै, जैसे पहिले हीनांशवशासे पात्यांश लियेहैं तहां पात्यांश-योगसे सौर वा सावन दिनादि दशाभिति भाजनेसे मिलेहैं, वही अंतर्दशामेंभी श्रुवक जानना उसीसे सभी पात्यांश गुनाकर प्रत्येककी अंतर्दशा मिलतीहै।

शुक्रान्तर्दशादिनोदाहरणम् ।

शु.	वृ.	मं.	शं.	चं.	वृ.	ल.	सू.	या.	प्र.
२२	७	१	६	२०	७	२१	२	१०	सौरसावनाद्याभि
५१	५१	४७	२४	१७	२४	१८	४७	४२	
१६	३७	३०	३९	१४	९	३०	१७	१७	
१८	२९	५०	५७	४१	३३	४८	२४	००	
७	८	८	८	९	९	१०	१०	१०	सौरशुक्रयाकाः
१२	४	१२	१४	२०	११	१८	९	१२	
३	५४	४५	३३	५८	१५	३९	५८	४५	
५	२१	५८	२९	९	२४	३३	४	२२	
०	१८	४७	३७	३४	१५	४८	३६	००	

उदाहरण—शुक्रदशादिनादि १० । ४२ । १७ संवर्ण करके पहिलोंका साधा सवर्णित पात्यांश योगसे भाग लिया तो लब्धि ३ । १२ । २८ श्रुवक हुवा इससे प्रत्येकके पात्यांश गुनाकरके प्रत्येककी अंतर्दशा होतीहै उपरांत सूर्य स्पष्ट वा संक्रांतिदिनोंसे पूर्ववत् जोड़करना ॥ ४६ ॥

अनुष्टु०—आदावंतर्दशापाकपतेस्तत्क्रमतोपराः ॥

भेक्षणान्वयान्मैत्र्यातत्फलंपरिकल्पयेत् ॥ ४७ ॥

अंतर्दशामें प्रथम दशापति अर्थात् जिसका अंतर है तदनंतर जिसक्रमसे उक्त दशाका न्यास है वैसेही सभी ग्रह लिखने अंतर्दशा स्वामीकाभी चारप्रकारका बल देखके फल कहना, जैसे अंतर्दशापतिसे शुभग्रहोंकी दृष्टि वा योग हो उसके अनुसार स्थान उच्चनीचास्तोदयमें दशेशका फल शुभाशुभ कहना ऐसेही पापयोग दृष्टिसेभी अंतर्दशाका फल जानना ॥ ४७ ॥

अनुष्टु०—चंद्रारजीवाःसौम्येज्यशुक्रोरविविधुस्तथा ॥

मदेज्यशुक्राःसूर्येदुभौमाःसौम्येज्यसूर्यजाः ॥ ४८ ॥

जीव शुक्राः सूर्यादेः शुभाअं दशाइमाः ॥

अन्येषामशुभाज्ञेया इति वामनभाषितम् ॥ ४९ ॥

सूर्यकी दशामें चंद्रमा मंगल बृहस्पति चंद्रमाकीमें बुध बृहस्पति शुक्र, मंगलमें सूर्य चंद्रमा बुधमें शनि बृहस्पति शुक्र बृहस्पतिमें सूर्य चंद्रमा मंगल शुक्रमें बुध बृहस्पति शनि और शनिमें बृहस्पति बुध शुक्रकी अंतर्दशा शुभ फल देतीहै. यह वामनाचार्यने कहाहै, परंतु ऐसा फल वर्त्तमानमें यथार्थ मिलता नहीं है, शुभाशुभ ग्रहोंका बलाबल विचारसे फल यथार्थ मिलता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ इति महीधरकृतायां नीलकंठीभा० दशाफलाध्यायः ॥ १३ ॥

अथ ग्रहाणां भावफलानि ।

उपजा०—सूर्यारमंदास्तनुगाज्वरार्तिधनक्षयंपाप गिंदुरिस्थम् ॥

शुभान्वितःपुष्टतनुश्चसौख्यंजीवज्ञशुक्राधनराज्यलाभम् ॥ ५० ॥

अब ग्रहोंके भावफल कहतेहैं कि सूर्य मंगल शनि प्रत्येक वा सभी लग्नमें हों तो ज्वर संबंधी पीडा धनहानि करते हैं. पापयुक्त चंद्रमाभी लग्नमें यही फल देताहै जो पूर्ण और शुभयुक्त हो तो सुख देताहै पर अल्पमें अल्प अधिकमें अधिक ऐसा बुद्धिसे समझ लेना तथा बृहस्पति बुध शुक्र लग्न में धन और कुलानुमान राज्यसुख देते हैं, बुध लग्नका केवल वा सशुभ हो तो हर्ष देताहै ॥ ५० ॥

उपजा०—चंद्रज्ञजीवास्फुजितोधनस्थाधनागमंराज्यसुखंचदद्युः ॥

पापाधनस्थाधनहानिदाःस्थुर्नृपाद्भयंकार्यविघातमार्किः ॥ ५१ ॥

धनस्थानमें चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र धनागम तथा राज्यसुख

देते हैं पूर्ण चन्द्रमा शुभयुक्तभी यही फल देता है और पापग्रहयुक्त चन्द्रमा धनस्थानमें धनहानि देता है विशेषतः शनि तो राजासे भय और कार्य-नाशभी करता है ॥ ५१ ॥

वसन्ताति०—दुश्चिक्वयाः खलखगा धनधर्मराज्यलाभप्रदा ब-
लयुताः क्षितिलाभदाः स्युः ॥ सौम्याः सुखार्थव लाभयशो-
विलासलाभाय हर्षमतुलं किल तत्र चन्द्रः ॥ ५२ ॥

तृतीयभावमें पापग्रह धन धर्म और राज्यसुख देते हैं बलवान् हों तो भूमिलाभभी करते हैं शुभग्रह सुख धनलाभ कार्यसिद्धि यश विलासादि सौख्य करते हैं और चन्द्रमा अनुपम हर्ष देता है पूर्ण क्षीणका यहां उपचय होनेसे अपेक्षा नहीं है ॥ ५२ ॥

वसन्ताति०—चन्द्रः सुखेखलयुतो व्यसनं रुजं च पुष्टशुभेन सहितः
सुखमातनोति ॥ सौम्यः सुखं विविधमत्र खलाः सुखार्थनाशं रुजं
व्यसनमप्यतुलं भयं वा ॥ ५३ ॥

चतुर्थभावमें चंद्रमा सुख देता है पापयुक्त हो तो घृतादि व्यसन और रोग करता है शुभयुक्त पूर्ण हो तो सुख देता है और शुभग्रह अनेक प्रकार सुख देते हैं, पापग्रह सुख और धनका नाश तथा रोग व्यसन वा अनुपम भय देते हैं ॥ ५३ ॥

रथोद्ध०—त्रिवित्तसुखसंचयं शुभाः पुत्रगा भृ सुतोतिहर्षदः ॥

पुत्रवित्तधनबुद्धिहारकास्तस्करामयकलिप्रदाः खलाः ॥ ५४ ॥

पंचम भावमें शुभग्रह पूर्ण चन्द्रमा पुत्र धन और सुख बढाते हैं शुक्र तो अतिही हर्ष देता है पापग्रह पुत्र मित्र धन तथा बुद्धिहरण और चौरसंबन्धि व्यसन रोग कलह करते हैं ॥ ५४ ॥

शालिनी—षष्ठेपापावित्तलाभं सुखानि भौमोत्थंतं हर्षदः शत्रुनाशम् ॥

सौम्याभीतिवित्तनाशं कलिचन्द्रो रोगं पापयुक्तः करोति ॥ ५५ ॥

छठे भावमें पापग्रह धनलाभ सुखप्राप्ति करते हैं मंगल अतिहर्ष तथा शत्रुनाश करता है शुभग्रह भय धननाश कलह करते हैं पापयुक्त चन्द्रमा रोगोत्पत्ति करता है ॥ ५५ ॥

शुजंग्र०—सपापःशशीस मोव्य धिभीतिखलाः स्त्रीविना-
शंकार्लिभृत्यभीतिम् ॥ शुभाःकुर्वतेवित्तलभंसुखातिथि-
शोराजमानोदयंबंधुसौख्यम् ॥ ५६ ॥

सप्तमभावमें पापयुक्त चन्द्रमा रोग भय तथा पापग्रह स्त्रीहानि कलह
भृत्यसंबंधी भय करते हैं, शुभग्रह धनलाभ सुखलाभ यश राजमान अन्त्युदय
और बंधुसुख करतेहैं ॥ ५६ ॥

वसन्तति०—चंद्रोष्टमेनिघनदः खलखेटयुक्तः पापैश्चतत्रभृति-
त्यफलं च विद्यात् ॥ सौम्याःस्वधातुवशतोरुजमर्थनाशं
मानक्षयंमुथशिलेशुभजेशुभंच ॥ ५७ ॥

अष्टमभावमें पापयुक्त चन्द्रमा मृत्यु पापग्रह मृत्युतुल्य कष्ट फलदेतेहैं शुभ-
ग्रह अपने उक्त धातुके वशसे रोग तथा धननाश मानहानि करतेहैं ॥ ५७ ॥

द्रुतविलंबि०—तपसिसोदरमीःपशुपीडनंखलखगेति, दोरविरत्रचेत् ॥

शुभखगाधनधान्यविवृद्धिदाःखलखगेपिशुभान्यपरेजगुः ॥५८॥

नवमभावमें पापग्रह भाइयोको क्लेश तथा पशुसंबंधि पीडा देतेहैं परन्तु
सूर्य तो अति हर्षही देताहै तथा शुभग्रह धन अन्न बढ़ातेहैं किसी आ-
चार्यके मतसे पापग्रह भी शुभ फल देते हैं, यह बलाधीन है ॥ ५८ ॥

द्रुतविलंबित—गगनगोरविजः पशुवित्तहारविकुजौव्यवसायपराक्रमौ ॥

धनसुखानिपरेचधनात्मजावनिपसंगसुखानिवितन्वते ॥५९॥

दशमभावमें शनि पशु धननाश करताहै सूर्य मंगल व्यवसाय तथा
पराक्रमसे अनेक सुख करतेहैं शुभग्रह धन पुत्र और राजसंबंधि सुख
करतेहैं ॥ ५९ ॥

वसन्तति०—लाभेधनोपचयसौख्ययशोभिवृद्धिसन्मित्रसंगब-

लपुष्टिकराश्चसर्वे ॥ क्रूराबलेनरहिताःसुतवित्तबुद्धिनाशं

शुभास्तुशुभतांस्वफलस्यकुर्युः ॥ ६० ॥

ग्यारहवें भावमें सभी ग्रह यशकी वृद्धि भलेमित्रोंका संग शरीरमें बल
पुष्टि करते हैं, बलहीन पापग्रह पुत्र धन बुद्धिसंबंधि हानि और शुभग्रह
अपने उक्त शुभ फलकी शुभता बढ़ाते हैं ॥ ६० ॥

इंद्रव०—पापाव्ययेनेकरुजंविवादंहानिधनानानृपतस्करादेः ॥

सौम्याव्ययंसव्यवहारमार्गे कुर्युःशनिर्हर्षविवृद्धिमत्र ॥ ६१ ॥

व्ययभावमें पापग्रह अनेक रोग कलह धनहानि राजा तथा चौरादिसे करतेहैं शुभग्रह शुभव्यय यद्वा शुभ मार्गमें धनव्यय और शनि हर्षवृद्धि करताहै ॥६१ ॥

शार्दूल०—श्रीगर्गान्वयभूषणोगणितविच्चितामणिस्तत्सुतोऽ-
नंतोऽनन्तमतिर्व्यघातखलमतध्वस्त्यैजनुःपद्धतिम् ॥ तत्सूनुः

खलुनीलकंठविबुधोविद्वच्चि वानुज्ञयाभावस्थग्रहपाकदौस्स्थ-
सुखतायुक्तफलंसोव्यधात् ॥ ६२ ॥ इति भावफलध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

इस श्लोकका अर्थ पूर्ववत्ही है विशेष इतना है कि दशाका शुभाशुभ फल और ग्रहभावफल इस अध्यायमें आचार्यने कहे ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां ग्रहभावफलाध्यायः ॥ १४ ॥

अथ मासदिनप्रवेशानयनं तत्फलानि च ।

अनुष्टु०—मासार्कस्ययदासन्नपंक्यर्केणसङ्घांतरम् ॥

कलीकृत्यार्कगत्याप्तं दिनाद्येनयुतो नितम् ॥ १ ॥

तत्पंक्तिस्थंवारपूर्वमासार्कैविकहीनके ॥

तद्द्वाराद्येमासवेशोद्युवेशोप्येवमेवहि ॥ २ ॥

अब मासप्रवेश दिनप्रवेशकी रीति कहतेहैं कि, जन्मकालका तात्कालिक स्पष्ट सूर्य्य सबही वर्षप्रवेशमें तुल्यही होता है जितने मासका प्रवेश करना है उतनी संख्यामें १ घटायके वर्षप्रवेशकी राशिमें जोड देना जैसे दूसरे मासप्रवेशमें १ तीसरेमें २ इत्यादि जोडके मांसंप्रवेशकालीन सूर्य्य स्पष्ट होता है ऐसेही दिन प्रवेशमें १ अंश जोडना इस सूर्य्य स्पष्टके समीपकी स्पष्टावधि पंचांगमें देखके उस अवधिमें जो सूर्य्य स्पष्ट है वह पंक्यर्क हुआ. मासप्रवेशका जो सूर्य्य स्पष्ट है वह मासार्क हुआ इन दोनोंका अंतर करना उपरांत कला करके गतिसे भाग देना वारादि ३ अंक लेने इस लब्धिको मासार्ककालीन वार घटी पलाओंमें न्यूनाधिक करना. जैसे मासार्कमें पंक्यर्क घटाया हो तो अवधिस्थ वारादिमें यह जोडदेना पंक्यर्कमें मासार्क घटाया हो तो घटाय देना यह मासप्रवेशका वार घटी पला.

मिलेंगी ऐसेही दिनप्रवेशभी जानना इसकी युक्ति इसी तंत्रके प्रथमाध्याय तीसरे श्लोककी टीकामें भी लिखी है,—उदाहरण—पूर्वलिखित जन्मकालीन सूर्यस्पष्ट ० । १८ । ४२ । ३१ है संवत् १९४३ वैशाख कृष्ण द्वादशी शनिवार इष्टघटी १३ । ५४ वर्षप्रवेश ३८ में भी सूर्य स्पष्ट ० । १८ । ४२ । ३१ मासप्रवेशके लिये इसमें एक जोड़के १ । १८ । ४२ । ३१ मासप्रवेशकालीन सूर्य स्पष्ट हुआ इसीका नाम मासार्क है, दूसरे महीने ज्येष्ठकी कृष्ण-द्वादशीके समीप ज्येष्ठकृष्णषष्ठी सोमवारके दिन पंचांगमें अवधि उदयकालकी है यह हाल २ । ० । ० वारादि जानना इस दिन उदयकालिक सूर्य स्पष्ट १ । १० । ३५ । ३ गति ५७ । २७ है यह पंचत्यर्क हुआ; इनका अन्तर करना है मासार्क १ । १८ । ४२ । ३१ अधिक होनेसे इसमें पंचत्यर्क १ । १० । ३५ । ३ घटाये ० । ८ । ७ । २८ रहा इसकी कला ४८७ । २८ हुई. गति ५७ । २७ है ५७ को ६० से गुनाकर २७ जोड़-दिये ३४४७ हुये, कला ४८७ को ६० से गुनाकर २८ जोड़दिये २९२४८ हुये गतिपिंड ३४४७ से कलापिंड २९२४८ में भाग लिया लब्धि ८ दिन हुये शेष १६७२ को ६० से गुनाकर १००३२० भागहार ३४४७ से भाग लिया लाभ २९ घटी हुई शेष ३५७ को ६० से गुनाकर २१४२० भागहारसे भागलिया लाभ ६ यह ८ । २९ । ६ वारादि पंचत्यर्क कालिक वारादि २ । ० । ० में न्यूनाधिक करना है यहां मासार्कमें पंचत्यर्क घटाया गया इस लिये ८ । २९ । ६ वारको ७ से शेषकरके १ । २९ । ६ पंचि वारादिमें जोड़दिया तो मासप्रवेशका वारादि हुआ ३ । २९ । ६ ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दशीको मंगलवार है इस दिन २९ घटी ६ पलामें द्वितीय मासप्रवेश हुआ ऐसेही दिनप्रवेशभी जानना इसकी कल्पित रीति उदाहरण सहित इसी तंत्रके प्रथमाध्याय तीसरे श्लोककी टीकामें लिखी है दोनों प्रकार सिद्ध हैं विशेष बोधके लिये जगह २ लिखा है ॥ १ ॥ २ ॥

अनुष्ठु०—मासप्रवेशकालेपिग्रहान्भावैश्चसाधयेत् ॥

तत्रमासतनोर्नाथोसुन्थशो जन्मपस्तथा ॥ ३ ॥

त्रिराशिपोदिनिशोरवीदुभपतिस्तथा ॥

अब्दप्रवेशलघ्नेश एषावीर्याधिकस्तनुम् ॥ ४ ॥

अनु०—पश्यन्मासपतिर्ज्ञेयस्ततोवाच्यं भा भम् ॥

अपरेमासलं शंमासाधिपतिमूचिरे ॥ ६ ॥

जैसे वर्षप्रवेशमें वर्षशके लिये पंचाधिकारी हैं तैसेही मासप्रवेशमें मासशके लिये षडधिकारी ये हैं कि प्रथम मासप्रवेशके तत्कालीन ग्रह स्पष्ट करके प्रथम मासलग्रेश १ उससे उपरांत माससंख्या ढाई २।३० अंशसे गुणाकर वर्षकी मुंथा स्पष्टमें योग करनेसे मासकी मुंथा होतीहै इसका स्वामी २ जन्मराशिस्वामी ३ त्रिराशीश “त्रिराशिपाःसूर्य्यसितार्किशुक्राः” इत्यादिसे पूर्वोक्तही ४ दिनमें सूर्य्य राशिस्वामी रात्रिमें चंद्रराशिस्वामी ५ वर्षप्रवेश लग्नस्वामी ६ ये षडधिकारी होते हैं इन छहोंमेंसे जो बलाधिक और लग्नको देखता हो वह मासाधिपति होताहै. कोई कोई आचार्य्य मासप्रवेश लग्नशकोही मासेश मानते हैं उनके मतसे षडधिकारियोंकाभी प्रयोजन नहीं है स्वामीका निर्णय पूर्ववत्ही है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—दिनेशं दिनलग्नेशं तथाप्रोचुर्विचक्षणाः ॥

मासत्रस्येशयोर्वाच्यंफलं वर्षेशवद्बुधैः ॥ ६ ॥

दिनेश दिनप्रवेशके लग्नशकोही बुद्धिमान् कहते हैं. फल इसका वर्षशके समान बलावल विचारसे शुभाशुभ बुद्धिमानोंने कहना ॥ ६ ॥

शार्दूलवि०—लग्नांशाधिपतिर्विलग्नपनवांशेशेनमैत्रीदृशादृष्टो वा सहितः शशीच यदितौ मैत्रीदृशालोकते ॥ तस्मिन्मासितनौसुखं बहुविधं नैरुज्यमित्थंफलंतावद्यावादिमेस्युरित्थमथतान्संचार्य्यवाच्यंफलम् ॥ ७ ॥

मासप्रवेश लग्नके नवांशका स्वामी लग्नशसे वा उसके स्थित नवांशस्वामीसे मित्रदृष्टि हो वा दोनों एक साथ हों तथा चंद्रमा उन दोनोंको मित्रदृष्टिसे देखे तो उस महीनेमें मासप्रवेशवालेके शरीरमें बहुत प्रकारके सुख और नीरोगता जबलौ यह मासप्रवेश है तबलौ रहे ऐसेही गणितवशसे ग्रहोंका बलावल दृष्टियोग विचारके फल कहना ॥ ७ ॥

शार्दूलवि०—तौचेच्छत्रुदशा मिथश्चशाशिना दृष्टौ मनोदुःखदौ
रोगाधिक्यकरौच कश्चिदनयोर्नीचेस्तगोवायदि ॥ कष्टात्सौ-
ख्यमिदद्वयं यदिपुनर्नीचास्तगंस्यान्मृतिः सूत्यन्दोद्भवरिष्टतो
मृतिसमंस्यादन्यथेत्यूचिरे ॥ ८ ॥

जो वही लग्नांशेश और लग्नेश्वरांशेश परस्पर शत्रुदृष्टिसे देखते हों वा चंद्र-
माभी शत्रुदृष्टिसे देखे तो मानसी दुःख देते हैं जो लग्नेश और लग्नेश्वरांशेश
मेंसे कोई नीच वा अस्तंगत हो तो बड़ा कष्ट भोगकर सुख पावे जो लग्नांश-
नाथ लग्नेश्वरांशनाथ नीच एवं अस्तंगत हों और चंद्रमा शत्रुदृष्टिसे देखे तो
मृत्यु देते हैं, परन्तु इसी महीनेमें जन्म तथा वर्षकाभी अरिष्ट हो तो मृत्यु
होतीहै अन्यथा मृत्युतुल्य कष्ट होताहै जो जन्मका अरिष्ट जिस
महीनेमें हो वर्षका न हो तो मासपूर्वार्द्धमें मृत्युतुल्य कष्ट और वर्षका
अरिष्ट हो जन्मका उस महीनेमें न हो तो मासोत्तरार्द्धमें उक्त अरिष्ट मिलताहै
यह कोई आचार्य कहते हैं ॥ ८ ॥

शार्दूलवि०—भावांशाधिपतिः स्वभावपनवांशेशेनमैत्रीदशा
दृष्टोवासहितः शशीचयदितौ मैत्रीदशालोकते ॥ तद्भावो-
त्थसुखं विलोममथतद्वचत्यासतः कीर्तितं नीचास्तादिफलं
चलग्नवदिदं विद्वद्भिर्ह्यंधिया ॥ ९ ॥

ऐसेही संपूर्ण भावोंका विचार है कि जिस भावका नवांशस्वामी तथा
भावनाथनवांशस्वामी परस्पर मित्रदृष्टिसे देखें तथा चंद्रमाभी इन्हें मित्र-
दृष्टिसे देखे तो इस महीनेमें उस भावसंबंधि शुभफल मिलताहै जो उक्त
ग्रह परस्पर शत्रुदृष्टिसे देखें अथवा युक्त हों तथा चंद्रमाभी इन्हें शत्रुदृष्टिसे
देखे तो तद्भावसंबंधि कष्टफल अवश्य मिलताहै ऐसेही नीच वा अस्तंगत
एक वा दोनो हों तोभी कष्टफल मिलताहै विद्वानोंने लग्नके सदृश सबही
भावोंमें ऐसा विचार करना ॥ ९ ॥

इंद्रव०—लग्नेशमासेशसमेश्वरांशनाथायदंशाधिपमित्रदृष्ट्या ॥

दृष्टायुतावाशाशिनाचतद्भावोत्थसौख्यायनचेदनि म् ॥१०॥

लग्नेश मासेश वर्षेश और लग्नांशनाथ ये चारो वा इनमेंसे कोई जिस भावनवांशस्वामीसे मित्रदृष्टिसे देखे वा युक्त हों तथा चंद्रमाभी मित्रदृष्टिसे देखे वा युक्त हो तो उस भावसंबंधी सुख देताहै. ऐसे योगमें जो जन्मकाल योग उससे उस भावसंबंधी अनिष्ट फल हो तो यहां मध्यम फल जानना. जो जो जन्मसेभी शुभफली हों तो यहां अधिक शुभ जानना ऐसेही निर्बल और शत्रुदृष्टिसे अनिष्ट फल होताहै फल तारतम्यसे कहना १०

अनुष्टु०—निर्बलाव्ययषष्ठाष्टपतयःशुभदायकाः ॥

अन्येसवीर्याःशुभदाव्यत्ययेव्यत्ययःस्मृतः ॥ ११ ॥

बारहवें छठे आठवें भावके स्वामी तथा इनके नवांशस्वामी निर्बल और भावोंके स्वामी सबल हों तो शुभ फल देतेहैं और ६।८।१२ भावोंके स्वामी सबल और भावोंके अबल कष्टफल देतेहैं ॥ ११ ॥

उपजा०—लग्नेशमासेशसमेशसुंथाधिपाः षडष्टोपगताःसपापाः ॥

दृष्ट्याःखलैःशत्रुदृशात्रमासेव्याध्यादिविद्विड्भयदुःखदाःस्युः॥१२॥

लग्नेश मासेश वर्षेश और बुधेश ६ । ८ । १२ भावोंमें हों पापयुक्तभी हों और पापग्रह शत्रुदृष्टिसे देखते हों तो इस मासमें रोगादि ह्येश तथा शत्रु-वातादि दुःख देतेहैं ॥ १२ ॥

इंद्रव०—केंद्रत्रिकोणायगतास्तुलग्नमासाब्दपावीर्य्ययुतानराणाम् ॥

नैरुज्यशत्रुक्षयराज्यलाभमानोदयादद्भुतकीर्तिदाःस्युः ॥ १३ ॥

लग्नेश मासेश और वर्षेश बलवान् हों तथा केंद्र त्रिकोण और ग्यारहवें हों तो नीरोगता शत्रुक्षय कुलानुमान राज्यलाभ मान उदय अद्भुत कीर्ति देतेहैं ॥ १३ ॥

अनुष्टु०—इंधिहालग्नयोराशिर्षोबलीतत्रहृपाः ॥

दशेशाःस्वांशतुल्याहैरित्युक्तैश्चिदागमात् ॥ १४ ॥

यह सामान्य मासफल कहेहैं इसमें भी सूक्ष्म दशा और अंतर्दशासे जानना पात्यांशी दशाकी विधि पूर्ववत्ही है, जहां सौर वा सावन दिन ३६० का

कार्य्य है तहां मासदिन ३० से कार्य्य करना अन्यत् उसी रीतिसे मास प्रवेशकी दशा होतीहै, इसका प्रकट विवरण दशाविधिमें प्रथम लिखाहै. तैसेही अंतर्दशा गिननी चाहिये इनके अनुसार उच्च नीचादि बलाबल विवेकसे फल हना दशाभी अनेक प्रकारकी हैं, जैसे प्रात्यांशी १ मुद्दा २ देवकीर्तिमत हद्दादशा ३ अनेक भेदसहित तासीरदशा ४ निसर्गदशा ५ कालहोरा ६ लग्नादि राश्यादि ग्रहदशा ७ भोग्यांशदशा ८ महादेवमतदशा ९ बलभद्रमताख्या १० गौरी-मताख्या ११ राममताख्या १२ इन । विशेष विस्तार ताजिक मुक्तावलीमें है. यहां ग्रंथभूयस्त्व भयसे केवल प्रधान अंशदशाही आचार्य्यने कही है. मास-दशादिनादिज्ञानार्थ उपाय यह है कि मुंथा और मासलग्नमेंसे जो बलवान् हो उस राशिमें जो भौमादि हद्दास्वामीहैं वे अपने अपने अंशतुल्य दिन पाते हैं, जैसे वर्षलग्न स्पष्ट देखना 'भेषेगतर्का०' इत्यादिसे जो हद्देश हैं वह प्रथम दशास्वामी तदनंतर क्रमसे होंगे, जैसे राशिके ३० अंश हैं इन्हें १२ से गुनाकर ३६० होते हैं ये सौरदशादिन हैं तद्वत्ही जितने हद्दांशहों उन्हें १२ से गुनाकर भौमादिकोंके दशादिनादि होते हैं प्रथम दशेशके भुक्तांश और भोग्यांश पृथक् १२ से गुनाकर भुक्त और भोग्य दशादिनादि होते हैं भुक्तदिनादि दशाके अंत्यमें आवेंगे यह देवकीर्तिमतसे हद्दादशा प्रकार है इसी रीतिसे दिनप्रवेशमेंभी करना प्रात्यांश दशा उसीके उक्तप्रकारसे है ॥ १४ ॥

अनुष्टु०—रवींद्रोरसमावेशान्नैतद्युक्तंपरेजुः ॥

दशांतरदशाब्देशफलमाब्दंतु युज्यते ॥ १५ ॥

जो किसीके मतसे सूर्य्य चंद्रसा और लग्नकी छोट दीहै यह प्रमाण नहीं है दशांतरदशाओंका फल वर्षोंकही है तो यह भी दशामें होनेही चाहिये इसलिये प्रात्यांश मुद्दाही मुख्य है ॥ १५ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां मासप्रकरणम् ॥ १५ ॥

अनुष्टु०—दिनप्रवेशकालेपिग्रहान्भावांश्चसाधयेत् ॥

चंद्रलग्नांशकाभ्यांतुफलतत्रवदेद्बुधः ॥ १६ ॥

दिनप्रवेशके लिये वर्षके तात्कालिक सूर्य्य स्पष्टमें जितना संख्याक

दिनका दिनप्रवेश हो उसमें १ न्यून करके जोड़देना, कला विकला वही रहेंगी यही दिनप्रवेशका सूर्य स्पष्ट होगा इष्टकाल निकालनेकी युक्ति पूर्वोक्त ही है। उपरांत इस यके ग्रहस्पष्ट भावस्पष्ट करके चंद्रमा और लग्नके नवांशवशसे मासप्रवेशतुल्य फल पंडितोंने कहना ॥ १६ ॥

अनुष्टु०—चतुष्कर्मिथिहेशादिदिनमासाब्दलग्नाः ॥

एषांबलीतनुंपश्यन्दिनेशः परिकीर्तितः ॥ १७ ॥

मुंथेश १ त्रिराशीश २ जन्मलग्नेश ३ दिनका सूर्यराशीश रात्रिका चंद्रराशीश ४ दिनलग्नेश ५ मासलग्नेश ६ वर्षलग्नेश ७ ये दिनप्रवेशमें अधिकारी हैं इनमेंसे लग्न देखनेवाला दिनेश होताहै विचारके पूर्वोक्तही फल कहना ॥ १७ ॥

उपजा०—त्रिकोणकेन्द्रायगताष्णुभाश्चेच्चंद्रात्तनोर्वाबलिनःखलास्तु ॥

षट्त्र्यायगास्तत्रदिनेसुखानिविलासमानार्थयशोयुतानि ॥ १८ ॥

दिनप्रवेशके फल कहते हैं कि, शुभ ग्रह बलवान् लग्न वा चंद्रमासे केंद्र १ । ४।७।१० वा त्रिकोण ५।९ में हों तथा पापग्रह ३ । ६ । ११ स्थानोंमें हों तो इस दिनमें विलास सन्मान धन और यशसहित सुख होवे १८ ॥

उपजा०—षडष्टरिःष्फोपगतादिनाब्दमासेथिहेशाःखलखेटयुक्ताः ॥

गदप्रदामानयशोहराश्च केंद्रत्रिकोणायगताः सुखात्यै ॥ १९ ॥

दिनेश वर्षेश मासेश और मुंथेश पापयुक्त ६ । ८ । १२ स्थानोंमें हों तो इस दिन रोग देते हैं मान तथा यशकी हानि करते हैं जो केंद्र त्रिकोण और ग्यारहवें हों तो सुख देते हैं ॥ १९ ॥

इंद्रव०—लग्नांशकःसौम्यखगैःसमेतोदृष्टोपिवामित्रशेंदुनापि ॥

नैरुज्यराज्यादिशरीरपुष्टिर्मांसोक्तिवहुःखमतोन्यथात्वे ॥२०॥

लग्नका अंश वा उसका स्वामी शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्टहों तथा चंद्रमा उसे मित्रदृष्टिसे देखे तो नीरोगता राजप्रबंधादि सुख शरीरकी पुष्टि होवे जो वे निर्बल वा ६।८।१२ स्थानोंमें हों तो मासोक्त तुल्य दुःख होवे ऐसेही सभी भावोंके अंशोंसे प्रत्येक भावोक्त शुभाशुभ कहना ॥ २० ॥

इंद्रव०—यदंशकःसौम्ययुतेक्षितोवास्त्रिग्वेक्षणाद्भावजसौख्यकृत्सः ॥

दुःखप्रदःप्रोक्तवदन्यथात्वेभावेषुसर्वेष्वियमेवरीतिः ॥ २१ ॥

यहां नवांशविचार सभी भावोंमें तुल्य है जिस भावमें जो भाव स्पष्टका नवांश है वह शुभग्रह वा मित्रग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट तथा चंद्रमासे भी मित्र-दृष्टिसे देखाजावे तो उक्त भावसंबंधि सुख होवे यदि वह पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट तथा चंद्रमासे शत्रुदृष्टि करके देखा जावे तो उक्त भावसंबंधि क्लेश देता है यही रीति सभी भावोंकी है ॥ २१ ॥

अनु०—षष्ठांशकःसौम्ययुतो रोगदःपापयुक्लुभः ॥

व्ययांशे शुभयुग्दृष्टे सद्व्ययः पापतस्त्वसत् ॥ २२ ॥

किसी भावोंमें विचार औरतरहभी है जैसे छठे भावका नवांश शुभ-ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो रोग करता है पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो शुभ अर्थात् नीरोगता देता है ऐसेही बारहवें भावका अंश शुभ युक्त दृष्ट हो तो (सद्व्ययः) देवता ब्राह्मण आदिके कार्घ्यमें व्यय और पापयुक्त दृष्टसे चोरी दंड आदिसे व्यय होवे ॥ २२ ॥

अनुष्टु०—जायांशः सौम्ययुग्दृष्टः स्वस्त्रीसौख्यविलासकृत् ॥

पापग्रहैः कलिर्दुःखं पापांतःस्थे मृतिं वदेत् ॥ २३ ॥

सप्तम भावांश शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो अपनी स्त्रीसे विलासादि सौख्य करता है पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो स्त्रियोंसे कलह, स्त्रीसंबंधी दुःख होवे, जो वह नवांश पापोंके बीच हो तो स्त्रीमरण होवे, जो पाप ग्रह सप्तम भावमें हों तो अन्यस्त्रीसंगम होवे शुभग्रहोंसे बहुत स्त्रीसौख्य होवे ॥ २३ ॥

अनुष्टु०—शुभमध्यस्थितेऽन्यंशे बहुलंकामिनीसुखम् ॥

स्वस्त्यारतिर्गुरावन्यस्वगेन्यासुरतिं वदेत् ॥ २४ ॥

सप्तम भावांश जो शुभग्रहोंके बीच हो तो कामिनीसुख बहुत होवे बृहस्पतिसे युक्त वा दृष्ट हो तो अपनी स्त्रीसे, अन्य शुभग्रहोंसे हो तो अन्यस्त्रियोंसे रति होवे ॥ २४ ॥

अनुष्टु०—मृत्युशो मृत्युगे सौम्यैर्युग्दृष्टेमरणंरणे ॥

मिश्रैर्मिश्रंखलैःसौख्यंवर्षलघ्नानुसारतः ॥ २५ ॥

अष्टमभाव वा अष्टमभावनवांशकमें जो शुभ ग्रह हों वा देखें तो संग्राममें मरण देतेहैं जो शुभग्रह तथा पापग्रहोंसेभी युक्त वा दृष्ट हों तो युद्धमें जय वा नीरोगता होवे जो केवल पापग्रह अष्टमभाव तथा अष्टमभावनवांशमें हों तो युद्धभी न होवे मरणभी न होवे अर्थात् नैरुज्य रहे ॥ २५ ॥

अनुष्टु०—द्विर्द्वादशेखलाहानिव्ययेसौम्व्वाःशुभंव्ययम् ॥

कर्त्तरीपापजारोगंकरोतिशुभजाशुभम् ॥ २६ ॥

दूसरे बारहवें स्थानमें पापग्रह हानि और धन स्थानमें शुभ ग्रह धनलाम बारहवें शुभव्यय करते हैं यदि लग्नमें पापग्रहोंकी कर्त्तरी हो तो रोगादि दुःख देतीहै शुभ ग्रहोंकी कर्त्तरी हो तो शुभ फल देतीहै ॥ २६ ॥

अनुष्टु०—लग्नेष्टमेवाक्षीणेंदुर्मृत्युदःपापदृग्युतः ॥

रोगोवाग्रहणंवापिरिपुतःशस्त्रभीरपि ॥ २७ ॥

लग्नसे अष्टम स्थानमें क्षीण चन्द्रमा पापयुक्त वा दृष्ट हो तो मृत्यु देताहै अथवा रोग वा बंधन और शत्रुसे शस्त्रका भय होवे ॥ २७ ॥

उपजा०—चंद्रेसभौमेनिधनारिसंस्थेनृणांभयंशस्त्रकृतंपशोर्वा ॥

पापैःसुखस्थैःपतनंगजाश्वयानात्तनौस्याद्बहुलाचपीडा ॥२८॥

चंद्रमा मंगल सहित छठा वा आठवां हो तो मनुष्योंको शस्त्रसे वा (पशु) व्याघ्रादिसे भय होवे जो पापग्रह चतुर्थस्थानमें हों तो हाथी घोडा पालकी आदि वाहनसे पतन होवे तथा शरीरमें बहुतसी पीडाभी होवे ॥ २८ ॥

अनुष्टु०—शुभाद्यूनेविजयदाद्यूतादथसुखावहाः ॥

नवमेधर्मभाग्यार्थराजगौरवकीर्त्तयः ॥ २९ ॥

शुभग्रह सप्तम स्थानमें जय करते हैं जुवामें धनलाम तथा सुखभी करतेहैं नवम स्थानमें शुभग्रह ऐश्वर्य धन राजासे गुरुता और कीर्ति बढ़ातेहैं ॥ २९ ॥

अनुष्ट०—दिनप्रवेशोस्तिविधुरवस्थायांतुयादृशि ॥

तदवस्थातुल्यफलमसौदत्तेनसंशयः ॥ ३० ॥

दिनप्रवेशमें चन्द्र जिस प्रकारकी प्रवासादि अवस्थामें होवे उसी अवस्था के तुल्य फल देताहै मासप्रवेशमेंभी निस्संदेह ऐसाही विचार करना ॥ ३० ॥

अनुष्टु०—विहायरशींश्चंद्रस्यभागाद्विघ्नाःशरोद्धृताः ॥

लब्धंगताअवस्थाःस्युभोग्यायाःफलमादिशेत् ॥ ३१ ॥

अवस्थाके लिये तत्काल चन्द्रमाके स्पष्ट राशिको छोडकर शेष अंशा-दिको दोसे गुनाकर पांचसे भागलेना जो मिले वह भुक्त अवस्था हुई उससे आगेकी भोग्या जो हो उसके अनुसार फल कहना अवस्थाओंके नाम प्रवास, नाश, मरण, जय, हास्य, रति, क्रीडित, सुप्त, भुक्ति, ज्वराख्य, कंप, स्थिर, यह १२ हैं येषके प्रवाससे वृषके नाशसे मिथुनके मरणसे ऐसेही मीनके स्थिरसे गिनतीका क्रम है अवस्था बारहही हैं यहां इनमेंसे प्रत्येक राशिके पांचपांच ही लिये हैं कोई सभी राशियोंमें प्रवासहीसे गिनतेहैं सो पक्षांतर है ॥ ३१ ॥

भुजंग०—प्रवासःप्रवासोपगेरात्रिनाथेऽर्थनाशस्तुनष्टोपगेमृत्युभीतिः ॥
मृतावस्थितेस्याज्जयायांजयस्तुविलासस्तुहास्योपगेकामिनीभिः॥३२॥

चंद्रमाकी अवस्थाओंका फल कहते हैं कि प्रवास अवस्थामें चंद्रमा प्रवासही करताहै तथा नाशमें धननाश मरणमें मृत्युभय जयामें विजय हास्यमें स्त्रियोंसे विलास देताहै ॥ ३२ ॥

सु०—रतौस्याद्रतिःक्रीडितासौख्यदात्रीप्रसुतापिनिद्रां कलिं देहपीडाम् ॥

भयंतापहानीसुखंस्युस्तुभुक्ताज्वराकंपितासुस्थितासुक्रमेण ॥ ३३ ॥

रतिमें (प्रीति) प्रसन्नता क्रीडितमें सुख सुतामें निद्रा और कलह और देहपीडा भुक्तामें भय और ज्वरामें संताप और कंपामें हानि स्थिरामें सुख ये क्रमसे अवस्थाओंके फल हैं यथार्थ मिलते हैं परन्तु चन्द्रमा अष्टम हो तो विपरीत फल देताहै ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां दिनप्रवेशप्रकरणम् ॥ १६ ॥

अथ मृगयाविचारः ।

भु० ०—सवीर्य्यौकुजज्ञानृपाखेटसिद्धचैनसिद्धचैयदावीर्य्य-
हीनाविमौस्तः ॥ जलाखेटमाःसवीर्य्यैर्ग्रहक्षैर्जलाख्यैर्नगा-
ख्यैर्नगाखेटमाहुः ॥ ३४ ॥

दिनप्रवेश लग्नसे जो मंगल बुध बलवान् विहित स्थानमें हों तो इस दिन प्रथा राजाकी सिकार खेलनेमें कार्य्यसिद्धि होगी जो उक्त ग्रह बलहीन हों तो सिकार नहीं मिलेगी पूर्व संज्ञाप्रकरणमें जलचर पर्वतचर, राशि और ग्रहभी कहेहैं उनके अनुसार फल कहना जैसे जलचर राशि एवं ग्रह बलवान् हों तो जलचर जीवोंकी सिकार होगी जो पर्वतचर राशिग्रह बलवान् हों तो वनचरमृगया होगी विशेषतः दिनप्रवेश लग्न जलचर राश्यादि जैसे स्वभावका हो तथा जैसे स्वभावके ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हों वैसी ही मृगया मिलतीहै, मिश्रितमें फलभी मिश्रितही कहना ॥ ३४ ॥

अनुष्टु०—लग्नास्तनाथौकेन्द्रस्थौनिर्बलौक्लेशदायिनी ॥

मृगयोक्ताशुभफलाबलाढ्यौयदितौपुनः ॥ ३५ ॥

लग्नेश सप्तमेश केंद्रमें हों तथा बलवान् हों तो स्वसे और उक्त ग्रह निर्बल हों तो क्लेश देनेवाली मृगया होगी ॥ ३५ ॥

अथ भोजनचिंता ।

लग्नाधिपोभोज्यदातासुखेशोभोज्यमीरितम् ॥

बुभुक्षामदपःकर्मपतिभोक्तेति चिंतयेत् ॥ ३६ ॥

दिनप्रवेश लग्नसे वा प्रश्नलग्नसे लग्नस्वाधी भोजनदेनेवाला चतुर्थेश भोजनयोग्य अन्न सप्तमेश भोजनकी इच्छा अर्थात् भूख वा रुचि और दशमेश भोजन करनेवाला जानना इनके बलाबलसे उक्त कामोंकी प्राप्ति अप्राप्ति कहनी जैसे लग्नेश शुभस्थानगत बलवान् हो तो भोजन देनेवाला भोजन श्रद्धासे देवे निर्बल हो तो वह (अश्रद्धा) कोपादिसे देवे ऐसेही चतुर्थेश बलवान् हो तो भोज्य अन्न अच्छा मिलेगा निर्बल होनेमें न मिले वा निंघ

अन्न मिले सप्तमेश बलवान् हो तो रुचि भोजनमें अच्छी होगी, निर्बलहो तो क्षुधामंद अरुचि आदि होंगी, दशमेश बली हो तो खानेवाला प्रसन्नतापूर्वक भोजन करेगा निर्बल हो तो भोजनमें किसी प्रकारका विघ्न होजायगा ॥ ३६ ॥

अनुष्टु०—लग्नेलाभेचसत्खेटयुतद् सुभोजनम् ॥

जीवेलग्निसितेवापि भोज्यंदुःस्थितावपि ॥ ३७ ॥

लग्न तथा लाभस्थानमें शुभग्रह हों अथवा इन्हें देखें तो सुभोजन दूध दही घृत मीठा आदि मिलेंगे तथा लग्नमें बृहस्पति वा शुक्रहों तो क्लेशनिवासमें भी सुभोजन मिले ॥ ३७ ॥

अनुष्टु०—मंदेतमसिवालग्न्ये सूर्य्येणालोकितेयुते ॥

लग्न्यतेभोजननात्र शस्त्राद्गीतिस्तदा क्वचित् ॥ ३८ ॥

शनि वा राहु लग्नमें हों सूर्य्यकी दृष्टि भी हो तो यत्न करनेसे भी भोजन इस दिन प्राप्त न होवे कहीं शस्त्रका भय तो होवे ॥ ३८ ॥

अनुष्टु०—रविदृष्टंयुतंवापि लग्न्यदिनतत्रहि ॥

उपवासस्तदावाच्योनक्तं वाविरसाशनम् ॥ ३९ ॥

जो लग्न सूर्य्यसे युक्त वा दृष्टभी न हो तो प्रथम तो निराहारही होवे अथवा रात्रिको निरस भोजन रूखा सूखा मिले ॥ ३९ ॥

अनुष्टु०—चन्द्रे कर्मगतेभोज्यमुष्णंशीतंसुखेकुजे ॥

तुर्यस्थखेटवशतो भोज्यान्नरसमादिशेत् ॥ ४० ॥

जो दिन वा पृच्छा लग्नसे चन्द्रमा दशम हो तो (उष्ण) गर्मागर्भ भोजन मिले जो मंगल दशम हो तो (शीत) ठंढावासी भोजन मिले और चतुर्थस्थान में जो ग्रह हो उसके उक्त रसानुसार मिले जैसे सूर्य्यसे कडुआ चन्द्रमासे सलोना, मंगलसे तीखा, बुधसे मिलाहुआ. बृहस्पतिसे मीठा शुक्रसे खटा शनिसे (कषाय) काथ कांजी सिरका आदि बहुत दिनका संपादित मिलतेहैं ॥ ४० ॥

अनुष्टु०—स्निग्धम सितेतुर्य्यैतैलसंस्कृतमर्कज ॥

नीचोपगेकदशनंविरे त्रिमसंस्कृतम् ॥ ४१ ॥

शुक्र चतुर्थ हो तो धीके पकवान शनि चतुर्थ हो तो तेलके पकवान तथा सरस मिलें, जो चतुर्थमें नीचगत ग्रह हो तो निकम्मा स्वादरहित कच्चा पदार्थ भोजन मिले ॥ ४१ ॥

उपजा०—सूर्यादिभिर्लग्नगैः सर्वाय्यै राजादिगेहे भुजिमामन्ति ॥

सुरवेसुरवेशेसबलेसुभोज्यं चरादिकेस्यादसकृत्सकृद्धिः ॥ ४२ ॥

सूर्यादिकोंमें जो उच्चादि बलयुक्त लग्नगत हो उसके जातिअनुसार राजादिके घरमें भोजन होवे जैसे सूर्यसे राजगृह चंद्रमासे वैश्य मंगलसे क्षत्रिय बुधसे शूद्र बृहस्पतिसे ब्राह्मण शुक्रसेभी ब्राह्मण और शनिसे शूद्रके, जो चतुर्थेश बलवान् चतुर्थीमें हो तो अनेक पकवान युक्त भोजन मिले जो चतुर्थमें दुष्ट ग्रह हो तो कष्टसे मिले जो लग्नमें चरराशि हो तो अनेकवार, स्थिरराशि हो तो एकवार मिले द्विस्वभाव हो तो दोवार ॥ ४२ ॥

अनुष्टु०—मूलत्रिकोणगेखेटेलग्रेपितृगृहेशनम् ॥

मित्रालये मित्रभस्थे शत्रुगेहेरिगेहगे ॥ ४३ ॥

लग्नगत ग्रह अपने मूलत्रिकोणमें हो तो पिताके वा अपने घरमें मित्रराशिका हो तो मित्रके शत्रुराशिका हो तो शत्रुके घरमें भोजन होवे लग्नमें कोई ग्रह न हो तो जिसकी पूर्ण दृष्टि लग्नपरहो उसके अनुसार भोजनगृह कहना ४३

शुभेक्षितेयुतेलग्रेबलाढये स्वगृहेभुजिः ॥

ग्रहराशिस्वभावेन यत्नादन्यत्रचितयेत् ॥ ४४ ॥

लग्न शुभ ग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो बलवान् भी हो तो अपने घरमें भोजन होवे ऐसेही ग्रहकी राशि स्वभावके अनुसार यत्नसे औरघरभी भोजनके कहना ४४

उपजा०—तिला मर्के हिमगौसुतंडुलाभौमे मसूराश्चणकाश्चभोज्यम् ॥

बुधे समुद्राः खलु राजमाषा गुरौ सगोधूमभुजिः सर्वाय्यै ॥ ४५ ॥

लग्नगत जो बलवान् हो तथा लग्नमें न हो तो दृष्टिबालेसे अन्न कहना जैसे सूर्यसे तिल चंद्रमासे चावल मंगलसे मसूर और चना, बुधसे मूंग तथा राजमाष (खांश) बृहस्पतिसे गेहूं ॥ ४५ ॥

उपजाति०—क्रेयवाबाजरिकायुगंधराःशनौकुलित्यादिसमाषम म् ॥

भोज्यंतुषांशिरिखिराहुवीर्याच्छुभग्रहालोकनतःसहर्षम् ॥ ४६ ॥

शुक्रसे जौ, बाजरा आदि शनिसे कुलत्य कैथ मक्का खिसरी उदद आदि राहु केतुसे कोदों कांगनी सामा आदि भूसी सहित (वेछाँटे) अन्न मिले ये प्रधान अन्न हैं. उक्तान्न आदि भोजन मिलेंगे कहना. उस ग्रह पर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो शुक्रसे पापयुत दृष्टि हो तो सकोप (कलहादिसे) भोजन होवे ॥ ४६ ॥

सूर्ये मूलपुष्पमिन्दौ कुजे स्यात्पत्रं शाखाचापि शाकं सवीर्ये ॥

शुक्रे ज्येष्ठीव्यंजनं भूरिभेदं मन्देनेत्थं सामिषं राहुकेत्वोः ॥ ४७ ॥

भोज्यरूप सूर्य हो तो मूल (जडका) शाक चन्द्र हो तो पुष्प कुज हो तो पत्ता और डार शुक्र गुरु निष्पाप बुध हों तो अनेक तरहके व्यंजन शनि राहु केतु हो तो मांस वा तेलकी बनी तरकारी मिलै ॥ ४७ ॥

अथ स्वप्नचिन्ता ।

शालिनी०—लग्नांशगेके तनुगेपिवास्मिन्दुः स्वप्नमीक्षितयथार्कविंशम् ॥

रक्तांबरं वह्निमथापि चंद्रे शुभ्राश्वरत्नांबरपुष्पवज्रम् ॥ ४८ ॥

अब स्वमचिचार दिनप्रवेश वा प्रथमलग्ने कहते हैं कि जो सूर्य लग्न वा लग्ननवशांकमें हो तो इस दिन दुःस्वप्न देखेगा जैसे स्वप्नमें सूर्यविंश रत्न वज्र अथवा अग्नि देखे चंद्रमा हो तो श्वेत रंग घोड़ा वज्र पुष्प हीराआदि देखे ४८

उपजा०—स्त्रियः सुरूपश्च कुजे सुवर्णं रक्तांबरस्रक्पशुविद्रुमाणि ॥

बुधेहयः स्वर्गतिधर्मवार्ता गुरौरतिधर्मकथा सुरेक्षा ॥ ४९ ॥

चंद्रमा हो तो सुरूप स्त्री भी देखे. मंगल हो तो सुवर्ण रत्नवज्र रक्तपुष्प सुवर्ण रंगके पशु और मूंगा आदि. बुध हो तो घोड़ा और स्वर्गगमन वा स्वर्गसम सुख तथा धर्मसंबंधि वार्ता बृहस्पति हो तो अपने प्रीत्यनुसार वस्तु धर्मसंबंधि कथा और देवताओंका दर्शन देखे ॥ ४९ ॥

उपजा०—सद्व्युसंगश्च सितेजलानां पारेगतिर्देवरातिर्विलासः ॥

शनावरण्याद्रिगतिश्चनीचैः संगश्च राहौ शिखिनीत्थमेव ॥ ५० ॥

शुक्र हो तो सुवांधवोंका संगम तथा जलोंको तिरके पारगति देवताओंसे प्रीति विलासादि सुख देखे. शनि हो तो वन पर्वत गमन नीचजन संगति होवे राहु केतुकाभी ऐसाही फल है ॥ ५० ॥

सहजधीमदनायरिपुस्थितो यदि शशी रुभानुसितेक्षितः ॥

नवमकेन्द्रगते शुभेषुचस्वबलयामनुजोरमतेतदा ॥ ५१ ॥

चन्द्रमा ३ । ५ । ७ । ११ । ६ इन स्थानोंमें हो और बृहस्पति सूर्य
शुक्रसे देखा जाताहो और ९ । १ । ४ । ७ । १० इन स्थानोंमें सबमें वा कोईमेंभी
शुभ ग्रह हों तो मनुष्य स्वप्नमें अति सुन्दरीस्त्रीसे रमण करताहै ॥ ५१ ॥

वसंतति०—आसीदसीमगुणमंडितपंडिताग्र्यो व्याख्यद्गुजंगप-
गवीश्रुतिवित्सुवृत्तः ॥ साहित्यरीतिनि णोगणितागमज्ञश्चिता-
मणिर्वि लर्गर्गकुलावतंसः ॥ ५२ ॥

आचार्य स्वनामधेय प्रकट करता है कि अगणित गुणोंसे भषित पंडितोंमें
मुख्यतम भुजंगपगवी अर्थात् शेषभाष्यको पढ़ावनेवाला वेदका जानने-
वाला साहित्यशास्त्र परिपाटी निपुण गणितादि समस्त ज्योतिषशास्त्र पारंगम,
गर्गकुलमें उत्पन्न चिंतामणि दैवज्ञ हुए ॥ ५२ ॥

उपजा०—तदात्मजोनंतगुणोस्त्यनंतो योऽधोक् सदुक्तिं किल काम-
धेनुम् ॥ संतुष्टयेजातकपद्धतिचन्यरूपयद्दुष्टमतंनिरस्य ॥ ५३ ॥

चिंतामणि दैवज्ञका पुत्र असंख्यगुणयुक्त अनंतनामा हुवा जिसने काम-
धेनु गणितकी टीका करी तथा सदैवज्ञोंको संतुष्ट करनेके लिये जन्मपद्धति
संप्रदायानभिज्ञोंका दुष्ट मत निराकरण करके जिसने जातकपद्धति बनाई ५३

उपजा०—पद्मांबयासाविततो विपश्चिच्छीनीलकंठःश्रुतिशास्त्रनिष्ठः ॥

विद्वच्छिवीतिकरंव्यधासीत्समाविवेकंमृगयावतंसम् ॥ ५४ ॥

शाके नन्दा १५०९ भ्रबाणेन्दुमित अश्विनमासके ॥ शु ० ष्टम्यांसमातं-
त्रं नीलकंठबुधोऽकरोत् ॥ ५५ ॥ इति श्रीगर्गवंशो ० नील ० वर्षतंत्रसमाप्तम् ॥

अनन्त दैवज्ञका पुत्र जिसकी माताका नाम पद्मावती है विद्वान् वेदशा-
स्त्रज्ञ श्रीनीलकंठ दैवज्ञ हुआ जिसने समाविवेकनामक ज्योतिषका एक प्रकरण
वर्षफल सूचक शिवप्रीतिकारक बनाया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां फलतन्त्रे दिनप्रवेश-

भोजनस्वप्नचिंताकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ नीलकंठीप्रश्नतंत्रः प्रारभ्यते भूमिका ।

नीलकंठद्वैवज्ञरुत नीलकंठी तीन तंत्रकी प्रथा है परन्तु तीसरा प्रश्नतन्त्र केवल नीलकंठाचार्यरुत सांप्रतमें समय प्रभावके कारणांतरोंसे दुष्प्राप्य है, जन्मविचारवैपयिक ग्रंथ बृहज्जातक एवं वर्षवैपयिक ताजिकनीलकंठी दो तंत्रोंके भाषाटीका सर्वसाधारणके प्रसन्नतानिमित्त यथामति बनाये उपरांत तदनुगामी प्रश्नप्रकरण जो कि, जातक ताजिक ग्रन्थ देखनेवालोंको अवश्यही उपयोगी है. यद्यपि उक्तजातक ताजिकोंमें बहुधा यही विचार प्रश्नमें भी करना लिखनेसे प्रश्नग्रंथका अंतर्भाव अर्थात् प्रश्नग्रंथका प्रयोजन उन्हींमें आलिया, तथापि पूर्वाचार्योंमें शिष्टाचार एवं प्रकटताके लिये अनेकानेक ग्रन्थ नीलकंठ-मतानुसारी होनेसे नीलकंठीनाम भयाहै, चमत्कारी प्रश्नग्रंथकी भाषाटीका यथामति करताहूं सज्जनजन स्वीय सौजन्यतासे अंगीकार करें, संस्कृत विद्या अद्वितीय है कोई वस्तुमात्र इससे रहित नहीं है जो रहित हो वह चतुर्दश भुवनमें हैही नहीं परन्तु भारतवर्षमें विद्याके नाश होनेका मुख्य कारण यही है कि जो लोग कोई अनूठी विद्या वा कला एवं औपधि मन्त्र आदि चमत्कृत जानते हैं वे दूसरेको सिखलानेमें मत्सरी होकर प्रकट नहीं बतलाते, उनके देहांत समयमें वह उन्हींके साथ गई आगे विद्या कहाँसे बड़े ! इस बातको विचार मैंने बृहज्जातक एवं नीलकंठी तीनहूं तंत्रोंमें ज्योतिषशास्त्रमें जो बहुधा संकेत रहते हैं वे यथावकाश प्रकटही करदियेहैं ।

अनुष्टु०—द्वैवज्ञस्यहि द्वैवेन सदसत्फलवां या ॥

अवश्यं गोचरे मर्त्यः सर्वः समुपनीयते ॥ १ ॥

प्राक्तन कर्मको देव कहतेहैं जैसा मनुष्यने कर्म किया वैसेही फलभी अवश्य पावैगा. उक्तके शुभाशुभ परिपाकके जाननेकी इच्छा द्वैवज्ञकी हो तो ग्रह गोचर अर्थात् ग्रहचारसे सम्पूर्ण कहसकताहै ॥ १ ॥

अनुष्टु०—अश्रौषीच्च पुराविष्णोर्ज्ञानार्थं समुपस्थितः ॥

वचनं लोकनाथोपि ह्या प्रश्नादिनिर्णयम् ॥ २ ॥

पहिले किसी कालमें लोकनाथ ब्रह्मा कर्मपरिपाकके जाननेके लिये विष्णुके पास गये उनसे प्रश्न स्वर शकुनादिकोंके निर्णयवचन सुनकर संसारमें ज्योतिषद्वारा प्रकटकिया ॥ २ ॥

वसन्त०—तस्मान्नृपः कुसुमरत्नफलाग्रहस्तः प्रातः प्रणम्य
वरयेदपि प्राङ्मुखस्थः ॥ होरांगशास्त्रकुशलान्हितकारिणश्च
संहृत्यदैवगणकान्सकृदेव पृच्छेत् ॥ ३ ॥

तस्मात् प्रश्न पूछनेवाला राजा [यहां राजा उपलक्षणार्थ कहा गया] पुष्प रत्न फल आदि मंगल वस्तु दाहिने हाथमें लेकर प्रातःकाल प्रणामपूर्वक ज्योतिषीका वरण प्रश्ननिमित्त करे; तदनन्तर होरानामक ज्योतिषशास्त्री गीभूतके जाननेवाले हितकारी गणकोंको इकट्ठा करके स्वल्पाक्षरोंसे एकहीवार प्रश्न पूछे ॥ ३ ॥

आर्या—दशभेदं ग्रहगणितं जातकमवलोक्य निरवशेषमपि ॥

यः कथयति शुभमशुभं तस्य न मिथ्या भवेद्वाणी ॥ ४ ॥

प्रश्न पूछने उपरांत जो गणक दशप्रकार स्पष्टभाव बलाबलस्थानादिग्रहगणित एवं जातक मत सम्पूर्ण देखकर शुभाशुभ फल कहता है उसकी वाणी मिथ्या नहीं होती ॥ ४ ॥

अथादौ प्रष्टुः परीक्षा ।

आर्या—ऋजुरयमनृजुर्वायं प्रष्टा पूर्वं परीक्ष्य लग्नबलात् ॥

गणकेन फलं वाच्यं दैवं तच्चित्तगं स्फुरति ॥ १ ॥

पूछनेवालेका चित्त सरल वा बल कैसाहै इस विचारमें गणकने ल - लसे प्रथम परीक्षा करके फल कहना. प्रष्टाके चित्तानुवर्ती दैव प्राक्तन कर्मपाक लग्नविचार द्वारा गणकको स्फुरण होजाताहै ॥ १ ॥

आर्या—लग्नस्थे शशनि शनौ केंद्रस्थेज्ञे दिनेशरश्मिगते ॥

भौमज्ञयोः समदशा लग्नगर्चद्वेऽनृजुः प्रष्टा ॥ २ ॥

जैसे लग्नमें चंद्रमा केंद्रमें शनि और बुध अस्वंगत हो तथा लग्नमें चंद्रमा

मंगल बुधकी पूर्ण दृष्टिसे दृष्ट हो तो प्रष्टा कुटिल जानना ॥ २ ॥

आर्या—लघ्नेशुभग्रहयुते सरलः क्रूरान्विते भवेत्कुटिलः ॥

लघ्नेस्ते सौम्यदृशा विधुगुरुदृष्ट्या च सरलोयम् ॥ ३ ॥

लग्नमें शुभग्रह हों तो सरल और पापग्रह हों तो कुटिल तथा लग्न और सप्तम स्थानमें शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो वा चन्द्रमापर बुध बृहस्पतिकी दृष्टि हो तो सरलचित्त जानना ॥ ३ ॥

आर्या—यदिगुरुबुधयोरेकः पश्यत्यस्ताधिपंचरिपुट् च्या ॥

तत्कुटिलः प्रष्टा खल्वनयोः सौम्यदृष्टितः साधुः ॥ ४ ॥

जो बुध बृहस्पति सप्तमेशको शत्रुदृष्टिसे देखे तो कुटिल और इनकी उसपर मित्रदृष्टि हो तो सरलचित्त प्रष्टा जानना ॥ ४ ॥

आर्या—सम्यग्विचार्य्यलग्नं ब्रूयात्प्रश्नं सकृद्यथाशास्त्रम् ॥

यस्त्वेकं ब्रूते सौतस्य न मिथ्या भवेद्वाणी ॥ १ ॥

ज्योतिषी भले प्रकार लग्नविचारके थोड़े प्रश्नको शास्त्रकी आज्ञानुसार जो एक प्रश्न कहता है उसकी वाणी मिथ्या नहीं होती अर्थात् एक लग्नमें बहुत प्रश्न सत्योत्तर नहीं होते ॥ १ ॥ बहुप्रश्ने विषये—

अनु०—बहून्प्रश्नानथो प्रष्टा युगपद्यदि पृच्छति ॥

तत्र तेषां विधिं वक्ष्ये शास्त्रतो लोकतुष्टये ॥ २ ॥

जब प्रष्टा एकहीवार बहुत प्रश्न पूछता है तो उनके उत्तरके कहनेकी विधि लोकोंकी तुष्टिको शास्त्रसे कहता हूँ ॥ २ ॥

आर्या—आदिमं लग्नतो ज्ञानं चन्द्रस्थानाद्वितीयकम् ॥

सूर्यस्थानात्तृतीयं स्यात्तुर्य्यं जीवगृहाद्भवेत् ॥ ३ ॥

धमृगवोर्बलीयः स्यात्तद्गृहात्पंचमं पुनः ॥

राश्यानु रूपं कथयेत्संज्ञाध्यायोक्तवद्बुधः ॥ ४ ॥

पहिला प्रश्न लग्नसे दूसरा चन्द्रस्थानसे तीसरा सूर्य स्थानसे चौथा बृहस्पतिकी राशिसे पांचवां बुध शुक्रमेंसे जो बलवान् हो उसकी राशिके अनुसार जो राशियोंका धातु रूप रंग आकार गुण संज्ञाध्यायमें कहे हैं उनके प्रभावसे प्रश्न कहना, वह विस्तार आगे लिखा जायगा ॥ ३ ॥ ४ ॥

अथावस्था ।

अनुष्टु०—दीप्तोदीनोथमुदितः स्वस्थःसुप्तोनिपीडितः ॥

मुषितःपरिहीनश्चसुवीर्य्यश्चाधिवीर्य्यकः ॥ १ ॥

ग्रहोंके दश भेदोंके नाम दीप्त, दीन, मुदित, स्वस्थ, सुप्त, पीडित, मुषित, परिहीन, सुवीर्य और अधिवीर्य ये दशभेद हैं ॥ १ ॥

अनुष्टु०—स्वोच्चेदीप्तःसमाख्यातोनीचेदीनःप्रकीर्तितः ॥ मुदितोमित्र

गेहस्थःस्वस्थश्च स्वगृहे स्थितः ॥ २ ॥ शत्रुगेहे स्थितःसुप्तोजितो-

न्येननिपीडितः ॥ नीचाभिमुखगोहीनोमुषितोऽस्तंगतोग्रहः ॥ ३ ॥

सुवीर्य्यःकथितः प्राज्ञैः स्वोऽभिमुखसंस्थितः ॥ अधिवीर्य्यो

निगदितः सुरश्मिः शुभवर्गगः ॥ ४ ॥

अपने उच्चराशिका ग्रह दीप्त, नीचका दीन, मित्रराशिका मुदित, अपनी राशिका स्वस्थ, शत्रुराशिका सुप्त, अन्यपापसे आक्रांत पीडित, नीचाभिलाषी हीन, अस्तंगत मुषित, उच्चाभिलाषी सुवीर्य्य और रश्मि अधिक तथा शुभांशकमें अधिक अधिवीर्य्य कहाताहै ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

अनुष्टु०—दीप्तिसिद्धिश्चकार्य्याणां दीनेदुःखसमागमः॥स्वस्थेकी-

र्तिस्तथालक्ष्मीरानंदोमुदितेमहान् ॥ ५ ॥ सुप्तेरिषुभयंदुःखं

धनहानिर्निपीडिते ॥ मुदितेपरिहीनेचकार्य्यनाशोर्थसंक्षयः ॥

॥ ६ ॥ गजाश्वकनकावाप्तिःसुवीर्य्यैर संपदः ॥ अधिवीर्य्यै

राज्यलब्धिर्ग्रहैर्मित्रार्थसंगमः ॥ ७ ॥

अवस्थाओंके फल कहते हैं कि दीप्त अवस्थामें ग्रह कार्य्यसिद्धि करताहै, तथा दीनमें दुःखागम, स्वस्थमें कीर्ति और लक्ष्मी, मुदितमें बड़ा आनंद, सुप्तमें शत्रुभय तथा दुःख, पीडितमें धनहानि, मुषित और परिहीनमें कार्य्यनाश धननाश, सुवीर्य्यमें हाथी घोडे सुवर्ण और रत्नोंकी संपत्ति, अधिवीर्य्यमें राज्यलाभ, तथा मित्र और धनका संगम होताहै ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

अथ ग्रहस्वरूपम् ।

अ ष्टु०—पूर्वःसत्त्वंनृपस्तातःक्षत्रंश्रीष्मोऽरुण लः ॥

मधुहृक्पैत्तिकोधातुःशूरःसूक्ष्मकचोरविः ॥ १ ॥

(१९८)

ताजिकनीलकण्ठी ।

पूर्वदिशाका स्वामी, सत्वगुण, राजा, पिता, क्षत्रिय जाति, ग्रीष्मऋतु, रक्तवर्ण, चपलस्वभाव, शहतके रंग सदृश नेत्र, पित्तधातु शूरमा और बारीक केश ये रूप गुण सूर्यके हैं ॥ १ ॥

कफोवर्षामृदुर्मातापयो गौरश्चसात्त्विकः ॥

जीवोवैश्यश्चरोवृत्तोमारुताशोविधुः सुदृ ॥ २ ॥

कफ धातु, वर्षा ऋतु, कोमल शरीर, मातास्थान, जलतत्त्व, गौरवर्ण, सत्वगुण, प्राणदाता, वैश्यजाति, चरस्वभाव, गोलाकार, वायव्य दिशाका स्वामी, सुहावने नेत्र ये रूप गुण चंद्रमाके हैं ॥ २ ॥

ग्रीष्मःक्षत्रतमोरक्तोयाम्यःसेनाग्रणीश्वरः ॥

युवाधातुश्चर्षिगाक्षःक्रूरःपित्तंशिखीकुजः ॥ ३ ॥

ग्रीष्मऋतु क्षत्रियजाति तमोगुण रक्तवर्ण दक्षिण दिशाका स्वामी सेनापति चरस्वभाव, युवावस्था शुक्रधातु पीले नेत्र क्रूरप्रकृति पित्तप्रधान अग्नि ये रूप गुण मंगलके हैं ॥ ३ ॥

शरदीशोहरिर्दीर्घःषण्डोमूलंङ्कुमारकः ॥

लिपिज्ञउत्तरेशश्चशूद्रःसौम्यस्त्रिधातुकः ॥ ४ ॥

शरदऋतु हरितरंग लंबा शरीर नपुंसक मूलवस्तुका स्वामी कुमार अवस्था लिपि (शिल्पविद्या जाननेवाला) उत्तरदिशाका स्वामी शूद्रजाति सौम्य प्रकृति वातादि तीनों धातु ये रूप गुण बुधके हैं ॥ ४ ॥

सत्त्वंपीतोहिमःश्लेष्मादीघोमंत्रीड्विजोनरः ॥

मध्वैशानीकफोजीवोमधुर्षिगलदृक्तथा ॥ ५ ॥

सत्वगुण, पीलारंग, हिमस्वभाव, श्लेष्मप्रकृति, लंबा शरीर, मंत्रज्ञ, ब्राह्मण जाति, पुरुष, मधुरप्रिय, ईशानदिशाका स्वामी, कफधातु, शहतसे नेत्रोंका रंग ये गुण बृहस्पतिके हैं ॥ ५ ॥

अनुष्टु०—शुक्रःशांतो द्विजोनारीवैश्यो मंत्री चरः सितः ॥

आग्नेयीदिकूकफश्चाम्लः कुटिलासितूर्द्धजः ॥ ६ ॥

शांतस्वभाव ब्राह्मणजाति स्त्रीवेषधारी मंत्रज्ञ चरस्वभाव श्वेतरंग आग्नेय-
दिशापति कफप्रधान खट्वारस श्याम और कुंचित केश ये गुण शुक्रके हैं ॥ ६ ॥

कृष्णस्तमःकृशोवृद्धःषंडोमूलांत्यजोऽलसः ॥

शिशिरःपवनः रःपश्चिमो वातुलःशनिः ॥ ७ ॥

कृष्णरंग तमोगुण कृशअंग वृद्धावस्था नपुंसक मूलवस्तु चांडालेश
आलसी शिशिरऋतुका स्वामी वायुधातु करस्वभाव पश्चिमदिशाका स्वामी
वाचाल ये रूप गुण शनिके हैं ॥ ७ ॥

राहुर्धातुःशिखीमूलं शेषमन्यच्चमंदवत् ॥

चितनीयं विलग्नशेतात्केन्द्रगाद्वाबलाधिकात् ॥ ८ ॥

राहु धातुप्रधान जटाधारी मलवस्तु है, शेष गुण शनिके तुल्य जानना,
केतु भी ऐसाही जानना, लग्न वा लग्नेश अथवा जो ग्रह सर्वोत्तम बली है
उसके अनुसार प्रश्नमें ल ग कहने विशेष गुण तथा राशियोंके गुण प्रथम-
तंत्रसंज्ञाध्यायमें चक्रन्यास सहित प्रकट लिखेहैं ॥ ८ ॥

अथ भावनिर्णयः ।

सौख्यमायुर्वयोजातिरारोग्यंलक्षणं णम् ॥

क्लेशाकृतीरूपवर्णस्तनोश्चित्यं विचक्षणैः ॥ १ ॥

स्व, आयु, अवस्था, जाति, नैरुज्य, शरीरलक्षण, गुण, क्लेश, आकृति,
रूप और रंग इतने विचार लग्नभावमें विचक्षणोंको विचारणीय हैं ॥ १ ॥

मुक्ताफलंचमाणिक्यंरत्नधातुधनांबरम् ॥

हयकार्यार्थाध्वविज्ञानं वित्तस्थानाद्विलोकयेत् ॥ २ ॥

मोती माणिक आदि रत्न, सुवर्णादि धातु वस्त्र अश्वकार्ये मार्ग संबंधी
ज्ञान इतने वस्तुके विचार दूसरे भावसे करना ॥ २ ॥

भगिनीभ्रातृभृत्यानांदासकर्मकृतामपि ॥

कुर्वीतवीक्षणं विद्वान् सम्यग्दुश्चिक्व्यवेशमतः ॥ ३ ॥

बहिन भाई, नौकर दास और कार्य्य करनेवाला उपलक्षणसे व्यापार
पराक्रम भी विद्वानोंको तीसरे भावसे विचार करना योग्य है ॥ ३ ॥

वाटिकाखलकक्षेत्रमहौषधिनिधीनपि ॥

विवरादिप्रवेशं च पश्येत्पातालतोबुधः ॥ ४ ॥

बावडी, खरिहान खेती औषधि अन्नादि निधि (उत्तमवस्तु) भूमिगत
द्रव्यादि और रंघ्र कंदरा सुरंग आदिकोमें प्रवेश, इतने चतुर्थभावसे देखने ॥ ४ ॥

गर्भापत्यविनेयानां मन्त्रसन्धानयोरपि ॥

विद्याबुद्धिप्रबंधानां सुतस्थाने विनिर्णयः ॥ ५ ॥

गर्भधारण, सन्तान, नम्रता, बुद्धि, मन्त्रका सन्धान, मसोदा आदि, विद्या
तथा बुद्धिका प्रबन्ध इत्यादि पंचम भावसे विचारना ॥ ५ ॥

अनु०—चौरभीरिपुसंग्रामखरोष्ट्रक्रूरकर्मणाम् ॥

मातुलातंकभृत्यानां रिपुस्थानाद्भिनिर्णयः ॥ ६ ॥

चौरभीति, शत्रु संग्राम, और खर, ऊंट तथा क्रूरकर्म, मातुलपक्ष, रोग,
चाकर, इनका विचार छठे स्थानसे करना ॥ ६ ॥

वाणिज्यं व्यवहारं च विवादं च समंपरैः ॥

गमागमकलत्राणि पश्येत्प्राज्ञः कलत्रतः ॥ ७ ॥

व्यापार वणिगवृत्ति अन्यके साथ विवाद वा संधि तथा गमन आगमन
स्त्री इतने विचार सप्तमभावसे करने ॥ ७ ॥

नद्युत्तारेध्ववैषम्ये दुर्गे च श संकटे ॥

नष्टेदुष्टेरणेव्याधौ छिद्रे छिद्रं निरीक्षयेत् ॥ ८ ॥

नद्यादितारण, मार्गविचार, विषमस्थान, किला, शस्त्रसंकट आदि कठि-
नाई, तथा नष्टता, दुष्टता, रणरोग, छिद्रता, गृहच्छिद्र वा विवरादि इतने विचार
अष्टम भावसे देखना ॥ ८ ॥

वापीकूपतडागादि प्रपादेवगृहाणि च ॥

दीक्षायात्रांमठधर्म धर्मान्निश्चित्यकीर्तयेत् ॥ ९ ॥

बावडी, कूप, तालाव आदि जलाशय, तथा प्रपा (पाउ) देवमंदिर, उप-
देश, यात्रा, मठ, और धर्मकार्य नवमस्थानसे विचारके कहना ॥ ९ ॥

राज्यमुद्रापरंपुण्यंस्थानंतातं प्रयोजनम् ॥

वृष्ट्यादिव्योमवृत्तांतंव्योम्स्थानान्निरीक्षयेत् ॥ १० ॥

राज्य, मुद्राआदिचिह्न और पुण्य, निवासस्थान, पिता तथा प्रयोजन, वर्षाआदि आकाशका वृत्तांत, दशमभावसे देखना ॥ १० ॥

गजाश्वयानवघ्नाणि सस्यकांचनकन्यकाः ॥

विद्वान् विद्यार्थयोर्लामं लक्षयेच्छाभभावतः ॥ ११ ॥

हाथी घोड़े डोली आदि सवारी वस्त्र अन्न सुवर्ण कन्या विद्या तथा धनका लाभ पांडित्य ग्यारहवें स्थानसे देखना ॥ ११ ॥

त्यागभोगविवादिषु दानेष्ट विकर्मसु ॥

व्यवस्थाने सर्वे विद्धि विद्वन्व्ययं व्ययात् ॥ १२ ॥

त्याग भोग कलह दान दुष्टवस्तु कृषिकर्म, व्ययके सबस्थान विद्वान् व्ययभावसे जानै ॥ १२ ॥

षट्पंचाशिकायाम् ।

इं०व०योयोभावःस्वामिदृष्टोयुतोवासौम्यैर्वास्यात्तस्यतस्यास्तिवृद्धिः

पापैरेवंतस्यभवस्यहानिर्निर्देष्टव्या पृच्छतां जन्मतोवा ॥ १३ ॥

जो जो भाव अपने स्वामीसे वा शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हों उन २ की वृद्धि और जो पापोंसे युक्त दृष्ट हो उसकी हानि होतीहै यह विचार प्रश्न तथा जन्ममें भी सर्वत्र विचारना ॥ १३ ॥

उपजा०—सौ विलग्रेयदिवास्ववर्गेशीर्षोदयेसिद्धिसुपैतिकार्यम् ॥

अतो विपर्यस्तमसिद्धिहेतुः कृच्छ्रेणसंसिद्धिकरं विमिश्रम् ॥ १४ ॥

सौम्यराशि लग्नमें हो यद्वा अपने अंशपर हो वा शीर्षोदय हो तो कार्य्य-सिद्धि होतीहै, इससे विपरीत अर्थात् क्रूर लग्न सत्त्वादि अंश पृष्टोदय लग्न हो तो कार्य्यसिद्धि नहीं होती. जो कुछ शुभ कुछ अशुभ मिश्रित हो तो बड़े श्रमसे कार्य्यसिद्धि होवे ॥ १४ ॥

भुवनप्रदीपे ।

आर्या—लग्नपतिर्यदिल कार्य्याधीशश्चवीक्षतेकार्य्यम् ॥

लग्नाधीशःकार्य्यकार्य्येशःपश्यतिविलग्नम् ॥ १५ ॥

लग्नेशःकार्यैशंवलोकयेत्लग्नपंतुकार्यैशः ॥

शीतगुहृष्टौसत्यांपरिपूर्णाकार्यसंसिद्धिः ॥ १६ ॥

जो लग्नेश लग्नको देखे १ कार्यैश कार्यस्थानको देखे २ लग्नेश कार्यस्थानको देखे ३ कार्यैश लग्नको देखे ४ लग्नेश कार्यैशको देखे ५ कार्यैश लग्नेशको देखे ६ ये छः प्रकार हैं; इनमें यदि चंद्रमाकी दृष्टि हो तो एकही योग पूर्ण कार्य सिद्धि करलेताहै ॥ १५ ॥ १६ ॥

आर्या०—कथयंतिपादयोगंपश्यतिसौम्योनलग्नपोलग्नम् ॥

लग्नाधिपंचपश्यतिशुभग्रहश्चार्द्धयोगोऽत्र ॥ १७ ॥

जो लग्नेश तो लग्नको न देखे किंच शुभ ग्रह देखे तो चौथाई योग कहाताहै तथा केवल लग्नेशको शुभ ग्रह देखे और छहोंमेंसे कोईभी योग न हो तो आधा योग होताहै फल भी ऐसाही जानना ॥ १७ ॥

आर्या—एकःशुभग्रहोयदिपश्यतिलग्नाधिपंवल्लग्नंवा ॥

पादेनयोगमाहुस्तदाबुधाःकार्यसंसिद्धयै ॥ १८ ॥

एक शुभ ग्रह जो लग्न वा लग्नेशको देखे तो उसे बुधजन पादेन योग कहते हैं यह कार्यसिद्धि करता है ॥ १८ ॥

आ०—लग्नपतौदर्शनेसंतिशुभग्रहौद्वित्रयोथवाललग्नम् ॥

पश्यंतियदितदानीमाहुयौगंत्रिभागोनम् ॥ १९ ॥

लग्नेशको दो वा तीन शुभग्रह देखें अथवा लग्नको देखें तो इस योगको त्रिभागोन कहतेहैं कार्यसिद्धि देताहै ॥ १९ ॥

क्रूरावेक्षणवर्ज्यश्चंद्रःसौम्योवाललग्नपंचलग्नंच ॥

पश्यंतःपूर्णतद्योगंकार्यस्यसंसिद्धयै ॥ २० ॥

पापग्रहदृष्टिरहित चन्द्रमा और शुभ ग्रह लग्न तथा लग्नेशको देखें तो पूर्ण योग कार्यसिद्धि देनेवाला होताहै ॥ २० ॥

अनुष्टु०—क्रूराक्रांतःक्रूरयुतःक्रूरदृष्टश्चयोग्रहः ॥

विरश्मितांप्रपन्नश्चसोनिष्टफलदायकः ॥ २१ ॥

जो कार्यकर्त्ता ग्रह पापाक्रांत वा पापयुक्त पापदृष्ट हो वा रश्मिरहित हो तो अनिष्ट फल कार्यनाश करताहै ॥ २१ ॥

समरासिहे ।

आर्या—अमुकं वदेति कार्यं कदा भविष्यत्यमुत्र पृच्छायाम् ॥

ल लग्नाधिपतिः कार्यं कार्याधिपः पश्येत् ॥ २२ ॥

ल स्थः कार्येशः पश्यति चे ग्रपतं देव भवेत् ॥

तत्कार्यं यद्यन्यः स्थितः सत्वरं तदान स्यात् ॥ २३ ॥

जब कोई पूछे किं हमारा अमुक कार्य कब होगा तो इस प्रश्नके में कार्येश कार्यको देखे अथवा लग्नेश लग्नको देखे तो कार्य शीघ्र होगा कहना जो कार्येश लग्नमें हो लग्नेशको देखे तौभी शीघ्र होगा, जो लग्नेश अन्यत्र हो तो शीघ्र न होगा ॥ २२ ॥ २३ ॥

पश्यति यदा चल द्रक्ष्यति चंद्रो विलग्नपंचयदा ॥ लग्ने कार्ये चयदा

द्वयोश्च योगे तदा सिद्धिः ॥ २४ ॥ यदि लग्नपो न पश्यति कार्याधीशो वि-

ल यतस्य ॥ कार्यस्य हानिरुत्ताल लग्नमृते किमपि नो वाच्यम् ॥ २५ ॥

जो चन्द्रमा लग्नको तथा लग्नेशको देखे अथवा लग्नेश कार्येश एकही स्थानोंमें हों तो कार्यसिद्धि होगी ॥ २४ ॥ जो लग्नेश कार्येशको न देखे यद्वा कार्यस्थानको भी न देखे तो कार्यहानि कही है, लग्नको छोडकर और भावोंसे भी विचार न कहना ॥ २५ ॥

न्यान्तरे प्रकीर्णकम् ।

अ ०—लग्नपो मृत्युपश्चादि मृत्यौ स्यातामुभौ यदि ॥

स्थितौ द्वेषकाण एकस्मिन् घुर्ला भस्तदा ध्रुवम् ॥ २६ ॥

जो लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम स्थानमें एकही द्वेषकाणमें हों तो पूछनेवालेको निश्चय लाभ होगा ॥ २६ ॥

एवं द्वादश भावेषु द्वेषकाणैरेव केवलम् ॥

बुधो विनिश्चयं ब्रूयाद्योगेष्वन्ये निस्पृहः ॥ २७ ॥

ऐसेही समस्त भावोंका विचार केवल द्वेषकाणोंसे पंडितने निश्चय करके कहना और योगोंसे यही बली रहता है ॥ २७ ॥

अनुष्टु ०—श्रकाले सौम्यवर्गो लग्नेयद्याधिको भवेत् ॥

ग्रहभावानपेक्षेण दाख्येयं शुभं फलम् ॥ २८ ॥

प्रश्नकालमें जो लग्नमें शुभवर्ग अधिक हो तो ग्रहभावफलकी अपेक्षा न कर शुभ फलही कहना, भावफलसे वर्गफल बली फलमें होताहै ॥ २८ ॥

लग्नाधिपश्चलाभस्याधीशश्चदायकोभवेत् ॥

लग्नाधिपस्ययोगोवालाभाधीशेनलाभदः ॥ २९ ॥

लग्नेश और लाभेश धनदाता हैं इनका योग लाभ देनेवाला होताहै २९ ॥

आर्या—भवतिपरमलाभकरस्तदैवसयदिचंद्रदृग्ग्लामे ॥

योगाःसर्वेष्वफलाश्चंद्रमृतेव्यक्तमेवच ॥ ३० ॥

जो लग्नेश वा लाभेश ग्यारहवें स्थानमें चन्द्रमासे दृष्ट हों तो परमलाभ करताहै चंद्रमाके दृष्टि वा योगविना सभी योग निष्फल होतेहैं यहतो प्रकटही है ३०

आर्या—कर्माधीशेनैवंकर्माधीशेनवृत्त्यधीशेन ॥

मृत्युपतिनाचयोगेलाभाधीशस्यवक्तव्यम् ॥ ३१ ॥

ऐसेही दशमेशकामी विचार करना, क्योंकि वह आजीवन भाव है और लाभेश अष्टमेशयुत हो तो लाभ न होवे ॥ ३१ ॥

तत्तत्स्थानेक्षणतःपुण्यविवृद्धिश्चकर्मवृद्धिश्च ॥

विबुधैस्तदा निवृत्तिर्मृत्युर्भावापरिष्येवम् ॥ ३२ ॥

चन्द्रमा जिस स्थानको देखे उसकी वृद्धि जैसे नवममें पुण्यवृद्धि दशममें कर्मवृद्धि करता है जो अष्टम भाव वा अष्टमेशपर चंद्रमाकी दृष्टि वा योग हो तो विपरीत फल कहना ऐसेही सभी भावोंमें विचारना ॥ ३२ ॥

लं शोयदिषः स्वयमेवारिपुर्भवत्यात्मा ॥

मृत्युकृदष्टमगोसौव्ययगःसततंव्ययं कुरुते ॥ ३३ ॥

लग्नेश छठा हो तो अपनी आत्मा भी शत्रु होतीहै अन्योंकी क्या कथा? जो लग्नेश अष्टम हो तो मृत्यु और बारहवां हो तो बहुत व्यय करताहै ३३

लग्नस्थं चंद्रजंचंद्रः क्रूरोवायदिपश्यति ॥

धनलाभोभवत्याशुकिंत्वनर्थोपिपृच तः ॥ ३४ ॥

लग्नस्थित बुधको चंद्रमा वा पापग्रह देखें तो धनलाभ तो शीघ्र होवे किंच प्रष्टाको कोईप्रकार अनर्थभी होवे ॥ ३४ ॥

तामान्यभाव विचारे ।

अनु०—इंदुःसर्वत्रबीजाभो लयं च ऋसुमप्रभम् ॥

फलनसदृशोशश्चभावःस्वादुसमप्रभः ॥ ३५ ॥

ग्रह विचारमें सर्वत्र चंद्रमा बीजके लग्न पुष्पके अंश फलके और भाव-
स्वादके समान हैं ॥ ३५ ॥

अथ लाभादौ कालनिर्णयः ।

आर्या—उदयोपगतराशितत्कालीकृत्यलिं कांगुणयेत् ॥

।यांगुलञ्चकुर्याद्धृत्वासुनिभिस्ततःशेषः ॥ ३६ ॥

गणयित्वैवं । ग्वद्धृत्वासौम्यस्यभवेदुदयः ॥

कार्य्यप्राप्तिः षुर्व व्यानेतैरैर्भवेति ॥ ३७ ॥

लाभादि समस्त प्रश्नोंमें समय जाननेके लिये तत्काल लग्नका कलापिंड
करके उस समयमें द्वादशांगुलकी छायाके अंगुलोंसे गुणाकर चौदहसे भाग-
देना जो शेष रहै वह मेषादि राशि जाननी, वह जो शुभग्रहकी राशि हो वो
कार्य्यप्राप्ति और पापकी हो तो कार्य्यहानि कहनी ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

ग्रहगुणकारोज्ञेयोदैवविदा पंच ५ विंशतिः सैकः २१ ॥

मनवो १४ ङ्का ९ शौटत्रितयंभवाः ११ सूर्यादितोज्ञेयः ॥ ३८ ॥

णकारैक्यविभक्तःसूर्यादिगुणकसंशुद्धः ॥

यस्यनशुद्धयतिवर्गोविं यस्तद्वशात्कालः ॥ ३९ ॥

सूर्यके ५ चंद्र २१ मं० १४ बुं० ९ बुं० ८ शु० इशानिके ११ये ग्रहोंके
गुणक हैं इनका योग ७१ से पूर्वोक्त जो तत्काल लग्नका कलापिंड छायां-
गुलोंसे गुणाहै उसमें भागलेना लब्धिमें सूर्यादिकोंके गुणक सूर्यसे लेकर
एकएक करके घटावै जहांतक घटे घटातेजाना जिसका गुणकांक न घटे
उससे समय कहना वह आगे कहते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

आरदिवाकरशेषेदिवसापक्षाश्चभृगुशशिनोः ॥ गुर्ववशेषे मासो

ऋतवः सौम्येशनैश्चरेब्दाःस्युः ॥ ४० ॥ आधानेथप्राप्तौगमनागमने

पराजयेविजये ॥ रिपुनाशेवाकालंपृच ।यां निश्चितंभ्रूयात् ॥ ४१ ॥

उक्त क्रमसे जो सूर्य वा मंगलका गुणक न घटे तो उतने दिन, शुक्र

चंद्रमासे पक्ष हस्पतिसे महीने बुधसे ऋतु शनिसे वर्ष जानने. आधानके प्रसव वा धनादिप्राप्ति तथा गमन आगमन जयपराजय, शत्रुनाशादि कार्यो को इसप्रकार समय निश्चय करके कहना ॥ ४० ॥ ४१ ॥

अकचटतपयशवर्गारविक्रुजसितसौभ्यजीवसौराणाम् ॥ चंद्रस्य
चनिर्दिष्टास्तैः थमोद्भवैर्वर्णैः ॥ ४२ ॥ ज्ञात्वातस्माल्लग्रं
विज्ञायशुभाशुभंचवदेत् ॥ वर्गादिमध्यांत्यैर्वर्णैः प्रश्नोद्भवै-
र्विषमराशिः ॥ ४३ ॥ ल ज्ञानेप्रवदेत्पृच्छायुग्मंकुजज्ञजीवा-
नाम् ॥ सितरविजयोश्चनैकरविशशिनोरेकराशित्वात् ॥ ४४ ॥
तस्मात्प्राग्बत्प्रवदेत्पृच्छासमयेशुभाशुभंसर्वम् ॥ कालस्यच
विज्ञानोदतचित्यंबहुप्रश्ने ॥ ४५ ॥

अवर्गका स्वामी सूर्य्य. एवं क का मंगल. च का शुक्र. ट का बुध. त का हस्पति. प का शनि. य का चंद्रमा शकाभी चंद्रमा ये वर्गोंके स्वामी हैं. जहां लग्नज्ञान न होसके वा २ । ३ आदि बहुत प्रश्न एक ही लग्नमें हों तो वर्गेशसे लग्न इसप्रकार लेना कि, प्रश्नके प्रथमाक्षर वर्गके जो स्वामी हैं उनकी राशिलग्न जानना. उसलग्नसे उक्तप्रकार योगादि विचारके शुभाशुभ फल कहना. प्रत्येक ग्रहकी २ । २ राशि हैं इनमें विषमराशि जानना. जैसे मंगल वर्गेश हो तो मेष समझना. चंद्रमाकी एकही है वह वही जाननी. जहां बहुत प्रश्न हों तो प्रथम प्रश्नमें प्रश्नाक्षरके प्रथम वर्ण दूसरे में मध्यवर्ण तीसरेमें अंत्यवर्ण से लग्न जानना. तथा मंगल बुध बृहस्पतिके राशि लग्न ज्ञात हों तो दो प्रश्न जानना. शुक्रशनिसे अनेक. और सूर्य्य चंद्रमासे एक राशि होनेसे एकही प्रश्न जानना. बहुत प्रश्नोंमें इसप्रकार लग्नसे शुभाशुभ फल तथा वर्गेश ग्रहके गुणकसे पूर्वोक्त क्रममें विचारकर सभी कहना ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

प्रश्नवस्तुज्ञाने ।

स्वांशिविले यदिवात्रिकोणेस्वांशस्थितःपश्यतिधातुर्चिताम् ॥

परांशकस्थश्चकरोतिजीवमूलंपरांशोपगतःपरांशम् ॥ ४६ ॥

मुष्टि वा मूकप्रश्नमें जो लग्नेश वा चन्द्रमा अपने अंशमें वा लग्नमें यद्वा त्रिकोण ९।५ में हो अथवा और किसी स्थानमें हो किंतु अपने अंशमें होकर लग्नको देखे तो धातुचिंता तथा शत्रु वा समांशकमें होकर लग्नचन्द्रमाको देखे तो जीवचिंता और परांशकमें बैठकर परांशकी ग्रहोंको देखे वा लग्नेश चंद्रमा परांशकी हों लग्नमें कोई ग्रह परांशकी हो तो मूलवस्तुसंबंधी प्रश्न कहना ४६

धातुर्मूलंजीवमित्योजराशौयुग्मेविद्यादेतदेवप्रतीपम् ॥

लग्नेयांशस्तत्क्रमाद्गण्यएवंसंक्षेपोयंविस्तरात्तत्प्रभेदाः ॥ ४७ ॥

विषम राशि लग्नमें हो तो प्रथम नवांशमें धातु दूसरेमें मूल तीसरेमें जीव चौथेमें धातु पांचवेंमें मूल छठेमें जीव सातवेंमें धातु आठवेंमें मूल नववेंमें जीव चिंताकहनी, जो समराशि लग्नमें हो तो विपरीत, जैसे १।४।७ में जीव २।५।८ में मूल ३।६।९ में धातुचिंता कहनी ॥ ४७ ॥

बलिनैकेन्द्रोपगतौरविभौमौधातुकरौप्रश्ने ॥

बुधसौरीमूलकरौशशिगुरुशुक्राःस्मृताजीवाः ॥ ४८ ॥

जो सूर्य वा मंगल बलवान् और केन्द्रगत हों तो धातु, बुध शनि हों तो मूल, चन्द्रमा बृहस्पति शुक्र हों तो प्रश्नमें जीवचिंता जाननी ॥ ४८ ॥

मेषालिंसिंहलग्नेकुजार्कयुक्तेनिरीक्षितेप्यथवा ॥

धातोश्चिंतांप्रवदेद्युगघटकन्यागतैर्लग्नैः ॥ ४९ ॥

बुधरविजयुतैर्मूलंबृषतुलाहरिमीनचापकर्कटकैः ॥

चन्द्रगुरुशुक्रयुतैर्दृष्टैर्जावोविनिर्देश्यः ॥ ५० ॥

लग्नमें १।८।५ राशि हो और मंगल वा शनिसे युक्त वा दृष्ट हों तो धातु, तथा ३।११।६ राशि बुध शनि युक्त दृष्ट हों तो मूल और २।७।५।१२ ९।४ राशि चन्द्रमा बृहस्पति शुक्रसे युक्त दृष्ट हों तो जीवप्रश्न कहना ॥ ४९।५०

भावप्रश्नज्ञानम् ।

लग्नलाभयोःप्राणीतयोर्यद्भावगः शशी ॥ तस्यभावस्ययाचिंताप्रभुः

साहदिवर्तते ॥ ५१ ॥ एवंलग्नाधिकान्द्राहलग्ननाथोयतः स्थितः ॥

दैवज्ञेनविनिर्णयःप्रश्नस्तद्भावसंभवः ॥ ५२ ॥

लग्नेश वा लग्नेशमें जो बलवान् हो अथवा इनके अंशेशोंसे जितने भावमें चन्द्रमा हो उसभावसंबंधी प्रश्न जानना जिस भावमें जो विचार चाहिये वह प्रथम कहा गया है, ऐसेही बलाधिक चन्द्रमासे लग्नेश जितनेमें हो उसके संबंधी प्रश्न पूछनेवालेके हृदयमें ज्योतिषीने जानकर आद्य विचार करना ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

आत्मसमंल गतैस्तृतीयगैर्भ्रातरः तं तगैः ॥ मातावाभगिनी
वाचतुर्थगैः शत्रुगैः शत्रुः ॥ ५३ ॥ जायासप्तमसंस्थैर्नवमेधर्माश्रि-
तो गुरुर्दशमे ॥ स्वांशः पतिमित्रशत्रुषु तथैव वाच्यं बलयुतेषु ॥ ५४ ॥

सर्वोत्तम बलीग्रह वा तत्काल लग्नका नवांशेश लग्नमें हो तो अपने शरीर-संबन्धी, तीसरा हो तो भ्रातृसंबन्धी एवं पंचममें पुत्र संबन्धी चतुर्थमें माता बहिनके विषय, छठा हो तो शत्रुसंबन्धी सप्तममें स्त्रीसंबन्धी नवममें धर्मसंबन्धी दशममें गुरु वा राजसंबन्धी प्रश्न कहना, तथा बली ग्रहका बल लग्नका अंशेश मित्र राशिमें हो तो मित्रसंबन्धी, शत्रुराशिमें हो तो शत्रुसंबन्धी जानना इतनोंमें जो बलवान् हो उससे प्रश्न कहना ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

चरलग्ने चरभागे मध्याद्भ्रष्टे वासिर्चितास्यात् ॥

भ्र : स मभवनात्पुनर्निवृत्तो यदि न वक्त्री ॥ ५५ ॥

पूर्वोक्त ग्रह चरराशि चरनवांशकमें दशम स्थानसे ऊपर १०।११।१२ में हो तो प्रवासिसंबन्धी प्रश्न कहना तथा चरराशिनवांशमें सप्तमाधिक ७ ८।९ में हो तो उसका निवृत्ति के (लौटने) विषयमें जानना यदि वह वक्त्री न हो, जो वक्त्री हो तो उक्तसे विपरीत जानना ॥ ५५ ॥

अस्तेरविसितवक्रैः परजायां स्वां गुरौ धे वेश्याम् ॥

चंद्रेचवयः शशिवत् प्रवदेत्सौरैत्यजातीयाम् ॥ ५६ ॥

सप्तम स्थानमें सूर्य शुक्र वा मंगल बली हों तो परस्त्री बृहस्पति हो तो अपनी स्त्री बुध हो तो वेश्या चन्द्रमा हो तो भी वेश्या तत्काल चन्द्रमाके सदृश अवस्था कहना और शनि हो तो हीन जाति । प्रष्टाके मनमें चिंतित है ५६

कुमारिकांबालशशीबुधश्चवृद्धांशनिःसूर्यगुरुप्रसूताम् ॥

स्त्रीकर्कशांभौमसितौचधत्तएववयः स्यात् रुषेषुचैवम् ॥ ५७ ॥

बाल चन्द्रमा वा बुध हो तो कुमारी कन्या शनिसे वृद्ध स्त्री सूर्य तथा बृहस्पतिसे प्रसूतवती मंगल शुक्रसे कठोर स्वभावकी स्त्री प्रश्नसंबन्धी कहनी तथा पुरुषकी अवस्थादिभी ऐसेही विचारसे कहनी ॥ ५७ ॥

इति महीधरकृतायां प्रश्नतंत्रभाषाटीकायां संज्ञाप्रकरणम् ॥ १ ॥

यह प्रकरण समस्त आर्य्याखंडमें है ॥

प्रथमलग्नभावप्रश्न कहते हैं ।

भूतं भवद्भविष्यन्मम किं कथयेति जातपृच्छायाम् ॥ लग्नपतेः

शशिनो वा बलमन्वेष्यं बलाभावे ॥ १ ॥ दृष्टानवांशकबलं शुभ-

दृग्योगंच सर्वकार्येषु ॥ प्रष्टुः शुभमादेश्यं विपरीतं व्यत्ययादेव ॥ २ ॥

जो कोई पूछे कि मेरा भूत वा भविष्य क्या हुआ वा होगा तो इस प्रश्नमें लग्नेश तथा चन्द्रमाका बल देखना. जो ये बली न हों तो नवांश बल देखना बलाधिक्य और शुभग्रह दृष्टि योगसे प्रष्टाके समस्त कार्य्योंमें शुभ इससे विपरीत हो तो अशुभ कहना ॥ १ ॥ २ ॥

ले शो मूसरिफो यस्मात्तस्मादतीतमाख्येयम् ॥

येन युतस्तस्माद्भवदेष्येनेक्ष्यते तस्मात् ॥ ३ ॥

लग्नेशका जिस ग्रहसे मूसरिफ हो उसके अनुसार भूत कहना जैसे मूसरिफ होकर ईसराफ होगया हो तो कार्य्य होगया और इत्थशाल हो तो कार्य्य होताहै कहना और दृष्टिसे होनेवाला कहना, इत्थशालोंके भेद पहिले कहदियेहैं ॥ ३ ॥

यदिलग्नैलग्नपतिः सौम्ययुतो वा विलोकितः सौम्यैः ॥

तत्प्रष्टुर्व्याकुलताशरीरदोषाविनश्यति ॥ ४ ॥

जो लग्नेश लग्नमें शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो प्रष्टाके मन व्याकुलता और शरीरके समस्त दोष नाशहोते हैं ॥ ४ ॥

पापोयदिल पतिस्तदा कलिव्याधिघननाशाः ॥

सौम्येनिर्वृतिबुद्धिर्द्रव्याप्तिः सौख्यमतुलं च ॥ ५ ॥

जो लग्नेश पापग्रह हो वा लग्नेमें पाप हो तो कलह रोग धनहानि हो, जो शुभग्रह हो तो बुद्धि निर्मल धनलाभ और अतुल सुख मिले ॥ ५ ॥

इति श्रीमहीशरुतायां नीलकंठीभाषाटीकायां लग्नभावप्रश्ननिह्यणम् ॥ १ ॥

अथ द्वितीयभावफलम् ॥

धनलाभस्यप्रश्नेलग्नेशेनेदुनाथधननाथौ ॥

कुरुतोयदीत्यशालंशुभुतिदग्भ्यांभवेलाभः ॥ ६ ॥

धनलाभप्रश्नेमें लग्नेशसे चन्द्रराशीरा तथा धनभावेश इत्यस्यल करे शुभ-
ग्रहोंसे युक्त दृष्टभी हो तो धनलाभ होगा ॥ ६ ॥

क्रूरग्रहैर्धनस्थैर्दूरेलाभोऽन्यदप्यशुभम् ॥

क्रूरसुथशिलेधनेशेप्रष्टाम्रियतेथवाविलग्नेशे ॥ ७ ॥

जो पापग्रह धनस्थानमें हों तो लाभ बहुत कालमें हो और कु अशुभ
भी होवे धनेश वा लग्नेश पापसे इत्यशाली हो तो प्रष्टा अरिष्ट पावे ॥ ७ ॥

धनधनपेयथेत्यशालो दगतिर्यत्रभावानाम् ॥

तनुधनसहजादीनांप्रष्टुस्तद्वारतोलाभः ॥ ८ ॥

धनेश मंदगामी तनु धन सहजेशादिकोंमेंसे जिससे इत्यशाली हो उस
भावसंबंधी जनके द्वारा धनलाभ होवे ॥ ८ ॥

अनुष्टु०—प्रश्नेचतुर्थाधिपतिस्तत्रस्थोवावलोकते ॥

अवश्यंवर्ततेतत्रधनंचंद्रेथवावदेत् ॥ ९ ॥

स्थापित वा चौरादि धनकी भांतिमें चतुर्थेश चतुर्थभावमें हो वा उसे
देखे अथवा चन्द्रमा चतुर्थ हो तो धन अवश्य तहां होगा यह कहना ॥ ९ ॥

वित्तेशेधनगेबंधौवास्तितत्रधनंबहु ॥

पापेतुर्यगतेद्रव्यंस्थितंतूर्णनलभ्यते ॥ १० ॥

धनेश धनभावमें चतुर्थ हो तो प्रश्नस्थानमें बहुत धन है, जो पापग्रह भी
चतुर्थ हो तो धन तो है किंतु शीघ्र नहीं मिले ॥ १० ॥

भौमेसप्ताष्टराशिस्थेधनमन्यत्रनाप्यते ॥ लग्नेतमोरविच्छिद्रेत-

दाद्रव्यंनलभ्यते ॥ सप्ताष्टदशपातालेधनदौचन्द्रमागुरुः ॥ ११ ॥

जो मंगल सप्तम वा अष्टम हो तो धन औरस्थानमें है नहीं मिलेगा, जो

लग्नमें राहु अष्टम सूर्य्य हो तो द्रव्य नहीं मिले; ७ । ८ । १० । ४स्थानोंमें चंद्रमा और बृहस्पति हों तो चिंतित धन देतेहैं ॥ ११ ॥

लग्नेश्वरेद्यूनगतेत्रिले जायेश्वरेनष्टधनस्यलाभः ॥

जायेशल अधिपतीत्यशालेद्यूनेविनष्टधनमेतिमर्त्यः ॥ १२ ॥

लग्नेश सप्तम सप्तमेश लग्नमें हों वा लग्नेश सप्तमेशका इत्यशाल हो तो नष्ट वा विस्मृत धन प्रष्टा पावे ॥ १२ ॥

लग्नेशजायाधिपतीत्यशाले श्वर्यञ्छतितस्करोर्थम् ॥

सूर्य्येविलग्नेस्तमितेशशाकेनलभ्यतेयद्रविणंविन म् ॥ १३ ॥

लग्नेश सप्तमेशका इत्यशाल हो तो चोर आपही धन देदेगा, जो सूर्य्य लग्नमें चन्द्रमा सप्तममें हों तो नष्टधन न मिले ॥ १३ ॥

कर्मेशलग्नाधिपतीत्यशाले चौरःस्वमादायपुरात्पलायते ॥

चंद्रेस्तपेचार्करप्रविष्टेत्तल्लभ्यतेनष्टधनंसतस्करम् ॥ १४ ॥

दशमेश और लग्नेश इत्यशाली हों तो चोर धन लेकर नगरसे भागगया; चंद्रमा और सप्तमेश अस्तंगत हों तो धनसहित चोर पकडा जायगा ॥ १४ ॥

अस्तेश्वरेकेंद्रगतेस्तिचौरस्तत्रैवनान्यत्रपुराद्विनिर्गतः ॥

धर्मेशदुश्चिक्वपतीत्यशालेजायेश्वरेन्यत्रगतःसचौरः ॥ १५ ॥

सप्तमेश केंद्रमें हो तो चोर तहांही है नगरसे अन्यत्र नहीं गया, नवमेश दशमेशसे इत्यशाली सप्तमेश हों तो अन्यत्र चलागया ॥ १५ ॥

कर्मेशलग्नाधिपतीत्यशालेतल्लभ्यतेराजकुलाच्चचौर्य्यम् ॥

त्रिधर्मपद्यूनपतीत्यशालेत्वन्यत्रदेशाद्गमनेतदाप्तिः ॥ १६ ॥

दशमेश लग्नेशका इत्यशाल हो तो राजकुलसे चोर पकडा जावे; तृतीय नवमके स्वामी सप्तमेशसे इत्यशाली हों तो और देशमें पकडा जावेगा ॥ १६ ॥

शुभेत्यशालेहिमगौविलग्नेखस्थेथवानष्टधनस्यलाभः ॥

सुस्नेहदृष्टचारित्रिणाशुभेनदृष्टेविलग्नेहिमगौचलाभः ॥ १७ ॥

चंद्रमा शुभग्रहसे इत्यशाली लग्न वा दशममें हो तो नष्टधन मिले; जो लग्नगत चंद्रमाको सूर्य्य तथा शुभग्रह मित्र दृष्टिसे देखें तौभी वही फलकहना १७ ॥

० स्थिरोदयेस्थिरांशेवावोत्तमगतेपिवा ॥

स्थितंतत्रैवतद्रव्यंस्वकीयेनैवचोरितम् ॥ १८ ॥

लग्नमें स्थिर राशि वा स्थिर नवांश अथवा वर्गोत्तमांश हो तो वह धन वहीं है किन्तु अपनेही मनुष्यने चोरी करी ॥ १८ ॥

आदिमध्यावसानेषुद्रेष्काणे विल तः ॥

।रदेशेथवामध्येगृहान्तेचवदेद्धनम् ॥ १९ ॥

लग्नमें प्रथम द्रेष्काण हो तो घरके द्वारसमीप वस्तु है, मध्य द्रेष्काण हो तो घरके बीचमें और तीसरा द्रेष्काण हो तो घरके पीछे होगा ॥ १९ ॥

पतितधनस्यप्रश्नेमिथोगृहस्थौविल सप्तेशौ ॥

यदि थशिलंतयोःस्यात्तदाश्रुतत्रैववदंतिधनम् ॥ २० ॥

नष्ट द्रव्यके प्रश्नमें लग्नेश सप्तम सप्तमेश लग्नमें वा इनका मथशिल हो तो वह धन वहांही है शीघ्र मिलेगा ॥ २० ॥

नष्टंकादिशिप्राप्यंपृच्छायांलग्नगेविधौ च्याम् ॥

स्वस्थानेयाम्यायामस्तेवारुण्यांवाभुव्युदीच्याम् ॥ २१ ॥

नष्टवस्तु कहां मिलेगी ऐसे प्रश्नमें चंद्रमा लग्नका हो तो पूर्वदिशामें दशम हो तो दक्षिण, सप्तम हो तो पश्चिम, चतुर्थ हो तो उत्तरमें मिलेगी ॥ २१ ॥

यदिनेंदुःकेन्द्रेतच्चत्वारिंशांशकैश्चपंचयुतैः ॥

भागोदिक्रमउक्तोवह्नचवनीवायुवारिराशौवा ॥ २२ ॥

जो चन्द्रमा केन्द्रमें न हो तो चन्द्रस्थित अंशकसे ४५ वें अंशमें जो राशि है उसकी जो दिशा वा उपदिशा अथवा अग्नि, पृथ्वी, वायु, जलमेंसे जो उस राशिका तत्त्वहै उसमें नष्ट द्रव्य कहना ॥ २२ ॥

नष्टहृतवित्तलब्धेःपृच्छायांचौरसप्तमंततोलाभः ॥

हिवुक्तद्रव्यस्थानंल चंद्रश्चधननाथः ॥ २३ ॥

नष्ट वा चोरित धनलाभ प्रश्नमें सप्तम स्थानसे चोर चतुर्थसे उसकी प्राप्ति, लग्नसे द्रव्य और चन्द्रमा धनका स्वामी जानना ॥ २३ ॥

लग्नेशोस्तेस्तपतिनाचेन्मुथशिलीततोलाभः-॥

यद्यष्टेशोलग्नतदास्वयंतस्करोर्पयति ॥ २४ ॥

लग्नेश सप्तममें जो सप्तमेशसे मुथशिली हो तो हतद्रव्यका लाभ होवे. जो अष्टमेश लग्नमें हो तो चोर आप ही धन देदेवे ॥ २४ ॥

रविरशिमगेधनेशवास्तमितेत्स्करस्यलाभःस्यात् ॥ लग्ने-
शदशमपत्योर्मुथशिलतः प्राप्यतेर्थाँश्चौरः ॥ लग्नेशदृष्ट्य-
भावेचौरःसहमात्रयायाति ॥ २५ ॥

धनेश सूर्य्यके साथ वा अस्तंगत ही हो तो चोर पकडा जावे, लग्नेश दशमेशका इत्थशाल हो तो धनसहित चोर मिले जो लग्नेशकी दृष्टि सप्तम पर न हो तो चोर धनसहित आवेगा ॥ २५ ॥

अस्ताधिपतौदग्धेरविरशिमगतेथलभ्यतेचौरः ॥

लग्नपकृतेत्थशालेराजभयाद्धनामिदंस्वयंदत्ते ॥ २६ ॥

सप्तमेश दग्ध वा अस्तंगत हो तो चोर पकडा जावे, लग्नेशसे सप्तमेश इत्थशाली हो तो राजाके भयसे चोर आपही धन देदेवे ॥ २६ ॥

लग्नास्तपयोर्नस्याद्यदिदृष्टिर्लग्नपस्तथाविकलः ॥

तत्तस्करःस्वहस्ताद्दातिचौर्य्यैर्हिराजकुले ॥ २७ ॥

लग्नेश सप्तमेशकी दृष्टि न हो तथा लग्नेश कलाहीन हो तो चोर अपने हाथसे राजसभामें धन चोरीका देदेवे ॥ २७ ॥

लग्नपमध्यपयोगेराजकुलंप्राप्यलभ्यतेचौर्य्यम् ॥

रंभ्रंचोरस्यधनंधनपेतत्राथसप्तमेनातिः ॥ २८ ॥

लग्नेश दशमेश साथही हों तो राजद्वारसे चोरी मिले, अष्टमस्थान चोरका धन होताहै धनेश इसमें वा सप्तम हो तो धन न मिले ॥ २८ ॥

रंभ्रपतौधनपस्यतुमुथशिलयोगेतुप्राप्यतेवित्तम् ॥

रंभ्रपतौदशमपतेर्मुथशिलगेचौरपक्षकृद्भूपः ॥ २९ ॥

अष्टमेश धनेशका इत्थशाल हो तो धन मिले अष्टमेश दशमेशका मथशिल हो तो राजा चोरका पक्षपात करे ॥ २९ ॥

चौरस्थानज्ञानम् ।

चौरज्ञानप्रश्लेषेरविशाशिदृशास्वगृहचौरः ॥

अनयोरेकदृशागृहसमीपवर्तीवसत्येषः ॥ ३० ॥

चौर कहां है ऐसे प्रश्नमें लग्नपर सूर्य चंद्रमाकी दृष्टि हो तो प्रष्टाके घरहीमें और इनमेंसे एककी दृष्टि हो तो पड़ोसमें रहताहै ॥ ३० ॥

लग्नस्थेलग्नपतावस्तप्युक्तेचगृहगतश्चौरः ॥

अस्ताधिपतावंत्येसहजेवास्वीयभृत्योयम् ॥ ३१ ॥

लग्नेश लग्नमें सप्तमेशयुक्त हो तो चोर प्रष्टाके घरहीमें रहताहै, जो सप्तमेश बारहवां वा तीसरा हो तो चौर अपनाही नौकर है ॥ ३१ ॥

अस्तेशेतुंगस्थेस्वगृहेवातस्करःप्रसिद्धःस्यात् ॥ लग्नदशमा-

स्तभावाःक्रमेणर्वक्ष्याःस्वतुंगभवनादौ ॥३२ ॥ यःखेटःस्याद्-

लवान्सज्ञेयस्तस्करस्यबली ॥ लग्नादिषुयोग्रहः स्वोच्चादिब-

लीसयज्जातिः ॥ एवंयोगंतुविनाद्यूनेशस्यैवबलमभिग्राह्यम् ॥३३॥

सप्तमेश उच्चमें वा स्वगृहमें हो तो वह चोर नामी है कहना तथा १।१०।

७ भाव क्रमसे देखने इनमें जो कोई उच्चादि बली हो वह चोरका बल

जानना और उनके अनुसार फल कहना. जब ये योग न हों तो सप्तमही केवल

लेना, बली ग्रहकी जातिरूपवाला चोर होगा वा चोरकी सहाय करेगा ३२। ३३

इत्थंचौरानेचौरःसूर्य्येगृहेश्वरस्यपिता ॥ चंद्रमाताशुक्रेभा-

र्यामदेसुतोभवे चि ॥ ३४ ॥ जीवेगृहप्रधानंभौमे त्रोथवा

भ्राता ॥ स्वजनोमित्रंवाज्ञात्वेत्थंपुण्यसहममावेश्यम् ॥३५ ॥

उक्त प्रकारोंसे चोर जाननेके और ज्ञान हैं कि वह योगकर्ता सूर्य्य हो

तो उसघरके स्वामीका पिता चोरहै; एवं चन्द्रमासे माता, शुक्रसे स्त्री शानिसे

पुत्र. वा दास बृहस्पतिसे घरका श्रेष्ठ मंगलसे पुत्र भाई बुधसे मित्र होगा

ऐसा जानकर पुण्यसहम देखना ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

तस्मिन्क्रूरादृष्टेपुरानचौरौस्तपेपुरापिस्यात् ॥

अस्तेशान्मूसारिफेभौमेचौरःपुरापिनिगृहीतः ॥ ३६ ॥

पुण्यसहम क्रूर दृष्ट न हो तो यह पहिले चोर नहीं था, सप्तमेश पाप-

दृष्ट हो तो पहिले भी चोरथा. सप्तमेशसे मंगलका मूसरिफ हो तो यह चोर पहिले भी चोरीमें पकडा गया था ॥ ३६ ॥

सप्तमगेरविपुत्रेचंद्रदृष्टशातस्करोहिपाखंडी ॥

विविलोक्यलोकंभौमेखातेनतालकंभक्त्वा ॥ ३७ ॥

शानि सप्तम चंद्रदृष्ट हो तो चोर पाखंडी होगा, बृहस्पति उसे देखे तो चोर लोकविदित होवे. सप्तम मंगल चंद्रदृष्ट हो तो कुम्हल ताला जंजीर आदि तोडकर चोरने चोरी करीहै ॥ ३७ ॥

प्रतिकुंचिकयापहृतंसितेतिथिज्ञैप्रपंचकरः॥चौरस्यवयोज्ञानिसितेयुवा
ज्ञेशिशुर्गुरौमध्यः ॥ तरुणोभौमेमदेवृद्धोकेस्यादतिस्थविरः ॥ ३८ ॥

सप्तममें शुक्र चंद्रदृष्ट हो तो दूसरी कूची (चाबी) से खोलकर चोरी भई तथा बुध हो तो अपूर्व मनुष्य प्रपंची चोर है और चोरकी अवस्थाके ज्ञानमें शुक्रसे युवा. बुधसे बालक. बृहस्पतिसे मध्य अवस्था. मंगलसे तरुण. शनिसे बूढा. सूर्यसे अतिबूढा जानना ॥ ३८ ॥

त नभसोःस्वमंदिरेस्मरभूम्योर्भूमिलामयोर्मध्यम् ॥

चरतिरवैनवमध्यमवृद्धवयोतीतकाःक्रमशः ॥ ३९ ॥

सूर्य १ । १० स्थानके बीच अपनी राशिमें हो तो नया जवान ७।४ स्थानोंके बीच स्वराशिका हो तो मध्यमावस्था; ४ । ११ के बीच हो तो बूढा, इतनी अवस्था क्रमसे व्यतीत जाननी ॥ ३९ ॥

नष्टस्थानेप्रश्नेतुर्यैभूम्यग्निवायुजलमध्यात् ॥

योभवतिराशिरस्मात्स्थानंज्ञेयंगतधनस्य ॥ ४० ॥

चोरीका द्रव्यस्थानके प्रश्नमें चतुर्थ स्थानमें भूमि वायु जलमेंसे जिस तत्त्वकी राशि हो उसका विशेष स्थान कहना ॥ ४० ॥

अथचतुर्थगृहेतुर्यैश्वरोथयःस्याद्रहस्ततोज्ञेयम् ॥

मंदेमलिनस्थानेचंद्रैर्बुनिगीष्पतौसुरारामे ॥ ४१ ॥

भौमेवह्निसमीपेवौगृहाधीश्वरासनस्थाने ॥

तल्पेशुकेसौम्येपुस्तकवित्तान्नयानपार्श्वेच ॥ ४२ ॥

चतुर्थमें चतुर्थश वा जो ग्रह बली हो उससे चोरी द्रव्यका स्थान कहना; जैसे शनिसे मैलास्थान चंद्रमासे जलाशय वा हाथ पैर धोवनेके स्थान बृहस्पतिसे देवसमीप वा बगीचा, मंगलसे अग्निसमीप, सूर्यसे गृहपतिके बैठनेके स्थान, शुक्रसे शयनस्थान, बुधसे पुस्तक धन अन्न वा डोली आदि सवारीके समीप कहना ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

चौरायमथनवेति रेंद्रोर्मुथशिलेचचौरःस्यात् ॥

सौम्यशशिसुथशिलेखलुनभवतिचौरःप्रवक्तव्यम् ॥ ४३ ॥

यह चौर है वा नहीं ऐसे प्रश्नमें चंद्रमा पापग्रहमें सुथशिली हो तो चोर होगा. जो शुभसे सुथशिली हो तो चोर नहीं है कहना ॥ ४३ ॥

किमनेनतस्करत्वंकदापिविहितंनवेतिपृच्छायाम् ॥

लग्नपशशिनोरकस्मादपिसूसरिफेस्तपेविहितम् ॥ ४४ ॥

इसने कभी चोरी करी वा नहीं ऐसे प्रश्नमें लग्नेश वा चंद्रमासे सप्तमेश सूसरिफी हो तो पहिले भी चोर है ॥ ४४ ॥

चोरःस्त्री रूषोवापृच्छायामस्तपेस्त्रियोरशौ ॥

स्त्रीखेटेस्त्रीह चौरःस्त्रीव्यत्ययात्पुरुषः ॥ ४५ ॥

चोर स्त्री वा पुरुष कौन होगा ऐसे प्रश्नमें सप्तमेश स्त्रीराशिमें और स्त्री ग्रह वा स्त्रीग्रहदृष्ट हो तो चोर स्त्री होंगी जो पुरुष राशिमें सप्तमेश पुरुषग्रह पुरुषदृष्ट होतो पुरुष चोर होगा ॥ ४५ ॥

ल शे नवर्मांशतोवयःप्रमाणजायतेज्ञेयः ॥

चौरायमिहानंतशास्त्रं कथिता यमुद्देश ॥ ४६ ॥

लग्न वा लग्नेशके नवर्मांशशसे चोरकी अवस्थाका प्रमाण जातिरंग आदि और द्रेष्काणसे उसका रूप कहना. शेष विचारको शास्त्र अनंत है यहां बुद्धिमानोंको उद्देशमात्र कहा है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां नील० प्रश्नतंत्रभाषाटीकायां धनभावप्रश्ननि० ॥ २ ॥

अथ तृतीयभावप्रश्नः ।

सहजपतिर्यादि सहजं पश्यतिचेद्वयंशुभैर्दृष्टम् ॥

तद्भातरो गतरुजःस्वस्थाः रेक्षितेवामम् ॥ १ ॥

तृतीयेश तृतीय भावको देखे तथा तृतीयभाव और तृतीयेशको शुभग्रह देखें तो भाई सुखी सावधान और पाप दृष्टि योगसे रोगी वा अस्वस्थ कहना ॥ १ ॥

यदि सहजपतिः षष्ठेत्पतिना मुथशिलेऽथतन्माद्यम् ॥

षष्ठेशे सहजस्थे सहजपतौऋरिते वापि ॥

सूर्यस्यरश्मिसंस्थेभयावहं प्रष्टुरादेश्यम् ॥ २ ॥

तृतीयेश छठा वा आठवां होकर षष्ठेशसे इत्थशाली हो तो भाई मांदि कहने, वा षष्ठेश तीसरा वा तृतीयेश पापयुक्त हो तो भी यही फल है, जो अस्तंगत हो तो प्रष्टाको भय देताहै ॥ २ ॥

ष ष्टमभावेशौ यद्भावेशेनेत्थशालिनौस्याताम् ॥

पीडांतस्य प्रवदेत्ष ष्टमभावगे वापि ॥ ३ ॥

छठे आठवें भावके स्वामी जिस भावेशके साथ इत्थशाली हों वा जिस भावमें हों अथवा जिस भावका स्वामी ६ । ८ स्थानमें हो उस भावसंबंधी पीडा कहनी ॥ ३ ॥

एवं सर्वेपि यथापित्रोस्तुर्य्येसुतानांच ॥

पंचमभावे भृत्यचतुष्पदस्त्रियाः हृदकःसप्तमे ॥ ४ ॥

ऐसे सभी भावोंमें विचार करना जैसे चतुर्थेशसे षष्ठेश वा अष्टमेशका इत्थशालहो, यद्वा इन भावोंके स्वामी चतुर्थ वा चतुर्थेश इन भावोंमें हो तो माता पिताको पीडा होवे, ऐसा पंचम भावसे पुत्रोंको सप्तमसे भृत्य, स्त्री चतुष्पद इत्यादि जानना ॥ ४ ॥

अथ क्रयविक्रयौग्रन्थान्तरे ।

अनु०—क्रेता लग्नपतिज्ञेयो विक्रेतायपतिःस्मृतः ॥

गृह्णाम्यहमिदंवस्तुप्रश्न एवंविधेसति ॥ ५ ॥

बलशालि विलग्नंचेद्ब्रह्मतेतत्क्रयाणकम् ॥

तस्मात्क्रयाणकाल्छाभःप्रष्टुर्भवति निश्चितम् ॥ ६ ॥

मैं यह सौदा करताहूं इसमें लाभ हानि क्या होगी ऐसे प्रश्नमें लेनेवाला लग्नेश बेचनेवाला लाभेश होता है, इनके बलाबलसे विचार कहना, जैसे लग्नेश बलवान् हों तो यह द्रव्य लेना इसमें प्रष्टाको निश्चयलाभ होगा ॥ ५ ॥ ६ ॥

विक्रीणाम्यमुकं वस्तुप्रश्न एवंविधेसति ॥

आयस्थाने बलवति विक्रेतव्यं क्रयाणकम् ॥ ७ ॥

मैं यह वस्तु बेचताहूँ कैसा होगा ऐसे प्रश्नमें आयस्थान वा तत्स्वामी बलवान् हो तो इस विक्रीमें लाभ अन्यथा हानि होगी ॥ ७ ॥

इति श्रीमहीश्वरकृतायां प्रश्नतंत्रभाषाटीकायां तृतीयभावप्रश्ननिरूप० ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थस्थानप्रश्नः ।

लग्नपतीन्दुचतुर्थपतिमुथशिलमथवागृहे गमनम् ॥

प्रुः पृथ्वीलाभदमसौख्यदृग्योगतो नैव ॥ १ ॥

लग्नेश चन्द्रमा और चतुर्थेश परस्पर इत्थशाली वा एकही स्थानमें होंतो प्रष्टाको भूमिलाभ होवे पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हों तो लाभ नहीं होगा, विशेष बलाबलसे फल कहना ॥ १ ॥

यदि पृच्छति कृषिकोमेक्षेत्रालाभो भवेन्नवा ॥

लग्नकृषिकस्तुर्ग्यं भूमिर्दूनंच कृषिस्तरुर्दशमम् ॥ २ ॥

खेतीवाला जो पूछे कि मेरी खेतीसे लाभ होगा वा नहीं तो लग्न कृषिकर्ता चतुर्थ भूमि सप्तम कृषि दशम अन्न वृक्षादि होते हैं इन भावोंके बलाबल निरूपण करके उक्त कामोंमें शुभाशुभ कहना ॥ २ ॥

लग्नेक्रूरुपगते स्याच्चौरोपद्रवस्तुकृषिकर्तुः ॥

वक्रातिचारवज्यैक्रूरे चौरस्यकृषिलाभः ॥ ३ ॥

लग्नमें पापग्रह हों तो कृषिकर्ताको चौरादि उपद्रव होंगे जो वह पापग्रह वक्रि वा अतिचारी न हों तो चौरसे फिरभी लाभ होवे ॥ ३ ॥

लग्नस्थे शुभखेटेसाफल्यं कर्षकस्य कृषितः स्यात् ॥

तुर्ग्यैच रूगते त्यक्त्वा भूमिं प्रयात्येषः ॥ ४ ॥

लग्नमें शुभग्रह हों तो खेतीवालेको खेतीमें अच्छा लाभ होगा जो चौथा पापग्रह हो तो समयपर खेती छोडकर भागजायगा ॥ ४ ॥

द्यूने च शुभोपगते शुभंकृषेस्त्वन्यथातुविपरीतम् ॥

दशमे दशमपतौ वा शुभयुतदृष्टेशुभा वृक्षाः ॥ ५ ॥

सप्तम स्थानमें शुभग्रह हो तो लक्ष्मी अच्छी होगी पापग्रह हो तो अन्नादि अच्छा नहीं लगेगा तथा दशमेश दशममें शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो वृक्ष अन्न आदि अच्छे होंगे ॥ ५ ॥

भूभाटकपृच्छायां प्रष्टा च भाटकं द्यूने ॥

तस्योत्पत्तिर्दशमे तथावसानं चतुर्थे स्यात् ॥ ६ ॥

भूमिसंबंधी महसूल किराया किस्त आदिके प्रश्नमें लग्नसे प्रष्टा सप्तमसे किराया उसकी उत्पत्ति दशमसे और उसका परिणाम वा क्षय चतुर्थ स्थानसे विचारके कहना ॥ ६ ॥

लग्नस्य लग्नपस्य च शुभयोगेशुभमशोभनं वामे ॥

द्यूने क्रूरोपगते यस्मादपि भाटकस्ततो नर्थः ॥ ७ ॥

लग्न तथा लग्नेश शुभग्रह युक्त दृष्ट हों तो भाडाविषयक समस्त शुभ, पापग्रहयोग दृष्टि हों तो सर्व अशुभ फल जानना, जो सप्तममें भी पापग्रहही हों तो भाडामें किसी प्रकार अनर्थ होगा ॥ ७ ॥

दशमे क्रूरोपगते नोत्पत्तिर्बहुतरा भवेत्प्रष्टुः ॥

क्रूरादितेतु तुय्यैस्यादवसाने शुभं नास्य ॥ ८ ॥

दशमस्थानमें पापग्रह योग दृष्टि हो तो प्रष्टाको भाडा बहुत न मिले, चतुर्थ स्थानमें पाप हो तो भाडेका परिणाममें कारखाना डूबजायगा ॥ ८ ॥

ग्रन्थांतरे नौकाप्रश्नः ।

नौर्लाभदास्यान्ममनेति प्रश्ने केंद्रेशुभाश्रेदितरेषु पापाः ॥

बलोज्झिताक्षेमजयार्थदानौ भावीति वाच्यं विदुषा विमृश्य ॥ ९ ॥

नाव (जहाज) आदिके काममें लाभ होगा या नहीं ऐसे प्रश्नमें केंद्रोंमें बलवान् शुभग्रह अन्यस्थानोंमें निर्बल पापग्रह हों तो नाव लाभ देगी, विशेष तारतम्यसे विद्वानोंने विचारकरके फल कहना ॥ ९ ॥

लग्नाधिपेवक्रिणिचास्यनाथेव्यावृत्त्यनौरेति च मार्गतः स्यात् ॥

चेत्सौम्यदृष्टः शलेन पापैर्दृष्टस्तदावस्तुविनेति वाच्यम् ॥ १० ॥

लग्नेश वक्रगति और उसके स्थानका स्वामी वा चतुर्थेश शुभयुत दृष्ट हो तो नाव मार्गसे कुशलपूर्वक हटि आवेगी; जो पापग्रहसे युत वा दृष्ट ही तो वस्तु विनाही लौट आवे ॥ १० ॥

विलग्रंध्राधिपतीस्वगेहेप्रवेक्ष्यतश्चेद्भवहारलाभः ॥

यदाष्टमेसौम्यखगाबलाढ्यास्तदातरिर्लाभसुखप्रदास्यात् ॥ ११ ॥

लग्नेश और अष्टमेश अपने २ राशिमें हों वा अपने भावोंको देखें तो नावव्यवहारमेंलाभ होवे. जो बलवान् शुभग्रह अष्टम हो तो नाव लाभ और सुख देगी ॥ ११ ॥

कुशलायातिपृच्छायांमृत्युयोगेसमागते ॥

तदानौरेतिशीघ्रिणलाभाद्यंचान्ययोगतः ॥ १२ ॥

नाव कुशलसे आवेगी, ऐसे प्रश्नमें जो मृत्यु फल देनेवाला योग प्रश्न लग्नमें हो तो नाव शीघ्र अपने स्थानमें आवेगी जो कोई अरिष्टदायक योग हो तो लाभ अच्छा होगा, जो और काममें बुरे योगहैं उनमेंसे कोईभी हो सों यहां शुभदायक है ॥ १२ ॥

लग्नेशंचंद्रनाथंवाचंद्रंवामृत्युपोयदि ॥ तदायानस्यवक्तव्यंनि-

श्चितंमज्जनंबुधैः॥तावुभौसप्तमस्थौचेज्जलेवापतितांवेदेत् ॥ १३ ॥

लग्नेश वा चंद्रराशीश वा चंद्रमाको अष्टमेश देखे वा युक्त हो विशेषतः इत्थशाली हो तो नाव द्रव्यसहित डूबजायगी ऐसा निश्चय कहना, जो वे दोनहूं सप्तमस्थानमें हों तौभी नावका द्रव्य डूब जायगा नाव मात्र बचेगी कहना ॥ १३ ॥

लग्नचंद्रपतीक्रूरदृष्ट्यान्योन्यंयदीक्षितौ ॥

तदापोतजनानांचमिथःकलहमादिशेत् ॥ १४ ॥

लग्नेश और चन्द्रमा परस्पर शत्रुदृष्टिसे देखें तो नाववाले मनुष्योंका परस्पर कलह होवे ॥ १४ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां प्रश्नतंत्रभाषाटीकायां चतुर्थभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ ४ ॥

अथ पंचमस्थानप्रश्नः ।

यदिपृच्छत्येतस्याः योभवेन्मे जानवाकात्रित् ॥

लग्नेशंद्रोःसुतपतिनामुथशिलभावेप्रसूतिःस्यात् ॥ १ ॥

जो प्रश्न पूछे कि, मेरी स्त्री प्रसूती होगी वा नहीं तो लग्नेश चंद्रमा पंच-
मेश परस्पर इत्थशाली हों तो संतती होगी ॥ १ ॥

यदि तपतिर्विलग्नैलग्नपंचंद्रौसुतेथवास्याताम् ॥

सत्वारितमेववाच्यासविलंबनक्तयोगेन ॥ २ ॥

जो पंचमेश लग्नमें वा लग्नेश और चंद्रमा पंचममें हों तो शीघ्र संतति
होगी. जो इनका नक्तयोग हो तो विलंबसे होगी ॥ २ ॥

द्विशरीरेचविलग्नैशुभयुतपुत्रेद्वयपत्ययोगोस्ति ॥

यदिलग्नपपुत्रंपतीपुंराशौतत्सुतोगर्भे ॥ ३ ॥

लग्नमें द्विस्वभाव राशि शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो तो गर्भमें दो अत्य
होंगे, जो लग्नेश पुत्रेश पुरुषराशिमें हों तो गर्भमें पुत्र होगा स्त्रीराशिमें हों
तो कन्या होगी ॥ ३ ॥

अथचंद्रःपुंराशौ ग्रहकृतमुथशिलस्तदापिसुतः ॥

अथवाविधुरपराह्लेसूर्यात्पृष्टेतदास्त्रीस्यात् ॥ ४ ॥

जो चंद्रमा पुरुष राशिमें पुरुष ग्रहसे युक्त वा मुथशिली हो तो गर्भमें पुत्र
होगा अथवा चंद्रमा अपरा समयका वा लृष्णपक्षका तथा सूर्यसे पीछे
हो तो गर्भमें स्त्री होगी ॥ ४ ॥

होरास्वामीपुरुषःपुंराशौचेत्तथापिसुतगर्भः ॥

तुंगेदुसौम्ययुक्तगर्भेदीर्घायुः त्रसंभूतिः ॥ ५ ॥

लग्नेश पुरुषग्रह पुरुष राशिमें हो तौभी गर्भमें पुत्र होगा जो उच्चका
चंद्रमा शुभग्रहसे युक्त दृष्ट पंचम हो तो दीर्घायु पुत्र होगा ॥ ५ ॥

एषागर्भवतीकिल नवा प्रमाणं प्रयाति गर्भोयम् ॥

श्रेलग्नपशाशिनोः सुतस्थयोर्गर्भवत्येव ॥ ६ ॥

जो प्रश्न हो कि यह स्त्री गर्भवती है या नहीं तो प्रश्नमें लग्नेश और
चंद्रमा पंचम हो वा उसे देखे तो गर्भवती है ॥ ६ ॥

यद्येतयोर्मुथशिलकेंद्रेसुतपेनगर्भिणीतदपि ॥

आपोक्लिमेत्थशालादनीक्षणाच्छग्रपुत्रयोर्नैवम् ॥ ७ ॥

जो लग्नेश और चंद्रमाका केंद्रमें मुथशिल हो तोभी गर्भिणी है जो इत्थशाल आपोक्लिममें हो यद्वा लग्नेश पुत्रभाव वा पुत्रेश परस्पर न देखें तो गर्भवती नहीं है ॥ ७ ॥

चरलग्नैकूरेंद्रोर्मुथशिलभावे विनश्यतिहिगर्भः ॥

लग्नपशशिनोस्तत्पतितत्रस्थेवक्रमुत्थशिलेपितथा ॥ ८ ॥

चरलग्नमें पापग्रह चंद्रमासे मुथशिली हो तो गर्भ नष्ट हो जायगा. लग्नेश तथा चंद्रमाका नीचादि पतित वा वक्री ग्रहसे मुथशिली हो तोभी गर्भनष्टहोगा ८

जीवितमरणप्रश्नेवालानामंत्यपेज्जुभैर्दृष्टे ॥

केंद्रस्थे सितपक्षे शुभयुक्तंत्ये विधौजीवेत् ॥ ९ ॥

वालकके जीवित और मरण प्रश्नमें जो व्ययेश केंद्रमें शुभ ग्रह दृष्ट हो तथा शुक्लपक्षका चंद्रमा शुभ युक्त बारहवां हो तो बालक बचेगा ॥ ९ ॥

कूरैश्चेदंत्यपतिर्दग्धश्चापोक्लिमेयुतःकूरैः ॥

दृष्टश्चजातमात्रो झ्रियतेबालोऽथवागर्भे ॥ १० ॥

जो व्ययेश पापग्रह दग्ध तथा आपोक्लिम स्थानमें पापयुक्त दृष्ट हो तो बालक जन्ममें वा गर्भहीमें मरजावे ॥ १० ॥

प्रसवज्ञानप्रश्नेभुक्तांल्लग्रांशकान् परित्यज्य ॥

भोग्याद्विचित्यशेषाननुमित्येवंवदेदिवसान् ॥ ११ ॥

प्रसवदिन ज्ञान प्रश्नमें लग्नके भुक्तांशकोंके तुल्य गर्भके भुक्त मास भोग्यांशोंसे शेषदिन अनुमान करके कहना ॥ ११ ॥

लग्नाद्यतमेस्थाने शुक्रस्तावद्भेदेन्मासम् ॥

यदिधर्माद्दूर्द्धस्थस्तद्भेदेत्पंचमस्थानात् ॥ १२ ॥

लग्नसे शुक्र जितनेवें स्थानमें हो उतने महीनेका गर्भहै कहना. जो नवम स्थानसे ऊपर शुक्र हो तो पंचम भावसे शुक्रपर्यंत भाव गिनके गर्भ मास कहना ॥ १२ ॥

लग्नांतर्दिनराशिर्दिवाग्रहो लग्नपञ्चदिनराशौ ॥

तद्विसे जन्मस्याद्विपरीतेव्यत्ययश्चैषाम् ॥ १३ ॥

जो लग्न दिवाबली और लग्नेश भी दिवाबली राशिमें हों तो दिनमें और रात्रिमें बली हों तो रात्रिमें जन्म होगा ॥ १३ ॥

तत्कालेद्विरसांशश्चन्द्रमसस्तत्समेचन्द्रे ॥

गर्भस्यप्रसवःस्यादनुपातःशास्त्रतःकार्य्यः ॥ १४ ॥

प्रश्न वा आधानकालमें चन्द्रमा जिस द्वादशांशमें हो उसीके तुल्यराशिस्थ चन्द्रमामें नवम वा दशम महीनेमें जन्म होगा. इसका अनुपात अन्य शास्त्रोंमें विशेष प्रकट कहा है, बृहज्जातक महीधरीभाषामेंभी विशेष विस्तार है ॥ १४ ॥

अस्मिन्वर्षेऽपत्यंभविताविलग्नपंचमाधीशौ ॥

भजतो यदीत्थशालंतत्रैवाब्दे भवेन्नूनम् ॥ १५ ॥

इससालमें मेरे संतान होगी वा नहीं ऐसे प्रश्नमें जो लग्नेश पंचमेश इत्थशाली हों तो निश्चय संतान होगी. ईसराफसे न होगी ॥ १५ ॥

यदिवा मिथोगृहगतौस्यातामेतौचसंततिस्तदपि ॥

वाच्या तस्मिन्वर्षे शुभयोगादन्यथानपुनः ॥ १६ ॥

अथवा लग्नेश पंचमेश एकही स्थानमें वा एककी राशिमें दूसरा दूसरेकीमें एक हो तथा शुभयुक्त हो तो संतान होगी. इतनेमेंसे कोईभी योग न हो तो संतान नहीं होगी ॥ १६ ॥

सूताप्रसूतयुवतिज्ञाने तपोथषष्ठपःसूर्य्यात् ॥ निर्गत्योदयमायात्ततः

प्रसूतेचनारीयम् ॥ अथजीवभौमशुक्राआकाशउदयिनस्तथाप्ये-
वम् ॥ १७ ॥

यह स्त्री प्रसववती होगी वा नहीं ऐसे प्रश्नमें पंचमेश वा षष्ठेश सूर्यके साथसे उदय होगया हो अथवा बृहस्पति मंगल शुक्र दशम स्थानमें हों तो प्रसूति होगी ॥ १७ ॥

अथांतरे ।

लग्नेश्वरेणाथनिशाकरेणयदीत्थशालंकुरुतेसुतेशः ॥

भःशुभैःसंयुतईक्षितःस्यात्सत्संतर्ति घुरसौविदध्यात् ॥ १८ ॥

जो पंचमेश लग्नेश वा चन्द्रमासे इत्यशाल करे तथा पंचमेश शुभ ग्रह हो शुभग्रहसे युक्त वा दृष्टभी हो तो प्रष्टाको संतति देताहै ॥ १८ ॥

पुंस्त्रीग्रहाः पुत्रगृहंविलग्न्यात्पश्यंतियावंतइहातिवीर्याः ॥

तत्संख्यकाःस्युस्तनयाश्चकन्याःशुभेशयोगात्सुतर्भाशतुल्याः॥१९॥

जितने पुरुष ग्रह अतिबली होकर पंचम भावको देखें उतने पुत्र तथा जितने स्त्रीग्रह अतिबली होकर देखें उतनी कन्या होंगी वा पंचममें जितने भुक्त नवांशक हों उतने होंगे किंतु ये संख्या पूर्वोक्त इत्यशाल हुयेमें और स्वस्वामी शुभयुक्त पंचम होनेमें होती हैं ॥ १९ ॥

लेशपुत्राधिपतीपरस्परंनपश्यतश्चेदुदयंचपंचमम् ॥

पापेत्थशालौसुतलग्नपौचप्रष्टुस्तदासंततिनास्तितांवेदेत् ॥ २० ॥

लग्नेश और पंचमेश परस्पर न देखें तथा लग्न और पंचमकोभी न देखें वा लग्नेश पंचमेश पापेत्थशाली हों तो संतति नहीं है कहता ॥ २० ॥

पुत्रालयेसिंहवृषालिकन्याःप्रश्नोदयाज्जन्मभतस्तथेदोः ॥

अल्पप्रजःसंततिपृच्छकःस्यात्पापैःसुतर्क्षसहितेक्षितेवा ॥ २१ ॥

पंचमेश ५ । २ । ८ । ६ राशि प्रश्न वा जन्मलग्न अथवा चन्द्रमासे हों तो प्रष्टाको अल्प संतान होगी, पापग्रहोंसे पंचमस्थान युक्त दृष्ट होनेमेंभी यही फल है ॥ २१ ॥

स्वर्क्षस्थितौरंघ्रगतौयमाकौप्रष्टुस्त्रियंसंदिशतश्चवंध्याम् ॥

छिद्रस्थितौचंद्रबुधौसदोपांवाकाकवन्ध्यांतनयाप्रसूतिम् ॥ २२ ॥

अष्टम स्थानमें शनि सूर्य ५ । १० । ११ राशिमें हो तो प्रष्टाकी स्त्री वंध्याहै जो चन्द्रमा बुध अष्टम हों तो उसपर किसी देवताभूतप्रेतादिका दोषहै, अथवा १ संतान होकर वंध्या होवे वा कन्याही होवे इसमें विशेष विचार यह है कि, उनमेंसे चन्द्रमा बली हो तो कन्याप्रजा होगी यदि उसपर पुरुष ग्रहकी दृष्टि हो तो काकबंध्या, जो बुध बली हो तो वंध्या होवे ॥ २२ ॥

मृतप्रजाच्छिद्रगयोःसितेज्ययोर्गर्भस्रवाभूमिसुतेष्टमर्क्षे ॥

िद्रेश्वरेच्छिद्रगतेतिवीर्यैपुष्पंनविंदत्यबलासुतप्रदम् ॥ २३ ॥

जो शुक्र बृहस्पति अष्टम हों तो मृतप्रजा अर्थात् जितने संतान हों मरतेही रहें मंगल अष्टम हो तो गर्भ गलते रहें जो अष्टमेश अष्टम भावमें बलवान् हो तो पुत्र देनेवाला पुष्प (रज) भी उस स्त्रीका न होवे ॥ २३ ॥

शुक्रार्कयोरष्टमसंस्थयोर्वाक्रूरेर्द्धवांत्याष्टमराशिसंस्थैः ॥

जातापुरस्तान्मिथ्यतेप्रजावैप्रघुर्नचाग्नेशुभसंततिःस्यात् ॥ २४ ॥

शुक्र सूर्य अष्टम हों तथा दूसरे और बारहवें पापग्रह हों तो सन्तान होतेही मरजाया करें, आगेभी शुभ सन्तति न होवे ॥ २४ ॥

रिष्फेश्वरेकेन्द्रगतेचसौम्यैर्युतेक्षितेजीवतिबालकश्च ॥

आपूर्णमासेशुभयुक्तइंदौकेद्रेशिशुर्जीवतिदीर्घकालम् ॥ २५ ॥

अष्टमेश शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट केन्द्रमें हो तो बालक वचजायगा, शुक्लपक्षका चन्द्रमा शुभयुक्त केन्द्रमें हो तो पुत्र दीर्घायु होगा ॥ २५ ॥

पंचमेशोथले शोविषमस्थानगौयदा ॥

पुत्रजन्मप्रदौ यौ कन्यानां समराशिगौ ॥ २६ ॥

पुत्रवान् योग प्राप्तहुयेमें विशेष विचारहै कि पंचमेश वा लग्नेश विषम स्थानमें हो तो पुत्र और सम राशिमें हो तो कन्या देताहै ॥ २६ ॥

युग्मराशिगते लग्ने यदातत्रशुभग्रहाः ॥

गर्भेपत्यद्वयं वाच्यं दैवे न विपश्चिता ॥ २७ ॥

लग्न द्विस्वभाव राशिहो उसमें शुभग्रह हों तो चतुरज्योतिषीने गर्भमें दो बालक कहने ॥ २७ ॥

विषमोपगतो लग्नाच्च निः पुत्रसुखप्रदः ॥

समभेयोषितांजन्मविशेषोजातकोक्तिवत् ॥ २८ ॥

लग्नसे शनि विषम स्थानमें पुत्र और सप्तममें कन्या देता है विशेष विचार जातकोक्तिही यहांभी जानना ॥ २८ ॥

विषमक्षे विषमनवांशसंस्थिता गुरुशशांकल कार्काः ॥

पुंजन्मकराः सप्तभेषु योषितां नृराश्यंशाः ॥ २९ ॥

बृहस्पति चन्द्रमा लग्न और सूर्य विषम राशि विषम नवांशमें पुत्र और
सप्तमराशि नवांश अर्थात् पुरुषराशि नवांशकोमें कन्या देते हैं ॥ २९ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां ता०नी०भा०पञ्चमस्थानप्रश्ननिरूपणम् ॥ ५ ॥

अथ षष्ठस्थान श्रः ।

रोगादयुत्थास्यति नवेतिलग्रंभिषग्द्यूनम् ॥

व्याधिर्दशमं रोगीहिबुक्तंभेषजमिहादुराचार्य्याः ॥ १ ॥

रोगी मनुष्य रोगसे आराम होगा वा नहीं, ऐसे प्रश्नमें लग्नसे वैद्य सप्त
रोग दशमसे रोगी चतुर्थसे औषधी आचार्य्य कहते हैं ॥ १ ॥

क्रूरादिते विलग्रे वैद्यान्नगुणास्तदौषधाद्रोगः ॥

वृद्धिमुपयाति दशमे क्रूरैर्निजबुद्धितोप्यगुणः ॥ २ ॥

लग्न पापाक्रांत हो तो वैद्यसे गुण न होवे उसकी औषधिसे रोग बढ़ेगा
दशममें पापग्रह हों तो अपनीही चूक (गलती) से रोग बढ़े ॥ २ ॥

अस्तेचक्रूरयुक्ते मांद्यान्मांद्यंतथौषधाद्द्वंद्वौ ॥

सौम्योपगतैरेतैररोगिता रोगिणो भवति ॥ ३ ॥

सप्तममें पाप हों तो रोगमें रोग खडा होवे, चतुर्थमें हों तो औषधीसे रोग
वृद्धि होवे. इन १ । १० । ७ । ४ स्थानोंमें शुभग्रह हों वा ये भाव बली
हों तो नीरोगता होगी ॥ ३ ॥

लग्नेशेंद्रोःसौम्येत्थशालतो रोगनाशनं वाच्यम् ॥

वक्रेतुतत्रखेटे भूयोपिगदःसमुपयाति ॥ ४ ॥

लग्नेश तथा चन्द्रमाका शुभग्रहसे इत्थशाल हो तो रोगनाश होवे ईस-
राफ हो वा चक्रगति हो तो फेरफेर रोग उत्पन्न होवे ॥ ४ ॥

भूमिस्थे लग्ननाथेशाशिमुथशिले भवेन्मृतः ॥

लग्नस्थेरंध्रपतौ लग्नपशशिनोर्विनाशेवा ॥ ५ ॥

लग्नेश चतुर्थ हो चंद्रमाके साथ मुथशिली हो तो मृत्यु होवे, वा लग्नम
अष्टमेश और लग्नेश एवं चन्द्रमा अष्टम हों तौभी मृत्यु होवे ॥ ५ ॥

लग्नाधिपतिःसूर्यश्चंद्रः सप्तेशमुथशिलविधायी ॥

सप्तेशे षष्ठ्ये तन्मरणं रोगिणो वाच्यम् ॥ ६ ॥

लग्नेश चतुर्थ हो तथा चन्द्रमा सप्तमसे मुथशिली हो वा सप्तमेशसे ।
हो तो रोगीकी मृत्यु होगी ऐसा कहना ॥ ६ ॥

रंभ्रेशे न विनष्टे नास्तमिते नापिकेन्द्रस्थे ॥

लग्नेशस्यमुथशिलेमृत्युःस्याद्रोगपृच्छायाम् ॥ ७ ॥

अष्टमेश अस्त वा नष्ट बली होकर केंद्रमें हो लग्नेशसे मुथशिल करता
हो तो रोगप्रश्नमें मृत्यु होगी कहना ॥ ७ ॥

अथवातयोश्चकेन्द्रे मुथशिलतःक्रूरपीडितेमरणम् ॥

यदिकेन्द्रे क्रूरग्रहस्तदापिपीडाष्टमेशेपि ॥ ८ ॥

जो लग्नेश अष्टमेशका केंद्रमें मुथशिल हो क्रूर पीडितभी हो तो मृत्यु
होवे जो केंद्रमें पापग्रह वा अष्टमेश हो तो रोगपीडा होवे ॥ ८ ॥

सूर्यद्वादशभागे प्रविष्टेलग्नेश्वरेष्वेवम् ॥

तनुमृत्युभावनाथावन्योन्याश्रयगतौमरणम् ॥ ९ ॥

लग्नेश सूर्यके द्वादशांशमें हो तो मृत्यु होवे वा लग्नेश अष्टम अष्टमेश
लग्नमें वा परस्पर दृष्ट हों तौभी मृत्यु होवे ॥ ९ ॥

लग्नेचरेचरोगीक्षणेक्षणेस्यादरुक् सरुक्चापि ॥

द्विशरिरे पररोगः स्थिरैर्गदस्यैकरूपत्वम् ॥ १० ॥

लग्न चरराशि हो तो क्षणमें सुखी क्षणमें दुःखी होतारहै, द्विस्वभाव हो तो
एकरोगसे दूसरा रोग होवे, स्थिर हो तो आद्य अंतमें एकही रोग रहै ॥ १० ॥

शशिनो वक्रमुथशिले स्थिररोगोमंदमुथशिलेपूर्वम् ॥

मूत्रनिरोधाद्रोगोत्पत्तिज्ञेयाकृतेप्रश्ने ॥ ११ ॥

चन्द्रमा वक्री ग्रहसे मुथशिली हो तो रोग स्थिर रहै, शनिसे मुथशिली
हो तो अपूर्व रोग होने तथा मूत्रके बंद होनेसे रोगोत्पत्ति होवे ॥ ११ ॥

अथ पृच्छायाः पूर्वं सप्ताहानिच विलोक्यचत्वारि ॥

यदितेषुशशांकरवी भयुतदृष्टौसदाशस्तम् ॥ १२ ॥

प्रश्नके पहिले ७ वा ४ दिनमें सूर्य्य चन्द्रमा शुभग्रहसे युक्त दृष्ट हों तो रोगीको शुभ होगा ॥ १२ ॥

दोयमथनवेति प्रश्नेलग्नेश्वरोथचंद्रोवा ॥

षष्ठेशुथशिलीस्यादस्तमितोवातदामंदः ॥ १३ ॥

यह रोगी होगा वा नहीं ऐसे प्रश्नमें लग्नेश वा चन्द्रमा षष्ठेशसे मुथशिली हों वा अस्तंगत हों तो रोगी होगा ॥ १३ ॥

स्वामिभृत्यचतुष्पदप्रश्ने ।

ईशोन्यो ममभवितानवेतिलग्नेश्वरस्ययदिकेन्द्रे ॥

नोभवतिथशिलंषष्टान्त्यपतिभ्यां तदानान्यः ॥ १४ ॥

मेरा और स्वामी होगा या नहीं अर्थात् और जगे नोकरी लगेगी वा नहीं, ऐसे प्रश्नमें जो लग्नेशका केन्द्रमें षष्ठेश तथा व्ययेशसे मुथशिल न हो तो और स्वामी नहीं होगा ॥ १४ ॥

वकीवान्येनसमंलग्नपतिः सहजनवमसंस्थेन ॥

रुते यदीत्थशालं तदान्यनाथो भवेत्प्रष्टुः ॥ १५ ॥

जो लग्नेश वकी और किसी तृतीयनवमस्थानस्थ ग्रहसे इत्थशाली हो तो और स्वामी होगा ॥ १५ ॥

ल पतौकेन्द्रस्थे रिपुदृष्ट्याक्रूरीक्षितेसुखपे ॥

रविरश्मिगतेथभवेद्यावज्जिविनचान्यपतिः ॥ १६ ॥

लग्नेश केन्द्रमें हो तथा चतुर्थेश पर पापग्रहकी शत्रुदृष्टि हो एवं लग्नेश अस्त हो तो जीवितपर्यंत औरपति नहीं होगा ॥ १६ ॥

अयमीशोभद्रोमे पृच्छयां लग्नपस्यकंबूले ॥

स्वामीसएवभव्योद्यूनेशस्यचशुभोन्येशः ॥ १७ ॥

यही स्वामी अच्छा होगा वा अन्य ऐसे प्रश्नमें लग्नेश शुभ ग्रहसे कंबूली हो तो उसी स्वामीसे शुभ होगा, जो सप्तमेशका कंबूल शुभ ग्रहसे हो तो अन्यस्वामीसे शुभ होगा ॥ १७ ॥

गृहभूमिस्थानानां चलनप्रश्ने पुरोक्त एवविधिः ॥

सम्यग्बिचार्य्यवाच्यं भमशुभं पृच तःस्वधिया ॥ १८ ॥

गृहभूमि जगहके स्थिर रहने वा चलायमान होनेमें भी ऐसाही विचार अच्छे प्रकारसे करके अपनी बुद्धिसे शुभाशुभ प्रष्टाको कहना ॥ १८ ॥

भृत्यचतुष्पदलाभप्रश्नेलघेशशीतगूषष्टे ॥

षष्टेशमुथशिलो वा लग्नेषेश्वरोथतल्लामः ॥ १९ ॥

भृत्य तथा चौपायाके लाभमें लग्नेश एवं चन्द्रमा छठे हों वा षष्टेशसे मुथशिली हों अथवा षष्टेश लग्नेमें हो तो उनका लाभ होगा ॥ १९ ॥

भृत्यस्यवाहनस्यचयद्वाप्रश्नेचल लग्नपती ॥

अर्थीदातासप्तमसप्तमपौतद्भलात्प्राप्तिः ॥ २० ॥

भृत्य और सवारीके प्रश्नमें लग्न और लग्नेश लेनेवाले तथा सप्तम और सप्तमेश देनेवाले, इनका बलाबलसे प्राप्ति अप्राप्ति कहनी. जैसे लग्नेशका सप्तमसे सप्तमेशका लग्नेसे, वा लग्नेश सप्तमेशका परस्पर मुथशिल संबंध हो तो भृत्य वाहनकी प्राप्ति, इनके ईसराफ वा असंबंधसे निर्बलतासे अप्राप्ति होगी ॥ २० ॥

थांतरे कलहः ।

क्रूरःखचरोले विवादपृच्छासुजयतिविवादंतश्च ॥

सर्वावस्थामुपरं नीचेस्तेजयतिनद्विषतः ॥ २१ ॥

विवादप्रश्नमें क्रूर ग्रह लग्नमें बलवान् हो तो विवादमें प्रष्टा जीतेगा जो नीच वा अस्तंगत हो तो विवादमें शत्रुसे जीत नहीं सकेगा ॥ २१ ॥

लग्नद्यूनेतुयदापरस्परं रयोर्झकटदृष्टी ॥

विवदेत्तद्वादि गं तच्छुरिकाभ्यांप्रहरतितदैवम् ॥ २२ ॥

लग्न तथा सप्तममें क्रूरग्रह शत्रुदृष्टिदृष्ट होनेमें वादी प्रतिवादी परस्पर विवादमें छूरी आदि चलाय बैठेंगे ॥ २२ ॥

लग्नेद्यूनेचयदिक्रूरःखचरोविवादिनोनतदा ॥

कलहनिवृत्तिःकालेजयतिहिबलवान्गतबलंतु ॥ २३ ॥

लग्नमें तथा सप्तममें पापग्रह हों तो लडनेवालोंका झगडा निवृत्त नहीं होवे

इनमें जो बलवान् हो वह निर्बलको दाबलेताहै यहा लग्न प्रष्टा सप्तम प्रतिवादी जानना ॥ २३ ॥

लेशःसुतगःसौम्याःकेंद्रसंधिर्नचान्ग्रथा ॥

लग्नघृनेशषष्ठेशारित्वेप्यन्योन्यविग्रहः ॥ २४ ॥

पंचममें लग्नेश और केंद्रोंमें शुभग्रह हों तो वादी प्रतिवादियोंका मेल होगा अन्यथा न होगा. लग्न सप्तम छठे भावोंके स्वामी परस्पर तत्काल वा नैसर्गिक शत्रु हों तो कलह बढेगा ॥ २४ ॥

गृहमागतोनयदासौकिंबद्धः किमथवाहतः प्रश्ने ॥

मूर्तौऋरोयदिसनिहतोबद्धोथवापुरुषः ॥ २५ ॥

कलही वा कोई अन्य घरमें नहीं आया, मारागया वा कहीं बंधनमें पडगया, ऐसे प्रश्नमें लग्नमें पाप ग्रह हो तो मारागया वा बंधनमें पडगया ॥ २५ ॥

त्रिकोणचतुरस्रास्तस्थितःपापग्रहोयदि ॥

ग्रहैर्निरीक्षितः पापैर्नूनंबंधनमादिशेत् ॥ २६ ॥

पापग्रह ९ । ५ । ८ । ७ में हों तथा लग्नेशकोभी पापग्रह देखें तो निश्चय बंधन होगया कहना ॥ २६ ॥

सप्तमगो मगोवाचेत्क्रूरस्तद्धतोपिवाबद्धः ॥

मूर्तौचसप्तमेवायद्बालेष्टमेपिभवेत् ॥ २७ ॥

सप्तम वा अष्टम पापग्रह हों तो हत वा बद्ध कहना और लग्नमें वा सप्तममें तथा लग्न और अष्टम पापग्रह युगपत् हों त्रौभी वही फल है ॥ २७ ॥

बद्धमोक्षे ।

बद्धोस्तिर्तत्किंभवतीतिप्रश्नेविसुच्यतेसौखलमृत्युयोगे ॥

कदाविसुंचेदितिपृच्छ्यमानेशुभंकदाभाविचतैर्मृतिःस्यात् ॥ २८ ॥

बँधाहुवा मनुष्य कैसा होगा कब छूटेगा, ऐसे प्रश्नमें जो मृत्यु-दायक योग कोईभी हो तो बंधनसे छूट जायगा. उक्त योगका परिणाम समय जबहो तब टूनेका समय कहना, दीर्घायु योग हों तो नहीं छूटेगा वा बंधनहीमें मरजायगा ॥ २८ ॥

मुक्ति श्रेयदाकेंद्रेकेंद्रेशाःस्युर्नमोक्षदाः ॥ तस्मिन्वर्षेथलग्रे
शःपतितःकेंद्रगेनच ॥ २९ ॥ संबंधेप्सुःसचेत् रोमृतीशः
स्यात्तदामृतिः॥ लग्नेशेस्तमितेवुस्थेकुजदृष्टेत्तदामृतिः ॥३०॥

बद्धमोक्ष प्रथमं केंद्रेश केंद्रोंमें हों तो बंधनसे न छूटे, जो केंद्रगत पतित
ग्रहसे संबंधी लग्नेश हो तो इसी वर्षमें छूटेगा और अष्टमेश क्रूर, लग्नेश क्रूर,
क्रूरसे संबंधी हों तो मृत्यु होवे ॥ २९ ॥ ३० ॥

चन्द्रश्चांबुगपापेनमृत्युनाथेनयोगकृत् ॥

तदागुप्त्यांमृतिश्चंद्रःकेंद्रमंदयुगीक्षितः ॥ ३१ ॥

अष्टमेश पापग्रह चतुर्थ होकर चन्द्रमासे युक्त वा संबंधी इत्थशाली हो वा
केंद्रगत चन्द्रमा शानिसे युक्त दृष्ट हो तो कैदहीमें मृत्यु होवे ॥ ३१ ॥

दीर्घपीडाथभौमेनयुग्दृष्टौबंधताडने ॥

दृश्यार्द्धे लग्नपश्चेत्स्याद्द्वयपेनेत्थशालवान् ॥ ३२ ॥

केंद्रगत चन्द्रमा मंगलसे युक्त वा दृष्ट हो तथा लग्नेशके दृश्यार्द्धमें व्ययेशसे
इत्थशाली हो तो बंधन होगा और ताडन हो(वेत कुर्रा आदिभी लगें)॥ ३२ ॥

पलायतेतदाबद्धो व्ययगोले गेपिवा ॥

तृतीयनवमस्वामीव्ययगोलग्नपेनच ॥ ३३ ॥

यदीत्थशालयोगेप्सुस्तदापिचपलायते ॥

लग्नेश व्ययभावमें हो तो बद्ध मनुष्य भाग जावे अथवा ३।९ भावोंका
स्वामी बारहवां होकर लग्नेशसे इत्थशाल चाहताहो तौभी भाग जायगा ३३ ॥

दृश्यार्द्धेष्टुपचारेण चन्द्रोमुथशिलस्तदा ॥ ३४ ॥

बंधमोक्षद्विधर्मेशःसग्रहःशीघ्रमोक्षकृत् ॥

लग्नेशके दृश्यार्द्धमें चन्द्रमा मुथशिली हो तो बद्धमोक्ष करताहै तथा तृती-
येश वा नवमेशसे भी चन्द्रमा मुथशिली हो तो शीघ्र बद्धमोक्ष करता है ३४

पतितेदुद्विधर्मस्थग्रहसंबंधकृत्तदा ॥ ३५ ॥

केंद्रस्थद्विभवेशेनयोगेप्सुश्चेत्तदाचिरात् ॥

तीसरे वा नवम स्थानगत ग्रहसे क्षीण चन्द्रमा संबंधी हो ३ वा ११

भावका स्वामी जो केंद्रमें हो उसको मिलना चाहता हो तो बंधनसे शीघ्रही छूट जावे ॥ ३५ ॥

यावच्छुक्रोबलीले तावत्कर्ता बलाधिकः ॥ ३६ ॥

अस्तंगतेतनौशुक्रेबद्धमोक्षादिसंभवः ॥

यतेयेनयोगेनतेनयोगेन च्यते ॥ ३७ ॥

शुक्र लग्नमें हो तो वह शुक्र गोचरमें जबलौ उस राशिमें रहे इतनेही बीच छूट जावे जो शुक्र लग्नमें अस्तंगत हो तो बद्धमोक्ष होना संभव है वा जिसयोगसे मृत्यु होती है उससे बद्ध भी मोक्ष होताहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

मेषेतुलेचशीघ्रस्यात् कैनक्रेसकष्टता ॥

स्थिरेचिराद्धिदेहस्थेमोक्षोमध्यमकालतः ॥ ३८ ॥

लग्नमें शुक्र १ । ७ का हो तो शीघ्र तथा ४।१० का हो तो कष्टसे स्थिर राशिका हो तो बहुत दिनोंमें द्विस्वभावका हो तो मध्यमकालमें छूटे शुक्र न हो तो लग्नहीसे यह फल कहना ॥ ३८ ॥

रोगिग्रंथे विशेषः ।

विलग्नेषष्टपः पापोजन्मरार्शिनिरिक्षते ॥

रोगिणस्तस्यमरणं निश्चयेनवदेद्बुधः ॥ ३९ ॥

षष्ठेश पापग्रह लग्नमें होकर जन्मराशिको देखे तो रोगीकी मृत्यु नि य पंडितने कहनी ॥ ३९ ॥

चतुर्थाष्टमगेचन्द्रेपापमध्यगतेपिवा ॥

मृतिःस्याद्बलसंयुक्तेसौम्यदृष्ट्याचिरात्सुखम् ॥ ४० ॥

चन्द्रमा ४ वा ८ में हो तथा पापग्रहोंके बीच हो तो रोगीकी मृत्यु हो वे जो उसे बली शुभग्रह देखें तो शीघ्र सुखी होजावे ॥ ४० ॥

विधौलग्नेस्मरेभानैरोगीयातियमालयम् ॥

श्रेक्रूरग्रहेलग्नेरोगवृद्धिश्चिकित्सकात् ॥ ४१ ॥

चन्द्रमा लग्नमें सूर्य सप्तम हों तो रोगी यमालय पहुँचे जो प्र में पापग्रह लग्नमें हो तो वैधसे रोग बढे ॥ ४१ ॥

तथालग्नगतेसौम्येवैद्योक्तममृतवचः ॥

ल वै नंव्याधिःखरोगीतुर्द्यमौषधम् ॥ ४२ ॥

जो लग्नमें शुभग्रह हो तो वैद्यका वचन अमृततुल्य होवे, लग्नसे वैद्य-
सप्तमसे रोग दशमसे रोगी चतुर्थसे औषधी जाननी ॥ ४२ ॥

रोगिणोभिषजोमैत्रीमैत्रेभेषजरोगयोः ॥

व्याधेरुपशमोवाच्यःप्रकोपःशात्रवेतयोः ॥ ४३ ॥

रोगी और वैद्य अर्थात् दशमेश लग्नशकी तथा औषधी और रोग अर्थात्
४ । ७ भावोंके स्वामी परस्पर मित्र हो वा अन्योन्य इत्थशाली हों तो रोग
शांत होवे, जो उक्तग्रहोंकी परस्पर शत्रुता वा इसराफ हो तो रोग औरभी
कोपको प्राप्त होगा ॥ ४३ ॥

लग्ननाथेचसबलेकेंद्रसंस्थेऽनुभग्रहे ॥

उच्चगेवात्रिकोणेवारोगीजीवतिनिश्चयम् ॥ ४४ ॥

लग्नेश बलवान् हो केंद्रमें शुभग्रह उच्चका हो अथवा त्रिकोणमें हो तो
निश्चय रोगसे बचजायगा ॥ ४४ ॥

एकः भोबलीलग्नत्रायतेरोगपीडितम् ॥

सौम्याधर्मारिलाभस्थास्तृतीयस्थागदापहाः ॥ ४५ ॥

एकभी बलवान् शुभग्रह लग्नमें हो तो रोगीकी रक्षा करता है, शुभग्रह
९ । ६ । ११ । ३ स्थानोंमें हों तो रोग नाश करते हैं ॥ ४५ ॥

देवदोषज्ञानम् ।

वह्न्यंकद्रादशेषष्ठेलग्नत्पापग्रहोयदि ॥

हतोगदैर्जलैश्शस्त्रैस्तस्यदोषःकुलोद्भवः ॥ ४६ ॥

रोगीके वा संततिबाधादिमें देवदोष ज्ञानमें से ३ । ९ । १२ । ६
स्थानोंमें जो पापग्रह हों तो रोगी वा जलशस्त्रादिसे पीडितको अपने कुलपू-
जित देवताका दोष कहना. उसके पूजनेसे नीरोग होगा ॥ ४६ ॥

देवस्यमेषेगविपितृपक्षआकाशदेव्यामिथुनेथकके ॥ स्याच्छा-

किनी क्षेत्रपातिस्तृसिंहेस्त्रियांकुलार्हाचतुलेतुमातुः ॥ ४७ ॥

नागस्त्वलौयक्षपतिर्धनुष्येनक्रं देव्यास्तुघटेतुयक्षी ॥ इषे -
लोपासितदैवतस्यदोषंभवेद्धर्मबहिष्कृताय ॥ ४८ ॥

जो मनुष्य धर्मी नहीं है उन्हें ये दोष लगते हैं कि मेष लग्न प्रश्नका हो तो अपना इष्ट देवताका एवं वृषसे पितरोंका, मिथुनसे आकाशदेवी मातृका परी आदियोंका, कर्कसे शाकिनी डाकिनी आदि, सिंहसे भूमिपाल देवता, कन्यासे कुलपूजित देवता, तुलासे मातुलपक्षका देवता, वृश्चिकसे नाग, देवता धनसे यक्षपति महादेव नारसिंह भैरव आदि मकरसे जलदेवी, कुंभसे यक्षिणी पिशाच आदि, मीनसे कलदेवता का दोष जानना ॥४७॥ ४८ ॥

प्रेताश्वराहौपितरः सुरेज्येचंद्रैबुदेव्यास्तपनेपिदेव्यः ॥

स्वगोत्रदेव्यश्चशनौबुधेचभवंतिभूताव्ययरंध्रसंस्थे ॥ ४९ ॥

राहु ८ । १२ स्थानोंमें हो तो प्रेतदोष, तथा बृहस्पति हो तो पितरोंका, चंद्रमा हो तो जलदेवी, सूर्य्य हो तो देवी, शनिबुधसे अपने कुलकी पूज्य देवीका दोष कहना ॥ ४९ ॥

शाकिन्यआरेभृगुजैबुदेव्योगृह्णतिमर्त्यविमुखंमुकुंदात् ॥

स्वक्षौचगेवीय्यैयुतेचसाध्याश्चंद्रेचनीचेविबलेनसाध्याः ॥ ५० ॥

मंगल ८।१२ में हो तो शाकिनी डाकिनी और शुक्र हो तो जलदेवीका दोष होवे। जो मनुष्य इश्वरसे विमुख हैं उनको ये दोष होतेहैं। उक्तग्रह जिससे दोष ज्ञात भया वह यदि अपनी राशि वा उच्चादिमें हो तो उपायोंसे दोष साध्य होगा। जो चंद्रमा बृहस्पति निर्बल हों तो असाध्य जानना ॥५० ॥

केंद्रस्थैर्बलिभिःपापैरसाध्यादेवतागणाः ॥

सौम्यग्रहैश्चकेंद्रस्थैःसाध्यामंत्रस्तवाचनैः ॥ ५१ ॥

केंद्रमें बलवान् पापग्रह हों तो वे देवता असाध्य और शुभ ग्रह केंद्रमें हों तो मंत्र स्तोत्र पूजनादिसे साध्य जानना ॥ ५१ ॥

कंटकाष्टत्रिकोणस्थाःशुभाउपचयेशशी ॥

लग्नेचशुभसंहृष्टेरीरोगाद्विसुच्यते ॥ ५२ ॥

केंद्र त्रिकोण और अष्टममें शुभग्रह तथा चंद्रमा उपचयमें हों और लग्नको शुभग्रह देखें तो रोगी रोगसे छूटे ॥ ५२ ॥

इति महीधरकृतायां नीलकंठीभाषाटीकायां षष्ठभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ ६ ॥

अथ सप्तमस्थानप्रश्नः ।

स्त्रीलाभस्यप्रश्नेस्मराधिपेलग्रपेनशशिनावा ॥

कृतमुथशिलेयुवत्याअयाचितायाभवे ।मः ॥ १ ॥

स्त्रीलाभके प्रश्नमें सप्तमेशका लग्नेश वा चंद्रमासे इत्यशाल हो तो स्त्री विना मांगेभी मिले ॥ १ ॥

यदिलग्रपोविधुर्वाद्यूनेतदयाचितांस्त्रियंलभते ॥

लग्नेशान्मूसरिफचंद्रस्तपमुथशिले स्वयंलभः ॥ २ ॥

जो लग्नेश वा बलवान् चंद्रमा सप्तम हो तथा लग्नेशका सप्तम भावसे मूसरिफ और चंद्रमाका सप्तमेशसे मुथशिल हो तौ भी विना ही प्रयास स्त्रीलाभ होवे ॥ २ ॥

येनसमंमुथशिलंतत्रविनष्टेचपापयुतदृष्टे ॥

निकटीभूतंतदाकिलविनश्यतिस्त्रीगतंकार्यम् ॥ ३ ॥

जिसके साथ मुथशिल हो वह नष्ट वा पापयुक्त वा दृष्ट हो तथा सप्तममें नष्टबली वा पापग्रह हो तो स्त्रीप्राप्ति संबंधि कार्य्य समीप भी आयगया हो तौभी नष्ट होजायगा ॥ ३ ॥

पापेत्तरंभ्रनाथेस्त्रीजातेरेवेविघटतेकार्य्यम् ॥ सहजपतौ

भ्रातृभ्यस्तुर्य्येशे पितृभ्यएवनान्येभ्यः ॥ सौम्यकृत-

युक्तिदृग्भ्यांपूर्वोक्तस्थानतःशुभंवाच्यम् ॥ ४ ॥

सप्तममें पापग्रह वा अष्टमेश हो तो स्त्रीसंबंधि कार्य्य, तृतीयेशसे संबंध हो तो भाइयोंसे, चतुर्थेशसे हो तो पितासे ऐसे और जिसभावेशका संबंधहो उसके द्वारा कार्यहानि होवे जो सप्तम वा सप्तमेशपर शुभग्रहका योग वा दृष्टि हो तो उक्त संबंधवान्से स्त्रीलाभ होवे ॥ ४ ॥

जामित्रधनोपचयोपगतःशशीजीववीक्षितः ॥

कुरुते लीलाभंपापयुतोवलोकितोवापितज्ञाशम् ॥ ५ ॥

(२३६)

ताजिकनीलकण्ठी ।

सप्तम द्वितीय और उपचय ३ । ६ । १० । ११ स्थानोंमें चंद्रमा जो बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो स्त्रीलाभ, पापयुक्त दृष्ट हो तो स्त्रीहानि करताहै ॥ ५ ॥

दुश्चिन्व्यतनयसप्तमलाभगतः शशीविल क्षात् ॥

गुरुविसौम्यैर्दो विवाहदः स्यात्तथासौम्याः ॥ ६ ॥

लग्नसे चंद्रमा ३।५।७।११ स्थानमें बृहस्पति सूर्य्य बुधसे दृष्ट हो तो विवाह देताहै तथा शुभग्रह भी ऐसे होनेमें यही फल देते हैं ॥ ६ ॥

केंद्रत्रिकोणसंस्थाः सप्तमभवनंशुभग्रहस्ययदि ॥

शय्यायांलभतेसौपापक्षोविगतहूपाच ॥ ७ ॥

केंद्र १।४।७।१० त्रिकोण ९ । ५ और सप्तममें शुभग्रहकी राशि तथा शुभग्रह हो तो शय्यामें स्त्रीप्राप्ति होवे, पापराशि उक्तस्थानोंमें हो तो मिले तो सही परंतु कुरूप मिलै ॥ ७ ॥

अथ स्त्रीसिंहः ।

प्रीतिस्थानप्रश्नेस्मरपतिलग्नेशमुथशिले हः ॥

सङ्गकटककःशत्रुदशाशशिकंबूलेतुसापिशुभा ॥ ८ ॥

स्त्रीकी प्रीतिके प्रश्नमें सप्तमेश लग्नेशका मुथशिल हो तो उससे प्रीति शत्रु-दृष्टि उनकी हो तो उससे कलह और चंद्रमा कंबूल भी करता हो तो स्त्री सरल स्वभाव होगी ॥ ८ ॥

यदिमंदोलग्नेशःकेंद्रेचस्यात्तदाबलीप्रष्टा ॥

अस्तेश्वरेचमंदेकेंद्रेप्रतिवादिनोस्तिबलम् ॥ ९ ॥

जो लग्नेश और शनि केंद्रमें हो तो स्त्री विवादमें पूछनेवाला बली रहेगा. जो सप्तमेश और शनि केंद्रमें हो तो प्रतिवादी बली रहेगी ॥ ९ ॥

उभयोरैकस्थितयोर्ज्ञातव्यासङ्गकटकंतयोः प्रीतिः ॥

सूर्य्येनशुभंविबलेनरस्यशुक्रेतयोर्द्वितययोः ॥ १० ॥

लग्नेश सप्तमेश पापयुत एकही स्थानमें हों तो स्त्री पुरुष लडाई उपरान्त प्रीतिमान् होंगे जो सूर्य्य युक्त हों तो कलहमात्र होगा जो निर्बल उक्त योगकर्त्ता हों तो दोनहूँ रुष्टही रहेंगे ॥ १० ॥

रुष्टागमने ।

ममगृहिणीरुष्टापुनरेष्यतिवाथभूम्यधःस्थरवौ ॥

भूपारिगतेचशुक्रेनैतिपुनर्वक्रितेभ्येति ॥ ११ ॥

मेरी स्त्री रुष्ट होकर गयी फिर आवेगी वा नहीं ऐसे प्रश्नमें लग्नेश चतुर्थ-
पर्यंत सूर्य वा शुक्र हो तो नहीं आवेगी, शुक्र वक्री हो तो आवेगी, लग्नेसे
चतुर्थपर्यंत स्त्रीके हर्षस्थान हैं, चतुर्थसे सप्तमपर्यंत पुरुषके हर्षस्थान, इनमें
स्त्री पुरुष ग्रहोंके वरासे फल कहना ॥ ११ ॥

सूर्यान्निर्गतशुक्रेवक्रेपिसमेतिचान्यथारुष्टा ॥

क्षीणदौबहुदिवसैःपूर्णविधौचद्रुतमुपैति ॥ १२ ॥

शुक्र समीपही उदय भयाहो अथवा वक्र हो तो रुष्ट स्त्री आपही लौट
आवेगी, जो क्षीण चंद्रमा इससे संबंध करे तो बहुत दिनोंमें, पूर्ण चंद्रमा
संबंध करे तो शीघ्रही आवेगी ॥ १२ ॥

अथकन्यापरीक्षा ।

एषा मारिकाकिलनिर्दोषाकिंनवेतिपृच्छायात् ॥

लग्नेस्थिरेस्थिरक्षैलग्नपशशिनोश्चनिर्दोषा ॥ १३ ॥

यह कन्या निर्दोष होगी वा कैसी इस प्रश्नमें लग्न तथा लग्नेश और
चंद्रमा स्थिर राशियोंमें हों तो निर्दोष होगी ॥ १३ ॥

चरराशिगतैरैरियं मार्य्यपिचजातदोषास्यात् ॥

द्विशरीरस्थेचंद्रेचरलग्नेस्वल्पदोषास्यात् ॥ १४ ॥

जो लग्न लग्नेश और चंद्रमा चरराशियोंमें हों तो कन्या सदोषा और चं-
द्रमा द्विशरीर राशियोंमें लग्न चरराशियोंमें हो तो अल्पदोषा होगी ॥ १४ ॥

शानिभौमावेकक्षैस्थिरवर्जेतत्परेणगुप्तमियम् ॥

रमिताशानिचंद्रमसोर्लग्नगयोःद्रकटमुपभुक्ता ॥ १५ ॥

जो शनि मंगल एक स्थानमें स्थिरराशिवाजित हों तो यह कन्या
किसीने गुप्त रमाहै, जो शनि चंद्रमा लग्नमें हों तो प्रकट भोगी है ॥ १५ ॥

(२३८)

ताजिकनीलकण्ठी ।

यदिभौमशनीकेंद्रेविधुदष्टौवृश्चिकेथशुक्रःस्यात् ॥

तद्वेष्काणेऽथतदानिभ्रूतंजातदोषैषा ॥ १६ ॥

जो मंगल शनि केंद्रमें चन्द्रमासे दृष्ट हों अथवा शुक्र वृश्चिकका वा वृश्चिक
द्वेषकाणमें हो तो निस्संदेह सदोषा होगी ॥ १६ ॥

अथ प्रसूतिज्ञानम् ॥

एषाकिलप्रसूतासितेघटेज्ञेहरौचनोसूता ॥

अनयोरलिवृषगतयोःसूतानारीपरिज्ञेया ॥ १७ ॥

यह स्त्री प्रसूती हुई वा नहीं ऐसे प्रश्नमें जो शुक्र कुंभका वा बुध सिंहका
हो तो प्रसूती नहीं भई, जो शुक्र वृश्चिकका वा बुध वृषका हों तो प्रसूती
भई है जाननी ॥ १७ ॥

भौमबुधशुक्रचंद्राद्विशरीरेचापवर्जितेचेत्स्युः ॥

अग्रेस्तितत्प्रसूतिश्चापेनाग्नेनपृष्टतःसूता ॥ १८ ॥

मंगल बुध शुक्र और चंद्रमा धनरहित द्विस्वभाव राशियोंमें हो तो
प्रसूति आगे होगई धनक हो तो प्रसूति हुई न होगी ॥ १८ ॥

ऋश्चेश्चरराशौपरतःसूतास्थिरेतुनिजपत्तः ॥

मिश्रेतुमिश्रमूहंजातकसंदेहपृच्छायाम् ॥ १९ ॥

प्रसूतीके संदेहमें लग्नेश वा पंचमेश पापग्रह चरराशिमें हो तो परपुरुषसे,
स्थिर राशिमें हों तो अपने पतिसे प्रसूती होगी. लग्नेश वा पंचमेश पापग्रहसे
मुथशिली हो तो भी परपुरुषसे जानना, मिश्रित हो तो व्यभिचारिणी
कहना. शुभग्रह योग दृष्टि वा मुथशिलसे अपने पतिसे गर्भ जानना ॥ १९ ॥

अथ पातिव्रत्यपरीक्षा ।

उटिलासतीयमथवेतिलग्रपतिश्चंद्रमाश्चभौमेन ॥

एकाशिसुथशिलकृत्तथैकंभवनेभजत्यन्यम् ॥ २० ॥

यह स्त्री पतिव्रता होगी वा नहीं, इस प्रश्नमें लग्नेश तथा चन्द्रमासे मंगल
एकांश समीप मुथशिली हो तो परपुरुषरता होगी ॥ २० ॥

यदिनिजग्रहगोभौमस्तदान्यदेशंप्रयातिजारकृते ॥

रविगेतिमुथशिलेसत्युपभुक्ताराज रुषेण ॥ २१ ॥

जो लग्नेश चन्द्रमासे मुथशिली मंगल अपनी राशिमें हो तो जारके साथ परदेश चली जायगी, जो सूर्यसे मुथशिल उनका हो तो यह स्त्री राजकीय पुरुषने रमी है ॥ २१ ॥

सौम्येनलेखकवणिङ्निजभेशुक्रेणयोषथैवस्त्री ॥

एतैर्योगैरसतीविपरीतेसुचरितेतिवि यम् ॥ २२ ॥

पूर्वोक्तप्रकार मंगल बुधसे इत्थशाली हो तो लि नेत्रालेसे वा बनिसे रमी. जो शुक्रसे हो तो स्त्री समान पुरुषने भोगी है ॥ २२ ॥

लग्नपतिनाथशशिनामूसरिफेभूसुतेभवेज्जारः ॥

त्यक्तःपुनर्गुरुदशापुत्रभयाद्रविदशाचराजभयात् ॥ २३ ॥

लग्नेश वा चन्द्रमासे मंगलका मूसरिफ हो तो जाररता होवे जो उसपर वृहस्पतिकी दृष्टिभी हो तो पुत्रके भयसे सूर्यकी दृष्टि हो तो राजभयसे जारता त्यागकरे ॥ २३ ॥

सितदृष्ट्यापरनारीभयात्सितज्ञैकराशिगतदृष्ट्या ॥

जारस्यस्थविरत्वाल्लज्जित्वात्यजतिजारंसा ॥ २४ ॥

जो उक्त मंगलपर शुक्रकी दृष्टि हो तो जारके स्त्रीके भयसे स्त्री जारको त्यागे. जो शुक्र बुधकी एकराशि दृष्टि हो तो जारके बूढे होनेसे लज्जा मान कर स्त्री जारको छोड देवे ॥ २४ ॥

ग्रन्थांतरेसुरतप्रश्नाः ।

भेत्थशालेहिमगौचतुष्टयेसौख्यातिरेकःसविलासहासः ॥

क्रूरत्थशालेहिमगौसरोषःक्रूरान्वितेभूत्कलहोनृवध्वोः ॥ २५ ॥

चन्द्रमा केंद्रमें शुभग्रहसे इत्थशाली हो तो संभोग विलासहासादियुक्त और पापग्रहसे इत्थशाली हो तो कोपसहित होवे. जो चन्द्रमा पापयुक्त हो तो स्त्री पुरुष कलही होवे ॥ २५ ॥

पीडाथवासीत्सुरतेयुवत्यारजोयथास्तर्क्षमुपैतितद्रत् ॥

लग्नेसुरेज्येभृगुजेकलत्रेतुय्यैहिमांशौसविलासहासः ॥ २६ ॥

जो पापग्रह सप्तम हो तो सुरतमें स्त्रीको हेश रजोदोषादिपीडासे होवे, लग्नमें बृहस्पति सप्तम शुक्र चतुर्थ चंद्रमा हों तो सुरत विलासहाससे होवे, जैसा सप्तम स्थानहो उसके अनुसार सुरत कहना ॥ २६ ॥

शुभग्रहोत्थेचकंबूलयोगेयुतोरजःपुष्पसुगंधियुक्तम् ॥

स्वक्षौच्चगेहर्म्यरतंनिगद्यंस्थितेद्विदेहवनितास्वकीया ॥ २७ ॥

शुभग्रहोंका कंबूल योग लग्नेश वा सप्तमेशसे हो तो रजपुष्पकी सुगंधि-युक्त पाप कंबूलसे दुर्गंधि होगा, उक्त ग्रह स्वराशि वा उच्चमें हो तो अच्छे घरमें अन्यथा सामान्य स्थानमें तथा नीचादिमें होनेसे मार्ग ऊपर कंटकादि-प्राय स्थानमें सुरत हो, तथा द्विस्वभाव राशिमें हो तो अपनी स्त्रीसे स्थिर हो तो वेश्यादिसे संभोग कहना ॥ २७ ॥

चरोदयेसारमतेपरस्त्रीकेंद्रेशनौसासरजादिवारतिम् ॥

निशोदयेरात्रिस्वगेचरात्रौदिवानिशंतद्विदलेद्विस्वेत्योः ॥ २८ ॥

चरराशि लग्नमें हो तो परस्त्रीसे भोग होवे, शनि केंद्रमें हो तो रजोवतीसे होवे, लग्न दिवाबली हो तो दिनमें रात्रिबली हो तो रात्रिमें और संध्याबली से संध्या कालमें द्विस्वभावसे दिन तथा रात्रिमेंभी सुरत कहना ॥ २८ ॥ इति श्रीमहीधर०नी०प्रश्नतंत्रभाषाटीकायां सप्तमभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ ७ ॥

अथाष्टमस्थानप्रश्नः ।

नृपसंग्रामप्रश्रेविलग्नलग्नेशसंस्थितात्वेटात् ॥

शशिमूसरिफात्प्रष्टास्तास्तपसंस्थेदुमुथशिलाच्छत्रुः ॥ १ ॥

राजाके संग्रामप्रश्नमें लग्न तथा लग्नेश प्राप्तग्रहसे चंद्रमाके मूसरिफादि होनेमें और सप्तम सप्तमेशके चन्द्र मुथशिलसे शत्रुका जय पराजय कहना लग्न लग्नेश संबंधी शुभयोगमें अपना जय सप्तम सप्तमेश संबंधीसे शत्रुजय इत्यादि १ ॥

अथवाशानिकुजजीवाःशीघ्रेभ्योबलयुताउपरिचराः ॥

बुधसितचंद्रास्तेभ्यश्चदुर्बलाधश्चराध्वसंचित्याः ॥ २ ॥

अथवा शनि बृहस्पति बलवान् अधिकांश तथा बुध शुक्र चन्द्रमा
उनसे हीनबली अल्पांश हों अर्थात् "शीघ्रोल्पभागे धनभागमंदे" इत्यादि इत्थ-
हो तो शत्रुसे जय इससे विपरीत ईसराफ हो तो शत्रुकी जय होगी ॥ २ ॥

पतावस्तपतेः षट्त्रिंशत्सुथशिले द्वयोः स्नेहः ॥

वर्गद्वयमध्याधः पतितः सोन्येन द्वः स्यात् ॥ ३ ॥

लग्नेश सप्तमेशकी द्रेष्काण दृष्टिसे मुथशिली हो तो अन्योन्य स्नेह हो
जावे, जो छठे वा बारहवें हो तो शत्रुको कोई अन्य बांध लेवे ॥ ३ ॥

वर्गद्वयाधिपानां मूसरिफेऽस्तंगतेनरणदैर्घ्यम् ॥

लग्नस्वा निमंदेकंबूलउपरिगेजयः षुः ॥ ४ ॥

योद्धा प्रतियोद्धाके वर्गस्वामी मूसरिफी तथा अस्तंगत हो तो दीर्घरण
नहीं होगा, लग्नेश मंद अधिकांश और सप्तमेश शीघ्र स्वल्पांश बली हों तो
प्रष्टाकी जय होवे ॥ ४ ॥

एवंगुणेतुतस्मिन्विप्रविनष्टेस्तपतितनीचस्थे ॥

केंद्रेस्तेवास्तपतौ प्रष्टुर्हानिः प्रवक्तव्या ॥ ५ ॥

जो मंदग्रह अधिकांश शीघ्र अल्पांश चन्द्रमासे मुथशिली अस्तंगत नीच-
गत हो. वा सप्तमेश केंद्रमें इसी प्रकार अस्त वा नीचगत हो तो रणमें प्रष्टाकी
हानि कहनी ॥ ५ ॥

लग्नादधः शुभेसत्युपरिचमंदे भः सहायः स्यात् ॥

पतौरंध्रस्थेरंध्रपमुथशिलेहतिः प्रष्टुः ॥ ६ ॥

लग्नके अधः अर्थात् दशमसे लग्नपर्यंत शुभग्रह और लग्नसे ऊपर ९
से ४ स्थान पर्यंत शनि हों तो युद्धमें सहाय अच्छा मिलेगा. जो लग्नेश
अष्टमहो वा अष्टमेशसे मुथशिली हो तो प्रष्टा हारेगा ॥ ६ ॥

लग्नेशोधनसंस्थे धनेशकृतमुथशिलेरिपोर्नाशः ॥

लग्नेशदशमपत्योर्मुथशि तः पृच्छकस्यजयोवीर्ये ॥ ७ ॥

सप्तमेश धन स्थानमें, धनेशसे थशिली हो तो शत्रुनाश होवे, लग्नेश
दशमेशका मुथशिल हो बलीभी हों तो शत्रुसे जय होवे ॥ ७ ॥

तुर्यास्तपयरेवंशत्रोयोगजयो यः ॥

भयवर्गोपि केंद्रेतत्पतिकृतमुथशिलेबलंज्ञेयम् ॥ ८ ॥

सप्तमेश चतुर्थेशका मुथशिल हो वा योग हो तो शत्रुकी जयहो, दोना-
के वर्गस्वामीमें जो केंद्रमें स्थानेशसे मुथशिली हो उसका पक्ष बलवान्
रहेगा ॥ ८ ॥

चरराशौसबलत्वंजित्वाप्रातिविनाशस्तु ॥

लग्नपतावंत्यस्थेप्रघ्नानश्यतिपरोस्तपेषष्ठे ॥ ९ ॥

जिसका वर्गेश चरराशिमें बलवान्हो वह प्रथम शत्रुको जीतकर आपभी
क्षय हो जायगा, जो लग्नेश बारहवां हो तो नष्ट होगा. जो सप्तमेश
छठा हो तो शत्रुनाश होगा ॥ ९ ॥

खपतौलग्नेप्रघ्नस्तुर्यैशेस्तेरिपोःसहायबलम् ॥

यन्मुथशिलैरवींदूतस्यबलंमूसरिफेहानिः ॥ १० ॥

दशमेश लग्नमें वा चतुर्थेश छठा हो तो शत्रुकी सेना अपनी सहाय करे
सूर्य चन्द्रमा मुथशिली वा मूसरिफी जिसके वर्गेशसे हों उसकी सेना की
हानि होवे ॥ १० ॥

परचक्रागमपृच्छग्रंथांतरे ।

मार्गान्निवर्तते शत्रुः पापैःशत्रुगृहाश्रितैः ॥

चतुर्थगैरपि प्राप्तः शत्रुर्भे निवर्तते ॥ ११ ॥

शत्रुके आगमप्रथमें पापग्रह छठे हों तो शत्रु मार्गसे हट जावेगा जो चतु-
र्थमें पापग्रह हों तो शत्रु पहुंचभी गयाहो तोभी भागकर हटजायगा ॥ ११ ॥

झषालि भककंटारसातलेयदास्थिताः ॥

रिपोः पराजयस्तदा चतुष्पदैः पलायते ॥ १२ ॥

चतुर्थ स्थानमें १२ । ८ । ११ । ४ राशि होंतो शत्रुकी हार होवे और
चतुष्पदो सहित वा उनकी सवारीमें भाग जावे ॥ १२ ॥

मे धः सिंहवृषायद्युदयस्थाभवंति हिबुकेवा ॥

शत्रोर्निवर्तनकराग्रहयुक्तावावियुक्तावा ॥ १३ ॥

लग्न वा चतुर्थमें १ । ९ । ५ । २ राशि ग्रहसहित रहित हों तो शत्रु लौट जावै ॥ १३ ॥

नागच्छतिपरच यदार्कचंद्रौचतुर्थभवनस्थौ ॥

गुरुबुधशुक्राहिबुकेयदातदाशीघ्रिमायाति ॥ १४ ॥

जो सूर्य चन्द्रमा चतुर्थ हों तो शत्रुसेना नहीं आवेगी, जो बृहस्पति बुध शुक्र चतुर्थ हों तो शत्रुसेना शीघ्रही आवेगी ॥ १४ ॥

स्थिरोदयेजीवशनैश्चैस्थिते गमागमौनैववदेत्पृच्छतः ॥

त्रिपंचषष्टारिपुसंगमायपापाश्चतुर्थाविनिवर्तनाय ॥ १५ ॥

स्थिर राशि में बृहस्पति और शनि हों तो गमन तथा आगमनभी न होगा कहना, पापग्रह ३ । ५ । ६ स्थानोंमें हों तो शत्रुसे संगम होगा, चतुर्थमें पाप हों तो शत्रु हट जायगा ॥ १५ ॥

दशमोदयसप्तमगाःसौम्यानगराधिपस्यविजयकराः ॥

आरार्कि सिताःप्रभंगदाविजयदानवमे ॥ १६ ॥

शुभ ग्रह १० । १ । ७ स्थानोंमें नगरेशकी जय करतेहैं और नवममें मंगल शनि उसकी हार बुध बृहस्पति शुक्र जीत करते हैं ॥ १६ ॥

उदयक्षाञ्चन्द्रक्षीभवतिचयावद्दिनैश्चतावद्भिः ॥

आगमनस्याच्च त्रोर्यदिमध्येनग्रहःकश्चित् ॥ १७ ॥

लग्नसे चन्द्रमा जितने राशिपरहो उतने दिनोमें शत्रु आवे यदि उनके बीचमें कोई ग्रह न हो ॥ १७ ॥

जयपराजये ।

दैत्येज्यवाचस्पतिसोमपुत्रैरेकशर्गैर्लग्नगतैर्बलाढ्यैः ॥

द्वाभ्यामथेज्येभृगुजेथलग्नहन्याद्रणेयायिनृपंपुरेशः ॥ १८ ॥

शुक्र बृहस्पति और चन्द्रमा एक राशिमें हों विशेषतः बलवान् वा गत दोनहूँ हों वा बृहस्पति शुक्रमें एकभी हो तो जानेवाला राजाको पुर वा किलेमें बैठा राजा जीते ॥ १८ ॥

सूर्येदुर्भौमार्कजसैहिकेयैःसर्वैश्चतुर्भिस्त्रिभिरेवलग्रगैः ॥

हन्यात्तदास्थायिनमाशुयायीद्वूनस्थितैर्यायिनृपंपुरेशः ॥ १९ ॥

सूर्य चन्द्रमा मंगल शनि-राहु सभी वा इनमेंसे तीन लग्नमें हों तो अपने स्थानस्थित राजाको गमन करनेवाला राजा मारे, जो उक्त ग्रह सप्तम हों तो स्थानस्थित राजा गमन करनेवालेको मारे ॥ १९ ॥

शुक्रेज्यशीतांशुबुधाःसुरेज्यैःसर्वैस्त्रिभिर्द्वन्द्वगतैर्बलाढ्यैः ॥

हन्याद्रणेस्थायिनमाशुयायीसुखास्पदस्थैश्चशुभैःसुसंधिः ॥ २० ॥

शुक बृहस्पति चन्द्रमा बुध सभी बृहस्पति सहित उक्तोंमेंसे तीन शुभग्रह बलवान् तथा सप्तममें हों तो जानेवाला स्थानस्थ राजाको रणमें मारे, जो उक्त ग्रह चतुर्थ हों तो शीघ्र मिलाप होजावे ॥ २० ॥

कुजेत्थशालेहिमगौ विलग्नेबन्धौचमृत्युर्युधिनागरस्य ॥

भौमेत्थशालेचविधौकलत्रेबन्धंमृतिवालभतेत्रयायी ॥ २१ ॥

चन्द्रमा लग्न वा चतुर्थमें मंगलसे इत्थशाली हो तो युद्धमें स्थायी राजाकी मृत्यु होवे, जो ऐसेही चन्द्रमा सप्तम हो तो यायी राजाका मृत्यु वा बंधन होवे, स्थाई अपने किलामें बैठाहै यायी दूसरेपर जाताहै, ये संज्ञाहैं ॥ २१ ॥

लग्नेशजामित्रपयोश्चमध्येभवेद्द्रहोयःस्वगृहोच्चसंस्थः ॥

तद्गर्गमर्त्यानृपयोश्चसंधिज्ञैयोबुधेलेखकपंडिताभ्याम् ॥ २२ ॥

लग्नेश सप्तमेशसे जो ग्रह स्वगृह वा उच्चमें हो तो उसके पक्षके मनुष्योंसे संधि (मैत्री) करावेगा, यदि बुध स्वगृहोच्चमें हो तो लेखक या पंडितोंके द्वारा मैत्री होवे, “वर्ग सू० चं० राजा, मं० सेनापति, बुध युवराज, वृ०शु० मन्त्री, श० दास” ये जानने ॥ २२ ॥

क्रूरेकलत्रेह्युदयेशुभग्रहोयच्छेद्धनंयायिनृपायनागरः ॥

विपर्ययाद्यायिनृपःपुरेश्वरंदुर्गाद्धिनिष्कास्यददातिवास्पदम् ॥ २३ ॥

सप्तममें पाप लग्नमें शुभग्रह हों तो यायी राजाको स्थायीराजा धन देके शांत करावे, जो लग्नमें पाप सप्तममें शुभ ग्रह हों तो यायीराजा स्थायीको किलासे निकालकर फिर स्थान देवे ॥ २३ ॥

रवीत्थशालेशशिजे गुप्ताश्चराभवेद्युश्च जेसराफात् ॥

ग्रहाच्छशाकिंनयुताश्चतस्मिन्येन्येषाश्चभवंतिचाराः ॥ २४ ॥

बुध सूर्यसे इत्थशाली हो तो चार पुरुष जासूस अति रहैं, जो बुधसे मंगल का ईसराफ हो चन्द्रमासे युक्त भी हो तो वे और वेष रखैं ॥ २४ ॥

दुर्गप्रश्ने ।

श्रेविलग्नैऋवादुर्गमंगोनजायते ॥

शेषतोभूमिपुत्रेराहोवामूर्तिगैसति ॥ २५ ॥

प्रश्नलग्नमें पापग्रह हो विशेषतः मंगल राहु हो तो किला नहीं टूटेगा २५

सप्तमेसिंहिकासूनुर्गेशीघ्रेणलभ्यते ॥ जामित्रोदयगेकूरे

रिष्फगेलग्ननायके ॥ २६ ॥ द्वितीयेवाष्टमेषष्ठेतदादुर्गनल

भ्यते ॥ सकूरोलग्नपोवक्रीयुद्धदःकेंद्रसंस्थितः ॥ २७ ॥

सप्तमें राहु हो तो किला शीघ्र लियाजायगा, जो सप्त तथा लग्नमें पापग्रह और लग्नेश बारहवां हो यद्वा २।६।८में हो तो किला नहीं लियाजायगा, जो लग्नेश वकी और पापयुक्त तथा केंद्रमें हो तो युद्धही होवे ॥ २६ ॥ २७ ॥

षष्ठाधिपेद्यूनगतेपापेवायुद्धमादिशेत् ॥

पृच्छायांकेंद्रगैःकूरैःकोटेदुर्गेवधोनृणाम् ॥ २८ ॥

षष्ठेश सप्तमें वा पापग्रह सप्तम हों तो युद्ध होवे, तथा प्रश्न से केंद्रमें पापग्रह हों तो किलामें मनुष्य मारे जावें ॥ २८ ॥

भौमाष्टमेशावेकत्रददतोनिधनंनृणाम् ॥

स्वायपुत्रस्थितेजीवेकोटमध्येभयंनहि ॥ २९ ॥

मंगल तथा अष्टमेश एकही भावमें हों तो प्रष्टाकी सेनामें बहुत मनुष्य अरेंगे २।११।५ भावमें बृहस्पति हो तो किलामें भय न होगा ॥ २९ ॥

शनौभौमेचकेंद्रस्थेबहूनांवधबंधनम् ॥ ३० ॥

शनि मंगल केंद्रमें हों तो बहुत मनुष्य मारेजायेंगे तथा बांधे जायेंगे ३०

लग्नगतोयदिपापःपापेनयुतेक्षितोजयेद्वात्र ॥

लग्नात्पूर्वापरगौपापौयुद्धंतदाघोरम् ॥ ३१ ॥

लग्नमें पापग्रह पापहीसे युक्त वा दृष्ट हों अथवा दूसरे बारहवें पा ह हों तो घोर युद्ध होगा ॥ ३१ ॥

इति श्रीमहीधररुतायां प्रश्नतंत्रभाषाटीकायामष्टमभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ ८ ॥

अथ नवमभावप्रश्नः ।

ममगमनं भवितानवेतिलग्नेश्वरेथवाचंद्रे ॥

नवमेशमुथशिलेसतिनवमेवास्याद्रवेद्रमनम् ॥ १ ॥

मेरा गमन होगा वा नहीं ऐसे प्रश्नमें लग्नेश वा चन्द्रमासे नवमेशका मुथ-
शिल हो वा लग्नेश नवम हो तो गमन होगा ॥ १ ॥

लग्नस्थेनवमपतौलधिपमुथशिलेचसंचारात् ॥

रहितोयातिपुनर्नानवमदृशावर्जितेयोगे ॥ २ ॥

नवमेश लग्नमें लग्नेशसे मुथशिली हो तो चलता फिरता रहे जो लग्नेश
वा नवमेशका नवमस्थानमें दृष्टि न हो तो गमन भी न होवे ॥ २ ॥

लग्नपतौकेंद्रस्थेसहजेशुथशिलेचविकूरे ॥

गमनंस्यादस्मिन्वाकेंद्रेकूरेचनास्तिगतिः ॥ ३ ॥

लग्नेश केंद्रमें तृतीयेशसे मुथशिली निष्पाप हो तो गमन होवे, जो केंद्रोंमें
कूरग्रह हों तो गमन नहीं होगा ॥ ३ ॥

अस्तेकूरेचयत्कार्यैरनिर्यातिविघ्नमतएव ॥

आकाशस्थेपापेराजकुलाज्ज्येष्ठतोनिजाद्वापि ॥ ४ ॥

जो सप्तम स्थानमें पापग्रह हों तो जिस कार्यके लिये गमन करे उसमें
विघ्न होवे जो दशममें पाप हों तो राजकुलसे वा अपने ज्येष्ठसे वा अपने-
हीसे विघ्न होवे ॥ ४ ॥

नवमेशेथशिलगेलग्नाधीशनपापरिपुट्टे ॥

गमनेवसानतःस्यात्प्रष्टुःकष्टंक्षयोर्यस्य ॥ ५ ॥

लग्नेशसे नवमेशका मुथशिल हो किंतु पापयुत और शुक्रदृष्ट हो तो
गमन तो होवे किंतु अंतमें कष्ट और वनहानि होवे ॥ ५ ॥

लग्नेशेनवमेशेमुथशिलकृतिरंभ्रसप्तमेकष्टम् ॥

उदितेस्मिन्वायायाद्विनिःसृतिःस्यात्सुखकरःपंथाः ॥ ६ ॥

जो लग्नेश नवमेशका मुथशिल सप्तम वा अष्टमस्थानमें हो तो गमन-
में होवे, जो वह अस्तसे उदय होगया हो तो मार्ग स्वकारी होगा ॥ ६ ॥

लग्नान्मार्गानुभवोव्योम्नःकार्य्यस्मराद्गतिस्थानम् ॥

भूमेःकार्य्यपरिणतिरेवलग्नेशरीरसुखम् ॥ ७ ॥

लग्न जैसा दीर्घ वा ह्रस्व हो वैसाही मार्ग कहना, तथा दशमसे कार्य्य, सप्तमसे गति, चतुर्थसे गमनका परिणाम, और लग्नसे शरीरसुख जैसे इनका बला- तथा स्वभावादि संज्ञाप्रकरणोक्त हों वैसाही इनके लक्षण कहे ॥ ७ ॥

दशमेशुभेचसिद्धिःकार्य्यस्यास्ते यातियत्स्थाने ॥

तत्रशुभंचचतुर्थेपरिणामःसुंदरःकार्य्ये ॥ ८ ॥

दशममें शुभग्रह हों तो कार्य्यसिद्धि, सप्तममें हों तो गमन से, चतुर्थ हो तो कार्य्यका परिणाम शुभ होगा ॥ ८ ॥

लग्नेशंशशिनंवायःक्रूरस्तुदतितत्र नुजक्षे ॥

मनुजत्रिराशिकेवातदाभयंद्विपदतोगतुः ॥ ९ ॥

लग्नेश वा चंद्रमाको जो पापग्रह पीडित करे वह पुरुषराशि वा पुरुष ब्रह्मकाणमें हो तो गमनवालेको दोपैरवालेसे भय होवे ॥ ९ ॥

जलराशौवारिभयंचतुष्पदक्षेत्तथाश्वदेः ॥

घटचापेद्रुमकंटकभयंहरीव्याघ्रसिंहादेः ॥ १० ॥

जो उक्तग्रह जलराशिमें हो तो जलसे, चतुष्पद राशिमें हो तो चतुष्पद घोडा आदिसे, धन कुंभका हो तो वृक्ष कंटकादिसे, सिंहका हो तो व्याघ्र सिंहादिसे भय होवे ॥ १० ॥

नगरप्रवेशतोस्मान्फलमस्तिनव वेशलग्नमिह ॥

तस्मिन्धनपेक्केनोरहणंकार्य्यसिद्धिर्वा ॥ ११ ॥

उक्त जो फल हैं ये नगरसे गमन और पुनः नगर प्रवेशपर्य्यंत हैं, जो धनेश वक्री हो तो स्थिति न होवे वा कार्य्य धन न होवे ॥ ११ ॥

अतिचरितेबहुदिवसरहणंनोकार्य्यसिद्धिरीषदपि ॥

नवमतृतीयगेस्मिन्कार्य्यकृत्वांशुनिजपुरंयाति ॥ १२ ॥

जो धनेश अतिचारी हो तो बहुत दिन सफरमें रहना पड़े कार्य्य सिद्धि- भी न होवे जो धनेश नवम वा तृतीय स्थानमें हो तो कार्य्य करके शीघ्र अपने नगरमें आवेगा ॥ १२ ॥

लग्नेकर्मण्यायेधनपयुतेशोभनंज्ञेयम् ॥

सक्रूरसप्तमस्थेपथिविघ्नाञ्जकटकश्चतुर्थस्थे ॥ १३ ॥

लग्न दशम वा ग्यारहवें में नवमेश धनेश युक्त हों तो यात्रा शुभ होगी, जो धनेश वा नवमेश पापयुक्त सप्तममें हों तो मार्गमें विघ्न, तथा चतुर्थमें सपाप हों तो कलह होवे ॥ १३ ॥

ग्रंथांतरेपांथागमनम् ।

आगमनेपृच्छायांलग्नेशेलग्रमध्यसंस्थेन ॥

कृतमुथशिलेसमेतिहिसुखमस्ततुरीयगेकघात् ॥ १४ ॥

पथिकके आगमनप्रश्नमें लग्नेशसे लग्नस्थित ग्रह इत्यशाली हो वह सुखसे तथा ४ । ७ स्थानमें हो तो कष्टसे आवेगा ॥ १४ ॥

स्थानाच्चलितप्रश्नेलग्नपतौसहजनवमगृहसंस्थे ॥

लग्नस्थेनमुथशिलेपंथानंवहतिपथिकोयम् ॥ १५ ॥

स्थानसे मार्गको चला वा नहीं ऐसे प्रश्नमें तृतीयेश ३ वा ९ स्थानमें होकर लग्नस्थ किसी ग्रहसे मुथशिली हो तो पांथ मार्गमें है ॥ १५ ॥

रंध्रेथधनेतस्मिन्नाकाशसंस्थेनमुथशिलेप्येवम् ॥

केंद्रस्थितेतथशाललग्नेक्षणवर्ज्यमेतिनकदापि ॥ १६ ॥

लग्नेश अष्टम वा धनस्थानमें होकर दशमस्थ किसी ग्रहसे मुथशिली हो तो भी मार्ग चलताहै कहना. केंद्रमें होकर दशमेशसे इत्यशाली हो तोभी यही फल है. जो लग्नेश लग्नको न देखे तो पांथ नहीं आवेगा कहना ॥ १६ ॥

लग्नाधिपतौवक्रेलग्नपश्यत्यमुत्रचंद्रेवा ॥

वक्रगमुथशिलेसतिसमेतिपथिकःसुखंशीघ्रम् ॥ १ ॥

लग्नेश वक्र होकर लग्नको देखे अथवा चन्द्रमा वक्री ग्रहसे मुथशिली हो तो पथिक शीघ्र आवेगा ॥ १७ ॥

अंत्यस्थितलग्नपतौशशिनाकृतमुथशिलेद्रुतमुपैति ॥

लग्नाद्रापिचतुर्थाच्छुभाद्वितीयतृतीयगावापि ॥ १८ ॥

लग्नेश बारहवां चंद्रमासे मुथशिली हो तो पांथ शीघ्र आवेगा लग्नसे चतुर्भसे दूसरे तीसरे शुभग्रह हों तोभी शीघ्र आवेगा ॥-१८ ॥

कथयंतिनष्टलाभंप्रवासिनश्चागमंत्वरितम् ॥ १९ ॥

इन दो योगोंमें सीका शीघ्र आगमन तथा नष्टवस्तुका शीघ्र लाभ
होताहै पथिकका आगमन वा रोधके योग द्रव्यके लाभालाभमें भी
मिलते हैं ॥ १९ ॥

शुभेषष्ठेयजामित्रेवाक्पतिःकंटकेस्थितः ॥

पथिकाग नंभ्रूतेसितेज्ञेवात्रिकोणगे ॥ २० ॥

शुभ । वा सात हो तथा स्पति केन्द्रमें हो अथवा शुक्र वा बुध
त्रिकोण ९ । ५ में हो तो पथिक शीघ्र आवेगा ॥ २० ॥

षष्ठोदयेपापदृष्टे भद्रग्वर्जितेबुधः ॥

लग्नात्षष्ठेयदापापायातुश्चनिधनंवदेत् ॥ २१ ॥

षष्ठ तथा लग्नस्थानमें पापग्रहोंकी दृष्टि हो शुभग्रहोंकी न हो तथा ल-
ग्रसे छठे स्थानमें पापग्रह हों तो पंडितने जानेवालेकी मृत्यु कहनी ॥ २१ ॥

यदाकूरास्तृतीयस्थादेशादेशांतरंगतः ॥

चौरैर्णैवहतस्वश्चपथिकःकेंद्रगायदि ॥ २२ ॥

जो पापग्रह तीसरे हों तो पथिक एक देशसे दूसरे देशको चला गया ज
सभी केन्द्रोंमें पाप हों तो उस चोरोंने लूट लिया ॥ २२ ॥

पापैः त्रिलाभस्थैःकंटकस्थैःशुभग्रहैः ॥

वासी खमायातिदूरस्थोपिसुनिश्चितम् ॥ २३ ॥

पापग्रह ६।३। ११ में और शुभग्रह केन्द्रोंमें हों तो पथिक दूर भी हो
तोभी निश्चय करके खपूर्वक घर आवेगा ॥ २३ ॥

चतुरस्रेत्रिकोणेवापापगेहस्थितःशनिः ॥

पापदृश्चनियतबंधनंयातुरादिशेत् ॥ २४ ॥

केन्द्र वा त्रिकोणोंमें पापग्रह तथा पापराशिमें पापदृष्ट शनि हो तो अवश्य
पथिक बंधनमें पड़ गया है ॥ २४ ॥

शुभ स्थिरेलग्नेस्थिरोबंधश्चरेऽन्यथा ॥

द्वितनौसौम्यसं केबंधमोक्षौक्रमेणतु ॥ २५ ॥

स्थिर लग्न शुभयुक्त उक्तयोगोंमें हो तो बंधन स्थिर होगा. चर हो तो
नाममात्र और द्विस्वभाव हो तो बंधनसे छट गया है ॥ २५ ॥

पापास्त्रिकोणजामित्रेविलम्बेपृष्ठकोदये ॥

शुभिविद्विष्यमाणेचयातुःकष्टंवेदत्सुधीः ॥ २६ ॥

त्रिकोण तथा सप्तममें पापग्रह और लग्न पृष्ठोदय हो शत्रुसे देखा भी जावे तो पांथको बुद्धिमानने कष्ट कहना ॥ २६ ॥

मार्गस्थानगतैःसौम्यैर्मार्गतस्यशुभंवेदत् ॥

क्रूरैर्दुःखं विलम्बस्थैःपापैःक्लेशमवाप्नुयात् ॥ २७ ॥

मार्गस्थानमें शुभग्रह हों तो पांथको मार्ग सुखकारी और पाप हों तो दुःखकारी होगा, तथा लग्नमें पाप हों तो पांथको क्लेश होगा ॥ २७ ॥

चरलग्नेचराशेवाचतुर्थेचंद्रमाःस्थितः ॥

प्रवासीसुखमायातिकृतकार्य्यश्चवेशमंनि ॥ २८ ॥

चरराशि लग्नमें तथा चरराशि चरांशकमें चन्द्रमा चौथा हो तो प्रवासी कार्य्य करके सुखसे अपने घर शीघ्र आवेगा ॥ २८ ॥

कंटकैःसौम्यसंयुक्तैःपापग्रहविवर्जितैः ॥

प्रवासीसुखमायातिनिधनस्थेनिशाकरे ॥ २९ ॥

केंद्रोंमें शुभ ग्रह हों पाप ग्रह न हों अथवा चन्द्रमा अष्टम हो तो प्रवासी सुखसे घरमें आवेगा ॥ २९ ॥

गमागमौतुनस्यातांयोगेदुरुधराकृते ॥

शुभैःशुभकृतोरोधःपापैस्तस्करतोभयम् ॥ ३० ॥

जो दुरुधरा योग अर्थात् चन्द्रमासे दूसरे बारहवेंभी कोई ग्रह हों तो गमन तथा आगमनभी न होवे, जो यह योग शुभ ग्रहोंसे हो तो शुभ कार्य्यमें अटकाव पापोंसे चोर आदिसे हानियें होवें ॥ ३० ॥

गमागमौतुनस्यातांस्थिरराशौविलम्बगे ॥

नरोगोपशमोनाशोद्रव्याणांनपराभवः ॥ ३१ ॥

स्थिर राशि लग्नमें हो तो गमन रोग, शांति वा वृद्धि और हारजीत द्रव्य नारा वा लाभ कोईभी शुभ एवं अशुभ न होवे ॥ ३१ ॥

विपरीतंचरेवाच्यंफलंमिश्रंद्भिर्मूर्तिषु ॥

स्थिरवत्प्रथमेखंडेपराद्धैचरराशिवत् ॥ ३२ ॥

चरराशि लग्नमें हो तो पूर्वोक्त फल विपरीत जानना जो द्विस्वभाव हो तो पूर्वार्द्ध में चरराशिके और उत्तरार्द्धमें स्थिरके तुल्य फल कहना ॥ ३२ ॥

प्रवासीसुख यातिगुरु त्रिवित्तगौ ॥

चतुर्थस्थानगावे शीघ्रमायातिकार्य्यकृत् ॥ ३३ ॥

बृहस्पति शुक्र तीसरे वा दूसरे हों तो प्रवासी सुखसे आवेगा जो यही चतुर्थमें हों तो कार्य्य करके शीघ्रही आवेगा ॥ ३३ ॥

इंदुः मगोलग्रात्पथिकंवक्तिमार्गगम् ॥

गांधिपश्चराश्यर्द्धात्परभागेव्यवस्थितः ॥ ३४ ॥

चन्द्र लग्नसे सप्तम हो तो प्रवासी मार्गमें है कहना, मार्गस्थान ९ का स्वामी राशिके उत्तरार्द्धमें हो तोभी यही फल कहना ॥ ३४ ॥

कार्कजीवसौम्यानामेकोपिस्याद्यदायगः ॥

तदाशुगमनंब्रूतेप्रष्टुर्नगमनंव्यये ॥ ३५ ॥

शुक्र सूर्य्य बृहस्पति बुधमेंसे एकभी ग्यारहवां हो तो प्रवासी शीघ्र आवे जो बारहवां हो तो गमागम नहीं होंगे ॥ ३५ ॥

लग्नाद्यावतिथेस्थानेबलीखेटोव्यवस्थितः ॥

ब्रयात्तावतिथेमासेपथिकस्यनिवर्त्तनम् ॥ ३६ ॥

ल जितने स्थानमें बलाधिक ग्रह हो उतनी संख्याके महीनोंमें प्रवासी लौटेगा यहां मास स्थानमें दिन वा वर्ष बुद्धिसे देशकाल देखके कहना ॥ ३६ ॥

एवंकालंचरांशस्थेद्विगुणंचस्थिरांशके ॥

द्विस्वभावांशगेखेटेत्रिगुणंचितयेत्सुधीः ॥ ३७ ॥

यह बली ग्रह चरांशकमें हो तो वह समयही ठीकहै जो स्थिरांशकमें हो तो द्विगुण द्विस्वभावमें हो तो त्रिगुण समय कहना ॥ ३७ ॥

यातुर्वि मित्रभवनाधिपतिर्यदा ॥

करोतिवक्रमावृत्तेःकालंतंश्रुवतेपरे ॥ ३८ ॥

गमन रनेवालोको गमन वा प्र लग्नसे सप्तमेश जब वक्र होवे तब हटनेका समय हुना यह किसीका मत है ॥ ३८ ॥

चतुर्थेदशे वापियदिसौम्यग्रहोभवेत् ॥

तदानगमनंक्रूरैस्त स्थैर्ग नंभवेत् ॥ ३९ ॥

चतुर्थे वा दशममें शुभग्रह हो तो गमन न होवे हो तो गमनहोताहै ॥ ३९ ॥

द्वालग्ननाथाद्वायत्संरुः क्रूरखेचराः ॥

नवमेद्वादशेवापितत्संख्याः स्युरुपद्रवाः ॥ ४० ॥

लग्न वा लग्नेशसे नवम वा बारहवें स्थानमें जितने पाप ग्रह हों उतने उपद्रव गमनमें होवेंगे कहना ॥ ४० ॥

लग्नाद्वालग्ननाथाद्वायावंतःसौम्यखेचराः ॥

मार्गैतत्रोदयावाच्याःस्थानेस्थानेविचक्षणैः ॥ ४१ ॥

लग्न लग्नेशसे जितने शुभग्रह नवमहों उतने स्थानोंमें पांथका उदय, हर्ष होगा यह द्वानोंने विचारसे कहना ॥ १ ॥

र्युक्तोक्षितो दः भद्रग्योगवर्जितः ॥

धर्मस्थस्तनुतेव्याधिप्रोषितस्याष्टगो मृतिम् ॥ ४२ ॥

नवम स्थानमें शनि पापग्रहयुक्त दृष्ट हो शुभग्रहकी दृष्टि योग रहित हो तो पथिकको व्याधि और अष्टममें होतो मृत्यु होवे ॥ ४२ ॥

जामित्रस्यशुभोत्थेयातानायातिदुरुधरायोगे ॥

मित्रस्वामिनिषेधात्पापोत्थेशत्रुरुक्चौरात् ॥ ३ ॥

सप्तममें शुभ ग्रहोंसे दुरुधरा योग हो तो जानेवाला मित्र अथवा स्वामीके मना करनेसे फिर आवे नहीं जो पापोंसे हो तो शत्रु वा रोग और चौरसे मृत्यु वा मृत्युतुल्य पावे ॥ ४३ ॥

चंद्रार्कयोश्चि द्रग्योर्यमेनसंदृष्टयोःस्यात्पथिशस्त्रभीतिः ॥

रंश्रंसितेज्ञेचसुख त्राररे देभयंपापयुगीक्षितेध्वानि ॥ ४ ॥

चन्द्रमा सूर्य अष्टम हों शनि उन्हें देखे तो मार्गमें शस्त्रभय होवे, अष्टम स्थानमें शुक्र बुध हों तो सुख मिले, मंगल शनि पयुक्त वा दृष्ट अष्टम हों तो मार्गमें भय होवे ॥ ४४ ॥

दूरस्थजीवितमृत श्रे ।

श्वरेशीतकरेथषष्ठेतुय्येष्टमेवाप्यतिनीचगेवा ॥

अस्तंगतेच्छिद्रपतीत्यशालेयु ऽशुभैर्दूरगतोमृतःस्यात् ॥ ४६ ॥

प्रवासी जीवित है वा मरगया ऐसे प्रश्नमें लग्नेश तथा चंद्रमा छठे हों अथवा चतुर्थ अ में अति नीचराशिस्थ अस्तंगत हों और अष्टमेशसे इत्यशाली और पाप युक्त हों तो प्रवासी दूर पहुँचकर मरगया होगा ॥ ४५ ॥

भूमेरधःस्थेनचवक्रगेनयदीत्यशालंकुरुतेशांशकः ॥

सौम्यैरदृष्टेमरणंप्रकुर्याद्दूरस्थितस्यापिविदेशगस्य ॥ ४६ ॥

लग्नसे चतुर्थके बीच स्थित किसी ग्रहसे चंद्रमा इत्यशाल करे तथा शुभग्रह उसे न देखें तो दूरदेशस्थकी मृत्यु होती है ॥ ४६ ॥

सौम्यैः त्परंघ्रस्थैर्विबलैश्चशुभेक्षितैः ॥

पापयुक्तौशांशकाकौतदादूरस्थितोमृतः ॥ ४७ ॥

शुभग्रह ६ । ८ । १२ । स्थानोंमें निर्बल शुभ ग्रहोंसे दृष्ट तथा पापग्रहोंसे युक्त हों और सूर्य चंद्रमा पापयुक्त हों तो दूरस्थित जन मरगया है ॥ ४७ ॥

पृष्ठोदयेपापयुतेत्रिकोणकेंद्राष्टषष्ठोपगतैश्चपापैः ॥

सौम्यैरदृष्टैः परदेशसंस्थोमृतो गदात्तानवमेचसूर्ये ॥ ४८ ॥

पृष्ठोदय १ । २ । ४ । ९ राशिमें पापग्रह त्रिकोण केंद्र और अष्टम स्थानमें हों शुभग्रह उन्हें न देखें तो परदेशमें रोगी मरगया है, जो नवम सूर्य हो तोभी यही फल कहना ॥ ४८ ॥

तुर्य्योपरिस्थेनखगेनचंद्रमायदीत्यशालंकुरुतेशुभेक्षितः ॥

सौम्यैर्युतोवापरदेशसंस्थितः सुखीचजीवित्पाथिसौख्यमेति ॥ ४९ ॥

चतुर्थसे सप्तमके भीतर किसीग्रहसे चंद्रमा इत्यशाल करे शुभग्रहसे दृष्ट वा युक्तभी हो तो परदेशवाला खी जीताजागता है मार्गमेंभी सुखसे आवेगा ४९

इति श्रीमहीधर • ता० नी० भा० नवमस्थान प्रश्न नि० ॥ ९ ॥

अथ दशमस्थानप्रश्नः ।

राज्याप्तिप्रश्नलग्नेलग्नेशेशशिनिवानमःपतिना ॥

तमुथशिलेवरदृशाराज्यरूपक्रमाद्भवति ॥ १ ॥

राज्यलाभ प्रश्नमें लग्नेश वा चंद्रमा दशमेशसे मुथशिली हो मित्रदृष्टि भी हो तो कुलानुमान राज्य स्व मिले ॥ १ ॥

अन्योन्यभवनगमनाःक्रूराभावेथर्चितितप्राप्तिः ॥

लग्नेशेनान्येनचसौम्येनांबरस्थमुथशिलेप्येवम् ॥ २ ॥

लग्नेश दशम दशमेश लग्नमें पापरहित हों तो चिंतित राज्य सुख मिले, तथा ग्नेशसे किसी दशमस्थ शुभग्रहका मुथशिल हो तौभी यही फल होगा २

मंदग्रहेबलवतिक्रूरवियुक्तोयदाशशीविबलः ॥

मैदेबलिनिभ्रमणाद्राज्यप्राप्तिर्भवेत् ॥ ३ ॥

योगकर्त्ताओंमें मन्दगति ह व वान् पापरहित चंद्रमा भी निर्बल हो शनि बलवान् हो तो भ्रमणसे प्रश्नवालेको राज्यसुख मिले ॥ ३ ॥

लग्नाधिपतौस्वगृहेलाभोराज्यस्यतुंगगेभोमे ॥

लग्नांबराधिपौयदिकंबूलौकेंद्रगेंदुमुथशिलतः ॥ ॥

अपनी राशिमें लग्नेश और अपने उच्चमें मंगल हों तो राज्यलाभ होवे. जो लग्नेश और दशमेश मुथशिली केंद्रमें चंद्रमासे कंबूली हों तो वही फल हना ४

उत्तमराज्याप्तिःस्वक्षौचइंदुतोविपुला ॥

यत्रक्षैलग्नेशस्तत्पतिर भेगृहेतदाकार्यम् ॥ ५ ॥

नस्यादस्तेक द्दशमदृशाकटुकताकार्यम् ॥

राज्यप्राप्तौसत्यांयदिपृच्छतिकोपिपरिणतिंचतदा ॥ ६ ॥

लग्नेश दशमेशके इत्यशालमें चंद्रमा स्वराशि वा उच्चगत कंबूली अर्थात् उत्तमोत्तम कंबूल हो तो राज्यप्राप्ति उत्तम और बहुत होवे जिस राशिमें लग्नेश है उसका स्वामी अशुभ राशिमें हो तो राज्यसंबंधी कार्य न होवे जो वह अस्तंगत हो तो कष्टसे होगा जो शत्रुदृष्टिसे दृष्ट हो तो कार्यमें कोई प्रकार कड़ुवाई आवेगी ॥ ५ ॥ ६ ॥

लं शरीरकार्य्यगृहकार्मास्तंनभश्चराज्यार्थम् ॥

लाभोमि स्यार्थेचतुर्थकंकर्मणोवसतयेच ॥ ७ ॥

जो कोई राज्यकृत्यप्राप्ति हुयेमें उसका परिणाम पूँछे तो लग्नेसे शरीरकार्य्य, सप्तमसे गृहकार्य्य, दशमसे राज्यकृत्य, लाभसे लाभ चतुर्थसे तथा मित्रसंबंधी कार्य्य और दशमसे निवासके विषयमेंभी विचार करना ॥ ७ ॥

द्रव्यंधनायसहजंभृत्येभ्योरिपुश्चवैरिभ्यः ॥

एतैःशुभैःशुभंस्यादशुभेवामंचसर्वकार्य्याणाम् ॥ ८ ॥

दूसरे भावसे धन कार्य्य, तीसरेसे भृत्य, छठेसे वैरी संबंधी कार्य्य विचारना, यदि इनपै शुभग्रह हों वा इनके स्वामी बली होंतो यथोक्त कार्य्य शुभ अन्यथा अशुभ होगा ॥ ८ ॥

वित्तस्वामिनिभौमेऽनौचित्येपारदारिकेव्ययकृत् ॥

जीवेधर्मायरिपौगुरुपूजायैसितेविलासाय ॥ ९ ॥

धनेश मंगल लग्नेशसे मूथशिली हो तो अनुचितकर्मोंमें तथा परस्त्री संबंधी व्यय करे धनेश बृहस्पति हो तो धर्ममें सूर्य्य हों तो गुरु ब्राह्मणकी पूजामें शुक्र हो तो विलासादि खर्चमें धनव्यय होवे ॥९॥

वाणिज्याय पुनरिदं थशिलिनिचान्यथान्यार्थम् ॥

लग्नपतौपतितस्थेविबलेराज्यात्ययस्तुकंबूले ॥

कोपिगुणःस्यात्पापाक्रांतैरशुभंच्युतौभवाति ॥ १० ॥

जो उक्त प्रकार बुध हो तो वाणिज्यमें धनव्यय होवे चन्द्रमा मुथ शिली भी हो तोभी व्यापारमें व्यय होवे जो मुथशिली लग्नेशसे न हो तो अन्यकोलि-ये वाणिज्यकरे तथा लग्नेश पतित स्थानमें तथा निर्वल हो तो कंबूलीमें कुछ गुणभी होताहै पापाक्रांत हो तो राज्य नाशही होताहै ॥ १० ॥

नरपतिसचिवस्नेहप्रश्नेकंबूलेलग्नसप्तपयोः ॥

मथशिलयोःशुभदृष्ट्याशुभताराज्येमिथः स्नेहः ॥ ११ ॥

राजा और राजमंत्रिके स्नेहप्रश्नमें लग्नेश सप्तमेशका कंबूलसहित, मुथशिल हो तो परस्पर स्नेह रहे शुभदृष्टिभी हो तो राज्यमेंभी शुभता रहै ॥ ११ ॥

(२५६)

ताजिकनीलकण्ठी ।

राज्यंचरंस्थिरंवालग्नपगगनेशयोःसहयोः ॥

यद्येकोमंदःस्यात्केंद्रेतत्स्थितमथोन्यथावाच्यम् ॥ १२ ॥

यह राज्य चर वा स्थिर कैसा होगा ऐसे प्रश्नमें लग्नेश दशमेश साथही केन्द्रमें हों उनमेंसे एक मन्दगति उपलक्षणसे अल्पांश हो तो राज्य स्थिर होगा अन्यथा अस्थिर कहना ॥ १२ ॥

यदिवासवाममार्गैभूमे प्रच्युतिर्भवेत्पूर्वम् ॥

कंबूलेसतिलभतेशीघ्रंमूसरिफेतुनपुनः ॥ १३ ॥

जो उक्तग्रह वक्री हो तो प्रथम राज्यकी हानि पीछे उन्नति होगी, कंबली हो तो शीघ्र राज्यलाभ और मूसरिफी हो तो लाभ नहीं होवे ॥ १३ ॥

ग्रन्थांतरेस्वामिभृत्यप्रश्नः ।

शीर्षोदयेसौम्ययुतोक्षितेवासौम्यैर्द्वितीया मसप्तमस्थैः ॥

तृतीयलाभारिगतैश्चपापैःसौख्यार्थलाभोनृपसेवकस्य ॥ १४ ॥

स्वामी भृत्य प्रश्नमें शुभग्रह शीर्षोदय राशिमें शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट २।८।७ में और ३।१।६ स्थानोंमें पाप हों तो राजसेवीको सुख तथा धनलाभ होवे १४

लग्नाद्वितीयेमदनेष्टमक्षेवित्तक्षयंसंभ्रममार्तिभृत्युम् ॥

कुर्वतिपापाःक्रमशोनरेन्द्राद्भृत्यस्यतस्मात्परिवर्जयेत्तम् ॥ १५ ॥

लग्नेसे दूसरे हों तो भृत्यका राजासे धनक्षय होवे. जो सप्तम हों तो संभ्रम और अष्टम हों तो मृत्यु होवे तस्मात् इन स्थानोंमें पाप हों तो स्वामीसेवा न करनी ॥ १५ ॥

लग्नाद्वितीयाष्टमसप्तमस्थाःपापाःप्रणाशंनृपभृत्ययोर्द्वयोः ॥

कुर्वतितेष्वेवगताश्चसौम्याःकुर्युर्धनारोग्यसुखानिचोभयोः ॥ १६ ॥

लग्नेसे २।८।७ स्थानोंमें पापग्रह स्वामी सेवक दोनहूँका नाश और श-भग्रह दोनहूँको धन आरोग्य और सुख करतेहैं ॥ १६ ॥

शशांकसौम्यैरुदयास्तभावौदृष्टौयुतौवासबलैर्नपापैः ॥

प्रष्टुस्तदास्तोद्दिपार्थिवस्यस्नेहप्रसादावकृपाप्रतीपात् ॥ १ ॥

बलवान् चंद्रमा और बलवान् शुभग्रह करके लग्न तथा सप्तमभाव देखा जाय और उक्त स्थानोंपर पापग्रह की युक्ति दृष्टि न हो तो के लिये राजाके हृदयमें स्नेह तथा कृपा रहे, यही योग विपरीतभी है कि, शुभोंके स्थानमें पाप हों तो विपरीत फल कहना ॥ १७ ॥

अन्यस्वामिप्रश्नः ।

षष्ठेश्वरेणव्ययपेनकेन्द्रेयदीत्यशालं कुरुतेविलग्नपः ॥

प्रष्टुस्तदान्यः प्रभुरर्थदः स्यादतः प्रतीपं न भवेत्परः प्रभुः ॥ १८ ॥

षष्ठेशसे वा व्ययेशसे जो केन्द्रमें इत्यशाल लग्नेश करे तो प्रष्टाको और स्वामी धन देनेवाला होगा, विपरीतमें अन्य प्रभु न होवे ॥ १८ ॥

लग्नेश्वरेस्वर्क्षगतेस्वतुंगकेन्द्रस्थितेशीतकरेत्यशाले ॥

शुभग्रहैर्दृष्टे तेबलान्वितेप्रष्टुर्निजस्वाम्यमितार्थलाभः ॥ १९ ॥

लग्नेश अपनी राशि वा उच्चमें केन्द्रस्थित होकर चन्द्रमासे इत्यशाली हो तथा शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट और बलवान् हो तो प्रष्टाको अपनेही स्वामीसे अगणित धन मिले ॥ १९ ॥

जायेश्वरेस्वोच्चनिजर्क्षसंस्थेकेन्द्रस्थितेशीतकरेत्यशालगे ॥

भग्रहैर्दृष्टयुतेबलौत्कटैः प्रष्टुस्तदान्यप्रभुरर्थदो भवेत् ॥ २० ॥

सप्तमेश अपनी राशि वा उच्चका केन्द्रगत चन्द्रमासे इत्यशाली हो तथा बलवान् शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो प्रष्टाको अन्य स्वामी धन देवे ॥ २० ॥

इदंगृहंवाशुभमन्यदालयंस्थानं त्विदंवाशुभमन्यदेवमे ॥

ममात्रभद्रगमनात्तत्रवापृष्टोदयेत्यंविधिनाविसृश्य ॥ २१ ॥

प्रष्टा पूछे कि, मुझको यह घर शुभहोगा वा अन्य, तथा यह स्थान शुभ वा अन्य, और हमको यहां शुभ है या गमनमें वहां शुभ होगा इतने प्रश्नोंमें इतने ही भावोंसे कार्येश जानके इत्यशाल इसराफ आदि योगोंसे विचारकरना २१

अथ स्व प्रश्नः ।

लग्नेकेनृपतिंवाह्लिशस्त्रंपश्यंतिलोहितम् ॥

श्वेतंपुष्पंसितं वस्त्रं गंधनारीं च शीतगौ ॥ २२ ॥

(२५८)

ताजिकनीलकण्ठी ।

लग्नमें सूर्य्य हो तो राजा,अग्नि, श और लाल रंग देखे, चन्द्रमा हो तो श्वेत रंगके पुष्प, व , चंदन और ी दे ॥ २२ ॥

रक्तमांसप्रवालंचसुवर्णधरणीसुते ॥

धेखेगमनंजीवेधनबंधुसमांगमम् ॥ २३ ॥

मंगल हो तो रुधिर मांस मूंगा वर्ण, बुध हो तो आकाश पर्वतशृंगादिमें मृमन, हस्पतिसे धन तथा बंधुसंमेलन ॥ २३ ॥

जलावगाहनंशुक्रेशनौतुंगावरोहणम् ॥

लग्नलग्नांशपवशात्स्वैवाच्योथवाबुधैः ॥ २४ ॥

शुक्र हो तो जलक्रीडा शनि हो तो ऊंचे स्थानारोहण होवे अथवा लग्न तथा लग्नवांश पतिसे पंडितोंने स्वम कहना ॥ २४ ॥

सर्वोत्तमबलाद्वापिखेटाद्बुद्ध्याविचिंतयेत् ॥

बलसाम्येफलमिश्रंदुःस्वप्नोनिर्बलैःस्वगैः ॥ २५ ॥

अथवा सर्वोत्तम बलीग्रहसे बुद्धिसे विचार करना जो बहुतोंका बल धान हो तो फल मिश्रित और निर्बलसे दुःस्वप्न होवे ॥ २५ ॥

रविलग्नेशशिदृष्टेरविशाशिसमेतविलग्न्याद्वा ॥

स्वप्रदृष्टंप्रवदेत्प्रघुर्लगांतरात्कालः ॥ २६ ॥

सूर्य्य लग्नमें चन्द्रमासे दृष्ट हों वा सूर्य्य चंद्रमा लग्नमें हों तो स्वम देखाहै और स्थानोंमें हो तो देखेगा कहना ॥ २६ ॥

अथाखेटकः ।

लग्नेशजामित्रपतीत्थशालेसुस्नेहदृष्ट्यात्वनयोर्द्वयोश्च ॥ आखेटकःस्यात्सफलोरिदृष्ट्यास्यान्निष्फलोवाल्पफलोतिकष्टात् ॥२ ॥

लग्नेश सप्तमेशका इत्थशाल मित्रदृष्टिसे हो तो आखेटक (शिकार) - फल होगी उनकी शत्रुदृष्टि हो तो निष्फल वा बहुत कष्टसे अल्पफली होवे २७

लग्नेश्वरेदूनगतेविलग्नैजायेश्वरेस्यान्मृगयाप्रभृता ॥

यामित्रनाथेहिबुकेनभःस्थेचाखेटकःस्वलपतरौपिनस्यात् ॥२८॥

लग्नेश सप्तममें सप्तमेश लग्नमें हो तो शिकार बहुत मिले, जो सप्तमेश चतुर्थमें वा दशममें हो तो शिकार थोडाभी न होवे ॥ २८ ॥

भौमौसबलौसिद्धिरस्तशिमृगयाच्युतिः ॥

लग्नचूनेतत्पतीचहेतुस्तैर्जलजादिगैः ॥ २९ ॥

बुध मंगल बलवान् हों तो मृगयासिद्धि होवे जो वे सप्तम राश्यंशमें हों तो शिकार हाथसे छूटजावे; लग्न और सप्तम राशि वा उनके पति स्थल जलाकाश जैसी राशियोंमें वा जैसे स्वभावके हों वैसीही शिकार भी कहनी ॥ २९ ॥

क्रूराक्रांतानियावंतिमन्येभानींदुल योः ॥

तावंतःप्राणिनोवाच्याद्वित्रिघ्नाःस्वांशकादिषु ॥ ३० ॥

लग्न और चन्द्रमाके बीच जितनी राशि पापग्रहोंसे दबी हों उतने प्राणी शिकारमें मिलेंगे जो वे अपने अंश वा उच्च मित्रांशकोंमें हों तो द्विगुण त्रिगुण और वर्गोत्तममें बहुतगुना कहना ॥ ३० ॥

अथ किंवदंती ।

श्रुतिस्तुलग्नेश्वरशीतगूदयैःशुभान्वितैःकेन्द्रगतैस्तुसत्या ॥

पापान्वितैःपापनिरीक्षितैश्च त्रिकस्थितैर्वाभवतीहामिथ्या ॥ ३१ ॥

लग्न, लग्नेश और चंद्रमा शुभयुक्त केन्द्रगत हों तो जनश्रुति सच्ची और पापयुक्त दृष्ट वा त्रिक ६।८।१२ में हों तो मिथ्या कहनी, लोगोंमें अफंवाह कहावत को जनश्रुति वा किंवदंती कहते हैं ॥ ३१ ॥

शुभहृग्योगतःसौम्यांवार्त्तासत्यांविनिर्दिशेत् ॥

पापहृग्योगतोद्दुष्टावार्त्तासत्येतिकीर्त्थते ॥

लग्नेश्वरेभाविक्रेमिथ्यावार्त्ताभविष्यति ॥ ३२ ॥

लग्न लग्नेश और चन्द्रमापर शुभग्रहोंकी दृष्टि वा योग हो तो सौम्य वार्त्ता सत्य क्रूरवार्त्ता हो तो असत्य जानना. पापदृष्टि योगसे क्रूर वार्त्ता सत्य, सौम्यवार्त्ता हो तो असत्य जानना और लग्नेश वक्र होनेवाला हो तो सभी वार्त्ता मिथ्या होवें ॥ ३२ ॥

इति श्रीमही०नी० प्रश्नतंत्रभाषाटीकायां दशमभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ १० ॥

अथ एकाशस्थानप्रश्नः ।

नृपतेर्गौरवलाभाशादिभमस्यान्नवेतिपृच्छायाम् ॥

आयेशलग्नपत्योःस्नेहदृशा मुथशिलेद्रुतंभवति ॥ १ ॥

राजासे गौरव तथा धनादिलाभ भरे होंगे वा नहीं ऐसे प्रश्नमें लाभेश लग्नेशकी स्नेहदृष्टिसे इत्थशाल हो तो शीघ्र लाभ होगा ॥ १ ॥

रिषुद् याबहुदिवसैःकेंद्रेचायेशचंद्रकंबूले ॥

वाच्यापूर्णैवाशाचरस्थिरद्विस्वभावगेस्वनामफलम् ॥ २ ॥

जो उनके परस्पर शत्रुदृष्टिसे इत्थशाल हो तो बहुत दिनोंमें लाभ होगा जो लग्नेश लाभेशका इत्थशाल केन्द्र वा लाभस्थानमें चन्द्रमाके कंबूल सहित हो तो आशा पूर्ण होगी कहना, परंतु वह जैसी राशिमें हों वैसा राशिनामसदृश फलभी देते हैं जैसे चरमें चर स्थिरमें स्थिर इत्यादि ॥ २ ॥

लाभेशे रूहतेभूत्वाशाशुप्रणाशमुपयाति ॥

रायुत्केशुभयुज्यधिकारवशेनलघ्याशा ॥ ३ ॥

जो लाभेश अस्त वा पापपीडित हो तो आशा पूर्ण होकर फिर नष्ट होजावे. पापरहित शुभयुक्त हो तो अधिकारके सदृश लघु वा बृहत् आशापूर्ति कहनी ॥ ३ ॥

मित्रेणसहप्रीतिर्भवितालग्नेश्चरायपत्योश्च ॥

प्रियदृष्ट्यामुथशिलतःप्रीतिर्वान्योन्यगृह्यानात् ॥ ४ ॥

मित्रसे प्रीति होगी वा नहीं ऐसे प्रश्नमें लग्नेश लाभेशकी मित्र दृष्टि मुथशिल हो अथवा लग्नेश लाभमें लाभेश लग्नमें हों तो प्रीति बढेगी ॥ ४ ॥

केंद्रस्थितयोरनयोमैत्रीकिलपूर्वजातैव ॥

पणफरगतौपुरस्तादापोक्लिमतोसहाप्रीतिः ॥ ५ ॥

लाभेश लग्नेश केन्द्रमें हों तो मैत्री उनकी पहिलेहीसे होरही है, जो पणफर २ । ५ । ८ । ११ में हों तो आगे होगी आपोक्लिम ३।६।९।१२ में हों तो प्रीति बहुत बढेगी ॥ ५ ॥

गुप्तकार्यमिदमेसिद्धयतिलग्रेथरेथचंद्रमासि ॥

भमुथशिलगेकेंद्रेत कटेवाथसिद्धिःस्यात् ॥ ६ ॥

मेरा गुप्त कार्य सिद्ध होगा वा नहीं, ऐसे प्रश्नमें लग्नेश तथा चंद्रमा शुभ ग्रहसे मुथशिली केंद्रमें वा उसके समीप हों तो गुप्त कार्य सिद्ध होगा ॥ ६ ॥

ग्रंथांतरेसमर्घचिंता ।

मेष षेचमिथुनेशुभयुक्तदृष्टेनग्रीष्मिकंतुसुलभंभवतिपृथिव्याम् ॥

सौम्यैर्घनुर्मृगघटेषुचशारदीयं र्यात्समर्घमशुभैःसहितोमहर्घम् ॥७॥

शुभ ग्रह युक्त दृष्ट १ । २।३ राशि हों तो ग्रीष्म ऋतुकी फसल, और ९ । १० । ११ में हों तो शरद् ऋतुकी फसल अच्छी होगी। लग्न लग्नेश और चंद्रमा शुभयुक्त दृष्ट हों तो सुकाल (समय अच्छा) होगा और अशुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो महर्घता होवे ॥ ७ ॥

लग्नेबलाढ्येनिजनाथसौम्यैर्युक्तेक्षितेकेंद्रगतैः भैश्च ॥

सर्वैःसमर्घ विबलैर्विलग्रेकेंद्रे पापैःसकलंत्वनर्घम् ॥ ८ ॥

लग्न बलवान् स्वस्वामि शुभयुक्त दृष्ट हो केंद्रोंमें शुभ ग्रह हों तो सुकाल, जो लग्न निर्बल केंद्रोंमें पाप हों तो अन्नका काल होवे इस भावमें लाभविषय-विचार विशेष है वह धनभावमें कहा है वही यहां भी जानना ॥ ८ ॥

इति श्रीमही० नीलकण्ठीभा० लाभभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ ११ ॥

अथ द्वादशस्थानप्रश्नः ।

रि विग्रहपृच्छायांबलवतिषष्टेरिःसबलः ॥

द्वादशपेशुभदृष्टेबलवतिवाच्यं भंप्रष्टुः ॥ १ ॥

शत्रुसे युद्धके प्रश्नमें छठास्थान बलवान् हो तो शत्रु बलवान् होवे जो व्ययेश शुभदृष्ट तथा बलवान् हो तो प्रष्टाको शुभ होगा ॥ १ ॥

शुभयुतदृष्टेसद्ग्रहयोऽशुभेक्षणयोगतोव्ययमनर्थात् ॥

एवंभावेष्वरिवलेषूह्यंसदसत्फलंसुधिया ॥ २ ॥

व्ययेश शुभग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो शुभकार्यमें पापयुक्त दृष्ट हो तो अशुभ-कार्यमें अनर्थ व्यय होगा. इसीप्रकार सद्बुद्धिवालोंने समस्त भावोंका शुभा-शुभ फल कहना ॥ २ ॥

अथ ग्रंथांतरे भोजनचिंता ।

कटुकोलवणस्तित्तोमिश्रितोमधुरोरसः ॥

आम्लःकषायःकथितःसूर्यादीनांक्रमाद्रसाः ॥ ३ ॥

सूर्यका कडुवा चंद्रमाका सलौना मंगलका तीता बुधका मिश्रित बृह-
स्पतिका मीठा शुक्रका खट्टा शनिका कषाय(काथ कांजिकादि) रसहैं ॥ ३ ॥

लग्नंपश्यतियःखेटस्तस्ययःकथितोरसः ॥

भोजनेसौरसोवीर्यक्रमाद्वाच्याःपरेरसाः ॥ ४ ॥

जो ग्रह लग्नको देखे वा सबसे बलवान् जो ग्रह हो उसका जो रसहै वह
भोजनप्रश्नादिमें कहना ॥ ४ ॥

चंद्रस्ययेनमुथशिलस्तस्यविशेषंवदेद्भुक्तौ ॥

भोजनविधौविशेषंकथितंस्पष्टद्वितीयतंत्रेस्य ॥ ५ ॥

चंद्रमा जिससे मुथशिली हो उसका रस भोजनमें विशेष कहना और
भोजन प्रश्नका विचार विशेष स्पष्टतर इसग्रंथ (नीलकण्ठीके दूसरे तंत्र) में
कहाहै ॥ ५ ॥

इति श्रीमही० नी० प्रश्नतंत्रभाषाटीकायांव्ययभावप्रश्ननिरूपणम् ॥ १२ ॥

ग्रंथांतरेविशेषेणसमर्घादिचिंता ।

महर्घस्यविचारंतुह्यादौसर्वैर्विचार्यते ॥

तस्मान्मयाविशेषोत्रकथ्यतेशास्त्रचोदितः ॥ १ ॥

महर्घ समर्घका विचार पहिले सब लोग विचारते हैं तस्मात् विशेष
विचार शास्त्रोक्त यहां कहा जाताहै ॥ १ ॥

राकाकुहूशशपभास्वदजप्रवेशेलग्नेश्वराः शुभखगैर्युतवीक्षिता-
श्चेत् ॥ तद्वत्सरेजगतिसौख्यमलंप्रकुर्युः पापादितागदनरेद्र-
भयंप्रजानाम् ॥ २ ॥

जिस वर्षमें प्रथम पूर्णा प्रथम अमावास्याके प्रवेशकालके लग्नेश्वर तथा
चन्द्रमाके प्रथम मेष प्रवेशकालके लग्नेश्वर और मेषार्क प्रवेश समयके लग्ने-
श्वर यदि शुभग्रह युत दृष्ट हों तो उस वर्षमें प्रजाको पूर्ण सुख होताहै जो
पापयुत दृष्ट हों तो रोग और राजाका भय होताहै ॥ २ ॥

भानोर्मेघप्रवेशोदयभवनपतिःसद्रहः स्वोच्चसंस्थःस्वर्क्षस्थोवा-
पिकेद्रेशुभगगनचरैर्दृष्टयुक्तोबलाढ्यः ॥ तस्मिन्वर्षेविदध्याज्ज-
गति भ खंभूरिसस्यंसुवृष्टिः क्रूरः क्रूरादितोवादिशतिनृपभयं
कष्टमन्नमहर्घम् ॥ ३ ॥

सूर्य्यमेघप्रवेशे लग्नका वा प्रश्नलग्नका स्वामी शुभग्रह हो तथा उच्च
स्वराशिका केंद्रमें शुभग्रहोंसे दृष्टयुक्त और बलवान् हो तो इस सालमें संसा-
रमें संपूर्ण सौख्य शुभ अन्न बहुत उत्तम वर्षा होवे जो उक्त लग्नेश पापग्रह
पापाक्रांत बलरहित हो तो राजभय अन्न थोडा भाव महंगा(अकरा)होवे ॥ ३ ॥

भानोरजप्रवेशेकेंद्रैस्तस्माच्चुभग्रहा तैः ॥

बलवाद्भिःसौम्यैर्वानिरीक्षितैर्ग्रीष्मिकावृद्धिः ॥ ४ ॥

सूर्य्यके मेघप्रवेशमें वा प्रश्नलग्नमें केंद्रोंमें बलवान् शुभग्रह शुभदृष्ट हो तो
ग्रीष्म ऋतुका अन्न बहुत होवे ॥ ४ ॥

अष्टमराशिगतेकेंगुरुशशिनोःकुंभसिंहसंस्थितयोः ॥

सिंहघटस्थितयोर्वानिष्पत्तिर्ग्रीष्मसस्यस्य ॥ ५ ॥

उक्त लग्नसे सूर्य अष्टम हो तथा बृहस्पति कुंभका चंद्रमा सिंहका वा
बृहस्पति सिंहका चंद्रमा कुंभका हो तो ग्रीष्मकी फसल अच्छी होवे ॥ ५ ॥

अर्कात्सितेद्वितीयेबुधेथवायुगपदेवसंस्थितयोः ॥

व्ययगतयोर्वातद्रन्निष्पत्तिरतीवगुरुदृष्ट्या ॥ ६ ॥

सूर्य्यसे शुक्र वा बुध अथवा दोनहूं दूसरे स्थानमें वा बारहवें अथवा
दोनहूं स्थानोंमें हों बृहस्पतिकी दृष्टि हो तो फसल अच्छी होवे ॥ ६ ॥

शुभमध्येलिनिमूर्य्याद्गुरुशशिनोःसप्तमेपरासंपत् ॥

अल्पाद्रिस्थेसवितरिगुरौद्वितीयेर्द्धनिष्पत्तिः ॥ ७ ॥

मेषार्क वा प्रश्नलग्नसे सूर्य्य शुभग्रहोंके बीच हो तथा सूर्य्यसे सप्तम बृह-
स्पति चंद्रमा हों तो फसल बहुत और सूर्य्य पाप शुभ दोनोंके मध्य हो तो
अल्प तथा बृहस्पति भी दूसरा हो तो आधी फसल हाथ आवेगी ॥ ७ ॥

लाभहिबुकार्थयुक्तैःसूर्यादथवासितेंदुशशिपुत्रैः ॥

सस्यस्यपरासंपत्कर्मणिजीवेथवाचापे ॥ ८ ॥

प्रथलग्रसे वा सूर्यसे ११ । ४ । २ स्थानोंमें शुक्र चंद्रमा दुध हों तो अन्न अच्छे होवें धनका वृहस्पति दशम हो तो भी यही फल है ॥ ८ ॥

कुंभेगुरुर्गविशशीसूर्योऽलिमुखेकुजार्कजौमकरे ॥

निष्पत्तिरस्तिमहतीपश्चात्परचक्ररोगभयम् ॥ ९ ॥

कुंभका वृहस्पति वृषका चंद्रमा वृश्चिकका सूर्य और मंगल शनि मकर के हों तो अन्न अच्छे हों परंतु पीछेसे परचक्र वा रोगोंका भयभी होवे ॥ ९ ॥

मध्येपापग्रहयोःसूर्यःसस्यंविनाशयत्यलिगः ॥

पापःसतमराशौजातंजातंविनाशयति ॥ १० ॥

वृश्चिकका सूर्य पापोंके बीच तथा सतममें पापग्रह हों तो हुवेहुये भी अन्ननाश होजावें ॥ १० ॥

अर्थस्थानेकूरःसौम्यैरनीक्षितःप्रथमजातम् ॥

सस्यंनिहंतितपश्चादुत्तंनिष्पादयेद्वचत्तम् ॥ ११ ॥

दूसरे स्थानमें पापग्रह शुभदृष्टिरहित हों तो पहिली बोईहुई खेती नारा हो दूसरे बारकी जुती हुईसे अन्न उत्पन्न होवें ॥ ११ ॥

जामित्रकेन्द्रसंस्थौक्रूरौसूर्यस्यवृश्चिकस्थस्य ॥

सस्यविपत्तिकुरुतःसौम्यैर्दृष्टेनसर्वत्र ॥ १२ ॥

सतम केन्द्रमें वृश्चिक सूर्यसे दो पापग्रह हों तो फसल नष्ट होवे जो शुभ ग्रहोंकी दृष्टि भी हो तो कहीं कहीं अच्छी भी होगी ॥ १२ ॥

वृश्चिकसंस्थादर्कात्सप्तमषष्ठोपगौयदाक्रूरौ ॥

भवतितदानिष्पत्तिःसस्यानामर्घपरिहानिः ॥ १३ ॥

वृश्चिकके सूर्यसे ६ । ७ स्थानोंमें पापग्रह हों तो अन्न तो होंगे परंतु भाव घटेगा ॥ १३ ॥

विधिनानेनैवरविवृषप्रवेशेशरत्समुत्थानम् ॥

विज्ञेयःसस्यानांनाशायशिवायवातज्ज्ञैः ॥ १४ ॥

जो योग वृश्चिकके सूर्यसे कहे हैं वे तो ग्रीष्मकी फसलके हैं वैसेही वृषके सूर्यमें शरदकी फसलका विचार शुभाशुभ करना ॥ १४ ॥

त्रिषुसेव्यादिषुसूर्यःसौम्यैर्युक्तोनिरंतरंविचरेत् ॥

त्रैष्मिकसस्यंकुरुतेसमर्घमुभयोपयोगंच ॥ १५ ॥

सूर्य ५ । ६ । ७ राशियोंमें निरंतर शुभग्रहसे युक्तही रहे तौ ग्रीष्मकी फसल बहुत होगी भावभी सस्ता होगा ॥ १५ ॥

कार्मुकभृगघटसंस्थःशारदसस्यस्यतद्देवरविः ॥

संग्रहकालेज्ञेयोविपर्ययः रट्ग्योगात् ॥ १६ ॥

सूर्य ९ । १० । ११ राशियोंमें निरंतर शुभयुक्त रहे तो शरदकी फसल बहुत, भाव सस्ता होगा. जो पापयुक्त दृष्ट रहे तो दोन हूं योगोंमें अन्न अल्प भाव तेज होगा, यह विचार विशेष संग्रह समयमें करना चाहिये ॥ १६ ॥

अथ वर्षाज्ञानम् ।

प्रश्नलघ्नात्तोयराशिर्यदिलघ्नात्तृतीयगः ॥

तोयसंज्ञोग्रहस्तत्रभवत्येवजलप्रदः ॥ १७ ॥

प्रश्नलघ्ने जलराशि ४ । १० । ११ । १२ तीसरी तथा उसीमें जल संज्ञक ग्रह चन्द्रमा शुक्र हों तो वर्षा शीघ्र होगी ॥ १७ ॥

बुधशुक्रयोर्मध्यगतःसूर्यःस्याज्जलशोषकः ॥

तयोर्यदिसमीपस्थोतदाबहुजलप्रदः ॥ १८ ॥

सूर्य बुध शुक्रके बीच हो तो जल सूखता है जो इनके समीपही हो तो बहुत जल देताहै ॥ १८ ॥

अग्रेयातियदाभौमःपश्चाच्चलतिभास्करः ॥

तत्रवृष्टिर्नविपुलाजायतेनात्रसंशयः ॥ १९ ॥

मंगलके पीछे सूर्य हो तो वर्षा नाममात्र और आगे हो तो बहुत होतीहै १९

वर्षाप्रश्नेशशिन्यंभोराशिगेल गेपिवा ॥

केंद्रगेवाशुक्लपक्षेचातिवृष्टिःशुभेक्षिते ॥ २० ॥

वर्षाप्रश्नमें चन्द्रमा जलराशिमें वा लग्नमें हो अथवा शुक्लपक्षका चंद्रमा जलराशिका केंद्रमें शुभदृष्ट हो तो अतिवृष्टि होवे ॥ २० ॥

अल्पवृष्टिःपापदृष्टेप्रावृट्कालेविशेषतः ॥

चंद्रवद्भार्गवेसर्वमेवंविधगुणान्विते ॥ २१ ॥

उक्तचंद्रमापर पापदृष्टिभी हो तो अल्पवृष्टि होवे वर्षाकालमें यह योग हो तो बहुत दिनोंमें वृष्टि होवे. ऐसेही शुक्रसे भी जानना ॥ २१ ॥

प्रावृष्टींदुःसितात्सप्तराशिगःशुभवीक्षितः ॥

मंदाति कोणसप्तस्थोयदिवावृष्टिकृद्भवेत् ॥ २२ ॥

वर्षाकालमें चंद्रमा शुक्रसे सप्तममें शुभदृष्ट हो अथवा शनिसे त्रिकोण वा सप्तम हो तो वर्षा शीघ्र होवे ॥ २२ ॥

सद्योवृष्टिकरःशुक्रोयदाबुधसमीपगः ॥

योर्मध्यगतेभानौतदावृष्टिविनाशनम् ॥ २३ ॥

जो शुक्र बुधके समीप हो तो तत्काल वृष्टि करे जो बुध शुक्रके बीच सूर्य हो तो वर्षाका नाश होवे ॥ २३ ॥

मघादिपंचाधिष्ण्यस्थःपूर्वैस्वातिपरत्रये ॥

प्रवर्षणंभृगुःकुर्व्याद्विपरीतंनवर्षणम् ॥ २४ ॥

पूर्वोदयी शुक्र मघादि पांच नक्षत्रोंमें एक नक्षत्रसे दूसरेपर गमन करे तथा पश्चिमोदयी स्वातीसे तीनपर गमन करे तो वर्षा होवे. जो ऐसाही वक्रगती करे तो वर्षा न होवे ॥ २४ ॥

पुरतःपृ तोभानोर्यहायदिसमीपगाः ॥

तदावृष्टिं प्रकुर्वतिनचेत्तेप्रतिलोमगाः ॥ २५ ॥

सूर्यके आगे और पीछे. मार्गीग्रह समीपही हों तो वर्षा करते हैं. कोई वक्रभी हों तो अवर्षण करते हैं ॥ २५ ॥

सौम्यमार्गगतःशुक्रोवृष्टिकृन्नतुयाम्यगः ॥

उदयास्तेषुवृष्टिःस्याद्भानोराद्राप्रवेशने ॥ २६ ॥

सूर्यसे शुक्र उत्तरापथग हो तो वृष्टि; दक्षिणापथग हो तो अनावृष्टि करता है तथा शुक्रके उदयास्तमें एवं आर्द्राप्रवेशमें भी वर्षा होतीहै ॥ २६ ॥

गुरोःसप्तमराशिस्थःप्रत्यग्रोभृगुजोयदा ॥

तदातिवर्षणंभूरिप्रावृट्कालेबलोद्भिजेते ॥ २७ ॥

वर्षाकालके प्रथममें बृहस्पतिके सप्तममें पूर्वोदयी शुक्र हो तो वर्षाकालमें अतिवृष्टि होवे ॥ २७ ॥

आसन्नंरविशशिनोःपरिवेषगतोत्तरा ॥

विद्युत्प्रपूर्णमण्डूकास्त्वनावृष्टिर्भवेत्तदा ॥ २८ ॥

सूर्य्य चन्द्रमाके समीप उत्तरसर परिवेष (सौंडल वा परिधि) तथा विजुली वा बादलमें छोटी चमक हो मंडूक बोलें तो अवर्षण होवे ॥ २८ ॥

नखैर्लिखंतोमार्जारश्वानिलोहिताभवेत् ॥

रथ्यायांसितुबंधाःस्युर्बालानां वृष्टिहेतवः ॥ २९ ॥

मार्जार अपने नखोंसे भूमि वा काष्ठ आदि खोदें तथा भूमि रक्तवर्ण हो और मार्गमें बालक खेलसे पुल बांधें तो शीघ्र वर्षा होवे ॥ २९ ॥

पिपीलिश्रेण्यवच्छिन्नासंयतावहवस्तदा ॥

दुमादिरोहःसर्पाणांप्रतीदुर्वृष्टिसूचकाः ॥ ३० ॥

पिपीलिका (छोटी मकोड़ी) बहुत इकट्ठी एक पंक्तिसे चलें तथा सर्प वृक्षोंमें चढ़ें और आकाशमें चन्द्रमाका प्रतिविम्बसा दीखे तो वृष्टि होतीहै ॥ ३० ॥

उदयास्तमयेकालेविवर्णोकोथवाशशी ॥

मधुवर्णोतिवायुश्चेदति वृष्टिर्भवेत्तदा ॥ ३१ ॥

उदय तथा अस्तसमयमें सूर्य्य वा चन्द्रमा वर्णरहित यद्वा शहद समान रंगके हों और अतिवायु चले तो वर्षा होवे ॥ ३१ ॥

आर्द्रद्रव्यंस्पृशतियदिवावारितत्संज्ञकंवा

तोयासन्नोभवतियदिवातोयकार्योन्मुखो वा ॥

प्रष्टावाच्यःसलिलमचिरादस्तिनिःसंशयेन

पृच्छाकालेसलिलमितिवाश्रूयतेयत्रशब्दः ॥ ३२ ॥

जो प्रश्न समयमें प्रष्टा गीली वस्तु वा जल और जलसम्बन्धी वस्तुको

स्पर्श करे अथवा जलके समीप पूँछे अथवा जलसंबन्धी कार्य्य करता हो तथा प्रश्नकालमें जलका शब्द जलका नाम सुना जावे तो निःसन्देह शीघ्र वर्षा होवे ॥ ३२ ॥

विरसमुदकंगोनेत्राभंविद्यद्विमलादिशोवियतिविकृतं कार्कांडा-
भंयदाचभवेन्नभः॥पवनविगमःश्रूयंतैवैज्ञपाःस्थलगामिनोरस-
नमसकून्मंडूकानांजलागमहेतवः ॥ ३३ ॥

जलका रस स्वाद जाता रहै गौके नेत्र समान आकाश हो दिशा निर्मल हों तथा कौवैके अंडाकासा रंग आकाश हो वायु शब्दवान् होवे वायु गरम चले मछली स्थलमें आवे सुना जावे और मेण्डक बोलें तो शीघ्र वर्षा होवे ॥ ३३ ॥

गिर्योजनवर्णसन्निभायदिवाबाष्पनिरुद्धकंदराः ॥

कृकवाकनिलोचनोपमाःपरिवेपाःशशिनश्चवृष्टिदाः ॥ ३४ ॥

पर्वत श्यामरंग दीर्घे यद्वा कन्दरामें जल टपकके भर जावे कृकवाक पक्षीके नेत्र सदृश परिवेषं चन्द्रमापर हों तो शीघ्र वर्षा होती है ॥ ३४ ॥

प्रायोग्रहाणामुदयास्तकालेसमागमेमंडलसंक्रमेच ॥

पक्षक्षयेतीक्ष्णकरायनातिवृष्टिगतेकैनियतेनचार्द्राम् ॥ ३५ ॥

विशेषतः ग्रहोंके उदय और अस्त समयमें तथा उनके संक्रममें पक्षक्षयमें सूर्यके अयन चलनेमें आर्द्रा प्रवेशमें वर्षा होती है ॥ ३५ ॥

समागमेपततिजलंज्ञशुक्रयोर्ज्ञजीवयोर्गुरुसितयोश्चसंगमे ॥

यमारयोःपवनहुताशजंभयंद्वाष्टयोःसहितयोश्चसद्ग्रहैः ॥ ३६ ॥

बुध शुक्र तथा बुध बृहस्पति और बृहस्पति शुक्रके एक राशिमें प्राप्त होनेसे वर्षा होती है, शनि मंगलके साथ होनेमें जो शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट न हों तो वायु तथा अग्निकी भय होती है ॥ ३६ ॥

अथ सस्यनिष्पत्तिः ।

दिशिकस्यांभवेत्सस्यनिष्पत्तिःकचसानहि ।

कस्यदेशस्यभंगोहिकदिशिकचतन्नहि ॥ ३७ ॥

किस दिशामें सुकाल कहां अन्नकाल और किसका भंग किसकी वृद्धि होगी ऐसे प्रश्नमें ॥ ३७ ॥

चतुर्णामपिकेन्द्राणामध्येयत्रशुभग्रहः ॥

तस्यांचसस्यनिष्पत्तिःस्वास्थ्यंचैवभविष्यति ॥ ३८ ॥

प्रश्नलग्न वा जगतलग्न अर्थात् मेषार्कसामयिक लग्नसे जिस केन्द्रमें शुभ ग्रह वा जिसका स्वामी बली हो उसके अनुसार दिशामें अन्न बहुत होगा, रागादि उपद्रवभी नहीं होंगे, जहां पाप वा स्वामी निर्बल हो वहां उसके अनुसार दुर्भिक्ष रोगादि होंगे, लग्नसे पूर्व चतुर्थसे दक्षिण सप्तमसे पश्चिम और दशमसे उत्तर जानना ॥ ३८ ॥

यस्यांदिशिशानिःपापैर्युतोवाप्यवलोकितः ॥

दिशितस्यांच स्वास्थ्यंदुर्भिक्षंचभविष्यति ॥ ३९ ॥

जिस दिशामें शानि पापयुक्त वा पापदृष्ट हो उसमें रोगादि उपद्रव और दुर्भिक्षभी होंगे ॥ ३९ ॥

दिशियस्यांरविस्तत्रधान्यनाशोनृपाद्भवेत् ॥

यत्रापिमंगलस्तत्रधान्यनाशोग्निभीस्तथा ॥ ४० ॥

जिस दिशामें सूर्य पापयुत दृष्ट हों तहां राजासे अन्नका नाश होवे, जहा वैसाही मंगल हो तहां अन्नका नाश और अग्निभयभी होवे ॥ ४० ॥

यस्यांदिशिशुभाःखेटाःसमस्तबलशालिनः ॥

निष्पन्नासैवविज्ञेयासस्यस्वास्थ्यंचतत्रहि ॥ ४१ ॥

जिस दिशामें शुभग्रह समस्त बलयुत हों तहां सब अन्न अच्छे होंगे और र स्थय भी अच्छा रहेगा, बलहीन शुभग्रहोंसे अनिष्ट बलवान् पापोंसे कुछ प्रकार शुभ और मिश्रितमें मिश्रफल कहना ॥ ४१ ॥

केन्द्रे सर्वतःपापाःसमस्तबलसंयुताः ॥

देशस्तदाविनष्टोसौज्ञातव्यःशास्त्रकोविदैः ॥ ४२ ॥

सभी केन्द्रोंमें पाप बलसहित हों तो सभी देश नष्टप्राय होंगे विशेष शास्त्रज्ञोंने उनका बलाबल और संबंधादि विचारके कहना ॥ ४२ ॥

समर्ध्वामहर्ध्ववावस्तुमेकथयामुकम् ॥

पृच्छयायिनखेटेनशुभत्वंप्रतिपाद्यते ॥ ४३ ॥

खेटोसौयावतोमासास्तस्यलस्यसौम्यताम् ॥

विधत्तेतावतोमासान्समर्ध्वंभ्रुवतेबुधाः ॥ ४४ ॥

सुकाल वा अकाल कौन २ अन्नका कब २ होगा ऐसे प्रश्नमें जिस ग्रहसे पूर्वोक्त क्रममें उस अन्नादिके नाम राशिसे शुभता पाई है, वह जितने महीनोंमें दूसरी राशिको प्राप्त हो सकता है उतने महीनोंपर्यंत समर्ध्व रहेगा पंडित ऐसा विचारते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

अथोसावशुभंचित्यंकियद्विर्वासैरयम् ॥

सौम्यभावंविलग्नस्थंविधास्यतिविनिश्चितम् ॥ ४५ ॥

ज्ञातव्यादिवसामासामासैस्तावाद्भिरस्यच ॥

महर्ध्वतावस्तुनोहिप्रतिपाद्याविचक्षणैः ॥ ४६ ॥

जब कोई अशुभके शुभ होनेका समय पूछे तो लग्नमें जितनी संख्या सौम्यभाव उन्हें निश्चय करके दिन वा महीने जहां जैसा संभव हो बुद्धिसे विचार करके समर्ध्व और महर्ध्व विद्वानोंने कहना ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

अधि तुर्बलंज्ञेयंलग्नेस्वामिविवर्जिते ॥

बलहीनेत्वधिष्ठायततः स्वामिबलेबलम् ॥ ४७ ॥

जिस कार्य्य वा वस्तुका जो अधिष्ठाता है, उसके लिये उसीका बल प्रथम जानकर उसके बलानुसार हानि वृद्धि कहनी, लग्नमें अधिष्ठाता ग्रह बली होता है यदि लग्नेश बलहीन हो, जो अधिष्ठाता बलहीन हो तो सदा लग्नेशका बल देखना अधिष्ठाता आगे कहते हैं ॥ ४७ ॥

रविस्तुक्तामणिहेमताम्रसौमास्त्रवर्मपरदारकाणाम् ॥

मुक्तेक्षुशंखद्रवस्तुरूप्यक्षितीश्वराणांलवणस्यचेन्दुः ॥ ४८ ॥

मसुरताम्राकणघातुशस्त्रप्रवालकानामधिपःकुजःस्यात् ॥

सुगंधवस्त्रद्विदलात्रपाक्षिहरिन्मणीनांप्रभुरिन्दुजःस्यात् ॥ ४९ ॥

सिद्धार्थगोधूमयवैक्षवानांसर्वाब्जिर्ऋर्षरगवांगुरुश्च ॥

स्नेहाथकाश्वात्रविचित्रवस्त्रहृष्यांबुजानांस्फटिकस्यशुक्रः ॥५० ॥

ऊर्णभनीलीबलचर्मकृष्णवस्त्रायसां वैमहिषस्यचार्षिकः ॥ ५१ ॥

वस्तुवर्गे अधिष्ठाता—मोती, चुन्नी, सुवर्ण, तांबा, रेशम, अन्न शस्त्र, कवच, परस्त्री आदिका स्वामीं सूर्य्य. मोती, ऊख, शंख, रसकी वस्तु, नारियल, आम आदि और चांदी, राजे, लवण इनका स्वामी चंद्रमा. मसूर, तांबा, सिंगरफ, हरताल आदि धातु, वस्त्र, मूंगाका अधिष्ठाता मंगल. सुगंधि द्रव्य, वस्त्र, द्विदल, अन्न, पक्षी, पन्ना इनका बुध. राई, सरसौ, राडा आदि और गेहूं, जौ, ईखका विकार और भिसू, सिंगाडे, कसेरू आदि जलोत्पन्न वस्तु तथा कर्पूरका बृहस्पति. इतर फुलेल आदि सुगंधित वस्तुका और अन्न, विचित्र वस्त्र, चांदी, जलज वस्तु, स्फटिकका शुक्र. ऊन, पशमीनां, नील, चर्मजात, कृष्णवस्त्र, लोहा, भैंस आदिकोंका अधिष्ठाता शनि है. विशेष ग्रहस्वभावतुल्य बुद्धिबलसे जानना ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहीधरकृतायां ताजिकनीलकण्ठीप्रश्नतंत्रभाषाटीकायां समर्धानर्घ्ववृष्टिसुभिक्षादिप्रश्ननिरूपणम् ॥

समाप्तोयं ग्रंथः ।

श्रीनीलकंठःशरदांफलोत्तरंप्रश्नाख्यतंत्रयदकारिपूर्वम् ॥ तत्संप्रतं पूर्णतरंनलभ्यते ह्यावश्यकंप्रश्नफलंहिमन्ये ॥ १ ॥ तस्मादिदंभूरिगुणंसुसंग्रहंसर्वोपकारायमहीधरेण ॥ शास्त्रांतरियंसहभाषयामयाद्विजन्मनाकारिकृतांहिपूर्वैः ॥ २ ॥ श्रीकीर्तिशाहनृपतेःख राज्यवेशोद्दिग्नाब्धिज्ञून्यनवसंमित १८०८ शालिवाहे ॥ गढवालदेशटिहरीनगरे बृहत्कसजातकस्यविवृतेःशुभभाषयति ॥ ३ ॥ तंत्राणांत्रितयंस्यपाठसरलाश्रीनीलकण्ठ्याःकृताभाषायन्ममचापलंकिमपितत्सन्तःक्षमध्वं धाः ॥ बालानां स्वबोधसंततिकरींज्योतिष्फलोद्योतिर्नीलोकानामुपकारिणींसुविशदां वंतुमाहीधरीम् ॥ ४ ॥ छिद्रान्वेषणतत्पराःपरकृतेर्विध्वंसकादूषकामात्सर्येणपरार्थनाशनपरादुर्बुद्धयो मानिनः ॥ सत्कार्यैशिशिलाःकुकर्मसुखिनोर्निदंतुनंदंतुवा मेकृत्यंसुकृतंपरोपकृतये वंतुदुर्मत्सराः ॥ ५ ॥ चन्द्राक्षिवस्विन्दु १८३१ शकेतुभाद्रेःशुक्ले नवम्यांचगुरावशोधीत् ॥ अनेकसंलेखवशादशुद्धांमाहीधरींरामभरोसशर्मा ॥ ६ ॥

विज्ञापनम् ।

श्रीनीलकण्ठ दैवज्ञाने वर्षफल दो तंत्रोंके उपरान्त जा प्रश्नतन्त्र रचनाया था वह इस समयमें संपूर्ण नहीं मिलता और प्रश्नविद्या प्रत्यक्षफला है तथा यहां जातकमें बृहज्जातक ताजिकमें नीलकण्ठी सर्व साधारणके अर्थ भाषा होगई तो प्रश्नभी अवश्य होना चाहिये ॥ १ ॥ इसकारण पूर्वाचार्योंका सुन्दर संगृहीत बहुत गुणवान् जिसमें सभी प्रकारके प्रश्न अनेक शास्त्रांक हैं सब पाठकोंके हितार्थ माहीधरनामा ब्राह्मण जिला गढवाल राजधानी टीहरी निवासीने इसे भाषासहित करदिया ॥ २ ॥ श्रीमान् महाराजा टीहरी गढवालके अधीश श्री १०८ कीर्तिशाह साहब बहादुरके राज्यप्रवेश १०४ द्विगुण अर्थात् १८०८ केशालमें बृहज्जातक भाषाटीका रचनाके उपरान्त उक्त नगरमें ॥ ३ ॥ नीलकण्ठी तीनहूँ तंत्रोंकी पाठ सरल (ज्योतिष) तारा विचार सम्बन्धि फलोंका स्फुरण करनेवाली नीलकण्ठीके अनभिज्ञों (बालकों) को सहजहीमें बोधरूपा सन्ततीकी सृष्टि उत्पन्न करनेवाली सर्वजनोंका उपकार करनेवाली माहीधरी इस भाषाटीकाको सज्जन पुरुष पण्डित भलेप्रकार प्रकाश करें तथा इसमें जो कुछ मेरी अनभिज्ञता एवं धृष्टता हो उसे क्षमा करें ॥ ४ ॥ और जो लोग पराये छिद्र (दूषण) ढूँढनेमें तत्पर हैं, पराये किये सत्कर्मोंका नाश करनेवाले एवं मत्सरी (परायी)भलाईसे विनाही आग जलभुन जानेसे पराये प्रयोजनको भंग करनेमें तत्पर, तथा शुभकृत्योंमें शिथिल अर्थात् जिनसे शुभ कर्म अपने हाथसे कुछ नहीं होसकता प्रत्युत बुरे कामोंसे सुख माननेवाले “घमंडखोर” दुर्बुद्धि हैं वे मेरे परोपकारार्थ इस पारिश्रमको देखकर निंदा करें अथवा आनंदित होकर प्रशंसा कियाकरते रहें, किंतु जो विज्ञ महाशय निर्भत्सरी, पराये सुकृत्यसे आनंद माननेवाले एवं दुष्कृत्यसे चिंता करनेवाले हैं, वे इस कृत्यको सुकृत करें ॥ ५ ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस—बंबई.

